रसराज महोदधि

पाचों भाग संपूर्ण



खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई.

वैद्यक रसराजमहोदधि

(पांचों भाग संपूर्ण)

मूल्य : ७५० रुपये मात्र ।

खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन,
बम्बई

© सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

मुद्रक एवं प्रकाशक :
खेमराज श्रीकृष्णदास,
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, बम्बई-४०० ००४.

Printers & Publishers
Khemraj Shrikrishnadass
Prop: Shri Venkateshwar Press
Khemraj Shrikrishnadass Marg,
7th Khetwadi, Mumbai - 400 004.

Web Site : http://www.khe-shri.com
E-mail : khemraj@vsnl.com

Printed by Sanjay Bajaj for M/s Khemraj Shrikrishnadass
Prop. Shri Venkateshwar Press, Mumbai-400004,
at their Shri Venkateshwar Press,
66 Hadapsar Industrial Estate, Pune -411-013.

वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा

प्रथम भाग १

मुन्शी भगवानप्रसाद के शिष्य भगतभगवानदास वल्द
सुवराज मुराई गाँव चकवढ़वल (जिला जौनपुर)
निवासी द्वारा निर्मित

**खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन,
बम्बई**

संस्करण : अप्रेल २०१९, संवत् २०७६

मूल्य : १७० रुपये मात्र ।

मुद्रक एवं प्रकाशक:
खेमराज श्रीकृष्णदास,™
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,
मुंबई - ४०० ००४.

© सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

Printers & Publishers :
Khemraj Shrikrishnadass,
Prop: Shri Venkateshwar Press,
Khemraj Shrikrishnadass Marg, 7th Khetwadi,
Mumbai - 400 004.

Web Site : http.//www.Khe-shri.com
Email : khemraj@vsnl.com

Printed by Sanjay Bajaj For M/s. Khemraj Shrikrishnadass Proprietors Shri Venkateshwar Press, Mumbai - 400 004, at their Shri Venkateshwar Press, 66 Hadapsar Industrial Estate, Pune 411 013.

श्रीः

रसराज-महोदधि-विषयानुक्रमणिका

विषय.	पृष्ठ.
१ भूमिका	१
२ वन्दना	२
३ रोगविचार ...	४
४ सर्वरोगकी परीक्षा ...	४
५ नाडीपरीक्षा ...	४
६ मूत्रपरीक्षा ...	५
७ कफखाँसी डाँसी ऊर्ध्वश्वासका लक्षण ...	७
८ मंद अग्निलक्षण ...	७
९ संग्रहणीका लक्षण ...	७
१० खूनीबवासीरका लक्षण ...	७
११ दाहलक्षण ...	८
१२ खून बिगडेका लक्षण ...	८
१३ वात पित्तमिश्रित लक्षण...	८
१४ वायुका लक्षण ...	९
१५ वातका लक्षण ...	९
१६ कफज्वर लक्षण ...	९
१७ निरोग रहनेका बयान	९
१८ स्वप्नका विचार ...	१०
१९ दूतपरीक्षा ...	११
२० साध्य लक्षण ...	१२
२१ असाध्य लक्षण ...	१२
२२ मलज्वर लक्षण ...	१२
२३ कालज्वरके लक्षण ...	१३
२४ कफज्वर शीतज्वरका लक्षण	१३
२५ कामज्वरका लक्षण ...	१३
२६ रक्तज्वरका लक्षण ...	१३
२७ सर्वज्वरके दूर होनेका चूर्ण	१३
२८ सर्वज्वरकी उत्पत्ति ...	१३
२९ वातज्वर लक्षण ...	१४
३० वातज्वरकी दवा ...	१४
३१ गुडूच्यादिकाढ़ा ...	१४
३२ भैरवरस	१४
३३ पित्तज्वरका लक्षण दवा	१५
३४ पित्तज्वरको काढा ...	१५
३५ पुनः काढा ...	१५
३६ कफज्वर लक्षण दवा	१५
३७ कफज्वरको त्रिफलादि चूर्ण	१५
३८ निम्बादिक काढा ...	१६
३९ वात पित्तज्वरका लक्षण	१६
४० वात पित्तज्वरके पंचमूलादि काढा ...	१६
४१ मुस्तादि काढा ...	१६
४२ वात कफज्वरके लक्षण...	१६
४३ वात कफज्वरकी दवा	१७
४४ दूसरा काढा ...	१७
४५ कफ पित्तज्वर लक्षण ...	१७
४६ कफ पित्तज्वरकी दवा	१७
४७ दूसरा काढा ...	१८
४८ ज्वरांकुश रस कफपित्त सब ज्वरोंपर ...	१८
४९ सन्निपात लक्षण ...	१८
५० सन्निपातकी दवा वीरभद्ररस	१९
५१ पुनः दूसरा रस ...	१९
५२ रोगीकी परीक्षा ...	१९

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
५३ शर्वतगाजवाँ ...	२०	८४ यंत्र ७	३२
५४ गाजवाँकीदूसरी विधि	२०	८५ यंत्र ८	३२
५५ शर्वतनीलोफरकीविधि	२१	८६ यंत्र ९	३२
५६ शर्वतदीनारकी विधि	२१	८७ यंत्र १०	३३
५७ शर्वतजूफाकी विधि	२१	८८ यंत्र ११	३३
५८ शर्वतअनार विलायतीकी विधि ...	२२	८९ यंत्र १२	३३
५९ शर्वतसहतूतकीविधि	२२	९० यंत्र १३	३४
६० शर्वतगुलाबकीविधि	२२	९१ यंत्र १४	३४
६१ शर्वतबनफशाकीविधि	२२	९२ यंत्र १५	३४
६२ शर्वतवेलकीविधि ...	२३	९३ यंत्र १६	३४
६३ शर्वतपुदीनाकीविधि	२३	९४ यंत्र १७	३५
६४ शर्वतनींबूकी विधि ...	२३	९५ यंत्र १८	३५
६५ शर्वतकेवडाकी विधि	२३	९६ यंत्र १९	३५
६६ शर्वतबनानेका यंत्र विधि	२४	९७ यंत्र २०	३६
६७ यंत्र अर्कउतारनेकी विधि	२४	९८ यंत्र २१	३६
६८ शर्वतपानकी विधि ...	२४	९९ यंत्र २२	३६
६९ शर्वतइमलीकी विधि	२४	१०० यंत्र २३	३६
७० शर्वतचन्दनकी विधि	२५	१०१ यंत्र २४	३७
७१ मृगीकी दवाई ...	२५	१०२ यंत्र २५	३७
७२ प्रमाकीदवाई ...	२५	१०३ यंत्र २६	३७
७३ ववासीरकी दवाई ...	२६	१०४ यंत्र २७	३८
७४ बूटीका गुण ...	२६	१०५ यंत्र २८	३९
७५ बांझिनीस्त्रीका लक्षण	२६	१०६ यंत्र २९	४०
७६ दरिद्रिनीस्त्रीका लक्षण	२६	१०७ यंत्र ३०	४०
७७ गुंजाप्रकाश विधि ...	२६	१०८ यंत्र ३१	४१
७८ यंत्र १	२९	१०९ यंत्र ३२	४२
७९ यंत्र २	३०	११० यंत्र ३३	४२
८० यंत्र ३	३०	१११ यंत्र ३४	४२
८१ यंत्र ४	३१	११२ यंत्र ३५	४३
८२ यंत्र ५	३१	११३ यंत्र ३६	४३
८३ यंत्र ६	३१	११४ यंत्र ३७	४४

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
११५ यंत्र शरीरकी हड्डीका शिरसे पांवतक ...	४५	१४६ खपरियाशोध ...	५२
११६ सिंधिया विषशोधन	४६	१४७ नीलाथोथा शोधन ...	५२
११७ विषका गुण ...	४६	१४८ मोतीमूंगामारन ...	५२
११८ कुचिलाशोधन ...	४६	१४९ शंख कौडीमारन ...	५३
११९ धतूराशोधन ...	४६	१५० गुंजाशोधन ...	५३
१२० जमालगोटाशोधन...	४७	१५१ फिटकरी सोहागा ... मारन	५३
१२१ भेलावांशोधन ...	४७	१५२ समुद्रफेन शोधन ...	५४
१२२ गुंजाशोधन ...	४७	१५३ तांबामारन ...	५४
१२३ आकशोधन ...	४८	१५४ दूसरीतांबाकी विधि ...	५४
१२४ कलियारीशोधन ...	४८	१५५ तांबामारनतीसरीविधि	५४
१२५ कनेरशोधन ...	४८	१५६ तांबाकाभस्मखानेकागुण	५५
१२६ विषसेवनकी विधि ...	४८	१५७ रूपामारनविधि ...	५५
१२७ प्रमाण खानेका ...	४८	१५८ रूपामारन दूसरीविधि	५५
१२८ वच्छनागकी शांति ...	४८	१५९ रूपारस खानेका गुणछन्द	५६
१२९ धतूरेके विषकीशांति ...	४९	१६० सोनामारन ...	५६
१३० भिलावेके विषकीशांति	४९	१६१ सोनामारनविधिदूसरी	५६
१३१ भांगके विषकीशांति	४९	१६२ गुणछन्द	५६
१३२ गुंजाके विषकीशांति	४९	१६३ लोहामारन ...	५७
१३३ कनेरके विषकीशांति	४९	१६४ पोलाद मारनकी दूसरी विधि	५७
१३४ थूहरके विषकीशांति	४९	१६५ त्रिबंगमारन ...	५७
१३५ जैपालके विषकीशांति	४९	१६६ वंगरसमारन ...	५८
१३६ अफीमके विषकीशांति	५०	१६७ वंगरसखानेकागुण ...	५८
१३७ संखियाके विषकीशांति	५०	१६८ सीसामारन ...	५८
१३८ हरतालमारन ...	५०	१६९ शिंगरिफमारनविधि	५८
१३९ दूसरी विधि ...	५०	१७० गंधकशोधन ...	५९
१४० अबरखमारन ...	५१	१७१ पारामारन ...	५९
१४१ संखियामारन ...	५१	१७२ पुनि दूसरीविधि ...	६०
१४२ फिरदूसरी विधि ...	५१	१७३ जस्तामारन ...	६०
१४३ शिलाजीतशोधन ...	५२	१७४ कीटमारन ...	६०
१४४ मैनशिलशोधन ...	५२		
१४५ रसकपूरमारन ...	५२		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
१७५ मृगांकरस बनानेकी विधि	६१	२०३ दूसरा इलाज ...	७०
१७६ सबरसका उतार ...	६२	२०४ तीसरा इलाज ...	७०
१७७ शीतपित्तके लक्षण ...	६२	२०५ तेल बनानेकी विधि	७१
१७८ शीतपित्तकी दवा ...	६२	२०६ कडक पेशाबकी दवा	७१
१७९ अमृतादिकाढा ...	६३	२०७ इन्द्री जुलाबकीविधि	७१
१८० अम्लपित्तका लक्षण ...	६३	२०८ शंखियाकीगोली गर्मीपर	७१
१८१ अम्लपित्तकीदवा ...	६३	२०९ दवा	७२
१८२ मधुपीपलीयोग ...	६३	२१० इंद्रीकामलहम ...	७२
१८३ पुनः अम्लपित्तकीदवा	६३	२११ इंद्रीकीदवा ...	७२
१८४ काढ़ा ...	६३	२१२ टांकलेप ...	७३
१८५ लक्ष्मीविलासतेल ...	६३	२१३ फिर लेप ...	७३
१८६ फकीरकी बूटी हरताल रसको	६४	२१४ उपदंशकी हुक्कापीनेकी दवाई	७३
१८७ शंखिया मारनकी विधि फकीरकी बताई हुई	६४	२१५ गर्मीकाहुक्कापीना ...	७३
		२१६ आककीगोली ...	७३
		२१७ अरुशकी गोली ...	७४
१८८ मूत्रकृच्छ्रका लक्षण ...	६५	२१८ हुक्कापीना	७४
१८९ काढ़ा	६५	२१९ हुक्कापीना	७४
१९० कुशकाशादिकाढ़ा ...	६५	२२० हुक्कापीना	७४
१९१ दूसरीदवा मूत्रकृच्छ्रकी	६५	२२१ लेप घावको... ...	७५
१९२ दुग्धयोग	६६	२२२ फिरदूसरालेप ...	७५
१९३ यवाखारयोग ...	६६	२२३ मलहमबनानेकीविधि	७५
१९४ मुनजिस चारप्रकारका	६६	२२४ दूसरा मलहमबनानेकी विधि	७५
१९५ दूसरा मुनजिस ...	६७	२२५ बदकालेप	७६
१९६ तीसरा मुनजिस ...	६७	२२६ दूसराबदका लेप ...	७६
१९७ चौथा मुनजिस ...	६७	२२७ पुनिबदपकानेका लेप	७६
१९८ उपदंश फिरंगवायगर्मीका बयान	६८	२२८ पुनि लेप ...	७६
१९९ गर्मीका भेद ...	६९	२२९ खानगठियेकाइलाज	७६
२०० उपदंशका लक्षण ...	६९	२३० दूसरीखानकीदवा ...	७७
२०१ दवादनेकी विधि ...	७०	२३१ मालिशका तेल ...	७७
२०२ गर्मीका पहिलाइलाज	७०	२३२ तमाखूकातेल ...	७८

विषय.	पृष्ठ.
२३३ तमाखूका तेल ...	७८
२३४ काढा ...	७९
२३५ गठियाके चूर्ण ...	७९
२३६ गोली गंठियाकी ...	७९
२३७ उपदंशका लेप ...	८०
२३८ जवारीसहिन्दी ...	८०
२३९ जवारीससहरान ...	८१
२४० जवारीसतीसरी ...	८१
२४१ जवारीसदूसरी हिंदुस्थानी ...	८१
२४२ जवारीसजारीनोस ...	८२
२४३ वरशवनानेकी विधि ...	८२
२४४ वरश विधि दूसरी ...	८३
२४५ आनन्ददातागोली ...	८३
२४६ आनन्दभैरोरस ...	८४
२४७ अजीर्णकण्टकरस ...	८४
२४८ त्रिफलादिक्रिया ...	८४
२४९ राजमृगांकक्रिया ...	८५
२५० हरडैख.नेकी विधि ...	८५
२५१ काबुलीहर्डोकामुरब्बा	८६
२५२ मुरब्बा आंवराका ...	८६
२५३ मुरब्बा गाजरका ...	८७
२५४ मुरब्बा वचका ...	८७
२५५ मुरब्बा बेलका ...	८८
२५६ जुलाबलेनेकी विधि ...	८९
२५७ जुलाब पहिला ...	८९
२५८ जुलाब दूसरा ...	८९
२५९ जुलाब तीसरा ...	९०
२६० जुलाबचौथाइच्छाभेदी	९०
२६१ जुलाब पांचवा ...	९०

विषय.	पृष्ठ
२६२ जुलाब छठवाँ ...	९१
२६३ शिररोगकी दवा ...	९१
२६४ शिरकादूसरा इलाज	९१
२६५ शिरका लेप ...	९१
२६६ शिररोगकादूसरालेप	९१
२६७ शिररोगकेखानेकीदवा	९२
२६८ कर्णरोगका इलाज ...१	९२
२६९ कर्णरोगका इलाज ...२	९२
२७० कर्णरोगका इलाज ...३	९२
२७१ कर्णरोगका इलाज ...४	९२
२७२ कानका इलाज ...५	९३
२७३ आंखोंका इलाज ...	९३
२७४ आंखोंकादूसरा इलाज	९३
२७५ आंखोंकातीसरा इलाज	९४
२७६ आंखोंका इलाज ४...	९४
२७७ आंखोंका इलाज ५...	९५
२७८ आंखोंकाछठवाँ इलाज	९५
२७९ नाकरोगकी दवा ...	९५
२८० नाकरोगके खानेकी दवा	९५
२८१ नाकरोगकी तीसरी दवा	९६
२८२ जीभरोगका इलाज ...	९६
२८३ दांतरोगकी दवा ...	९६
२८४ दांतकीदूसरी दवा ...	९७
२८५ दांतकीतीसरीदवा ...	९७
२८६ दांतकीचौथी दवा ...	९७
२८७ दांतकीपांचवीं दवा	९८
२८८ श्वासरोगकावर्णन ...	९८
२८९ श्वासरोगकी पहिचान	९८
२९० श्वासका लक्षण ...	९९
२९१ खांसीश्वासकीदवा ...	९९

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
२९२ सीतोपलादिचूर्ण ...	१००	३१८ प्लीहोदरकी दवा ...	१०८
२९३ दमाखांसीश्वासकी दवा	१००	३१९ जलोदरकी दवा ...	१०९
२९४ हुचकीकी दवा ...	१००	३२० उदररोगकाइलाज ...	१०९
२९५ श्वासरोगकी दवा शुंठ्यादिचूर्ण ...	१०१	३२१ उदररोगकादूसराइलाज	११०
		३२२ उदरका तीसरा इ० ...	१११
२९६ भारंगी गुडश्वासको ...	१०१	३२३ दस्तबंदकरनेकी दवा	१११
२९७ श्वासखांसीका दवा ...	१०१	३२४ दस्तबंदकरनेका दूसरा इलाज ...	१११
२९८ दमाखांसीका इलाज	१०२		
२९९ दमाखांसीका दूसरा इलाज ...	१०२	३२५ दस्त बंद करनेका इलाज तीसरा ...	११२
३०० दमा खांसी श्वास का इ० ३ ...	१०३	३२६ पाचककी गोली ...	११२
		३२७ संग्रहणीकी गोली ...	११२
३०१ खांसीदमाका इ० ४	१०३	३२८ संग्रहणीकी दूसरी गोली ...	११२
३०२ खांसीश्वासका इ० ५	१०३		
३०३ उदररोगकावर्णन ...	१०४	३२९ अजीर्णका चूर्ण ...	११३
३०४ वातोदर लक्षण ...	१०४	३३० अजीर्णका दूसरा चूर्ण...	११३
३०५ पित्तोदरलक्षण ...	१०४	३३१ अजीर्णका चूर्ण अग्निमुख ...	११३
३०६ कफोदरलक्षण ...	१०५		
३०७ सन्निपातोदरलक्षण ...	१०५	३३२ कृमिरोगका चूर्ण ...	११३
३०८ प्लीहोदरकालक्षण ...	१०५	३३३ पांडुरोगका इलाज ...	११४
३०९ मलबंधसे यकृतोदर लक्षण ...	१०५	३३४ वातका तीसरा चूर्ण	११४
		३३५ अतीसारकी दवा	११४
३१० क्षतोदरका लक्षण ...	१०६	३३६ पित्तातिसारकी दवा	११४
३११ जलोदरकालक्षण ...	१०६	३३७ कफकी तीसरी दवा	११४
३१२ वातोदरकी दवा ...	१०७	३३८ चौहारम् चूर्ण ...	११५
३१३ पित्तोदरकी दवा ...	१०७	३३९ सुनबहरीकी दवा ...	११५
३१४ कफोदरकी दवा ...	१०८	३४० सुनबहरीका लेप ...	११५
३१५ पुनःदूसरी दवा ...	१०८	३४१ नामर्दयानी वाजीकरणका वर्णन ...	११६
३१६ सन्निपातकी दवा ...	१०८		
३१७ पुनःदूसरी दवा ...	१०८	३४२ नामर्दकी दवाएक ...	११६

विषय.	पृष्ठ.
३४३ सेंकके पीछे लेप ...	११७
३४४ लेपके ऊपर खानेकी दवा	११७
३४५ इसके खानेके पीछे दूसरी दवा खानेकी	११७
३४६ सेंक दूसरा ...	११८
३४७ सेंकके ऊपर लेप ...	११८
३४८ घीकुवारियोग लेपके ऊपर	११९
३४९ नामर्दीके दूर करनेका तेल	११९
३५० पातालयंत्र	१२०
३५१ इंद्रियका लेप १ ...	१२०
३५२ लेप २	१२१
३५३ इन्द्रियका सेंक	१२१
३५४ दवा नामर्दकी ...	१२१
३५५ दवा दूसरी ...	१२१
३५६ बंधेजकी गोली ...	१२२
३५७ नामर्दकी दवाई ...	१२२
३५८ नामर्दकी दवाई ...	१२२
३५९ छोहारा पाककी विधि	१२३
३६० सोंठि पाककीविधि ...	१२३
३६१ असगंधपाककी विधि	१२४
३६२ पुष्टाईकापाक ...	१२५
३६३ आंवरापाककीविधि...	१२६
३६४ नामर्दकी दवाई ...	१२६
३६५ बीसपरमेकी दवाई ...	१२६
३६६ परमाकी दवाई ...	१२७
३६७ सफेदपरमाकी दवाई	१२७
३६८ लालपरमाकी दवाई	१२७
३६९ पीलापरमाकी दवाई	१२७
३७० मूत्रियापरमाकी दवाई	१२७
३७१ परमाकी दवाई नोनियाक्षार ...	१२८
३७२ घृतपरमाकीदवाई ...	१२८
३७३ बीसपरमाकीदवाई ...	१२८
३७४ बीसपरमाकी चन्द्रप्रभावटी	१२८
३७५ गंधकयोग ...	१२९
३७६ सिलाजीतयोग ...	१२९
३७७ अबरखयोग ...	१२९
३७८ सत्यपाक ...	१२९
३७९ बवासीरका लक्षण ...	१३०
३८० वादीबवासीरकालक्षण	१३०
३८१ खूनी बवासीरका लक्षण	१३०
३८२ बवासीरकाइलाज १	१३०
३८३ बवासीरकाइलाज२ ...	१३१
३८४ खूनीवबादीकाइलाज	१३१
३८५ दवादूसरी	१३१
३८६ बवासीरकाइलाज ...	१३१
३८७ बवासीरकीगोली ...	१३१
३८८ बवासीरकीगोली २ ...	१३२
३८९ भगंदररोगकावयान ...	१३२
३९० भगंदरकालक्षण ...	१३२
३९१ भगंदररोगकीदवा ...	१३२
३९२ पुनःलेप	१३३
३९३ भगंदरकोखानकेदवा	१३३
३९४ पुनःदूसरी ...	१३३

विषय.	पृष्ठ.
३९५ आमवातकासबलक्षण	१३३
३९६ आमवातका लक्षण ...	१३४
३९७ आमवातकीदवा ...	१३४
३९८ दूसरा काढा ...	१३५
३९९ फिरअजमोदादि चूर्ण	१३५
४०० अरंडीका योग ...	१३५
४०१ पुनः हरीतकीयोग ...	१३५
४०२ आमवातका इलाज ...	१३५
४०३ पिलहीरोगकाइलाज...	१३६
४०४ सर्वउदररोगका इलाज चूर्ण	१३६
४०५ उदररोगके चूर्ण ...	१३६
४०६ स्त्रीरोगके इलाज ...	१३६
४०७ वातकेप्रदररोगकादवा	१३७
४०८ सबप्रदररोगकाइलाज	१३७
४०९ स्त्रीधर्महोनेकाइलाज	१३७
४१० स्त्रीधर्महोनेका इलाज ...	१३७
४११ स्त्रीधर्महोनेकाइलाज	१३७
४१२ वेश्या स्त्रीको गर्भ न रहनेकाइलाज ...	१३७
४१३ गर्भनरहनेकाइलाज	१३८
४१४ गर्भिनीस्त्रीका यत्न ...	१३८
४१५ गर्भिनीका यत्न २ ...	१३८
४१६ गर्भिनीस्त्रीका यत्न ...	१३८
४१७ गर्भिनीस्त्रीकालक्षण ...	१३८
४१८ जो लडका जलदी न होवे उसकी दवा ...	१३९
४१९ बालककी दवाई ...	१३९
४२० पाण्डुरोगकाबयान ...	१४१
४२१ वातपाण्डुकालक्षण ...	१४१
४२२ पित्तपाण्डुकालक्षण ...	१४१
४२३ कफपाण्डुकालक्षण ...	१४१
४२४ सन्निपातपाण्डुका लक्षण	१४१
४२५ मिट्टीखानेका पांडुका लक्षण	१४२
४२६ वातपाण्डुकीदवा ...	१४२
४२७ पित्तपाण्डुकीदवा ...	१४२
४२८ कफपाण्डुकीदवा ...	१४३
४२९ पुनः मंडूरलवण ...	१४३
४३० सन्निपातपाण्डुकी द०	१४३
४३१ फिरपाण्डुकी दवा ...	१४४
४३२ अमृतहरीतकी पाण्डु-नाशक ...	१४४
४३३ गजकर्णकीदवाई ...	१४५
४३४ दूसरी दवाई ...	१४५
४३५ मलहमफोरीफोराके ...	१४५
४३६ मलहमदूसरा ...	१४६
४३७ लेपसबददंपर ...	१४६
४३८ पेटकेपीडाका लेप ...	१४६
४३९ लेप छातीपर जो कफ रहताहै	१४६
४४० खांसीदमानाशवटी ...	१४६
४४१ तेलबनानेकी विधी ...	१४७
४४२ जीवनारायणतेल ...	१४७
४४३ अण्डकोशसूजका इलाज	१४८
४४४ दूसरा इलाज ...	१४८

विषय.	पृष्ठ.
४४५ तीसरा इलाज ...	१४९
४४६ अंडकोशकेतंत्रकीविधि	१४९
४४७ सांपकाटेकी दवाई ...	१४९
४४८ सांपकाटेकानाश ...	१४९
४४९ विच्छूकी दवाई ...	१५०
४५० बावले कुत्ताके काटनेकी दवाई	१५०
४५१ नोकरखसानाअसाध्य रोगकी दवा	१५१
४५२ महजूमखांदेकी ...	१५१
४५३ दूसरामहजूमखांदेकी	१५१
४५४ बंधेजकी दवाई ...	१५२
४५५ गर्मीउपदंशको तीन दिनमें अच्छाकरै ...	१५२
४५६ तिजारीका इलाज ...	१५२
४५७ सर्वरोगका दवा ...	१५२
४५८ हूकका इलाज	१५३
४५९ सर्वज्वरके चूर्ण ...	१५३
४६० तिजारीज्वरका काढा	१५३
४६१ चौथिया ज्वरका काढा	१५३
४६२ चौथियाज्वरका काढा	१५३
४६३ रोगदोष दूर होय ...	१५४
४६४ मंत्रघावकेझारनेका ...	१५४
४६५ मंत्रवेरवाघिनहीजरबात थनइलगोहियाका इ.	१५४
४६६ मंत्र कानका ...	१५४
४६७ मंत्र प्रेतका	१५५
४६८ सनायखानेकीविधि...	१५५
४६९ पारेकी सिद्धगुटिका	१५७

विषय.	पृष्ठ.
४७० केशजमनेका इलाज ...	१५८
४७१ चित्रकादि चूर्ण ...	१५८
४७२ हरीतक्यादिचूर्ण......	१५८
४७३ पंचवटकादिचूर्ण ...	१५८
४७४ हिंगाष्टादिचूर्ण	१५८
४७५ दशमूलासव	१५९
४७६ गूगलयोग	१६०
४७७ गूगलकिशोर	१६०
४७८ हैजाकी बीमारीको तुर्त शांत करै	१६१
४७९ दूसरीदवाहैजाकी ...	१६१
४८० तीसरीदवाहैजाकी ...	१६१
४८१ हुचकीकी दवाई ...	१६१
४८२ पीपलका चूर्ण... ...	१६१
४८३ पीपलकी गोली	१६२
४८४ जवारिस हर्रैकी	१६२
४८५ मिर्चादिचूर्ण... ...	१६२
४८६ सोंठादिचूर्ण... ...	१६२
४८७ कुष्ठरोगका वर्णन ...	१६३
४८८ सातमहाकुष्ठकालक्षण	१६४
४८९ कुष्ठकी दवा ...	१६४
४९० पुनःदूसरा लेप ...	१६४
४९१ कुष्ठके खानेकीदवा ...	१६५
४९२ कुष्ठकी दूसरी दवा ...	१६५
४९३ त्रिफलादि मोदक ...	१६५
४९४ सफेद कुष्ठकोलेप ...	१६६
४९५ पुनःलेप	१६६
४९६ घोडाचोली... ...	१६६
४९७ औषध	१६६
४९८ दूसरा घोडाचोली ...	१७०

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
४९९ गोरखमुण्डीकल्प ...	१७०	५१३ दूसरा	१७५
५०० शुक्रपाक	१७२	५१४ अजीर्णकाबयान ...	१७६
५०१ मेथीपाक	१७२	५१५ अहारकावर्णन ...	१७६
५०२ जुलाब अमीरोंका ...	१७३	५१६ मलका वर्णन ...	१७६
५०३ लकवाकी दवा ...	१७३	५१७ पानीका वर्णन ...	१७७
५०४ पुनःलकवाकी दवा ...	१७४	५१८ शीतपित्तका वर्णन ...	१७७
५०५ पुनःमिर्चादिलेप ...	१७४	५१९ शीतपित्तकी मालिश...	१७७
५०६ पुनः वचका पाक ...	१७४	५२० शीतपित्तकी खानेकी दवा	१७८
५०७ पुनः लकवाकीदवा ...	१७४	५२१ शीतपित्तका पथ्य ...	१७८
५०८ लवंगादि चूर्ण ...	१७५	५२२ अपथ्य है	१७८
५०९ व्रणफोडनेका लेप ...	१७५	५२३ अच्छीरीति लिखनेका वर्णन	१७९
५१० फोड़नेका लेप ...	१७५	५२४ नाडीभेद चौपाई ...	१८०
५११ पुनः लेप	१७५		
५१२ अंडका लेप... ...	१७५		

इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता



यहरोगीहै
घुनिज्वरका
भयंकर
स्वरूप

रोगी
दूसराज्वर
रूप


तीसरा ज्वर
रूप.
रोगी.

चौथ्याज्वररूप.
रोगी

यमदूत
पापीरोगी
यमदूत


यमदूत
यमदूत

गर्भाशयका चित्र.
फुप्फुस (फेंफड)
अंत्र (ऑतडे) प्रदर्शक चित्र.
नारकंकाल
अथवा मनुष्य अस्थिपंजर.

जलंधर रोगी.



अंडकोस बढजानेका रोगी और दवावांग.

कालज्वराका भयंकर स्वरूप.

भगत भगवानदास
आदिब्रह्मधन्वंतरी महाराज.

भूमिका

कोटि कोटि दंडवत हैं उस निर्गुण निराकार पूरणब्रह्म सच्चिदानंदघन अवधविहारी गोवर्द्धनधारी श्यामसुंदर श्रीमुरारी मोरमुकुटधारीको जिसकी अपार महिमाको शारदा, ब्रह्मा, शिव, वेद, पुराण कोई बयान नहीं कर सकता। जिसके चरित्रको गायके कैसाही अधम और पातकी होवे सोभी इस अपार संसारके भवसागरसे पार उतरा है यह ओषधिरूपी "रसराजमहोदधि" वैद्यक ग्रंथ पांच खंड प्रगट करता हूँ और सब सज्जन पुरुष और पंडित साधु स्वामी लोगोंकी बहुत तरहसों विनती करता हूँ कि जिस जगह कोई भूल होय तो सँभार लेवें और इस ग्रंथमें यूनानी और फकीरोंकी दी हुई बूटियोंकी संग्रह है इसके पढ़नेसे हजारों आदमीका हितकारज होगा. और जो इसकी विधिप्रमाण दवा करैगा तो उस पुरुषको इस संसारमें मान और यश मिलेगा। और एक पैसेकी दवाईमें हजारों रुपयेका गुण दिखावेगा. और इस ग्रंथका वर्णन लिखने योग्य नहीं है जो देखेगा उसको इसका गुण मालूम होगा. श्रीपंडित कामताप्रसाद संतन प्रतिपालक और मुकुल भगवान-

दत्त पंडित और बाबाहंसदास और शिरोमणि पंडित और ठाकुर उदवंतासिंह ये सब सज्जनपुरुषकी आज्ञा-नुसार मुंशी भगवानप्रसाद कायथ जिले जौनपुर गांव रसूलपुर शिष्य भगत भगवानदास मुराई जिला जौनपुर गांव ठाठर गोदामके पास गाम चकबढ़-वल इन्होंने बनाया.

भगत भगवानदास.

ॐ

श्रीगणेशाय नमः ।

वैद्यक रसराजमहोदधि ।

वन्दना ।

दोहा ।

उमा महेश गणेश गुरु, ब्रह्मा विष्णु फणीश ॥
भगवानदासकरजोरिकहै,कृपाकरहुजगदीश ॥
विष्णुरूप हियमें धरौं, करौं गुरूको ध्यान ॥
सरस्वती उर धारिकै, रचौं ग्रंथ परमान ॥
जग कारज कल्याणहित, वैद्यक अमृतरूप ॥
धन्वंतर वैद्यक किये, औषध अमृतरूप ॥
कहा फारसी वैद्यक, जिसमें वैद्यकसार ॥
रसराजमहोदधि कहों, वैद्यक भाषिविचार ॥
विविधभांतिसुमिरण करौं,शिवचरणनकी आस ॥
सर्वद्विजन आशीशके, सुजन पुरुषकी आस॥
मुन्शी भगवान प्रसादके,चरणन करौं प्रणाम॥
वैद्यकग्रंथविरचितकियो,भगवानदासहैनाम ॥
जगतमही परकाशहै, विधिहरिहरहै नाम ॥

ऐसे उस जगदीशको, बहुविधिकरौं प्रणाम ॥
जो वैद्यकहै निगमके, भाषा वैद्यकभूप ॥
गणपतिको करिदंडवत, वैद्यक रचों अनूप ॥

अथ प्रथमरोगविचार.

अनेक प्रकारकी पीड़ाओंको रोग कहते हैं. रोग दो प्रकारके हैं. एक कायिक दूसरा मानसिक कायामें रहै सो कायिक उसका नाम व्याधि है. मनमें रहै उसका नाम आधि है. सो ये दोनों शरीरमें किसी प्रकारके कुपथ्यसे वात पित्त कफरूप दोष और मिथ्या आहार वा मिथ्या विहारके होनेसे सब रोगोंको उत्पन्न करते हैं और यह वात, पित्त, कफ कई प्रकारके कुपथ्यसे बिगड़कर देहको बिगाड़ते हैं. और यही अच्छेप्रकार पथ्यके सेवनेसे शरीरको पुष्ट करते हैं.

अथ सर्वरोगोंकी परीक्षा.

नाडीपरीक्षा, मूत्रपरीक्षा और मल शरीर या सकल व नेत्र शिरसे पैरतक ये रोगीके परीक्षा करै.

अथ नाडीपरीक्षा.

पुरुष रोगी होय तो उसके दहिने हाथकी और स्त्री रोगिणी होय तो उसके बायें हाथकी नाड़ी देखै परंतु वैद्यको उचित है कि एकाग्र चित्त और प्रसन्नमन होकर विचारपूर्वक रोगीके हाथको हिलने न

देवै और चतुर वैद्यजन नाडी ऐसे देखे कि रोगीका हाथ लम्बा करावे और कछुक टेढ़ा हाथकी अंगुली सब पसारके हाथको न हिलावे और कड़ा करै ऐसी विधि करायके अंगुष्ठमूलसे नाडी देखे प्रभात समयमें तीनवार नाडीपरीक्षा धारण करै फिर छोडदे, ऐसे तीनवार परीक्षा करै और फिर बुद्धिसे विचारकर रोगको नाडीद्वारा प्रगट करै, वैद्य गुरुका ध्यान करिके नाडी देखे कौवाकी चाल नाडी चले तो उसके ज्वर जानै और बहुत सुस्त बारीक नाडी चले तो कफज्वर जानो और मोर या मुर्गा या बतक इसके मिसाल चलै तो कफपित्तका ज्वर जानो और अंगुलीमें दबि दबि जाय तो वातके फिसाद ज्वर जानो, और साँपकीचाल नाडी चले तो वात कफका ज्वर समझना और काठफोरा जो काठको ठाक ठंक काटते हैं जो नाडी ऐसी चाल चले तो सन्निपातज्वर जानो यही सब नाडी परीक्षा है और इसीसे सब रोग जाना जाता है.

अथ मूत्रपरीक्षा.

लाल रंग मूत्र होय तो उसके खूनका जोर समझना चाहिये. और पीला हो तो ज्वर समझना और सफेद रंग होय तो बलगमके व्याधि जानो और

अंजीरके रंग मूत्र होय तो खूनसे बिगड़ा मूत्र समझो और केसरीके रंगका मूत्र होय तो वादी वा पित्तसूं बिगड़ा मूत्र जानो और खूनके रंग मूत्र होय तो और जरा स्याही रंगलिये होय तो गरमीका रोग जानो. और जो निहायत कालारंग हो तो असाध्य जानो और जो कि ज्वर मिला हो तो ६ महिनाके अन्दर मरै और ज्वर न रहै काला रंग मूत्र होय तो रोगी जीवैगा मरै नहीं.

जो तस्वीरमें नसें बनाई हैं इसी तरहसे मनुष्यके शरीरमें नसें होती हैं. तमाम शरीरमें जो नसेंहैं सो इनकी जड़ छातीसे हैः सो वह नसें छातीसे पैर व हाथ तक हैं.



अथ कफ खाँसी डाँसी ऊर्द्ध श्वासका लक्षण.

दोहा—उद्र विषे एक नाटिका, होवे मलसों बन्द ।
कफ खांसी उद्रश्वास बहु, करै व्यथा सब अंग ॥

अथ मन्दअग्निलक्षण.

जिस पुरुषके पेटमें मल. खराब हुआ हो उसकी नाडी बहुत सुस्त चले, पेटमें गर्मी मालूम हो. शरीर सुस्त रहै, खाना बराबर हजम न होय, मूत्र लाल उतरै और सब अंगमें पीडा हो, या अंग गर्म रहै, मल बराबर उतरै नहीं ये लक्षण मन्द अग्निके हैं.

अथ संग्रहणीका लक्षण.

जिस पुरुषके अंगमें संग्रहणी होय, शिर भारी रहै, आंख बैठ जायँ, मल, मूत्र साथ ही उतरै, दस्त पानीके सरीखा होय अन्न पचे नहीं, दस्तके साथ वह अन्न गिरा करै, शरीरका चेहरा बदल जाय ये लक्षण संग्रहणीके हैं.

खूनीबवासीरका लक्षण.

तृषा अरुचि रुधिर निकलै. दुर्बल होय, अतीसार होय. खाज होय. गुदाके बीचमें फोडा निकलैं ये लक्षण खूनीका है.

अथ दाहका लक्षण.

बाहर अन्दर दाह बहुत होय, उदर गरम रहे, मूर्छा होय, तृषा होय, ये लक्षण दाहके हैं.

अथ बदनमें बादी कब्जियत बिगडेका लक्षण.

जिस आदमीके अंगमें बादीका बहुत जोर होता है उससे खाना नहीं खाया जाता और न बराबर हजम होय, तमाम अंगमें सुस्ती होवे हाथ पांवमें चिकनाहट होवे और पानीके मुवाफिक मालूम होय पानी पीनेकी इच्छा न लगै गर्मी मिजाजमें मालूम होय.

अथ खून बिगड़ेका लक्षण.

जिस पुरुषके अंगमें रक्त बिगड़ा होवे उसके मुँहका स्वाद मीठा कड़ुआ होय, शिर भारी होय और हड्डीके अन्दर दर्द होय, जबान सूखी रहे और अंगमें खुजली, आंख सुर्ख रहै पेशाब लाल उतरै नाड़ी बहुत जल्दी जल्दी चलै ये लक्षण रक्त बिगड़ेके हैं.

वात पित्त मिश्रित होय उसका लक्षण.

दोहा—वात पित्त कफ धीरते, करत बदनके रोग ।
जील दोष दुर्वासना, फोड़ा फ़ुडियां योग ॥

अथ वायुका लक्षण.

दोहा–तनु कांपै सूखे अधर, तृषा जलकी होय।
हुचकी शूलरु उदर दुख, मुख फीका कडुसोय॥

अथ वातका लक्षण.

दोहा–सब शरीर नख नेत्रको, विष्ठा मूत्र जु होय।
ये लक्षण ज्वरवायुके, मूत्र रुधिररँग होय॥

अथ कफज्वर लक्षण.

मूत्र बहुत जल्दी जल्दी उतरै चित्त भ्रमित रहै. बुद्धि नष्ट हो जाय नींद बहुत आवे कफ छाती छेके रहै देहमें दँदोरा ऐसा मालूम होय तो कफ-ज्वरका लक्षण है.

निरोगरहनेका बयान.

मनुष्यको चाहिये कि दिनको सोना नहीं और रातको जागना नहीं, बहुत आदमी ऐसे निद्रा करनेसे रोग उत्पन्न करते हैं और खराब खाना खाय नहीं और दिनको स्त्री भोग करै नहीं.जोड़ा पहननेसे आंखों-को गुण करता है छतरी धारण कियेसं शरीरको सुख होता है और मनुष्यको उचित है कि सज्जन पुरुषसे प्रीति करै और सत संगति करै ब्राह्मण वृद्ध पुरुष वैद्य और राजासे प्रीति करै और गुरुका कहना माने

दुष्ट पुरुषको त्याग करे वैरीसे दूर रहे और किसीको दुःख देवै नहीं, और विश्वास विचारके करे मिथ्या बोलै नहीं, अपनेसे बलवान् पुरुषसे युद्ध करे नहीं, स्त्रीका विश्वास करे नहीं, सामके वक्त घड़ी दिन रहे सोवै नहीं, सोनेसे आयुहीन और दरिद्र होता है स्त्रीका सोलह वर्षतक बाला नाम है और बत्तीस वर्षकी स्त्री तरुणी संज्ञा है पचास वर्षतक अधि-रूढा पचास वर्षके उपरांत वृद्ध अवस्था है, रज-स्वला वृद्ध गर्भिणी वैरवाली और गोत्रकी गुरुकी स्त्रीसे मनुष्यको उचित है कि ऐसी स्त्रीसे भोग करै नहीं जो मूर्ख लोग करते हैं तो पूर्वजन्ममें गूंगे होते हैं और परीक्षित रोग होता है, वह आदमी सदा क्लेशमें रहता है, मनुष्यको चाहिये कि अपनी स्त्री सिवाय दूसरी स्त्रीसे भोग नहीं करे और स्त्रीको चाहिये कि अपने पतिको छोड़कर दूसरेसे भोग करै नहीं यह धर्म और वेदकी रीति है.

अथ स्वप्न विचार.

जो स्वप्न मनुष्यको शामसे आधीराततक दीख आवे तो छः महीनेके अन्दर फल करे और आधी रातसे सबेरेतक जो स्वप्न देखै तो दश महीनाके अन्दर फल करे और वैद्य धर्मवाला और भक्तिवाला

शीलवाला ये अच्छा है, पढ़ लिखे शास्त्र-विषे निश्चयवाला और गैर लालची ये वैद्य अच्छा है,ये स्वप्नमें आवैं तो श्रेष्ठ है, जो खराब स्वप्न देखे तो किसीसे कहे नहीं और ब्राह्मणको दान दे और सींगवाला बैल बंदर और शूरवीर और नाव पर चढ़ा ये देखे तो राजाका भय होय, और काला कपड़ा लाल कपड़ा पहरे स्त्री देखे तो मृत्यु होय, और शिर मुँड़ाये और अपना ब्याह देखै और घरमें नाच तमासा देखै तो मृत्यु होय, और भैंसा ऊंट गधा दक्षिण दिशाको जाता देखै अच्छा मनुष्य देखै तो बीमार होय, और बीमार देखे तो अवश्य मरै और जो सफेद कपड़ा पहरे सफेद माला पहरे स्त्री-को पुरुष देखै तो लक्ष्मी प्राप्त होय, ब्राह्मण गुरु और बतिआगि साधुनका झुंड बुढ़ापा ये स्वप्न सदा आनंदकारी हैं

अथ दूतपरीक्षा.

पवित्र होकर शीलमान आदमी वैद्यको बुलाने जाय तो श्रेष्ठ है और काना और अंधा लँगड़ा मैला कपड़ा ये अशुभ है, वैद्यको अच्छा दृष्टांत मिलै तो जाय और मान होय, रोगी जीवे परीक्षा बहुत है जियादा लिखनेसे काम नहीं.

अथ साध्यलक्षण.

रोगी आदमीका सब शरीर शोभायमान होय चेहरा ज्योंका त्यों रहै मुख रूखा रहै दाँत सफेद रहैं वो रोगी जीवै, ओठ लाल रहैं शरीरमें मैल बास न रहै कानसे सुनै ये लक्षणका रोगी जीवै और जिसके पैर गर्म रहैं और कपड़ामें खराब बास नहीं आवै मधुर वचन बोलै वह रोगी अवश्य जीवै, सबेरे रोगीका मूत्र पानी सरीखा हो तो वह रोगी मरै नहीं.

असाध्यलक्षण.

देहकी शोभा जाती रहै और चेहरा भयंकर होय रात दिन अचेत रहै तो वह रोगी अवश्य मरै और रोगीका मुँह रोरी सरीखा होय, जीभ काली होय और वचन दब दब बोले वह रोगी असाध्य है, और जिस रोगीके शरीरमें खराब बास आवै तो वह रोगी असाध्य, आँखि बैठ जाय और किसीको पहिचाने नहीं और बोले औरका और तो वह रोगी असाध्य है.

अथ मलज्वरलक्षण.

कंठ सूखै, दाह बहुत होय, मस्तक पीड़ा होय, भ्रम उपजै, मूर्च्छा होय. हड़फूटनी होय, हिचकी, पेटमें शूल, वमन होय तो मलज्वर लक्षण जानो.

कालज्वरके लक्षण.

पेशाब बहुत होय. देह गलिजाय. माथ नाक शीतल होय ये लक्षण कालज्वरके हैं.

कफज्वर, शीतज्वरके लक्षण.

अरुचि होय, अग्नि मंद होजाय, मुखमें खराब गंध आवै, ज्वर बहुत होय, देह शीतल होय, निद्रा बहुत होय, ये लक्षण कफज्वर और शीतज्वरके हैं.

कामज्वरके लक्षण.

शीत लगै, शरीर काँपै, चित्तभ्रम होय, माथामें पीड़ा होय, कंठ सूखा रहै, मुँह कसैला होय, यह लक्षण कामज्वरके हैं.

रक्तज्वरके लक्षण.

शरीरमें पीड़ा होय, मुख नाकसे खून निकले, ये लक्षण रक्तज्वरके हैं.

सर्वज्वरके दूर होनेका चूर्ण.

सोंठि धनियां छोटी बड़ी कटाई देवदारु सब बराबर ले कपडछान करिके छः मासे शामको छः मासे सबेरे गर्म पानीके साथ खाय तो सब प्रकारका ज्वर दूर होय.

अथ सर्वज्वरकी उत्पत्ति.

श्रीमहादेवजीने अपने तीसरे नेत्रसे वीरभद्रको उपजाया सो यही वीरभद्रसे आठ प्रकारका ज्वर उत्पन्न

हुआ सो आठ प्रकार ज्वरसे सैकरों ज्वर हैं जो लिखने योग्य नहीं· आठ प्रकारके ज्वरोंको अलग२ लिखते हैं वातज्वर १ पित्तज्वर २ कफज्वर ३ वातपित्त-ज्वर ४ वातकफज्वर ५ कफपित्तज्वर ६ सन्निपात-ज्वर ७ आगंतुकज्वर ८ यही आठ प्रकारके ज्वर हैं.

अथ वातज्वरलक्षण.

शरीर काँपै, कभी शरीर जलै.कभी कम होना, गल ओंठ मुखका सूखना, निद्रा न आना. छींक न आना, अंगमें रुखाई, शिर हृदय व देहभरमें पीडा, मुख फीका, बहुत कडा दस्त होना, पेटकी पीडा, पेट फूलना, जँभाई आना ये सब वातज्वरके लक्षण हैं.

अथ वातज्वरकी दवा.

सोंठ चिरायता नागरमोथा गिलोय इन्होंका काढ़ा करि देइ तो वातज्वर दूर होय.

गुडूच्यादि काढ़ा.

गिलोय, छोटी पीपली, जटामांसी, सोंठि इन्होंका काढा करि देय तो वातज्वर जाय यही सुंठयादि काढा है.

(भैरवरस)

बचनाग विष सोंठि पिपली मिरच रक्त आक सब बराबर लेय अदरखके रसमें खरल करिके दे वातज्वर तत्काल दूर होय.

पित्तज्वरा लक्षण.

नेत्रमें दाह होय,मुँह करुवा होय,पियास बहुत लगे, भवँर छुटै,बकै,शिर गरम रहै, मल पतला उतरै, वमन होय, नींद न लगै, मुख सूखै और पाकि जाय,पसीना आवै, नेत्र मूत्र मल पियर होयँ ये लक्षण जेहि पुरुष के होयँ तो पित्तज्वर जानो.

अथ पित्तज्वरका काढ़ा.

धमासा बांसा कटुकी पित्तपापडा मालकांगुणी चिरायता इन्होंका काढ़ा बनाय मिसिरी डारि पिये तो पित्तज्वर दाहसहित नाश होय.

(पुनः काढ़ा)

गिलोय नागरमोथाधनियाँ मुलहटीचिरायता इन्हों-का काढ़ा तृषा शूल अरुचि छर्दि पित्तज्वरको दूर करै है.

अथ कफज्वर लक्षण.

अन्नकी अरुचि होय, शरीर भारी होय, मूत्र नेत्र नख सफेद होयँ, नींद घनी आवै, शरीरमें ठंढी होय, मुँह मीठा होय, दस्त न उतरै, आलस्य आवै, श्वास खांसी होय ये लक्षण कफज्वरके हैं.

कफज्वरपर त्रिफलादि चूर्ण.

त्रिफला पिपली चूर्ण करि शहदके साथ चाटै तो कफज्वर श्वास खांसी दूर होय.

निम्बादिका काढ़ा.

निम्ब सोंठि गिलोय शतावरी धमासा चिरायता पुष्करमूल पीपलामूल कटैली इन्होंका काढ़ा करि पिये तो कफज्वर दूर होय.

अथ वातपित्तज्वरके लक्षण.

मूर्छा होय, भवँरी छूटै, दाह, नींद आवै नहीं, माथेमें पीडा हो, कंठ मुँह सूखे, वमन रोमांच होय, अरुचि होय, सर्व अंगमें पीडा होय, जँभाई आवै और बकवाद करै ये लक्षण वातपित्तके हैं.

अथ वातपित्तज्वरपर पंचमूलादि काढ़ा.

पंचमूल गिलोय नागरमोथा सोंठि चिरायता इन्हों-का काढ़ा करि पिये तो वातपित्तज्वर दूर होय.

मुस्तादि काढ़ा.

नागरमोथा धनियाँ चिरायता गिलोय नींब कटुकी कड़ू परवर इन्होंका काढ़ा करि पिये तो वात पित्त ज्वर दूर होय.

अथ वातकफज्वरके लक्षण.

खांसी अरुचि संधि २ में पीडा माथ बाय पीनस संताप अंग कंपै शरीर में भारीपना होय नींद आवै नहीं पसीना श्वास पेटमें शुल होय और यही लक्षण

जिस मनुष्यके होयँ और नाड़ी सर्प हंसकी चाल चले तो वातकफज्वर जानो.

अथ वातकफज्वरकी दवा.

कली चूना १० टंक हरताल तवकी १० टंक ले घीकुवारके रसमें ४ पहर घोटै तब गोला बाँधिझुरावै, फिर गजपुट कर आंच देय शीतल भयेपर रोगीका बल देखिके १ टंक गरम पानीके साथ देय तो नित्य-ज्वर, अँतराज्वर, तिजारीज्वर, चौथियाज्वर, वात-कफज्वर ये सब ज्वर जायँ.

और काढ़ा.

कायफल, सूँठि, वच, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, धनियां, हर्र, काकड़ासिंगी, देवदारु, भारंगी इन्होंका काढ़ा बनाय पिये तो वातकफज्वर जाय.

अथ कफपित्तज्वर लक्षण.

चटचटाहट और मुख कडू होना, आलस्य होना और खांसी आना, अरुचि, प्यास बार२लगै, दाहहोय, शरीर ठंढा रहै ये कफपित्तज्वरके लक्षण हैं.

कफपित्तज्वरकी दवा.

सोंठि, पित्तपापड़ा, धमासा इन्होंका काढ़ा कफ-पित्तज्वरको दूर करता है.

और काढ़ा.

कटैली,गिलोय,सोंठि.पुष्करमूल,चिरायता इन्होंका काढ़ा सर्वज्वरको हरै है.

ज्वरांकुशरस. कफ पित्त सब ज्वरोंपर.

पारा २९ गंधक २९ विष २९सोहागाचौकिया२९ त्रिफला ३७॥ लेकर कूटि कपड़छानकर अदरखके रसमें घोटि गोली उरद प्रमाण बाँधै एक शाम एक सबेरे खाय तो कफपित्तज्वर सर्वज्वर दूर होय.

अथ सन्निपातका लक्षण.

अकस्मात् क्षण २ में रोवै, हँसै, गावै, क्षणमें दाह होय, क्षणमें शीत लगै,क्षणमें स्वभाव फिर जाय,इंद्रियाँ अपने अपने धर्म्मको छोड़दें,शरीरकी संधियोंमें हाड़ोंमें माथेमें पीड़ा होय,आँसू आवैं नेत्र काल वा लाल होयँ, कानमें शब्द होय अंगमें पीड़ा होय कण्ठ परिजाय तन्द्रा, श्वास, कास, अरुचि, भ्रम होय जीभ काली खरदरी लाठरसी होय लोहूसे मिला कफ होय दिनमें सोवै रातिको जागै पसीना बहुत आवै वा न आवै तृषा बहुत होय छातीमें पीड़ा होय मल मूत्र उतरै नहीं, उतरै तो थोड़ा उतरै दूबर होय कफ घुरघुराय मौन रहै ओंठ आदि इन्द्रिय पाकि जायँ पेट भारी रहै, नाड़ीकी गति महामन्द होय, सूक्ष्म टूटीसी होय मूत्र

पीला वा लाल वा काला वा सैंदुर समान होय, मल काला या सफेद वा सुवरके मांसके समान होय, ये लक्षण होयँ तो जानो कि सन्निपात रोग है.

अथ सन्निपातकी दवा, वीरभद्र रस.

(त्रिकुटा) तिरकूठ ३। नोन ५। सौंफ १। दोनों जीरा ३। पारा १। गंधक १। अभ्रक रस १। सबकी कजरी करै, फिर अदरखके रसमें सब दवा छोंड़िके घोटै, फिर अनोपान आदिके रसमें और सैंधौ और चितावारिमें देइ तो तेरहौं प्रकारका सन्निपात दूर होय, जैसे सिंह हाथीको मारै तैसे ज्वरको वीरभद्र रस मारै.

पुनः दूसरा रस.

पारा शुद्ध, गंधक शुद्ध, विष शुद्ध, २५ टंक जायफल, ६२ टंक पीपरी, १० टंक पारा, गंधककी कजली करे, तब दवा डारिके अदरखके रसमें एक दिन खरल करे, फिर १ रत्ती प्रमाण रोगीको दीजे तो सन्निपातज्वर, शीतज्वर, जीर्णज्वर, विषूचिका, विषमज्वर, मन्दाग्नि माथेके रोग सब दूर होयँ.

अथ रोगीकी परीक्षा.

रोगीकी उमर बाकी हो तब भी औषध बिना रोगीकी पीड़ा दूर नहीं होती, दृष्टांत जैसे हस्ती कीचड़में खड़ा हुआ उपाय बिना निकल नहीं सकता उमर बाकी हो

अरु चिकित्सा नहीं करे तो रोगी मरसकता है, जैसे दीपकमें तेल बाती होते भी पवनसे दीपक नष्ट होता है, तैसे साध्य रोगी चिकित्सा नहीं करे तो स्वल्पासाध्य हो, स्वल्पासाध्यकी चिकित्सा नहींकरेतोअसाध्य हो, असाध्यकी चिकित्सा नहीं करे तो मृत्यु होय, जबतक श्वास आवें तबतक चिकित्सा करनी चाहिये, कोइ समयमें चिकित्सासे मरणप्राय भी जीवता है, आदिमें रोगीकी परीक्षा करै पीछे औषधकी परीक्षा करे, पीछे समझकर औषध रोगीको देवै.

१ अथ शर्बत गाजबाँ.

गाजबाँ पावसेर, खांड एक सेर, पहिले गाजबांको साफ करके दो या तीनवारपानीसे धोकर कपड़ेमें बांधिके रातिको भिगोवै, सबेरे अग्निपर दो सेर पानी डारिके चुरावै जब आधासेर पानी रहिजाय तो खांड डारिके शर्बत तयार करै, एक तोला खुराक शर्बतका है, सब रोगोंपर देवै.

२ अथ गाजबांके शर्बतकी दूसरी विधि.

हरी गाजबाँका रस एक सेर ले और एक सेर सफेद कंद ले, दोनोंको एकमें मिलायके चुरावै, तब छानिले, सात तोले छः मासे गुलाबका अर्क मिलायके चासनी कर ले खुराक एकतोला दे यह हौलदिलको शांत

करता है और कलेजेको फायदा देता है, सुस्ती और फेफराको दूर करता है.

३ शर्बत नीलोफरकी विधि.

नीलोफरका फूल आधा सेर दो सेर पानीमें सामको भिगावै, सबेरे एक सेर चीनी मिलाय कर शर्बत तैयार करै, खुराक ९ मासे, दिमागको खुश करता है और पित्तज्वरको दूर करता है.

४ शर्बत दीनार (कासनी) की विधि.

कासनीका बीज ८ मासे, गुलाबका फूल ८ मासे. कासनीकी जड़का छिलका ४ मासे, गाजबां ४ मासे, कुसुम ४ मासे, सब दवा डेढ़ सेर पानीमें चुरावे और आधा रहजाय तब डेढ़ पाव शक्कर मिलायके चासनी करके खुराक एक तोला अनोपान मुवाफिक सब रोगोंपर दे.

५ शर्बत जूफाकी विधि.

सम्पुकी जड़, अजमोदाकी जड़, सोसनकी जड़, हंसराज, अंजीर ये सब बारह बारह मासे ले सवा दो सेर पानीमें चुरावै और आधा रहजाय तब डेढ़ पाव शक्कर मिलाके शर्बत तय्यार करै, खुराक चारि मासे, खाँसीको दूर करता है, कलेजको तर करता है.

६ शर्बत अनार विलायतकी विधि.

दो सेर अनारके दानेका रस निकाल ले और ढाई सेर शक्कर मिलाके शर्बत तय्यार कर ले, खुराक दो तोले नजलाको दूर करता है, दिल और दिमागका ताकत देता है.

७ शर्बत शहतूतकी विधि.

लाल शहतूत दो सेर मलिकै छानि ले और दो सेर कन्द मिलाकर चासनी कर ले,खुराक दो तोले,दिलको प्रसन्न करता है और कफज्वरको दूर करता है.

८ शर्बत गुलाबकी विधि.

पावसेर गुलाबके फूल लेकर दो सेर पानीमें चुरावै, आधा रहजाय तब आधासेर शक्कर मिलाकर चासनी करले, खुराक एक तोले, पित्तकी गर्मीको शान्त करता है और पियासको बुझाता है, कलेजेको ताकत देता है.

९ शर्बत वनफ्शाकी विधि.

वनफ्शाके पत्ते आध पाव लेकर डेढ़ पाव पानीमें चुरावै,जब आधा रहजाय तब आधसेर चीनी डारिके चासनी कर ले,खुराक एक तोला, फायदा पलईको गुणकारक है, फेफड़ेकी पीड़ा और शिरकी पीड़ाके दुःखको दूर करता है, और ज्वरको फायदा करता है.

१० शर्बत बेलकी विधि.

पावभर बेलका मगज लेकर भिगोवे, एक सेर पानीमें थोड़ा चुरावे, फिर डेढ़ पाव शक्कर मिलाकर चासनी करले, खुराक एक तोला, कब्जियत दूर करता है, खूनी बवासीरको फायदा करता है और दस्त बंद करता है.

११ शर्बत पुदीनाकी विधि.

एक पाव अनारको कूटकर रस निकाल ले और पुदीनाका रस पावभरि, आधासेर कन्द मिलाकर चासनी करले, खुराक एक तोला, दिलको प्रसन्न करता व प्यास बुझाता है.

१२ शर्बत नींबूकी विधि.

बीस नींबू लेकर उसका रस निकाल कर डेढ़ सेर सफेद चीनी मिलाकर चासनी करले, खुराक एक तोलासे डेढ़ तोला तक, कलेजेकी गरमीको शांत करता है, भूख लगाता है और मन प्रसन्न करता है.

१३ शर्बत केवड़ाकी विधि.

पावभर केवड़ेके फूल लेकर एक सेर पानीमें भिगोकर फिर थोड़ा चुरावे, जब आधा रह जाय तब तीन पाव चीनी मिलाकर चासनी करले. खुराक एक तोला है.

यह यत्र शर्बत बनानेकी विधि है.

दवाईका अर्क कढ़ाईमें डालकर मिश्री डालके चुरावै, जब गाढ़ा हो जावे तब कलछुलीसे चलाकर

उठावै, जोकि टोप बाँधि लेवै तब कढ़ाईमेंसे निकालकर शीसी में रखदे इसी तरहसे शर्बत बना ले.

ये यंत्र अर्क उतारनेकी विधि है.

एक घड़ा ले उसमें पानी डालकर, तब उसमें दवाई डालके ढपनासे घड़ाको बन्द कर दे, मधुरी आंचसे

चुरावै, जब आधा रहजाय तब कोई दवाईका अर्क हो,इसीतरहसेबनाले,अर्क-की यही विधि है शर्बत बनानेके वास्ते.

१४ शर्बत पानकी विधि.

पक्का पान दोसै मलके रस निकाल ले और एक सेर कन्द मिलाकर चासनी करले, खुराक एक तोलासे दो तोले तक, दिलको प्रसन्न करता है, शरीरको ताकत देता है.

१५ शर्बत इमली विधि.

आधा सेर इमलीको दो सेर पानीमें भिगोकर उस

को मलिके छानिके एक सेर कन्द मिलाकर चासनी करले, खुराक सवातोला, उलटीको शान्त करता है.

१६ शर्बत चन्दनकी विधि.

चन्दनका चूरन एकसेर पांचसेर पानीमें अंगार पर चुरावै जब आधा रहजाय तब चारसेर कन्दमें मिलाकर चासनी करले, खुराक एक तोला पित्तज्वरको दूर करताहै, उलटी शान्त करता है, भूख लगाताहै और तमाम शरीरको खुश करता है.

मृगीकी दवाई.

दोहा–बच खुरशानी शहद सँग, दोय टंक जो देय ॥
मृगी रोग तुरतै हरै, दूध भात पथ लेय ॥
ब्रह्मणी वच कुट संगसों, शंखाहोली लेय ॥
गऊघीवमें पीजिये, मृगी व्याधि क्षय होय ॥
मिरच डिठोहारिमें धरै, दिन इक्किस परिमान ॥
जलसों नाश जु लीजिये, होय मृगीकी हान ॥

परमाकी दवाई.

शंखाहोलि, इलाइची, शिलाजीत पुनि लेय ॥
सब परमोंका दुख हरै, प्रात समय जो सेय ॥
रस गिलोये निकालके, पीजै शहद मिलाय ॥
सब परमाका दुख हरै, प्रात समय जो खाय ॥

बवासीरकी दवाई.

दोहा-दुद्धी बढि जो आनिकै, लौंग संगमें खाय ॥
वा घृतसँग जो पीजिये. खून बवेशी जाय ॥

बूटीका गुण.

दोहा-पातकसौंजी विष हरै, जडसे सांप डराय ॥
फलसे बाघ डरात है, फूल रतौंधी जाय ॥

बांझिनी स्त्रीका लक्षण.

दोहा-मुखडब्बाकुचपुहुप सम, कटिविशाल जो होय॥
कवि कोविद दोऊ कहैं, होय बांझिनी सोय ॥

दरिद्रिनी स्त्रीका लक्षण.

दोहा-जाकीनाभिगँभीरअति, श्रवणहोइँ जस शूप ॥
सो तिय होय दरिद्रिणी, जो पावै पति भूप ॥

अथ गुंजाप्रकाशविधि.

दोहा-गुंजाकी गति कहत हौं, कौतुक चरित अपार ॥
गिरिजासों शिव यों कह्यो, सब कल्पनको सार॥
भूत रु डाकिनि प्रेत गण, यक्ष वीर वैताल ॥
इक गुंजाके कल्पमें, कोटिन माया जाल ॥
बहुत चरित हैं कहौं कुछ, सकल कल्पकी खानि॥
जो चाहै सोई करै, साधनके वरदानि ॥
अब याके साधन करै, यथायोग उपदेश ॥
जो साधै सो सिद्धि है, कसर नहीं लवलेश ॥

पुष्य होय आदित्यको, जो लीजै यह मूल ॥
शुक्रवार की रोहिणी, गहन होय अनुकूल ॥
कृष्णपक्षकी अष्टमी, हस्त नक्षत्र जु होय ॥
अर्धरात्रिको जायके, मनकी शङ्का खोय ॥
धूप दी पदे लायकर, धरै दूधमें धोय ॥
जो काहू नर नारिके, विषधर काटे होय ॥
विष उतरे सब तुरतही, जानि पिलावे सोय ॥
जो घिसिकर मुखमें तबै, सभामध्य नर जाय ॥
हाँजी हाँजी सब कहै, जोइ कहै सो थाय ॥
चतुरलोग या विधि करैं, कबहुँ न आवे आँच ॥
एक जड़ीके युक्त सों, सबै नचावै नाच ॥
तांबा माहिं मढ़ायकै, कटिमें बाँधे कोय ॥
नवें मास वहि नारिके, निश्चय बालक होय ॥
काजलसों घिसि आंजिये, मोहै सब संसार ॥
जो माँगे वह वस्तु कछु, सो लावे तत्कार ॥
जो घिसि पयके योगसों, लेपन कीजै अंग ॥
भूत प्रेत अरु यक्ष गण, लगे फिरैं सब संग ॥
घिसिके रुई भिगोयकर, बाती करे बनाय ॥
फेर भिगोवे तेलसों, दीपक धरे जलाय ॥
होय अचंभो शयन तब. मृत्युक सभा देखाय ॥
मनमें ले स्तुति करे, सबही पूजे पाय ॥

जो घिसिये वह घीवसों, लेप शरीर बनाय ॥
केसाही होवे हठी, लावै प्रीत लगाय ॥
मेष मूत्रसों रगरिकै, जो लेपै द्वौ हाथ ॥
कहै दूरकी बात वह, सब मानो है साथ ॥
गोरोचनको लौंगसे, लिखिये जाको नाम ॥
मित्र होय वह तुर्तही, नहिं वैरीको काम ॥
बेल अर्कसों युक्तकर, अञ्जन लेय बनाय ॥
भूत प्रेत अरु डाकिनी, देखतही भगिजाय ॥
खांड संग जो रगरिकै, तलवातले लगाय ॥
आंखि मिजतकै पलकमें, सहस कोस उड़िजाय ॥
जो घिस आंजे पीकसों, जा दिश नजर कराय ॥
व्याधि परेसो छुट नहीं, कोटिन करै उपाय ॥
जो गुलाबसों रगरिकै, नाभी लेप कराय ॥
त्यहि शरीर घड़ि चारमें, जागे सहज उपाय ॥
फिरि वाको ले तेलसों, जो घिसि आंजे कोय ॥
धन देखे पातालका, दैवी दृष्टी होय ॥
जो वाघिनिके घीवसों, घिसि चुपरे सब देह ॥
तीर तुपक लागै नहीं, ज्यों बरसे घन मेह ॥
घिसिकै तिलके तेलमें, मर्दन करै शरीर ॥
देखे सब संसारको, महावीर रणधीर ॥
जो अलसीके तेलमें, घिसिये शहद मिलाय ॥

कूटकाट लेपन करै, कंचन तनु ह्वै जाय ॥
जो मुर्गीके बीटसों, अंधा आंजे कोय ॥
सात दिना जो आंजही, दृष्टि चौगुनी होय ॥
कस्तूरीसों आँजिये, प्रातसमय लवलाय ॥
नृत्य लखै संसारकी, काल रूप दरशाय ॥
गंधक संग मिलायके, बीसों नखन लगाय ॥
जो नर होय कुमारगी, देखत वश ह्वै जाय ॥
जो आँजै निज मूत्रसों, खुलै रागिनी राग ॥
जो पीवै घिसि गाभमें, मिटै देहका दाग ॥
गंगाजलसों आंजिये, दोनों नयनों माह ॥
वर्षा बर्षै पुष्पकी, होय अचंभो नाह ॥

यंत्र १.

यह यंत्र गोरोचनसों भोजपत्रपर लिखै फिर गूगुल की धूप देकर कंठमें बांधै, जिस औरतका लड़का जीता नहो तो जीवै और होता नहीं होय तो होवै. यंत्र लिखनेकी विधि-

शंकरम तु शंकरपितृ

४०	४२	४	९
१	३	४८	४३
४६	४९	९	४
२	७	४७	४४

अच्छे दिन और अच्छे नक्षत्रमें लिखै और जिस जगह किसी चीजपर लिखनेका प्रमाण नहीं है वहां भोजपत्रपर लिखे और जहां कलम नहीं लिखी है, वहां

अनारकी कलमसों लिखना चाहिये. और जो किसी चीजसे लिखनेको न लिखा हो तो देवी चंदनसे लिखना चाहिये. प्रथम स्नान करिके कोई होवै, यंत्र फूल और नैवेद्य देय करके उत्तर मुँह होकर लिखना.

यंत्र २.

यह यंत्र शीघ्र काम पूर्ण करनेके वास्ते है, जो कोई

मं. ४	ह्राँ १	ॐ ८
महः५	ह्रीं २	श्रीं.९
सः ६	श्रीं ३	ह्रीं. ८

अपने संकेत पड़े परलिखै और दहिने हाथपर बांधे तो अवश्य काम सिद्धि

यंत्र ३.

सः ७ ४	सः १	सः ३ ८
सः ९	२ सः	सः ५
सः ८	सः ६	सः ४

होय यह यंत्र एतवारके लिख दहिने हाथमें रोज तो चौथियाज्वर छूटिबांधै जाय पीछे जो कुछ बनि परै सो दान देय जरूर

यंत्र ४.

यह यंत्र सब काम सिद्ध करनेके वास्ते है इसको भोज-पत्रपर अष्टगंधसे लिखै. और धूप दीप दे. पूजा करिके अपने पास रक्खै तो सब काम सिद्ध होवै सही.



यंत्र ५.

इस यंत्रको भोजपत्रपर लिखकर व धूप देकर गलेमें बाँधे तो किसी तरहका भय न होवै, भूत नहीं लगै, जो लगा होय तो छूटजाय, इस यंत्रको जगाइ करके लिखै.

१४	७	४	३
६	३	६	५
७	३	४	१४
४	१४	३	७

यंत्र ६.

७	२	८
८	६	४
३	८	५

यह यंत्र जूडीके वास्ते है, इसको भोजपत्रपर लिखकर जगायके गलेमें बांधैतोजूडीजायसही.

यंत्र ७.

यह यंत्र पंद्रहवाँ है. बहुत दिन जगायके भोजपत्र

२	९	४
७	५	३
६	१	८

पर लिखै जिस औरतके लड़का न होता हो उसके कटिमें बांधे तो बहुत जलदी लडका हो जावे.

यंत्र ८.

यह यंत्र (अधकपारी) आधाशीशीके वास्ते है,



एतवारको वा मंगलको लिखकर बांधे तो अध-कपारी जाय.

यंत्र ९.



यह यंत्र पीपरके पत्तापर रविवारको लिखकर हाथमें बाँधे तो अंतराज्वर जाय.

यंत्र १०.

ह्रीं. श्रीं. ह्रीं.
श्रीं. ह्रीं. श्रीं.
रामलिखतको

यह यंत्र अष्टगधसे जिसका नाम लिखकर जाप करै वह मान करै.

यंत्र ११.

इस यंत्रको अष्टगंधसों भोजपत्रपर लिखकर धूप दीप देकर पगियामें राखै तो राजा प्रीति करै और संसारमें मान होय.

११७	१२४	२	७
६	३	१२१	१२०
११३	११८	८	१
४	५	११९	१२२

यंत्र १२.

ज.		ज.
ज.	देवदत्त.	ज.
ज.		ज.

इह यंत्र धतूरके रससों रविदिन शत्रुका नाम लिखै तो शत्रु भागि जाय.

यंत्र १३.

यह यत्र नीबीके रससों कौवाके परसों लिखै शत्रु दूर होय.

यंत्र १४.

५३	४२
३११	७०

यह यंत्र स्याहीसों लिखकर माथेमें बाँधै तो आधाशीशी दूर हो सही.

यंत्र १५.

७	५
९	१

यह यंत्र कागजपर स्याहीसों रवि दिन लिखै और सूर्यके सामने पानीमें धोय कर पीवै तो वायगोला जाय.

यंत्र १६.

म.	ज	व.
क	ग	जः
छः	छः	दः

यह यंत्र कानकी पीड़ाके वास्ते है, लिखकर कानमें बाँधे तो पीडा दूर होय.

यंत्र १७.

यह यंत्र कागजपर बुधके दिन हरदीसे लिखकर जो

१४८	१३	१३८	६
२	१४६	१३	१३९
९३	७	१४०	१
२०	१३४	९	१४७

लड़का बहुत रोता होय उसके गलेमें बाँधै तो रोवै नहीं और चुप होय.

यंत्र १८.

यह यंत्र स्याहीसे कागजपर लिखै जिसकी आँख

५७८२०६०२

आवती होय उसको देखावै तो आंखैं न उठैं.

यंत्र १९.

३७१००३ ७१३७१००
३७७००७७००३७००
३७७०० देवदत्त. ३०'० ०

यह यंत्र पीपरके पत्तापर लिखै जिसके चुरैल लगी होय, उसके गलेमें गूगलकी धूप देके बाँधै तो छूटिजाय.

यंत्र २०.

यह यंत्र कोरे खपड़ापर लिखे और जिसके प्रेत लगा



होय उस आदमीका नाम लिखे पीछे रोगीको देखा- यके अग्निमें जराय दे तो प्रेत भागै.

यंत्र २१.

५५९	२१७	३६९
६५५	१३८१	४९३
७७२	१२७७	१५२१
८८१	९६६	१००१

यह यंत्र रविदिन लिखिके गलेमें बाँधे तो ताप जाय.

यंत्र २२.

६९	१९	८९
७९	५९	३९
१९	९९	४९

यह यंत्र गुड़गुड़ीके वास्ते है, पीपरके पत्तापर लिखिके दहने हाथमें बाँधे तो गुड़गुड़ी दूर होय.

यंत्र २३.

यह यंत्र कैसो संकट होय तो अष्टगंधसों भोजपत्र

पर लिखिके गलेमें धूप देके बाँधे संकटसे छूटै सही.

यंत्र २४.



यह यंत्र नजरके वास्ते है. कागजपर अष्टगंधसे लिखकर गलेमें बाँधे तो नजर दूर होय.

यंत्र २५.

यह यंत्र कागजपर लिखके नई रुईमें लपेटिके चमेलीके तेलमें डुबावे जिस आदमीके चुरैल लगी होय उस आदमीको यंत्र जरायके धुएँका नास देवै, तो चुरैल भागिजाय.



यंत्र २६.

चक्रव्यूह.

यह चक्रव्यूह जिस स्त्रीके लड़का भया होवे और वह कागजपर लिखके होनेका दिन पूरा स्त्री कष्टमें होय.

लडका होता न होय तो इस चक्रव्यूहको बनाकर दिखावै तो उस स्त्रीके तुर्त लडका होवै और कष्ट सब दूर होय और एक छटांक गायके दूधमें पावभर पानी मिलाके पियावै तो तुर्त लडका होय.

यंत्र २७.

यह यंत्र डबल नलीका है इसमें बनानेकी दवाई लिखते हैं, गुलाबके फूल आधा सेर और केवडाके फूल पाव



भरि, चमेलीके फूल पाव भरि, सौंफ एक सेर, चिरैता एक सेर. कुलंजन आधा सेर, बच पावभर, सनायकी पत्ती आधासेर, अमिलतासे पाव भर इन सब चीजोंको मिलाकर घडामें डालै और डेढ मन पानी डालै, सेबेरे भट्टीपर चढ़ावै. मधरी आंचसों अर्क खींचै, बारह बजेतक समाप्त हो तब अर्क निकाल कर शीशीमें रक्खै, जिसको जुलाब देना हो उसको पाव २ दो दिन पिलावै तब जुलाब दे तौ शरीर निरोग होय और जुलाब बहुत अत्यु-

त्तम होय, जिसका कोठा शर्द होय उसको गर्म करे और जिसका गर्म होय उसको नर्म करे.

यंत्र २८.



यह यंत्र एक सी तरहका हो तो इसी धनियाँ पाव बीज पावभर, भर, गुलाबके नलीका है कि- अर्क खींचना तरहसे खींचे भरकासनीका पुदीना पाव फूल पावभर, सौंफ पावभर, शक्कर एक सेर ये सब एक घड़ामें डालके शामको एक मन पानी ड़ालके रखदे, सबेरे अग्नि जरावै मधुरी आंच दे, अर्क निकलै सो शीशी रखदे ॥ गुण–करेजेकी गर्मीको तर करता है, उलटीको रोकता है, इन्द्रीको साफ कर देताहै, गर्म मिजाजवालेको बहुत फायदा करता है, भूँख लगाता है, सब रोगोंको हरता है, जो किसी दवाईका अर्क खींचना होतो डबल नली या एक नलीसे खींच लेवे.

यंत्र २९.

इस यंत्रको विद्याधर कहते हैं, जो किसी धातुका



या कोई दवाईका पारा निकालना होय तो इसी यंत्रसे निकालै, सिंगरफ, रसकपूर और सेंदुर जिस धातुसे पारा निकलता है उससे निकाले सिंगरफ २तोला लेकर नीबीके पत्तामें खल करै, तब टिकिया बनाकर नीचेके घड़ाकी पेंदीमें रखके कपड़मिट्टी कर सुखायके उस घड़ेको चूल्हापर रखकर नीचे अग्नि जरावे और सिंगरफसे जो पारा निकलकर ऊपरके घडामें लगै तो वह पारा लोकप्रसिद्ध होय और आधाचावल पानके साथ खाय तो नामर्द मर्द होय.

यंत्र ३०.



यह डमरू यंत्र है, जो किसी धातुका जौहर उड़ाना हो तो वह दवाई खल करके नीचेकीहण्डीमें रक्खे और अग्नि६ घण्टा लगावे जब जौहर उड़के ऊपरकी हण्डीमें लगै तो सब काममें बेपरै. अब इसके बनानेकी और एक विधि लिखते हैं, अँवरासार गँधकको चूर्ण करके जौहर उड़ावे तो सब काममें बेपरे.

यंत्र ३१.

इसको स्वेदनयन्त्र कहते हैं. एक बड़ा घड़ा लेकर



उसमें आधा घड़ा पानी डालके तब आधा सेर गंधापिरोजा लेकर गोदन डुद्धीके लुगदीमें रखकर कपड़ामें पोटरी बाँधिके रस्सीमें बांधकर घड़ामें लटकावे, और घड़ाके ऊपर एक छोटी हंडी रखकर कपड़मिट्टी करके तब अग्नि जरावे. ६घण्टा आंच दे तो सब गंधापिरोजा घड़ाकी पेंदीमें चूचूकर गिरै सो गंधापिरोजा फिर इसी विधिसे चार दफे कपड़मिट्टी करके चुआवे तो सब काममें बेपरै, सुजाक जो कि पीब बहता हो सो सात दिनमें अच्छा होय, मिश्री ६ मासे,इलायची ६ मासे,गंधापिरोजा ६मासे ये सब दवा खाय १८ दिन और गायका दूध आधासेर पीवै तो परमा,पथरी सब रोग दूरि होयँ और यह गंधापिरोजा सब रोगपर देय और इसी विधिसे गंधपिरोजाका सत निकाला जाता है.

यंत्र ३२.

इस यन्त्रको वालुका यन्त्र कहते हैं, इस यन्त्रमें ऐसा



करे कि, लोहेकी कराही लेकर उसमें वालू भरके वालूके बीचमें सीसी रखके मधुरीआंच दे, जितना रसका परिमाण होय तितना आँच दे कोई भी रस होय.

यंत्र ३३.

यह गौरीयन्त्र है कोई रस होय तो इसी यन्त्रमें सिद्ध कर लेय.

यंत्र ३४.

इसको चक्रयन्त्र कहते हैं, इस यन्त्रमें पारा सिद्ध होता है, बीचके घरमें पारा बाहरके घरमें उपरी इस विधिसे भट्ठी लगावे.

यंत्र ३५.

इस यंत्रको जलयंत्र कहते हैं, अब तेजाब उतरनेकी विधि लिखते हैं, फिटकरी पावभर, नौसादर पावभर, चौकिया सोहागा पावभर, कलमीसोरा पावभर, नीलाथोथा पावभर, आंवलासारगंधक पावभर सबको एकमें मिलायके खल करै तब नीचेकी हंडीकी पेंदीमें



मिट्टी धरे और मिट्टीके ऊपर गिलास रक्खै और घड़ाके अंदर दवाई रक्खै और दूसरे घड़ामें पानी भरके दवावाले घड़ाके ऊपर रक्खै, मधुरी आंच दे, जब ऊपरके घड़ाका पानी गर्म होजाय तो सँभारके तेजाब निकालले, अब इसका गुण लिखते हैं, बरबट, वायगोला, तापतिल्ली, कछुई, जाकूट, पिलही, उदररोग सब दूर होयँ, खुराक ९ मासे, ६ तोले पानी डालके पीवै.

यंत्र ३६.

इस यंत्रको गजपुट बोलते हैं, एक गज लंबा, एक गज चौड़ा, एक गज गहिरा, इसके बीचमें दवाईका कपड़मिट रक्खै, उसके चारों तरफ बाना हुआ कंडा

रखकर अग्नि जरावै और इसी मंत्रसे कोई मंत्र होय



अग्नि जरावै (मंत्र) खाक फूंकै तो मंत्र स्यों ह्लीं क्रीं घ्रीं गुरुकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा ॐ ॐ कर बीज मंत्र इति.

यंत्र ३७.

यह शीशी मृगांक बनानेकी है, इसके चारों तरफ अग्नि है, बीचमें कांचकी सीसी है, जो मृगांकके सदृश दवाई बनावे तो इसी तरहसे बनावे.

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसाद शिष्य भगत भगवानदास विरचित वैद्यकरसराजमहोदधि वंदना, भूमिका, रोगविचार, नाड़ीपरीक्षा, शरीरकी चेष्टा, निरोग होनेका वर्णन, स्वप्न विचार, दूतपरीक्षा, असाध्यलक्षण, मलज्वर, आठोंज्वरका लक्षण, दवा. कफज्वर शीतज्वर कामज्वर रक्तज्वर लक्षण, उपाय, सर्वज्वर दूर होनेका लक्षण, वादी बिगड़ेका लक्षण, खून. बिगड़ेका लक्षण, वात पित्त मिश्रित होनेका लक्षण, वातका लक्षण और कफ खाँसीका लक्षण. मन्दाग्नि और संग्रहणीका लक्षण, खूनी बवासीर और दाहका

लक्षण अठारह तरहके शर्बत बनानेकी विधि और गुण मृगीकी दवाई, परमाकी दवाई, बवासीरकी दवाई, बूटीका गुण और बांझनी, दरिद्रिनी स्त्रीका लक्षण गुंजा प्रकाशकी वत्तिस विधि और गुण छव्वीस प्रकारके यंत्र और अर्क खींचने और रससिद्धी करनेकी विधि नाम प्रथमखंड समाप्त ॥ १ ॥

यह यंत्र शिरसे पाँव तक शरीरकी हड्डीका है.



१ सिंघियाविष शोधन.

दो तोले सिंघिया विष लेकर भैंसाके गोबरमें डारिके दो घंटे चुरावै, तब सिंघियाको निकाल कर सींक गोदे जोकि सींक उसमें धँसजाय तो उसको सफाकरके दूधमें चुरावै तो सब काममें बेपरै.

२ अथ विषका गुण.

रसायन है,बलकरै है, त्रिदोषको दूरि करै है, वात व शीत, पित्त, कफ, कोढ़, खांसी, दमा, श्वास, प्लीहा, यकृत्, कंठोदर, उदररोग इत्यादिको अनोपान मुवाफिक सब रोगोंको हरै.

३ कुचिला शोधन.

कुचिला गऊके मूत्रमें दशदिन डारिके रक्खै, तब उसको निकालके छीलके टुकडे २ काटै फिर दूधमें चुरावै शुद्ध होयगा (गुण) गर्म है, वातको हरता है, लकवाको हरता है,और दमाको दूर करता है, अनोपान मुवाफिक सब रोगको हरता है, जो जड़ा घीमें चुरावै तो निहायत फायदा देवैगा.

४ अथ धतूरा शोधन.

गऊके मूत्रमें धतूरको चार घड़ी रक्खै फिर निकाल कर धो डाले तब सब काममें बेपरै (गुण) गर्म है-

अग्निको बढ़ाता और नशा करता है,वमनकारी है,ज्वर आदि सब रोगोंको दूर करता है.

५ जमालगोटा शोधन.

जमालगोटेको भैंसाके गोबरमें डारिकै छः घंटे चुरावै, तब फिर उसकी छालको निकाल कर जीभी निकालके नींबूके रसमें दो दिन खल करै, तब सब काममें बैपरै (गुण) पित्त, कफको हरता है, और दस्त लाता है, उदर रोगको प्लीहा बीछूको सर्वविषको व सब रोगको दूर करता है.

६ भेलावाँ शोधन.

भेलावाँको पानीमें डालकर एक दिन चुरावै, फिर उसका टुकड़ा २ करके दूधमें चुरावै, फिर उसको निकालके एक तोला सोंठि और अजवाइन चार तोला डाल खूब खल करे तो सब काममें बैपरै (गुण) फोड़ा, खाज,खांसी, दमा इत्यादिक सब असाध्य रोग कोढ़रोगको हरै.

७ गुञ्जा शोधन.

गुंजाको कांजीमें चुरावे तीन घंटे (गुण) हल्की है शीतल है, खांसी. श्वास,कोढ़,खुजली, कफ, पित्त सब विकारको दूर करती है.

८ आक शोधन.

आकको खल करके शुद्ध हुआ, (गुण) वादी, कोढ़, खुजली, तापतिल्ली, गोला, बवासीर, यकृत, कंठोदर, कृमिरोग सब रोगको हरै.

९ कलियारी शोधन.

कलियारीके टुकड़े २ करके एक दिन गोमूत्रमें भिगोनेसे शुद्ध हो, (गुण) दस्त लाता है, कुष्ठ, बवासीर, यकृत, कफोदर और कृमिरोगको दूर करता है.

१० कनेर शोधन.

कनेरके टुकडे २ करके गायके दूधमें डोलायंत्रसे चुरावै, शुद्ध हुआ (गुण) गर्म है, नेत्रको गुण करता है, कोढ़ जरन खुजली सब रोगको दूर करता है.

विष सेवनकी विधि.

मिश्री, दूध, शहद, घृत, चावल, गेहूकी रोटी इतना सेवन करै, आचारपनसे रहै.

प्रमाण खानेका.

एक बजरीसे दो बजरी तक जैसा बल देखे तैसा रोगीको दे तो सब रोगोंको अनुपान मुवाफिक हरै.

अथ बछनागकी शांति.

हीरवण वृक्षके रसमें मिश्री मिलाकर पिये तो विष शांति होय.

२ अथ धतूरके विषकी शांति.

बैंगनके बीजोंका रस पीनेसे धतूरका विष शांत होय. तथा मिश्री दूध पीनेसे शांत होय.

३ अथ भिलावेके विषकी शांति.

चौलाईका रस मक्खनमें मिलाकर जहाँ भिलावेकी सूजन होवे, उस जगह लगानेसे भिलावेका विष शांत होय.

४ अथ भांगके विषकी शांति.

सोंठिके चूर्णको गायके दहीके साथ सेवन करनेसे भांगका विष शांत होय.

५ अथ गुंजाके विषकी शांति.

चौलाईके रसमें मिश्री मिलाय पीनेसे और ऊपर दूध पीनेसे गुंजाका विष शांत होय.

६ अथ कनेरके विषकी शांति.

मिश्रीमें भैंसका दही मिलायके पीनेसे कनेरका विष शांत होय.

७ अथ थूहरके विषकी शांति.

शीतल जलमें मिश्री मिलाय पीनेसे थूहरका विष शांत होय.

८ अथ जयपालके विषकी शांति.

धनियाँ, मिश्री, दही तीनों मिलाय पीनेसे जयपालका विष शांत होय.

९ अथ अफीमके विषकी शांति.

बड़ी कटेरीके रसमें दूध मिलाय पीनेसे अफीमका विष शांत होय.

१० अथ शंखियाके विषकी शांति.

घी गर्म करि पीनेसे तथा दूध, मिश्री मिलाइके पीनेसे शंखियाका विष शांत होय.

जो बहुत विष खालिया होय तो जुलाब देवे उलटी करावे. इति विषकी शांति समाप्त.

अथ हरताल मारनविधि.

१ एक तोला हरताल, इन्द्रायणके एक फलमें रखके चार कपड़मिट करके सुखाय डाले, फिर सवासेर बिनुवा कंडोमें फूंक दे, इसी तरहसे इक्कीस इन्द्रायनमें फूंके तो हरताल पानी सोखन (गुण) कुष्ठरोग व अनोपान मुवाफिक सब रोग दूर करता है.

दूसरी विधि.

हरताल दो तोला लेके घीकुवारिके रसमें दो दिन खल करै, तब गोला बाँधिके सुखावे, फिर सनईके बिषयों की लुगदीमें रख कपड़मिट करिकै तीन सेर कंडोमें फूंक दे (गुण) कोढ़को दूर करता है. इसका गुण वर्णने योग्य नहीं है, अनोपान मुवाफिक सब रोग दूर करता है.

अबरख मारनेकी दूसरी विधि.

अबरख लेकरके कूटै तब मूलीके रसमें १५ दिन रक्खै, फिर गुरमें खल करके फूंक दे, फिर मूलीके रसमें १५ दिन रक्खै, फिर हुरहुरके रसमें १५ दिन रक्खै, फिर कलमीसोरामें खल करै, फिर गुरमें १५ दिन खल करै तब कपड़मिट करिके फूँक दे, इसी तरह चार दफे फूँकै, तो सब रोग हरै अनोपान मुवाफिक.

शंखियामारन विधि.

शंखिया एक तोला लेकर मुरईकी राख आधा सेर, एक हंडी लेकर हंडीके अन्दर आधी राख रक्खै, तब शंखिया रक्खै और जो आधी राख है, उससे ढांक दे फिर हाथसे दबा दे, हंडीके ऊपर ढकना रखकर कपड़मिट करके चूल्हे पर रखके एक दिन चिरागकी टेम सम आँच दे, तब शुद्ध होय, खुराक आधा चावल श्वास, कास, दमा, शीतज्वर, पित्तज्वर, अनोपान मुवाफिक सब रोग हरै.

दूसरी विधि.

पापडखार चार तोले. शंखिया एक तोला लेकर मिट्टीकी एक ढकनी लेकर उसमें आधा पापडखार रखना, तब शंखिया रखना फिर दूसरे ढकनेसे ढांक देना, कपड़मिट करके सुखायके आधामन गोबरीमें फूँक दे, फिर रोगीको देख कर बल विचारके दे, आधा-

चावलसे एक चावल तक ये दवा सर्व प्रकारके रोग-को दूर करती है, अनोपान मिश्री, दूध, घी.

अथ शिलाजीत शोधन.

त्रिफलाके रसमें एक दिन घोटै, फिर एकदिन दूध-में घोटै तो शिलाजीत शुद्ध होय, खुराक ६ मासे, आधासेर दूधके साथ जो मनुष्य एक महीना सेवै तो शरीर पुष्ट होय, बल होय, वीर्य बढै अनोपान मुवाफिक सब रोग हरै, शिलाजीतका गुण कुछ वर्णने योग्य नहीं.

अथ मैनशिल शोधन.

मैनशिल अगस्त्यके रसमें घोटै, अथवा अदरखके रसमें घोटै, शुद्ध होय तो सब काममें बेपरै (गुण) कड़ु-आ है, विषको हरै, श्वास, कास आदिसब रोगोंको हरै.

अथ रसकपूर मारनविधि.

एक तोला रसकपूर लेके बिजौरा नींबूके बीचमें रखके मुलतानी मिट्टीसे कपड़मिट करके सुखायके एक सेर बीना हुआ कंडा लेकर उसमे रखके फूँकि दे, पीछे रस निकालके ताँबामें डालै, तो पानी सोखन होय.

अथ खपरिया शोधन.

खपरिया लाल करिके सात बेर नींबूके रसमें बुझावे तो शुद्ध होय और सब काममें आवै.

अथ नीलाथोथा शोधन.

सिर्का अथवा अचारमें दो तोले नीलाथोथाको

एक पहर घोटै फिर टिकरी करिकै आगमें फूँक दे तो सब रोगोंको गुणकारी है. खाज, कोढ़ और सम्पूर्ण आंखिके रोगोंको बहुत फायदा करता है.

अथ मोती मूँगा मारन विधि.

मोती, मूँगा कपड़ामें बांधिके एक घड़ामें आधा घड़ा इंद्रायणका रस डालके उस घड़ेमें लटकाइ देइ पीछे एक पहर चुरावे तो शुद्ध होय, तब गजपुटमें फूँकि दे तो भस्म होय, सब कामोंमें आवे (गुण) आँखोंके रोग,खांसी, परमा, सुजाक,ज्वर,मूत्रकृच्छ्र इन सबको दूर करता है,ठंढा है,सब रोगोंको नाश करता है, मोती मूँगाकी भस्मका गुण अगाध है.

अथ शंख, कौड़ी मारन.

शंख कौड़ी आठ दफे आगमें लाल करिकै नींबूके रसमें बुझावे तो शुद्ध होय. सब रोगपर देय, (गुण) श्वास, खांसी, आँखोंको गुणकारी है.

अथ गुञ्जा शोधन.

गुंजा लेकर एक पहर दूधमें चुरावे तब शुद्ध होय, सब काममें बैपरै, (गुण) आँखोंके रोगको दूर करै और शिरके बालोंको बढ़ावै, अनोपान मुवाफिक सब रोग दूर करै.

अथ फिटकरी, सोहागा मारन.

फिटकरी, सोहागा नींबूके रसमें खल करके गोला

बनायके गजपुटमें आँच देय तो सब रोग हरे, इसका गुण वर्णने योग्य नहीं है.

अथ समुद्रफेन शोधन.

समुद्रका फेन कागजी नींबूके रसमें डेढ़ पहर घोटै तो शुद्ध होय तब सब काममें बेपरै, (गुण) शीतल है, नेत्ररोग तथा कानोंकी पीड़ाको दूर करता है, और कानका बहना निश्चय दूर करता है.

अथ तांबा मारन.

शुद्ध तांबा दो तोले लेकर बनगोभीकी एक सेर लुगदीमें रख दे, फिर दश तोले मुलतानी मिट्टीसे कपड़मिट करके सुखावै तब दो मन बिनुआं कंडोंमें रखके फूँकि दे तो भस्म होय, सब रोगोंको हरै, पानी शोषण है, खुराक आधा चावलसे एक चावल तक.

अथ तांबा मारनकी दूसरी विधि.

सागबीब एक जातकी बूटी है, तांबा उसके पत्ताकी लुगदीमें रखके फूँकि दे, तो सुवर्ण होय इसमें कुछ संशय नहीं, जो फिर फूँके तो भस्म होय, जो कोई खावै उसकी सूर्यकी ज्योतिके समान ज्योति होय, लोकप्रसिद्ध होय. सब रोग नाश हों, सोनारस सेवै, तो बहुत दिन जीवै इसका गुण कुछ वर्णने योग्य नहीं है.

तांबा मारनेकी तीसरी विधि.

काकजंघा एक बूटी है, फागुनके महीनेमें पैदा

होती है, उस बूटीकी लुगदीमें एक तोला तांबा रखके कपड़मिट कर सुखायके गजपुटमें फूँकदे, तो भस्म बहुत ही अच्छा होय, खानेसे लोकप्रसिद्ध होय.

तांबाकी भस्म खानेके गुण.

छंद–तांबेकी खाक बनायके एक रती भर पानमें कोइभि खावै । पुष्ट शरीर बने अति सुन्दर सांझ सबेरे जो दूधसों पावै ॥ तज खान व पान अहार तजै सब दूध रु भात जो भोजन कीजै । बल होय शरीर बनै निश्चय पर सात दिना यह साधन कीजै ॥

अथ रूपा मारन विधि.

तितली जो गेहूँ चनाके खेतमें होती है उसके रसमें रूपा भिगोय रक्खे, फिर उसी तितलीकी आधा सेर लुगदीमें एक तोला रूपा रखके कपड़मिट करके गजपुटमें आंच देय तो भस्म होय, खुराक एक चावल, अनुपान मुवाफिक सब रोग हरै.

रूपा मारनेकी दूसरी विधि.

सिक्का रुपइया अग्निमें लाल करिकै मेहँदीके रसमें आठ दफे बुझावै, तब मेहँदीकी पत्ती आधा सेर ले लुगदी करिकै बीचमें सिक्का रुपइया रखके कपड़मिट करके सुखायके दो गजपुट आंच दे, तो भस्म होय, खुराक एक चावलसे डेढ़ चावलतक.

रूपरस खानेका गुण.

छंद–रस रूप विधान कहूँ नर एक रतीभर पानमें ताहि जो खावै । कफ अरु कास औ खांस हरै सब लागती भूख अरु काम जगावै ॥ अति गर्म जो शरदकी हानि करै सब अन्नके रोगको तुरत नशावै । ताहिते जानिकरै यह साधन निष्ठ शरीरको पुष्ट करावै ॥

अथ सोना मारनविधि.

कामदेव झमकोइया एक बूटी है उसकी लुगदीमें एक तोला शुद्ध सोना रख कपडमिट कर सुखायके तीन गजपुट आंच दे, तो भस्म होय, लोकप्रसिद्ध होय, खुराक आधा चावल, अनोपान मुवाफिक सब रोग हरै.

अथ सोना मारन दूसरी विधि.

एक सेर कचनारके पत्तोंके बीचमें आधा तोला सोना रखके गोला बनाय कपड़मिट करिके सुखाके दो गजपुट आंच दे, तो बहुत उत्तम रस बनै.

गुण ॥ छन्द ॥

सोनेकी खाक बनायके सुन्दर चावल एक चिरों-जीमें खावै । पुष्ट शरीर बढै अति बीरज लागति भूख रु काम जगावै ॥ श्वास औ कास कफोदर ओदर आदि जलंधर रोग नशावै । रोग हरै सबही तनुके अनो-पान मुवाफिक जो कोइ पावै ॥

अथ लोहा मारन विधि.

अच्छा स्वच्छ लोहा लेकर रेतै, तब अनारका रस एक सेर और चार तोला लोहाका रेत पहले एक बरतनमें रस डालदे, फिर इसमें रेत डाल दे पंद्रह दिन धूपमें रक्खे तब आधामन गोबरीमें फूँक दे तो बहुत उत्तम लोहासार रस बनै अनोपान मुवाफिक सब रोग हरै.

अथ पोलाद मारनेकी दूसरी विधि.

अच्छा स्वच्छ पोलाद रेतायके धरै फिर ब्राह्मी एक बूटी है उस बूटीके पत्ताकी लुगदीमें रक्खै, पोलाद बीचमें रखिके गोला बनाय कपड़मिट कर सुखाय गजपुट आंच दे तो बैंगनी रंग रस बनै, सब कामको मातदिल है, आमवात, आंख और खांसी इन सब रोगोंको दूर करता है, अनोपान मुवाफिक सब रोगोंको हरण करता है.

अथ त्रिवंग मारन.

शुद्ध जस्ता एक तोला, शुद्ध राँगा एक तोला, शुद्ध सीसा एक तोला, लेकर तांबापर रखिकै चूल्हेपर रक्खै उसके नीचे अग्नि जरावै करछुलीसे चलाता जावै, और हरप्रियाका रस छोड़ता जावै तो आध घंटामें नौरंगीके बरन रस बनैगा अनोपान मुवाफिक सब रोग हरै कैसो ज्वर नया पुराना होय तो एक चावल रस और दो मासे चिरैता,दो मासे पीपरी दोनों एकमें

मिलाके कूटिके कपड़छान करिके शहदके साथ सांझ सबेरे खाय तो सर्व प्रकारके रोग हरे इसमें कुछ सन्देह नहीं.

अथ वंगरसबनानेकी क्रिया.

शुद्ध राँगा चार तोले लेकर गलावे, नीचे अग्नि जलावै ऊपरसे अमलीके छाल व पीपरीके छाल दोनों-का चूर्ण करिकै छोड़ता जाय और राँगाको चलाता जाय तो चालीस मिनटमें भस्म होय बहुत उत्तम वंगरस बनै.

बंगरस खानेका गुण.

छंद–बंग सहाशिवको गुणदायक खाय नपंसक मर्द भये हैं। खातहि रोग हरे तनुके बल पुष्ट शरीर अतुल्य भये हैं। अनोपान मुवाफिक पान करै षट भाँति कि व्याधिन दूरि किये हैं। दिन सातमें काम सुधारनीके अत्यंत नपुंसक मर्द भये हैं.

अथ सीसा मारनविधि.

शुद्धसीसा लेकर तांबापर रख गलावे फिर केव-ड़ाके डंडासे चलाता जावै और घोटता जावै इसी हिकमतसे एक घंटामें भस्म होवै. फिर उस रसको घीकुवारके रसमें आठ पुट दे, फिर भंगराजकी आठ पुट दे फिर गोदनदुद्धीकी आठ पुट दे फिर गोला

बनाय कपड़मि टकरके गजपुट आंच दे तो बहुत अच्छा नागरस बनै लोक प्रसिद्ध होय अनोपान मुवाफिक सब रोग हरै, खुराक एक रत्तीसे डेढ़रत्तीतक गर्ममिजाज-वालेको ठंढे अनोपानमें देवै इसी विधिसे सब रोगहरै.

अथ सिंगरिफ मारनविधि.

सिंगरिफ चार तोले लेकर नींबूके पत्तामें खल करके टीकरी बनायके गौरी यंत्रसे आंच दे जो पारा ऊपरकी हंडीमें उड़के लगे तो सब काममें बेपरे और सब रोग हरै.

अथ गंधक शोधन.

गंधकको घीमें गलावै दूधमें बुझावै इस तरह चार दफे गलावै बुझावै और दो दफे भंगराजके रसमें बुझावै तो शुद्ध होय सब काममें बेपरे (गुण) बीस प्रकारके परमाको दूर करै और खांसी, दमा वगैरह सब रोगों-को हरै और छःमहीने गंधक सेवनसे उसकी दृष्टी गिद्धके समान होय, फिर उसके मैलसे तांबेका सोना बनै इसमें कुछ संशय नहीं है, क्यों कर कि गंधक सब धातुको जलाता है.

अथ परा मारन विधि.

पारा लेकर सीसीमें डालके उसीमें मकोईका रस डालके एक दिन झकझोरै, तब निकालके गूलरके दूधमें खल करै, तब फिर हींगका मूसा बनाइके उसी

पाराको मूसामें रखकर मुलतानी मिट्टीके साथ कपड़-मिट करके सुखावे तब गजपुटमें फूंक दे और शीतल होय तब खानेको देय एक रत्ती भर पानमें खावे तो नामर्दको मर्द करै और कोढ़को शिरसे पैर तक निरोग करै और आचारपनसों रहै तो अजर अमर होय.

पुनि दूसरी विधि.

शुद्ध पारा लेवे और एक माटीकी परई अग्निमें लाल कर निकालके बाहर रक्खे फिर काले धतूरका रस निकालके परईमें डाल अग्निपर चढ़ावे-पीछे पारा डालै तब रस जरै और पारा भस्म होय सब रोगोंको हित है अनोपान बदलता जाय तो सब रोग हरै और खट्टा, मीठा, तीता ये सब चीज त्याग करै.

जस्ता मारन विधि.

शुद्ध जस्ता लेकर तांबापर गलावे और बथुईका रस छोड़ता जाय कलछुलीसे चलाता जाय, सवा-घंटामें भस्म होय सब काममें बैपरे (गुण) कडू है, हलका है, शीतल है, कफ और खाज दूर करता है अनोपान मुवाफिक सब रोग हरता है.

कीट मारन विधि.

पुरानी कीट आधा सेर लेके त्रिफलाके रसमें सात दफे लाल करि के बुझावै और नीबूके रसमें सात दफे

बुझाकर आंवलासारगंधकमें खल करके गोला बनायके गजपुटमें फूंक देवै, तो बहुत उत्तम रस बने (गुण) पांडुरोग, प्लीहा,आमवात,उदररोग इत्यादिक सब रोगोंको हरे है.

मृगांक रस बनानेकी विधि.

पारा एक तोला, रांगा एक तोला, आंवलासार-गन्धक एक तोला, नौसादर एक तोला ये सब शुद्ध ले पहिले पारा और आंवलासारगन्धक, दोनोंको खल करै, पीछे आठ टोप रेड़ीका तेल खलमें डारि दे तब रांगा और नौसादर गलायके डारै, फिर दोदिन खल करै, पीछे एक अग्नि शीसी कांचकी ले मुलतानी मिट्टीकी सात कपड़मिट कर अच्छी तरहसे सुखावै फिर शीसीमें दवाई रखके कोइयाकी भट्टीमें शीसी रक्खै, मुख शीसीका खुला रक्खै अग्नि जरावै एक लोहेकी सींकसे पन्द्रह २ मिनटमें शीसीमें हिलावै पहिले काला धुआं निकलै, पीछे हरा निकलै,फिर पीला निकलै,फिर लाल निकलै, तब अग्नि आहिस्तेसे बुझादे, शीतल भयेपर सँभारिकै रस निकालिले, सोने-के वरन रस होय, सोनेके भाव रसका मोल होय, इसका गुण कुछ वर्णन योग्य नहीं है,जिस रोग पर देय सो रोग हरै, और जो नर सेवै अजर अमर होय.

अथ सब रसका उतार.

मिश्री, घृत, दूध खिलावै तो शांति होय.

अथ शीत पित्तके लक्षण.

शीतल पवनके अधिक लग जानेसे कफ और वायु अतिदुष्ट होकर पित्तके संग मिलकर रुधिरमें प्रविष्ट होजाते हैं, वा बाहर त्वचामें फैल जाते हैं. इसे शीतपित्त अर्थात् पित्ती उछलना कहते हैं, शरीरमें सूजन और चकोटा पर जाते हैं, और खाज होती है, कोप करिके खजुली सहित बहुतसे लाल २ चकत्ते शरीर भरमें पड़ जाते हैं.

शीत पित्तकी दवा.

गुड़, अजवाइन मिलाय १४ दिन खानेसे शीतपित्त नाश होय, अथवा सोधा पारा८भाग, कुचुला १०भाग, गन्धक सोधा १२ भाग, सुंठी १ भाग, मिर्च १ भाग, पीपल १ भाग,त्रिफला ३ भाग,भिलावां १भाग, चीता १ भाग, नागरमोथा १ भाग,बच १ भाग,रेणुके बीज १ भाग, असगन्ध १ भाग,मीठा तेलिया १ भाग,कूट १ भाग, पीपलामूल १ भाग, नागकेशर १ भाग, गुड़ २४ भाग इन्होंकी बेर समान गोली बनाय खानेसे शीतपित्त नाश होय.

अमृतादि काढ़ा.

गिलोय, हल्दी, नींब, धनियाँ, धमासा इन्होंका अलग अलग काढ़ा बनाय पीनेसे शीतपित्त नाश होय, और पहिले शीतपित्तरोगीको सात रोज मुनुजिस पिलावै तब दवा करै.

अथ अम्लपित्तका लक्षण.

अन्न पचै नहीं कडुई, खट्टी डकारें आवैं, शरीर भारी रहै, हिया और कंठमें दाह होय, भोजनमें अरुचि हो, ये लक्षण अम्लपित्तके जानो.

अम्लपित्तकी दवा.

गिलोय, चीता, नींब, कडूपरवर इन्होंका काढ़ा बनाय शहद मिलाय पीनेसे अम्लपित्त नाश होय.

मधु पीपली योग.

पीपलका चूर्ण करि शहदमें मिलाय चाटनेसे अम्लपित्त दूर होय.

पुनः अम्लपित्तकी दवा.

चिरायता, नींब, त्रिफला, कडूपरवर. बाँसा, गिलोय, पित्तपापड़ा, भाँगरा इन्होंका काढ़ा बनाय शहद मिलाय पीनेसे अम्लपित्त नाश होय.

काढ़ा.

कटैली, गिलोय, वांसा इन्होंका काढ़ा बनाय पीनेसे श्वास, कास, ज्वर, छर्दि अम्लपित्त ये नाश होयँ

अथ लक्ष्मीविलास तेल.

इलाची, चंदन, रासना, लाख, कपूर कंकोल, नागर-मोथा, बलिया, दालचीनी, दारुहल्दी, पिपली, अगर तगर, जटामासी, कूट ये सब दवा सम भाग ले, और सब दवासे तिगुनी राल ले पीछे इन सबोंका डमरू-यंत्रसे तेल निकालि ले, इस तेलका शरीरमें मालिश करनेसे शिरसे पाँवतकके रोग हरै, और इस तेलके मालिश करनेसे राजाओंसे मुलाकात होती है.

हरताररस बनानेको फकीरकी बूटी.

स्नान करिके मंत्र जपके अच्छे दिन असगन्धको उखाड़ि लावे, उसकी लुगदीमें हरतार तबकी रखके मुलतानी मिट्टीसे कपड़मिटकरके सुखावे, फिर पाँचसेर बिनुवा कण्डोंमें फूँक देय, एक आँचमें भस्म सफेद होय, इस रसके खानेसे सर्वकुष्ठ जायँ लोकप्रसिद्ध होय और त्यागी भक्त मनुष्य फूँके.

शंखिया मारन विधि फकीरकी बताई हुई.

काला शंखिया५ तोले लेके दो सेर आकके दूधमें

खल कर सुखावै फिर कपरमिट करके ९ सेर बिनुवा कण्डोंमें फूंकिदे तो सफेद भस्म होय और शरीरभरके रोगोंको हरै. खुराक आधा रत्ती, पथ्य घी दूध मिश्री.

अथ मूत्रकृच्छ्रका लक्षण.

जांघ, पेट, लिंगमें पीड़ा होय और थोरा २ बार बार मूत्र उतरे तो वातसे जानना और यदि पीला, लाल और गरम मूत्र कष्टसे उतरे और बहुत पीड़ा से उतरे तो पित्तका जानना और यदि पेडू और लिंग दोनों भारी हों और दोनोंमें सूजन हो, मूत्रमें झाग आवै, मूत्र कष्टसे उतरै तो कफका जानो. कफमें बमन हित है, पित्तका होय तौ जुलाब दे और बातका होय तो बस्तिकर्म हित है.

काढ़ा.

गिलोय, सुंठि, आवला, असगन्ध, गोखुरू इन्होंका काढ़ा बनाय पीनेसे मूत्रकृच्छ्रको नाशै.

कुशकासादि काढ़ा.

कुश, कास, डाभ, शर, इष इन्होंका काढ़ा बनाय पीनेसे मूत्रकृच्छ्रको नाशै.

मूत्रकृच्छ्रकी दूसरी दवा.

ककडीके बीज, मुलहटी, दारुहरदी इन्होंके चूर्णको

चावलके धोवनके साथ पीनेसे मूत्रकृच्छ्र नाशै (अथवा) आँवलेका रस, दारुहरदी, शहद मिलाय पीनेसे नाश होय.

दुग्ध योग.

दूधमें गुड़ मिलाय थोरा गर्म करि पीनेसे सब प्रकारका मूत्रकृच्छ्र दूर होय.

यवाखार योग.

९ मासे मिश्री मिलाय यवाखार पीनेसे मूकृच्छ्र नाश होय. संशय नहीं.

गोखुरूका काढा बनाय यवाखार मिलाय खाने-से पुराना मूत्रकृच्छ्र दूर होय.

कुडाकी छालको गौके दूधमें पीसि पीनेसे भयंकर मूत्रकृच्छ्र नाश होय. अथवा ताकमें यवाखार मिलाय पीनेसे मूत्रकृच्छ्र नाश होय, अथवा सनायकी पत्ती ककड़ीके बीज मिलाय खानेसे मूत्रकृच्छ्र नाशै.

अथ चार प्रकारका मुञ्जिस.

उनाव विलायती ९ नग, संवरा ९ मासे, चिरायता ६मासे, गाजुबाँका पत्ता ९ मासे, सौंफकी जड ९मासे, मकोय सूखी ४ मासे, कासनीकी जड़ ९ मासे यह सब दवा मिलायके पावभर पानीमें शाम

को भिगोय दे. सबेरे चुरावै जब आधा रह जाय तो छानिके पिये इसी विधिसे सात रोज पिये पीछे जुलाब ले तो निरोग होय.

दूसरा मुन्‌जिस.

गाजुबांकी पत्ती ६ मासे, काली दाख ९ नग, गुलाबके फूल सूखे ९ मासे, मुलहटी पत्ती ६ मासे, सौंफकी जड ९ मासे, सनायकी पत्ती ३ मासे, अंजीरका छिलका ९ मासे, गुलकन्द २ तोले सब दवा तीन पाव पानीमें शामको भिगोयके सबेरे चुरावै जब आधा शेष रहै तो छानिके पिये तो शरीरभरेके रोगोंको नाशै. ९ दिन पीने के पीछे जुलाब दे.

तीसरा मुन्‌जिस.

कच्ची अथवा गीली सौंफ १ तोला, मकोय सूखी १ तोला, मुनक्का काला १९ नग, खतमीका बीज १ तोला तुख्म खब्बाजी १ तोला, गुलकन्द २ तोला मिलाय पानीमें शामको भिगोवै सबेरे चुरावै जब आधा सेर रहै तो छानके पिये, शरीरकी नस नसको फायदा करै.

चौथा मुन्‌जिस.

सनाय ६ मासे, गुलाबके फूल ६ मासे, लसोढ़ा सूखा ६ मासे, मुलहटी ६ मासे, कालादाना ६ मासे,

गाजबां ६ मासे, बनफशा ६ मासे, मुनक्का ७ नग, उन्नाब विलायती ५ नग, मिश्री २ तोला सब दवा एकमें मिलाय शामको भिगोय सबेरे एक सेर पानीमें चुरावे जब आधासेर रहे तौ छानिके पीनेसे शरीरभरेके रोगोंको नाशै.

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसाद शिष्य भक्त भगवानदास विरचित वैद्यक रसराज, महोदधि नव विष-नव उपविष शोधन, खानेके गुण, सातो धातु और सातो उपधातु मारन, खानेके गुण मूत्रकृच्छ्रके लक्षण, खानेकी दवा, अच्छी २ मुन्नजिस, शीत पित्तके लक्षण और खानेकी दवा, अम्ल पित्तका लक्षण और खानेकी दवा, लक्ष्मी विलासतेल, हरतारमारन, शंखियामारन नाम दूसरा खण्ड समाप्त।

अथ तीसरा खंड.

(उपदंश) फिरंगवायु-गरमीका वर्णन.

वेश्या स्त्री तथा रजस्वला तथा चंडालिनी स्त्रीके पास जानेसे गर्मी पैदा होती है तथा गर्मीवाला मनुष्य जिस जगह पेशाब करे उस जगहपर पेशाब करनेसे भी गरमी पैदा होती है और वात पित्त और कफके कोपसे फिरंग वायुरोग तीन रोजमें पैदा होता है.

अथ गर्मीका भेद.

गर्मीवाले मनुष्यको चाहिये कि छिपावे नहीं,इलाज बहुत जल्दी करै.बहुत मनुष्य शरमके सबबसे किसीसे कहते नहीं मूर्ख लोगोंकी दवा करते हैं दवा लगै तो अच्छा है,नहीं तो कोपकरके तमाम शरीरपर फैल जाती है.पीली पीली फुन्सी पैदा होती हैं और ज्यों ज्यों दिन बीतता है त्यों त्यों अधिक दुःख होता है, इन्द्रीपर घाव, शरीरपर कोढ़के समान चट्टा फैल जाते हैं और पेडूमें बद निकलती है,कुछ दिनमें शाना पकड़ लेता है, चलने फिरनेकी शक्ति नहीं रहती, असाध्य होजाता है, जीवनाश होजाता है इससे गर्मीवाले मनुष्यको चाहिये कि, शरम नहीं करै अच्छे उस्ताद या हकीमके पास जाके इलाज करै, जो हकीम बोले वही खावै, पथ्यसे रहै और कोई बुरी चीज न खाय न जीभकी चालाकी करै, तो दश दिनमें अच्छा होय और गर्मीकी निशानी तो तीन पुश्त तक रहती है.

अथ उपदंशका लक्षण.

ज्वर होय, भूख नहीं लगै, मुख काला पड़जाय, शरीरकी द्युति बदलजाय, झाड़ा, पेशाबमें कड़क होय. ये लक्षण उदंशके हैं.

अथ दवा देनेकी विधि.

उपदंशवाले मनुष्यको जुलाब देना, पीछे इन्द्रिय जुलाब देना और फिर घाव, बदशाना इत्यादिका इलाज करै.

अथ गर्मीका पहिला इलाज.

मकोईकी पत्ती, सनायकी पत्ती, सौंफ, मुनक्का, गुलाबके फूल, अमिलताश ये सब दवाई ले आधासेर पानीमें चुरावै जब पानी आधा रह जाय तब छानके गर्मीवाले मनुष्यको दे, इसी तरहसे तीन दिन देवे पीछे दूसरी दवा करे.

दूसरा इलाज.

शुद्ध जमालगोटा एक तोला, आंवला चार तोले इन दोनोंको कूटकर कपड़छान करके एक दिन नींबूके रसमें खल करे पीछे मिर्च बराबर गोली बाँधै तब ठंढ़े पनीके साथ एक गोली साँझ और एक सबेरे खानेको दे तो पन्द्रह दिनमें गर्मी दूर होय.

तीसरा इलाज.

शुद्ध शंखिया, अकरकरा, सफेद खैर, भृंगराज और सफेद सुपारी ये सब चीज छः २ मासे ले कपड़छान करके पानीमें खल करै फिर बाजराके समान गोली बाँधै, एक गोली साम और एक सबेरे पानीके

साथ खानेको दे तो गर्मी दूर होय. आठ दिनमें असाध्य रोग भी दूर करै,

अथ तेल बनानेकी विधि.

मिरचा हरा पाव भरि तिल्लीके आधे सेर तेलमें चुरावै जब मिरचा जरि जाय तब तेल मालिश करै तो गर्मी दूर होय,

अथ कड़क पेशाबकी दवा.

शुद्ध राल पावभर, मिश्री पावभर एकमें मिलायके कपड़छान करके एक तोला खानेको दे तो जितना पानी पीवै तितना पेशाब होय और दवा दिन भरमें तीन दफे करे तो कड़क पेशाब छूटै.

अथ इन्द्री जुलाबकी दवा.

गुलारमनी एक जातकी मिट्टी है उसको ९ मासे लेवे और ९ मासे कलमीसोरा दोनोंको एकमें मिलायके तीन सेर पानीमें मिलावै, पीछे रोगीको पीनेको दे तो जितना पानी पीवै तितना ही पेशाब बहुत खुलाशा होय.

शंखियाकी गोली गर्मीपर.

शुद्ध शंखिया एक तोला और पापरीखैर दो तोले एकसौ बँगलापानमें दो दिन खल करै तब बजरीके समान गोली बाँधकर एक गोली शामको और एक

सबेरे पानीके साथ खानेको देवै तो उपदंश दूर होय, पथ्य दूध भात और खट्टा,मीठा,तीता वैगरह त्याग करै.

पुनः दवा.

मदारकी लकड़ी जलाई हुई दो तोले, मिश्री दो तोले, दोनोंको मिलाकर छःमासे शाम व सबेरे खाय तो गर्मी आठ रोजमें दूर होय.

इन्द्रीका मलहम.

काली मेल दो तोले दश मासे, मेंहदीका बीज सात मासे, रूमीमस्तगी सात मासे, सुरंजन सात मासे, निसोत साढ़े सत्रह मासे, रोगन गुल तीन तोले, रोगन जितून पांच तोले, नीबूकी पत्ती एक तोले, बकरीकी चर्बी ग्यारह तोले मिलाकर मलहम तयार करै तब सब शरीर पर मालिश करै जिधर जिधर चट्टा हों उधर उधर करै तो बहुत जल्दी चट्टा, फुन्सी, घाव इत्यादिक दूर होयँ.

अथ इन्द्रीकी दवा.

काली मेल एक तोला, कबेला दो तोले, सफेदा दो तोले, प्युली दवा ६ मासे, मसका घी धोया हुआ छः तोले मिलाइके घावपर लगावै तो बहुत जल्दी घाव अच्छा होय, असाध्य हुआ आदमी अच्छा होय.

अथ टाँकी लेप.

मुर्दा संग १ पैसा भरि, राल एक पैसा भरि और घी चार तोले मिलायके मलहम तय्यार कर घावपर लगावे तो तुर्त टाँकी चट्टा अच्छा होय.

फिर लेप.

त्रिफला जलाया हुआ मधुमें मिलायके घावपर लेप करै तो बहुत दिनकी गर्मी अच्छी होय, घाव भरपूर होजाय, घावकी जगह पहिचानमें नहीं आवै.

अथ उपदंशकी हुक्का पीनेकी दवाई.

शिंगरफ, माजूफल, मदारकी जड़ और भृंगराज ये सब चीजें एक एक तोला लेकर एकमें खल करैं तब नवमासे चिलममें रखके खैरकी लकड़ीके अंगार धर पीवै तो सब तरहकी गर्मी दूर होय इसके बराबर दूसरी दवा नहीं है-

अथ गर्मीका हुक्का पीना.

इन्द्रायणकी पत्ती इन्द्रायणकी जड़, सोरा, भृंगराज ये सब मिलाके चिलममें रखके पीवें तो गरमी जाय.

अथ आककी गोली.

आककी जड़ एक तोला पाँच मासे, मिर्च ४ तोले दोनों एकमें खल करके छोटी मटरके बराबर गुड़में

गोली बाँधै और शाम सबेरे एक एक गोली खाय तो अच्छा होय.

अथ अरुशकी गोली.

अरुशकी जड़ दो तोले, मिर्च दो तोले मिलाके खल करके चना बराबर गोली बाँधकर शाम सबेरे एक २ गोली खाय तो बहुत जल्दी अच्छा होय.

अथ हुक्का पीना.

खुरासानी अजवायन ढाई मासे, शिंगरफ पांच मासे, नीलाथोथा दो रत्ती, अकरकरा पांच मासे, आककी जड़ दश मासे ये सब दवाई कूट कर बेरकी लकड़ीकी आगसे चिलमपर रखके पीवे तो बहुत जल्दी अच्छा होय फिरंगवायु जाय.

तथा.

कसौंजीकी जड़ व पत्ती एक तोला पाँच मासे, मिर्च ग्यारह मासे दोनोंको भांगके समान घोटि पीवे तो बहुत जल्दी अच्छा होय उपदंश जाय.

तथा.

शिंगरफ,अकरकरा,नीबका गोंद, माजूफल,सोहागा ये सब चीज एक एक तोला मिलाके चिलम पर रखके ऊपरसे अंगार रखके पीवे तो सब तरहकी गर्मी जाय इसमें संशय नहीं.

अथ घावको लेपन

जराया हुआ नीलाथोथा छःमासे और मोम एक तोला, घी दो तोला एकमें मिलाय गरम कर घावपर लेप करै तो उपदंश चट्टा फुन्सी सब दूर हों,

पुनः दूसरा लेप.

कडू तेल पाव भर, मोम पांच टंक, कवेला बारह टंक, सिंदूर दो टंक, शोरा दो टंक, मुरदाशंख दो टंक सब बारीक पीस घीमें मिलाके मलहम तैयार करे फिर जहाँ जख्म भया होय वहाँ लगावे तो बहुत जल्दी अच्छा होय.

अथ मलहम बनानेकी विधि.

सफेद राल छःमासे, रसकपूर छःमासे, गुलाबका तेल दो मासे सब एकमें मिलाके ११० दफे पानीसे धोवे तब घावपर लगावे तो सब प्रकारका जख्म दूर होय.

मलहम बनानेकी दूसरी विधि.

नेनू एक तोला लेकर एकसों दफे पानीमें धोवे फिर जख्म पर लगावे तो घाव फौरन् अच्छा होय.

अथ बदका लेप.

नागफनीका एक पट्टा लेकर उसको फाड़के आंबाहरदीका चूर्ण भरै फिर कपड़मिट करके अग्निमें भूँजिले तब बदपर बांधे तो बद तीन दिनमें

अच्छी होय (पुनः बदका लेप) तीसी कूटिके गर्म करि-
के बदपर बांधे तो बहुत जल्दी बैठ जाय. (पुनः लेप)
आंबाहरदी, तीसी, ईसबगोल, घीकुवारिका गोंद सब
दवा एकमें मिलाकर पीसके गर्म करके बदके ऊपर
बांधे तो बहुत जल्द बद अच्छी होय. (पुनःलेप)
आंबाहरदी, घरकारंडस, चूना, गुड सब बराबर पीस लेप
करै तो बद पकै फिर फूटिकै बहुत जल्दी अच्छी होय
(पुनःलेप) रेंडीके बीज, हर्र, रेंडीका तेल, सिरका
सब एकमें मिलाके गरम करके बदके ऊपर बांधे तो
जो थोडे दिनकी बद हुई होय तो बैठ जाय जो ज्या-
दह दिनकी होय तो पक फूटके बहुत जल्दी अच्छी
होय, इसमें संशय नहीं (पुनःबदपकानेका लेप) नीला-
थोथा ६ मासे, आंबाहरदी एक तोला, राल एक तोला,
गूगल ६ मासे, गुड एक तोला सब एकमें पीस गरम
कर बदपर बांधै तो बहुत जल्दी फूट जाय. (पुनःलेप)
मेथी, हरदी, रेंडीका तेल, मिलाकरके बदपर बांधे तो
बद बहुतजल्दी अच्छी होय (पुनः) मदारके पत्ता रेंडी-
का तेल लगाके बदपर गरम करके बांधै तो अच्छी
होय फिर धतूरके पत्तासे सेंक दे तो बहुतही गुण करै.

अथ साना गठियेका इलाज.

उसवाका माजून, गर्मीके चट्टा, फोड़ा, गठिया, म-

लीज खूनको दूर करता है. और नया खून पैदा करता है (दवा) उसबा मगरबी सात तोले, सनायकी पत्ती अढ़ाई तोले, सौंफ अढ़ाई तोले, विसपंज दो तोले, लाल चंदनका चूर्ण एक तोला, मिश्री सात तोले, शहद सात तोले, पहिले उसबाको एक सेर पानीमें चुरावे जब आधा पानी रहजाय तब मिश्री शहद डारिके चासनी करै पीछे कपड़छान करके चासनीमें मिलाके बरतनमें रक्खे. खुराक ६ मासेसे एक तोला तक. यह माजूम बहुत गुणकारी है.

दूसरी खानेकी दवा.

रेंडीकी एक दानाकी छाल निकालके एक दिन एक दाना, दूसरे दिन दो दाना. इसी तरहसे दररोज एक दाना बढ़ाताजाय जब सात दिन होयँ तो एक दाना कमती करता जाय. खाते खाते एक दाना अन्तमें रहजाय तब सब तरहका जोड़ा साना और गठिया दूर होय.

मालिशका तेल.

अलसीका तेल, तिल्लीका तेल, करू तेल ये सब तेल आधा आधा पाव लेकर और धतूरेके पत्ता, जड़ व फल फूल इनको कूटकर तेलमें चुरावै जब

दवाई जल जाय और तेल मात्र रहिजाय तब मालिश करै तो शरीरभरेका जोड़ा साना सब दूर होय.

तंबाकूका तेल.

तंबाकू आध सेर लेकर शामको डेढ सेर पानीमें भिगोय दे सबेरे पानी छानि एक सेर तिल्लीका तेल डालके मधुरी आँचसे चुरावै, जब पानी जलजाय तेल मात्र रह जाय तब मालिश करै तो गठिया जोड़ा साना वगैरह दूर होयँ.

२ तंबाकूका तेल

मालकाँगनी २ तोले, कायफल एक तोला, बकाइन १ तोला, सोंठि एक तोला, कतीरा १तोला, जायफल १ तोला,अकरकरा एक तोला, इलायची १तोला, लौंग १ तोला, हल्दी १ तोला, समुद्रखार १ तोला, कुचिला १ तोला, बदाम एक तोला, गरी १ तोला करंज १तोला, समोँर १ तोला, कुलंजन एक तोला, काला धतूर १तोला,मंदार १ तोला,सहिंजन १ तोला, गोम १ तोला, मकोय १ तोला, भृंगराज १ तोला, कडूतेल १ सेर,तिल्लीका तेल १ सेर,रेंडीका तेल आधा सेर पहिले यह सब दवा आठ सेर पानीमें चुरावै जब आधा पानी रहजाय तो छान कर तेल डालिके मधुरी आँचसे चुरावे जब सब पानी जलजाय तेल मतत्र रह

जाय तब मालिश करै, तो जोड़ा गँठिया साना दूर होयँ,गरमीके वातरोगको बहुत फायदा करता है,

अथ काढ़ा.

सौंफ, कासनीके बीज, मकाया, हंसराज, सौंफकी जड़, कासनीकी जड़, मुलहठी, बबूलके फूल सब मिलाकर पानी डालके काढ़ा करिके पीवे, तो जोड़ा साना गँठिया दूर होयँ, तथा पोस्ताके ढोढ़का काढ़ा गुण करता है.

गँठियाको चूर्ण.

सुरंजन दो तोले, सनाय २ तोले, हर्र एक तोला, निसोत सपेद दश मासे, बादाम दश मासे, मेहदीकी पत्ती सात मासे, केसरि चार मासे और सबके बराबर मिश्री मिलाकर कपड़छान करके दो तोले नित सबेरे फाँके तों जाेड़ा सानाको बहुत फायदा करता है.

अथ गोली गँठियापर.

एलवा दो तोला ग्यारह मासे, काबिली हर्र एक तोला दश मासे, शुद्ध निसोत सात मासे, सुरंजन सात मासे, शुद्ध गूगल सात मासे,सोंठ, चीता, राई, सेंधा-नोन, इन्द्रायणका गुज्झा, मजीठ एक २ तोला आठ२ मासे· अजवाइन, पीपल, कली मिरच, पौने दो

दो मासे, मिश्री चार मासे, सब कूट कपड़छान करिके पानीमें गोली बनाकर तादाद गोलीकी दश मासे, सबेरे एक गोली खाय तो दो दस्त आवैं गँठिया,जोडा,साना, गरमीके सब रोग दूर होयँ.

उपदंशका लेप.

कनेरकी जड़ पीसकर लेप करै तो असाध्य गर्मी दूर होय.

इति श्रीमुन्शी भगवान्प्रसाद शिष्य भगवानदास विरचित रस० उपदंश फिरगवायु पांच प्रकारकी गर्मी क्वाथ हुक्का तेलादिविधियत्नवर्णनं नाम तीसरा खंड समाप्त ॥ ३ ॥

चौथा खंड.

जवारीस हिन्दी.

कलेजकी गर्मीको तर करता है, कब्जियतको दूर करता है,भूखको लगाता है(दवा)लौंग सात मासे,बालछड़ साढ़े तीन मासे, अगर खाम साढ़े तेरह मासे, मिश्री तीन पाव, सवा छटाँक गुलाबका अर्क, आधा सेर पहिले गुलाबका अर्क और मिश्री दोनोंकी चासनी करे तब दवा कूटके कपड़छान करके चासनीमें मिलावे खुराक नौ मासे सबेरे.

जवारीस सहरान

कलेजेके दर्दको दूर करता है, पेट फूला होय तो उसको फायदा करता है, जिसको बहुत कड़क पेशाब होय उसको बहुत फायदा करता है (दवा) लौंग, दारचीनी, बालछड़, जायफल, दोनों इलायची, रूमी मस्तंगी. हुब बेलसा, सक मुनियां केसर ये सब दवा सोलह २ मासे ले, निसोत दो तोले चार मासे सब दवाके बराबर मिश्री लेना, शहद और मिश्री इन दोनोंकी चासनी करिलेय फिर दवा कपड़छान करके चासनीमें मिलाय देय, खुराक एक तोले सबेरे खावै.

अथ जवारीस तीसरी.

जवारीस जुलाब-पेटके गलीजको साफ करता है. (दवा) निसोत दो तोले ग्यारहमासे, सोंठि सत्रह मासे, मिश्री चार तोले चार मासे मिश्रीके चासनी करिकै दवा कूटके चासनीमें मिलाके तैय्यार करले खुराक एक तोला सबेरे खावै.

अथ जवारीस दूसरी

हिंदुस्तानी.

शरीरकी गाँठि गांठिको, पेट, शिरके दर्दको दूर करताहै (दवा) सक मुनिया दो तोले ग्यारह मासे, छोटी और बडी इलायची, दारचीनी, सोंठि,

तज, नागकेसर, लोंग, कालीमिरच सब दवा साडे सात २ मासे लेना. मिश्री २७ तोले ग्यारह मासे, आधा सेर मधु, मधु और मिश्रीकी चासनी करिके दवा कूटके चासनीमें मिलाके जवारीस तय्यार कर लेय खुराक एक तोला सबेरेके वक्त खावे.

अथ जवारीस जारीनोस.

बालछड, इलायची,सली, खाँदारचीनी,कुलिंजन, लौंग,नागरमोथा, सोंठि, कालीमिरच,पीपरि,कूट,दरियाई, अगर, कच्चा अस्सारून, मूलीके बीज, चिरैता, रूमीमस्तंगी सब दवा एक एक तोले ले नागकेसर छःमासे,मिश्री दश तोले, शहद आधा सेर,मिश्री और शहदकी चासनी करिके सब दवा कूट कपड़छान करिके चासनीमें मिलाके तय्यार कर लेवै खुराक नौ मासे सबेरे शाम खावै तो तमाम शरीरको ताकत देताहै शरदीको, कबजियतको, शिर कमरके दर्दको दूर करता है, सुस्तीको नाश करता है, मस्ती लाता है, बलगम,बवासीर, सेहुआं,दाद,चट्टा,खुजली इन सबको दूर करता है,कालेबालोंको सफेद नहीं होने देता है.

बरशा बनानेकी विधि.

सपेदमिर्च, अजवायन, खुरासानी पांच तोले ले केसर एक तोले साढे पांच मासे, वालछड तीन मासे

फरफिऊन तीन मासे, सब दवा कूट करिके कपड छानकर मधुमें मिलायके बरतनमें रख दे. यवमें छः महीनेतक गाड़ रक्खे पीछे निकाल कर तीन मासे सबेरे खाय तो सब रोग हरै.

बरश बनाने की दूसरी विधि.

काली मिर्च चार तोले, सफेद मिर्च चार तोले, खुरासानीअजवाइन चार तोले, उस्तु खुद्दुश एक तोला, पीली हर्र दो तोले, अफीम दो तोले, केसर एक तोला, फरफीऊन छः मासे, जटामासी छः मासे, अकर-करा छः मासे, सब एकमें मिलाके कूट कपड़छान करिके मधुकै चासनी करिके दवाई मिलाके बरश तय्यार करै खुराक तीन मासे सबेरे खाय तो एक महीनेमें सब रोग हरै.

अथ आनन्द दाता गोली.

जिसको पाँवसे शिरतक साना पकडे होय, चलने फिरनेकी शक्ति न होय उसकी (दवा) एलवा साढे चार मासे, निसोत सवा पांच मासे, कालादाना पौने दो मासे, गोरोचन पौने दो मासे. इन्द्रायनके फलका मगज छः रत्ती सवा दो चावल,अजमोदाके रसमें चना बराबर गोली बनावै इस गोलीका गुण कुछ वर्णन योग्य नहीं. खुराक एक गोली शामको एक सबेरे,

अथ आनन्दभैरव रस.

शुद्ध शिंगरफ, शुद्ध शंखिया विष. काली मिरच, पीपरि, शुद्धचौकिया सोहागा, सब बराबरिले कपड़ छान करिके दो दिन निम्बूके रसमें खल करै तब आनंदभैरव रस तय्यार होवै, खुराक आधा चावलसे एक चावलतक रोगीका बल देखके देवै. सब रोगोंको दूर करताहै. इसका गुण बहुत है लिखने योग्य नहीं.

अजीर्णकंटक रस.

शुद्ध शंखिया, शुद्ध चौकिया सोहागा, सैंधा निमक सब बराबर लेकर कूट कपड़छान करिके अदरखका रस पाव भरि, दही पाव भरि, निम्बूका रस एकसेर इन सब रसोंमें मिलाके खल करै तब दो रत्तीके बराबर गोली बाँधे. खुराक एक गोली शामको और एक सबेरे खाय तो वात रोग, अजीर्ण, पेटका फूलना दूर होय और सब प्रकारके उदर रोग दूर होयँ भूख बहुत लगै यह दवा अमृतके तुल्य है.

त्रिफलादि क्रिया.

त्रिफला एक सेर, मुलहटी एक सेर, दारचीनी एक सेर, महुआके फूल एक सेर, सब दवा कूट कपड़छान करिके दवाके बराबर मधु और मधुके बराबर घीमें मिलाके तीन दिन पीछे सोते समय खाय तो शरीर

पुष्ट हो और आँख, कान, नाक, मुँह, छाती, उदर रोग इत्यादि सब रोग दूर होयँ, बुद्धि बहुत होय, कितनी ही मेहनत करे तोभी बल घटे नहीं. बहुत दिन जीवै और अजर, अमर होय, कुछ दिन सेवे तो आँखोंके रोगको बहुत फायदा करता है.

राज मृगांक क्रिया.

मिरच छः मासे, घी छः मासे, तुलसीके पत्ते छः मासे एकमें मिलाके जो कोई कुछ दिन सेवे तो इस क्रियाके बराबर कोई दवा नहीं. यह दवा गरीब अमीर सबके वास्तें है.वात रोगको बहुत गुण करता है.

हर्रें खानेकी विधि.

ज्येष्ठ आषाढ़में हर्रें गुड़से खाय, सावन भादोंमें सेंधानमकसे खाय,कुवाँर कार्तिकमें मिश्रीसे खाय, अगहन पूसमें सोंठिसे खाय,माघ फाल्गुनमें पीपरिसे खाय, चैत वैशाखमें मधुसे खाय, (हर्रें खानेका गुण) जेठमें खाय खाँसी जाय, आषाढ़में खाय पेट साफ होय. सावनमें खाय तो आंखोंकी ज्योति बढ़े,भादोंमें खाय कूवत होय, कुवाँरमें खाय बाल काले होयँ, कार्तिकमें खाय सब रोग हरे, अगहनमें खाय तो मर्द होय, पूसमें खाय पुष्ट होय, माघमें खाय बुद्धि बढ़ै, फाल्गुनमें खाय तो बहुत देखैं, चैतमें खाय तो अक्ल बढ़ै

वैशाखमें खाय भूली बात याद हो, इसी विधिसे बारहों महीना खाय तो शरीरमें रोग नहीं व्यापै निरोग रहै.

काबुली हरोंका मुरब्बा.

एक सौ हरैं लेकर पानीमें डाल दे और थोड़ी सी अच्छी माटी लेकर इसी पानीमें डाल दे, ३ दिन पीछे चुरावै तब साफ करके मधुमें बारह दिन रक्खै, फिर दूसरी मधु लेकर दोनों मधुकी चासनी करके उसीमें हरैं डाल दे और फिर ये दवा डालै तज, लौंग, सोंठि, बडी इलायची, जायफल, रूमी मस्तंगी ये सब दवाई एक २ तोले दश २ मासे, कस्तूरी दो मासे, केसरि चारि मासे ले सब दवा मिलाके चालीस दिन पीछे खानेको देय खुराक एक तोले तमाम शरीरको ताकत देता है, दिवानगी दूर करता है, मस्ती लाता है, संग्रहणी, वात, शिर वादी ये सब रोगोंको दूर करता है, आंखोंकी ज्योति बढता है, शियतको दूर करताहै.

अथ आंवराका मुरब्बा.

अच्छे आँवरा एक सेर लेके एक दिन एक रात पानीमें भिगो दे फिर फिटकरीके पानीमें एक दिन भिगावै तब चूनाके पानीमें एक दिन भिगो पीछे चूनाके पानीसे अँवरा धो डालै तब आधा सेर मधु और

एक सेर मिश्री इन दोनोंकी चासनी करले और चासनीमें आँवरा डाल दे फिर दवा केवड़ाका अर्क एक तोला, गुलाबका अर्क एक तोला, कस्तूरी एक तोला. अगर एक तोला सब कूट कपड़छान करके चासनीमें मिला पन्द्रह दिन रक्खै पीछे खानेको देवे खुराक एक तोला. हड़के मुरब्बासे आँवराके मुरब्बेका गुण ज्यादा है सब रोगोंपर दे.

अथ गाजरका मुरब्बा.

अच्छा गाजर चार सेर लेकर उसका छाल छील कर दूर करै, फिर छोटे२ कतरा कर एक दिन पानीमें भिगोदे तब पानीसे निकाल दो सेर मधुमें चुरावे फिर दो सेर मधु लेवे दोनों मधुकी चासनी करै,उस चासनीमें गाजर छोड़ देवै, फिर सोठि, बालछड़, मिरच, बड़ी इलायची, रूमीमस्तंगी, पीपरि, कंफरके बीज यह सब दवा एक २ तोला ले कपड़छान करके मुरब्बामें मिलाय देवे. आठ दिन पीछे खुराक डेढ़ तोलादे मनीको बढ़ाता है.छाती व कमरके दर्दको दूर करता है, मन प्रसन्न करता है,कलेजेकी गर्मीको शान्त काता है, सब रोगोंको फायदा करता है.

अथ बचका मुरब्बा.

अच्छी बच दो सेर लेके पानीमें एक रात एक दिन

भिगोवै फिर दूसरे दिन डेढ़ सेर मधुकी चासनी करके बच डाल चुरावे आठ दिन पीछे खानेको देवै खुराक नौ मासे. लकवाको गुण करता है, पेट और छातीको ताकत देता है, सुस्ती दूर करता है, जो एक महीना खावै तो सब रोग दूर होवैं शरीर निरोग रहै मुरब्बा खाय तो खट्टा मीठा नहीं खावे स्त्रीसे बचा रहै.

अथ बेलका मुरब्बा.

अच्छा बेलका चार सेर मगज ले थोड़ा घी डाल पानीमें चुरावे तब मिश्री एक सेर, मधु दो सेर, मधु और मिश्रीकी चासनी करै फिर छड़ीला तीन मासे, वालछड़ पांच मासे, नागरमोथा चार मासे, जहर, मोहरा खताई दो मासे. जौहर कपूर दो मासे, इलायची तीन मासे सब दवा कूट कपड़छान करके चासनीमें मिला देवै चालीस दिन पीछे खानेको देवै खुराक एक तोला. संग्रहणीको दूर करता है, पेटके मुर्देको फायदा करता है, आंव और खूनी बवासीरको दूर करता है. आँखों व कलेजेकी गर्मीको दूर करता है. प्यास बुझाता है. यह मुरब्बा सब रोगोंको फायदा करता है.

अथ जुलाब लेनेकी विधि.

जिस रोगीको जुलाब देना हो उसको पहले नरम २ भोजन करावै. जैसे दूध, मिश्री और अच्छा भोजन करावै, जिसमें सब रोग दोष प्रगट होवैं. तब जुलाब देवै.जुलाब लेनेसे बुद्धि निर्मल होती है.इन्द्रियां प्रबल होती हैं. शरीरकी सुस्ती दूर होती है. और आंखकी ज्योति बहुत बढ़ती है. वात, पित्त,कफके, लोहूके, बिगड़ेको दूर करता है. खराब खूनको दूर करता है, नया खून पैदा करता है, सब रोगोंको दूर करता है.

जुलाब पहिला.

काला दाना थोड़ा भूनकर सनायकी पत्ती एक तोला. काली हर्र एक तोला लेकर खलमें खल करै तब चना बराबर गोली बनावै, एक गोली गर्म पानीके साथ खाय तो बहुत उत्तम जुलाब होय पथ्य-खिचडी, घी,स्नान नहीं करै और न सोवै.

जुलाब दूसरा.

शुद्ध जमालगोटा, कालादाना, गरी ये दवा एक २ तोला ले कूट कपड़छान करके अदरखके रसमें गोली बांधै, चना बराबर एक गोली गर्म पानीके साथ खाय तो बहुत उत्तम जुलाब होय पथ्य खिचड़ी घी.

जुलाब तीसरा.

शुद्ध जमालगोटा तीन मासा, सोंठि चार मासा, कतीरा गोंद तीन मासा एकमें मिलायके कूट कपड़छान करके खल करै, पीछे चना बराबर गोली बाँधे. एक गोली गरम पानीके साथ दे. ऊपरसे सौंफका पानी पीनेको देवै तो बहुत ही अच्छा जुलाब होय.

जुलाब चौथा इच्छाभेदी.

सोंठि, मिरच, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध सोहागा सब दवा छः मासे ले और शुद्ध जमालगोटा डेढ़ तोला लेकर पीछे एकमें सब दवा खल करै पीछे दो रत्तीकी गोली बांधै, एक गोली एक तोला मिश्रीके साथ खाय ऊपर जितनी अँजुरी गरम पानी पीवे उतना ही जुलाब होय इसका पथ्य चावल और ताक है.

जुलाब पाँचवाँ.

सनायकी पत्ती पच्चीस भरि, काला दाना पच्चीस भरि, गुड पच्चीस भरि, सोंठि पच्चीस भरि, शुद्ध जमालगोटा पच्चीस भरि, सब दवा एकमें मिलायके खल करै पश्चात् बड़ी मटरके बरावर गोली बाँधै, एक गोली चार मासे मिश्रीके साथ खाय, ऊपरसे गरम पानी पीवे तो जुलाब होय, पथ्य खिचडी, घी.

जुलाब छठवाँ.

सनायकी पत्ती, गुलाबके फूल, मुनक्का, कालादाना, अमलतासका मगज, सौंफ, काला नमक सब दवा एकमें खलकर जंगली बेरके बराबर गोली बांधै एक गोली गरम पानीके साथ खाय तो तीन जुलाब बहुत उत्तम होयँ पथ्य मूँगकी खिचडी.

अथ शिररोगकी दवा.

कसरि, मिश्री, घी तीनों बराबर दूधमें घिसके नास लेय तो शिररोग, अधकपारी (आधाशीशी), सूर्यवती, मुँहकी पीड़ा ये सब रोग दूर होयँ.

अथ शिरकी दूसरी दवा.

अदरखका रस, पीपरि, सेंधानमक, गुड़ ये सब दवा एकमें घिसके पानीके साथ नास लेय तो शिरके सब रोग दूर होयँ.

अथ शिरका लेप.

चौराई दो तोला, सोंठ एक तोला, मिरच छः मासे सब दवा एकमें पीस लेप करै तो शिरके सब रोग दूर होयँ.

शिररोगका दूसरा लेप.

रेंडीकी जड़, सोंठ, कूट सब दवा एकमें पीसके शिरपर लेप करै तो शिरके सब रोग दूर होयँ.

शिररोगपर खानेकी दवा.

त्रिफला, मिश्री, घी एकमें मिलाके एक तोला खाय तो शिररोग दूर होय, इति शिर रोगकी दवा समाप्त।

१ अथ कर्णरोगका इलाज.

जो कानकी पीडा बहुत होती होवै तो मूलीका रस पाव भर, मंदारके पत्तोंका रस पाव भर और पाव भर कडू तेल इन सब दवाइयोंको एकमें चुरावै और जब दवा जलजाय केवल तेल मात्र रह-जाय तब थोड़ाथोड़ा कानमें डालै तो कानकी पीड़ा और खाज दूर होय.

२ तथा.

कानके पीडा होने पर थोडासा समुद्रफेन कानमें डालै और फिर नीबूका रस डालै तो कानकी पीडा व शूल तुर्त हरै.

३ तथा.

सेहुँडके पत्ता और मन्दारके पत्ता दोनोंका रस निकालके गर्म कर कानमें छोडै तो कानकी सब पीडा दूर होय.

४ तथा.

सेंधा नमक, अदरखका रस, शहद, कडू तेल मिला कर गर्म कर कानमें छोडै तो कान अच्छे होयँ.

५ तथा.

जो कानमें पीब बहता होय और थोड़ा २ शब्द सुन पड़े तो सफेद दूबका रस ८ तोले, मूलीका रस ६ तोले, सेंधानमक १ तोला और तिल्लीका तेल पावभर इसमें सब दवाई डालके चुरावै जब दवा जल जाय तेलमात्र रह जाय तब कानमें डालै तो कानके सब रोग दूर होयँ.

१ अथ आंखोंका इलाज.

अगर आँखोंमें लाली छाई होय और पीडा करती होयँ तो आँवला, हर्र, बहेडा यह तीनों दवा एकमें मिलायके पानीमें भिगोय दे पश्चात चार घडी पीछे पानीमेंसे निकालकर आंखोंमें डाले तो आंखोंके सब रोग दूर होयँ.

२ तथा.

हड़ छोटी दो मासे, बहेडा दो मासे, आँवला दो मासे, मिरच एक मासा, दालचीनी दो मासे, पीपर एक मासा सेंधा व सांभरनमक एक एक मासा सब दवा एकमें मिलाकर खल करे पीछे कपड़छान करके नीबीके पत्तोंके रसमें एक दिन खरल करै फिर एक दिन काली मकोयके रसमें खल करके सुखायके गोली बांधिके सुखावे पीछे जुदे २ अनोपानसे आंखोंके सब

रोग हरै, ब्राह्मणी होय तो गायके मूत्रमें घिस सात रोज आंजे तौ सब रोग दूर होयँ, और फूली होय तो शहदमें घिस आंजै तो पन्द्रह दिनमें फूली अच्छी होय और नाखूनके वास्ते अदरखके रसमें घिसि आंजै तो अठारह दिनमें दुःख दूर होय, और जो कमती दीखता होय तो बासी पानीमें घिसिके आंजै तो बाईस दिनमें अच्छी होयँ.

३ तथा.

मैनशिल, जीरा, पीपरि, धमासा, मिश्री, सफेद नीबोल, सांपकी केचुल ये सब दवा बराबर लेकर कूट कपड़छान करके करेलीके रसकी तीन पुट दे पीछे भृंगराजके रसमें तीन पुट दे फिर खूब खल करके घुँघुची प्रमाण गोली बांध छायामें सुखावे, जो कोई नींबूके रसमें गोली घिसि एक आंखिमें आँजै तो एक अंगका ज्वर जाय और दोनों आँखोंमें आँजे तो शरीर भरेका ज्वर जाय और जो गूगलकी एक गोली-का धूप देय तो भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी लगी हौयँ तो सब छूटि जायँ.

४ तथा.

शुद्ध खपरिया, सेंधानोन, शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध सोहागा, सोंठि, मिरच, पीपरि, यह सब चीजें एकमें

मिलाके नींबूके रसमें चार पहर घोटे तब गोली बनाय छायामें सुखायके शहदमें आँजे तो सब तरहके नेत्ररोग दूर होयँ और फुनसी, फोड़ा, मांसका गलना, घूँघी, मोतियाबिंद आदि सब रोग दूर होय.

५ तथा.

जराया हुआ भेलावाँ एक, फिटकरी दो चना भर, अफीम एक चना भर, छः नींबूके रसमें खल करके छायामें सुखाय गोली बनाकर नींबूके रसमें घिसिके आंजै तो फूली, फेफरा, आंखोंसे पानी बहना ये सब दुःख दूरि होयँ.

६ तथा.

जेठी मधु, गेरू, सेंधानमक, दारुहल्दी, रसौत सब दवा बराबर लेके पानीमें एक दिन घोटै, पीछे मटर बराबर गोली बाँधै पश्चात् पानीके साथ घिसके पलक पर लेप करै तो सब तरहके नेत्ररोग दूर होयँ.

१ अथ नाकरोगकी दवा.

जो बहुत छींकें आती होयँ तो धनियांकी पत्ती सूंघै अथवा चंदन सूंघना गुण करता है.

२ नाकरोगकी खानेकी दवा.

सोंठि पपीर इलायची तीन २ मासा ले गुड़ सात

तोला एकमें मिलाके चार मासे खाय तो नाकके सब रोग दूर होयँ.

३ नाकरोगकी तीसरी दवा.

भृंगराजका रस पाव भर, तिल्लीका तेल पाव भर, सेंधानमक दो तोला सब एकमें मिलाके चुरावै जब पानी जर जाय तेल मात्र रहि जाय तब नास लेवै तो जो नाकमें चइली (पपरी) पडती होयँ वह न पडे और पीनस इत्यादि सम्पूर्ण नाकके रोग हरै.

अथ जीभरोगका इलाज.

जो जीभपर छोटे २ फोडे निकल आवैं और जीभ लाल लालहो जाय तो जानो यह रोग कलेजेकी गर्मीसे होता है (दवा) शीतलचीनी, वंशलोचन, रूमीमस्तगी, गुजराती इलायची, गुरुचको सत; पीपरि ,मिश्री ये सब दवा छः छः मासे ले कूट कपड़छान करके एक तोला माखनके साथ छः मासा दवा खाय तो जीभके सब रोग दूर होयँ.

अथ दांतरोगकी प्रथम दवा.

फिटकरी, हर्र, खट्टे अनारका छिलका, सेंधानमक सब दवा एकमें मिलाके कूट कपड़छान करके मंजन करै तो सब प्रकारकी दांतकी पीडा दूर होय; यदि दांत हिलते होयँ तो वज्र समान होयँ.

दाँतकी दूसरी दवा.

बालछड़ एक मासे, अकरकरा छः मासे. सेंधा नमक छः मासे, तूतियाकी भस्म एक मासा, सुपारी जराई हुई छः मासे, तुलसीकी पाती एक तोला, रूमी-मस्तगी एक तोला, कस्तूरी एक मासा, नागरमोथा एक मासा, जराई हुई तमाखू एक तोला, जराया हुआ बादाम एक तोला, काली मिर्च छः मासा ये सब दवा कूट कपड़छान करके मंजन करै, तौ दांतके सब रोग पीड़ा इत्यादिक दूर होयँ.

तथा.

जराई हुई सुपारी एक तोला, पीली हर्रकी छाल एक तोला, इन्द्रायनका मगज एक तोला, गुलाबके फूल एक तोला, गुलनार तीन मासा ये सब दवा कूट कपड़छान करके मंजन करै, तो दांतके सब रोग दूर होयँ. दांतकी पीड़ा तथा दाँतोंका हिलना, दांतमें कीड़ा पड़जाना इत्यादिक ये सब रोग दूर होयँ.

तथा.

खट्टे अनारके छिलके दो तोला ग्यारह मासे, शुद्ध फिटकरी दो तोला चार मासा, अकरकरा सात मासा, गुलाबके फूल सात मासा, माजूफल सात मासा

ये सब दवा कूट कपड़छान करके मंजन करै.तो दांत-की पीड़ा, कीड़ोंका पड़ना तथा हिलना मिटै और दांत मजबूत होयँ. कभी न हिलें, दांतके सब रोग दूर होयँ.

तथा.

काले दाँतोंको सफेद करता है, पीली हरडोंका छिलका दो तोला ग्यारह मासा, कालीमिर्च चौदह मासा, अनारका चूरण दश मासा, तेजपात सात मासा, माजूफल जलाया हुआ दो तोला चार मासा सब दवा कूट पकड़छान कर मंजन करै, तौ मुँह दांत पीड़ा इत्यादिक सब दूर होयँ.

अथ श्वास रोगका वर्णन.

जिन वस्तुओंके खानेसे हिचकी होती है;उनहीं पदार्थोंके खानेसे श्वास पैदा होता है, वह श्वास ५ प्रकारका है-महाश्वास १, ऊर्द्ध श्वास २, छिन्न श्वास ३, तमक श्वास ४, क्षुद्र श्वास ५.

अथ श्वास रोगकी पहिचान.

हिया कनपटी दूखै, शूल होय, अफरा होय, मल मूत्र नहीं उतरै और न मुखमें रसका स्वाद आवै तब जानिये श्वासरोग होगा । इस रोगकी शांतिके वास्ते ३ चांद्रायणव्रत कर ब्राह्मणोंको भोजन जिमावै और विष्णुसहस्र नामका पाठ कराय ब्राह्मणोंकी भ-

क्तिसे पूजा करै और सोना दान दे, तो श्वास शांति होय पीछे दवा करै.

अथ श्वासका लक्षण.

जब मनुष्य श्वाससे दुखी होय, तब मस्तबैलकी नाईं लम्बे २ श्वास निरंतर लेय, संज्ञा और ज्ञान नष्ट होजाय, नेत्र तरतराट करै और श्वास लेते मुँह कट व फट जाय, बोला नहीं जावै, गरीबसा होजाय और जिसका स्वर बहुतही दूर सुनाई देय, तो वैद्यको चाहिये कि इस श्वासवाले रोगीको असाध्य जान दवा न करै (पुनः) सर्व शरीरमें पीड़ा होय और पांचों पवनोंसे पीड़ित मनुष्य ठंढी २ श्वास लेवै अथवा दुःखित हो श्वास नहीं ले. अफारा हो शरीरका वर्ण और हो जाय तो असाध्य जानो.

अथ खांसी श्वासकी दवा.

बंग १ टंक, पीपल २ टंक, हरड़की बकली ३ टंक बहेड़ेका बक्कल ४ टंक, रूस की पाती ५ टंक, भारंगी ६ टंक इन सबको कूट कपड़छान कर बबूलके क्काथ में २ पुट दे पीछे शहद में २ पुट दे खरल कर झरबेरके बराबर गोली बाँधे १ गोली खाय तो श्वास, खांसी, क्षयी सब दूर होयँ.

शीतोपलादि चूर्ण.

मिश्री १६ तोले, वंशलोचन ८ तोले, पीपर ४ तोले, इलायची २ तोले; दालचीनी १ तोले इनका चूर्ण करके घृत शहद युत खावै तो कास, श्वास, क्षयी व हस्त पाद अंग की दाह, मन्दाग्नि, जीभका जकड़ना, पशुली शूलकी पीड़ा, अरुचि, ज्वर, ऊर्द्धगत रक्त विकार, पित्त इन सब रोगोंको नाशै शरीरकी रक्षा करै.

अथ खाँसी दमा श्वासकी दवा.

अकरकरा १ तोला, लटजीरा १ तोला, हींग १ तोला, पीपल १ तोला, चनाकी दाल भूँजी १ तोला, अफीम ६ मासे, लौंग ६ मासे सब दवा थोड़ी कूट ले फिर एक दिन मदारके दूधमें भिगोय रक्खै पीछे सैहुड़के गोजेका मगज निकालके उसमें दवा भरके मुँह बंद कर सात सेर कण्डोंमें फूंक देय जलने न पावै फिर निकाल खरल करि चना बराबर गोली बाँधि खाय तो सब तरह का दमा, खाँसी, श्वास, क्षयी दूर होय.

अथ हुचकीकी दवा.

आँवलाके रसमें पिपली, शहद मिलाय खानेसे हुचकी श्वास जावै ।

अथ श्वासरोगनाशक शुंठ्यादि चूर्ण.

कचूर, कमलकंद, गिलोय, दालचीनी, नागरमोथा, पुष्करमूल, तुलसी, भूमिआँवला, इलायची, पीपल, कालाअगर, सुंठि, भीमसेनी कपूर ये सब दवा समान ले चूर्ण बनाय दुगुनी खांड़ मिलाय खानेसे हिचकी श्वासको हरै.

अथ भारंगी गुड़ श्वास पर.

भारंगी १०० तोले, दशमूल १०० तोले, हड़-बड़ी १०० तोले ले १२०० तोले पानीमें दवा डाल चुरावै जब ३०० तोला शेष रहै तो कपडासे छान-के ४०० तोले गुड़ मिलाय फिर चुरावै, जब अवलेह होय जाय तब उतारिके ये दवा डाले, शहद २४ तोले, सोंठ ४ तोले, मिर्च ४ तोले, पीपल ४ तोले, दालचीनी ४ तोले, इलायची ४ तोले, तमालपत्र ४ तोले, यवा-खार २ तोले इनका चूर्ण कर मिलायके २ तोले खानेसे ५ प्रकारके श्वास, ५ प्रकारकी खांसी, बवासीर, अरुचि, गुल्म, अतीसार, क्षयीको हरै और स्वर, वर्ण अग्निको बढावै. यह भारंगीगुड़ संसारमें विख्यात है.

श्वास खांसी नाशक वसन्तराज रस।

त्रिकुटा, त्रिफला, लोहारस, कुटकी हर्र, अफीम, धतूरे के बीज, शुद्ध गुजराती इलायची, चिरायता, कपूर,

लौंग, जायफल इन सबको बूकि कपड़छान कर सहिं-जनेके रसमें ४ पहर घोटै यह वसन्तराज रस है. पाँच प्रकारके श्वास व पाँच प्रकारकी खांसीको नाश करै और स्वरभंगको दूर करै. इसका गुण बहुत है (पुनः) शुद्ध पारा ६ मासे, गन्धक ६ मासे, शुद्ध मैनशिल ६ मासे, मिर्च ६ मासे, पीपल ६ मासे सब कूट कपड़छान करिके पानीमें गोली बनाय खानेसे सब प्रकारके श्वास, खांसी नाश होयँ.

अथ दमा व खांसीका इलाज.

सेहुँड़के पत्तोंका रस, धतूरके पत्तोंका रस, मदारके पत्तोंका रस ले प्रथम सेहुँड़ व मदारके पत्तोंको अग्निपर गरम करिके रस निकाले, सबका रस पाव पाव भर लेवै, फिर अरूसके पत्ता डेढ़पाव, एक सेर दूधमें चुरावै, जब तीनभाग जलजाय एक भाग रहै तब छान लेवै फिर सब रस इकट्ठा करिके चुरावै जब रस गाढ़ा होजाय तब, पीपल,लौंग, सोहागा, छोटी इला-यची,अफीम, सोंठ ये सब दवा एक तोला ले कूट कपड़-छान करिके रसमें मिलाके चना बराबर गोली बाँधे खुराक एक गोली शामको और एक सबेरे खाय तो खोकला, खांसी, दमा इत्यादि सब रोग दूर होयँ.

तथा.

मिर्च, पीपल, सोंठ. इलायची चार २ तोला, गुड़ आठ तोला ले सबका एकमें चूर्ण बनायके सबेरे एक तोला खाय तो सब तरहका दमा, खांसी, खोकला, श्वास फूलना दूर होय.

तथा.

शंखकी खाक छः मासे, पानके बीड़ामें खाय तो खांसी दूर होय. मदार व धतूरके पत्ता एक २ सौ, काला नमक पावभर लेकर एक हंडीमें रखके फूंक देवै भस्म होनेपर अदरखके रसके साथ खाय तो खाँसी, दमा और खोकला इत्यादिक रोग दूर होयँ.

तथा.

शुद्ध शंखिया एक तोले, शुद्ध चौकिया सोहागा एक तोला, दोनोंको एकमें मिलाकर अदरखके रसमें एकदिन खरल करै फिर बजरीके समान गोली बांधकर दूधके साथ एक शाम और एक सबेरे खाय तो खाँसी, दमा, इत्यादि रोग दूर होयँ.

तथा.

शुद्ध कुचला सवा तोले, मन्दार और अरूसेके पत्ता एक २ सौ, साँभर नोन अढ़ाई तोला, पीपल अढ़ाई तोला, पीपरामूल अढ़ाई तोला, सोंठ सवादो

तोला, अजवाइन दो तोला, काली जीरी सवादो तोला ये सब दवा एक हंडीमें भरके गजपुटआँच दे जब भस्म होय तो चाररत्ती पानके साथ खाय तो श्वास, खाँसी, दमा इत्यादिक सब रोग दूर होयँ.

अथ उदररोगका वर्णन.

उदररोग ८ प्रकारका है सो लिखते हैं, मंदाग्निवालेके निश्चय होय और अजीर्णसे खराब वस्तुके खानेसे वात पित्त कफके कोपसे उदररोग उत्पन्न होता है सो अलग अलग लिखते हैं-वातका १, पित्तका २, कफका ३. सन्निपातका ४, प्लीहाका ५, मलबंधका ६. चोट लगनेका ७, जलोदर ८, ऐसे आठ प्रकारके हैं अब अलग २ लक्षण सुनो.

अथ वातोदर लक्षण, १

जिस पुरुषके हाथ पैर नाभिमें सूजन होय, कुक्षि पशुली कटि पीठी संधिमें पीड़ा होय और रूखा खांसे, शरीर भारी रहै, मल उतरै नहीं, शरीरकी खाल नख नेत्र काले पड़ जावैं, पेटमें पीड़ा और अफरा हो, पेट बोलाकरै ये लक्षण वातोदरके हैं.

अथ पित्तोदर लक्षण २.

ज्वर मूर्च्छा दाह तृषा होवै, मुख कडुवा हो, शिर घूमै, अतीसार हो, शरीरकी खाल पीली हरी होय

और पसीना आवै, डकार खराब आवै ये सब रोग होयँ तो पित्तोदरका लक्षण जानो.

अथ कफोदरका लक्षण ३.

जिसके शरीरमें पीड़ा होय और बहुत सोवै, शरीर-में सूजन हो, सब शरीर भारी रहै, हिया दूखे, भोजन-में अरुचि हो, देरमें पचै, शरीर ठंढा रहै, पेट बोला करै ये सब लक्षण कफोदरके हैं.

अथ सन्निपातोदरलक्षण ४.

खराब जिनसोंके खानेसे उदर में नानाप्रकारके रोग पैदा होते हैं. मूर्च्छा, मोह, पांडु, शोष, तृषा हो तो सन्निपातोदरका लक्षण जानो.

अथ प्लीहोदरका लक्षण ५.

गरम वस्तुके खाने पीनेसे दुष्ट रुधिरसे कफके जोरसे प्लीहाको बढ़ावै है, पीछे बढ़ा प्लीहा बाईं पसुली-में रोग और तिल्लीको उत्पन्न करै हैं; इस रोगमें मनुष्य पीड़ित होयके बहुत दुःख पाता है। मन्दाग्नि, जीर्णज्वर, कफ, पित्त उपजै, बल जाता रहै, शरीर पांडुवर्ण होजाय ये लक्षण प्लीहोदरके जानो.

अथ मलबंधसे यकृतोदर लक्षण.

दहिनी पासुके नीचे और नाभिके ऊपर मांस-का पिंडसरीखा बिकार उपजे तिसे यकृत रोग

कहते हैं, इस रोगको यकृत् गोलाका लक्षण जानो.

अथ छतोदरका लक्षण.

जो मनुष्य कच्चा अन्न खाय और बाल कंकड रेत धूलसे मिले हों, मलका संचय हो, कष्टसे थोरा मल उतरै, हृदय नाभि बढ़ जावै तिसको बद्धगुदोदर तथा छतोदर भी कहते हैं.

अथ जलोदरका लक्षण.

घृतको खाय, बस्ति कर्म कराय, जुलाब ले, वमन करके शीतल जलको पीवै, इससे जलकी बहने वाली नसें दूषित हो स्नेह करिके लिपी जलोदरको उत्पन्न करे हैं और उस शीतल जलसे उत्पन्न हुआ जलोदर नाभिके पास गोल और चीकना होय, पानी भरी मसकके समान बहुत बढ़े तब मनुष्य उससे बहुत दुःखी हो और उसका शरीर कांपै और पेट बारंबार बोलै ये लक्षण जलोदरके हैं, असाध्य जलोदररोगीको त्याग करे, और इस रोगवाले रोगीकी सँभारिकै दवा करे काहेसे कि इस रोगीका जीना कठिन है और रोगीको खराब चीजके खानेसे बचाये रहै. तीन महीनाके बाद थोरा अन्न दूधके साथ देय तो ६ महीना तथा एक वर्षमें जलोदर दूर होय.

अथ वातोदरकी दवा.

पीपल, सैंधानमक पीस एकमें मिलाय तक्रके साथ खाय तो वातोदर जाय.

पुनः दूसरी दवा, कुष्ठादि चूर्णं.

कूट, जयपाल, जवाखार, सोंठ, मिर्च, पीपल, सैंधालोन, मणियारीनमक, कालानमक, वच, जीरा, अजवायन, हींग, साजीखार, चीता, चाव इन्होंका चूर्ण करके गरम पानीके संग खानेसे वातोदर नाश होय.

अथ पित्तोदरकी दवा.

इस रोगमें बलवान पहिले दूधमें निसोतका कल्क और अरंडीका तेल मिलायके पिये तो पित्तोदर दूर होय.

दूसरी दवा.

निसोत व त्रिफलाका काढ़ा कर घृत डारि पीनेसे पित्तोदर नाश होय

अथ कफोदरकी दवा.

सोंठि, मिर्च, पीपल, नागरमोथा इन्होंका काढ़ा बनाय गोमूत्र और अरंडीका तेल मिलायके पीनेसे कफोदर दूर होय.

पुनः दूसरी दवा.

लोहचूर्ण, अरंडीका तेल दूधमें कुछ दिन पीनेसे कफोदर नाश होय.

अथ सन्निपातकी दवा.

हर्र निर्गुंडीका गोमूत्रमें कल्क बनाय खानेसे संपूर्ण उदररोग, तिल्ली, बवासीर, कृमि, गुल्मको नाश करै.

पुनः दूसरी दवा.

नागरादि तैल ६४ तोले, सोंठि ६४ तोले, त्रिफला ६४ तोले, घृत २५६ तोले, सबको एकमें मिलाय २ तोला दहीके संग खानेसे संपूर्ण उदररोग, कफोदर, कफगोला, वायुगोला नाश होयँ.

अथ प्लीहोदरकी दवा.

स्नेह (स्निग्ध) जुलाब तिल्लीमें हित है और बायें हाथकी कोहनीके अभ्यंतरवर्ती जो नाड़ी है तिसमें फस्त खोलानेसे यकृत रोग नाश होय और उस नसको अग्निसे दाग दे तो प्लीहा दूर होय, पीपलीमें शहद, तक्र मिलाय पीनेसे भी प्लीहा नाश होय, हुरहुरका पंचांग ८ तोला ले मिर्च ८ तोले मिलाय खल करके ६ मासेकी गोली बनाय शाम सबेरे खानेसे प्लीहा नाश होय और शुद्ध बच्छनाग चौकिया

सोहागामें खल करके पहिले दिन दो सरसोंसे बीस सरसों तक देइ रोगीका बल देखिके और आधासेर दूधके साथ सेवै तो सब उदररोग नाश होयँ, जैसे सिंह हाथीको मारै तैसे यह दवा उदररोगको मारती है.

अथ जलोदरकी दवा.

जलोदरमें बारंबार जुलाब दे जिससे मलविकार दूर होय अथवा काबुली हर्रोंका चूर सेंधानमक गोमूत्रमें पीनेसे जलोदर नाश होय, अथवा पीपलका चूर्ण थूहरके दूधमें भिगोय खानेसे जलोदर नाश होय, अथवा 'आनन्दभैरवरस' दूधके साथ कुछ दिन सेवनेसे जलोदर नाश होय, अथवा नीलाथोथा, गन्धक, पिप्पली हर्र सब बराबर ले कूट कपड़छान करि थूहरके दूधमें ९ दिन खल कर फिर अमिलतासके काढ़ामें ९ दिन खल करि १ मासा नित्य गरम पानीके संग खाय तो जलोदर तथा सम्पूर्ण उदरके रोग जायँ. पथ्य अधिक चावल ही खाय. इमलीका शर्बत पिये, ऊपरसे पानका बीरा खाय तो बहुत फायदा होय.

जलंधरवाले रोगीकी तस्बीर देखना इसी तरहसे पेट सूजता है. इस रोगीको बहुत सँभारना चाहिये. खट्टा, मिट्ठा और तीतासे बचना चाहिये और जलदीही दवा करे नहीं तो असाध्य हो जाता है सो पीछे बहुत दुःख देता है, सो दवा अच्छी२ लिखी है, दो दवा और लिखते

हैं. शुद्ध शंखिया १ तोला, रेवलचीनी ९ मासे, जदावर खटाई ९ मासे, अकरकरा ९ मासे, सफेद कत्था २ तोले सब दवा कूट कपड़छान करके अदरखके १ सेर भर रसमें खल कर मूँग बराबर गोली बाँधे. एक गोली खानेको दे तो रोग दूर होय (पुनः दवा) पीपल, मिरच, सोंठि, पांचोनोन, सोहागा, सज्जी सब दवा बराबर ले और दवाके बराबर जमालगोटा ले प्रथम दवाको कूटि कपड़छान करिके दात्वणीके रसमें ३ पुट दे फिर बिजौराके रसमें ३ पुट दे खरलकर छायामें सुखायके फिर आधा रत्ती रस खानेको दे तो उदररोग, प्लीहा, गोला, जलधर इत्यादि सब रोग हरे परन्तु ब्राह्मणको बुलाय प्रायश्चित्त पूजा पाठ जप करावै पीछे भोजन दान दे तो रोग शांति हो और सोनेका कलश व कुबेरकी मूर्ति बनाय पूजा करे तो पूर्व जन्मका पाप नाश होय रोगी जीवे.

अथ उदररोगका इलाज

वाईका फिसाद और कच्चा भोजन करनेसे उदरमें पीड़ा होती है (दवा) पानी गर्म कर नोन मिलाय पिलावै तथा उलटी करावै और जबतक भूख न लगे तबतक भोजन न देवै जब शरीर और पेट हलका हो जाय तब खानेको देवै तो सब दुःख दूर होय पीड़ा शांति होय.

अथ उदरका दूसरा इलाज.

सनायकी पत्ती, हड़, बहेडा, आँवला, कालानमक

सब बराबर लेकर कूट कपड़छान करके नींबूके रसमें गोली बाँध एक गोली शाम और एक सबेरे खाय तो पेटकी पीड़ा, वात, पित्त, कफ,संग्रहणी, आँवका परना, इत्यादि रोगोंको दूर करै. और आठ दिन सेवन करनेसे मनुष्य निरोग होजाता है. भूख बहुत लगती है और मन प्रसन्न होजाता है.

तथा.

सोंठिकी कतरी उदर व कलेजेकी पीड़ा तथा शर्दीको दूर करती है, अन्नको पचाती है. यदि अदरखके रसमें खिलावै तो दस्त बन्द होयँ, कबूजियत दूर होय.

दस्त बन्द करनेकी दवा.

हींग, जहरमोहरा खताई, मिरची, अफीम ये सब दवा बराबर ले खलमें खल करै फिर चना बराबर गोली बाँधै एक गोली नींबूके रसके साथ खाय तो संग्रहणी वातको शांति करै, सब प्रकारके उदररोग दूर होयँ.

तथा.

अफीम साढ़े तीन मासा, अकरकरा सात मासा, झाऊके फूल चौदह मासा, सामक चौदह मासा, डुबुलास चौदह मासा, लेके बबूरके गोंदके रसमें दो मासाके बराबर गोली बाँधै एक गोली खाय तो दस्त एक घंटामें बन्द होय.

तथा.

पीपर एक तोला, हड़ एक तोला, पाँचो नमक एक एक तोला यह सब दवा जम्हीरी नींबूके रसमें खल कर दो मासाके बराबर गोली बाँधै एक गोली खाय तो दस्त बन्द होय. अजीर्ण दूर होय, वायु शूल जलंधरादि रोगोंको बहुत गुणदायक है, वाईको पचाता है, भूँखको लगाता है.

अथ पाचककी गोली.

मन्दारके मुँह मुँदे फूल चार तोला, काली मिर्च चार तोला, कालानमक चार तोला, ये सब दवा एकमें मिलाके खल कर बेरके बराबर गोली बाँधै एक गोली शामको और एक सबेरे खाय तो शूल वायगोला इत्यादिक रोग दूर होयँ.

अथ संग्रहणीकी गोली.

शुद्ध सोहागा, शुद्ध सिंगरफ ये दोनों दो दो मासे अफीम चार मासे ले खल करके मिर्च बराबर गोली बाँधै, जो रातको दस्त बहुत होता होय तो शहदके साथ एक गोली खिलावै और जो दिनको दस्त होता होय तो एक एक गोली नींबूके रसके साथ खिलावै तो सब तरहकी संग्रहणी वायु दूर होय दस्तको रोके.

संग्रहणीकी दूसरी गोली.

कफके दस्तको बन्द करै, पाचक है, काली मिर्च

सोंठि, पीपर, लौंग, अकरकरा सब दवा साढ़े तीन २ मासे, अफीम सात मासे ले अदरखके रसमें चना बराबर गोली बांधे फिर एक गोली सांझ और एक सबेरे खानेको दे तो कफ दस्तसे उत्पन्न सब रोगोंको दूर करै.

अजीर्णका चूर्ण.

हड़, पीपरि, सोंचरनमक, वच, हींगबराबर२ले कपड़छानकरिके दो टंक पानीके साथ खाय तो अजीर्णजाय.

अजीर्णका दूसरा चूर्ण.

हींग एक टंक, बच २ टंक, बिड़नमक ३ टंक, सोंठि ४ टंक, जीरा ५ टंक, हड़ ६ टंक, पोहकर मूल ७ टंक, कूट ८ टंक ये सब दवा कपड़छान करिकै सात मासे गर्म पानीके साथ खाय तो अजीर्ण और मूर्च्छा, वायगोला इत्यादिक दूर होयँ.

अजीर्णका चूर्ण. (अग्निमुख)

हींग. बच, पीपरि, सोंठि, अजवाइन, चित्रक, कूट सब दवा बराबरि ले कपड़छान करिके छः मासे गर्म पानीके साथ खाय तो चारप्रकारका अजीर्ण, प्लीहा, कोढ़. खाज, खांसी, गोला, शूल, मन्दाग्नि जायँ.

कृमि रोगका चूर्ण.

वायविडंग, सेंधानमक, जवाखार, कसीला, हर्र सब बराबर ले कपड़छान करिकै गायकी छाँछमें दो टंक खाय तो कृमिरोग दूर होय.

पांडु रोगका इलाज.

त्रिकुटा, तज, बेरकी गुठुली, मिर्च, सोनामाखी ये सब दवा बराबरि ले कूट कपड़छान करिके शहदमें ४ टककी गोली बाँधै एक गोली सबेरे छाँछके साथ खाय तो पांडुरोग तथा उदररोग दूर होय.

वातका तीसरा चूर्ण.

त्रिफला, नागरमोथा, अतीस, कोरैयाकी छाल, सेंधानमक, हींग ये सब दवा बराबर लेकर कूट कपड़छान करके छः मासे गरम पानीके साथ खाय तो वातातीसार और पेटकी पीड़ा दूर होय.

अथ अतीसारकी दवा.

पीपलामूल, गजपीपर, पीपर, बेलगिरी, सोंठि, राल, शिलाजीत, चित्रक ये सब दवा बराबर ले कूट कपड़छान कर दो टंक खाय तो आमातीसार व वातातीसार इत्यादिक दूर होयँ.

पित्तातीसारकी दवा.

इन्द्रयव, बेलगिरी, अतीस और धौके फूल, रसौत, सोंठि, मुलहठी यह सब दवा पीसकर छानके चूर्ण बनावै जो यह चूर्ण ४ मासे साठीके चावलके साथ खाय तो उदरके सब रोग दूर होयँ.

अथ कफातीसारकी दवा.

कालानोन, सेंधानोन, हींग, हरैं, बच, अतीस ये सब

दवा बराबर लेकर कूट कपड़छान करके २ टंक गर्म पानीके साथ खाय तो सब तरहका उदररोग दूर हो.

अथ चौहारम चूर्ण.

सिहोरके पत्ता एक पैसा भर, बबूरके पत्ता एक पैसा भर, आंवलाके पत्ता एक पैसा भर, तुलसीके दल दो पैसा भर, सबके पत्ता सुखा लेवे फिर जवाखार एक पैसा भर, सज्जीखार एक पैसाभर और पांचोंनोन एक २ पैसा भर, पीपर डेढ़ पैसा भर, मिर्च डेढ पैसा भर, नागरमोथा डेढ़ पैसा भर, ये सब दवा कूट कपड़छान करके छःमासे चूर्ण पानीके साथ खाय तो हड़ज्वरी, वाय, पेटका फूलना, शूल दूर होय, भूख लगै सब प्रकारका उदररोग दूर होय.

अथ सुनबहरीकी दवा.

गुड़ पुराना एक सेर, नींबीके पत्ता एक सेर, नींबी-के फूल एक सेर, नींबीकी छाल एक सेर ये सब दवा एक घड़ामें भरके आधामन पानी डारके पन्द्रह दिनके पीछे खानेको दे खुराक एक तोला.खुरासानी अजवाइन के साथ और तिरसठदिन खाय तो सुनबहरी दूर होय.

अथ सुनबहरीका लेप.

काष्टक एक रत्ती ले पानीमें घोरि लेप करै तो सुनबहरी जाय.

अथ नामर्द अर्थात् वाजीकर्णका वर्णन.

वाजीकर्ण उसको कहते हैं जो पुरुष देखनेमें मोटा और पुष्ट होय पर नामर्द होय, नामर्द सात प्रकारके होते हैं उनकी उत्पत्ति लक्षण लिखते हैं.

(१) लौंडेबाजी तथा हथरस करना, कडुई वस्तु और अधिक खटाई खाना, गर्म, नोन खाना इन सब चीजोंको अधिक खानेसे आदमी नामर्द होजाते हैं. शोक और क्रोधके करनेसे भी बीर्यका नाश होता है. स्त्री धन पुत्र आदिके नाश होनेसे भी नपुंसक होते हैं. इन्द्रीमें नख लगनेसे तथा वात पित्त कफके कोपसे इन्द्रीकी नसें सूख जाती हैं वह पुरुष नपुंसक होजाता है, यदि इसका दिलचला और स्त्रीके पास गया तो काम नहीं होता और बुद्धि नष्ट होजाती है. बल जाता रहता है तब दशों इन्द्रियोंमें रोग पैदा होता है इसलिये इसके वास्ते बहुत अच्छी अजमाई हुई दवाई लिखते हैं.

अथ नामर्दकी दवा, सेंक.

हाथी और मछलीके दाँतका चूर्ण चार२तोले, लवंग ८ मासे, जायफल दो नग, जंगली प्याज एक नग ये सब दवा कूट कपड़ छान करके दो पोटरी बनावे तब भेड़का दूध १० तोले लेकर एक हंडीमें भरै और उसको परईसे ढांक मट्टीसे ताय आग पर रक्खे. परईके बीचमें एक छोटा छेद करै

तब जो वाफ पईके छेदसे निकले उसपर वह पोटरी रक्खै, जब पोटरी गर्म होय तो १ घंटा जघा और पेडूतक चार दिन सेंके ऊपरसे बँगलापान गर्म करके इन्द्री पर बाँधै और पानीसे नहाना त्याग करै.

सेंकके पीछे लेप.

सफेद कनेरकी जड़, जायफल, अफीम, इलायची गुजराती, सेमरके छिलका ये सब दवा छः२मासे लेकर कूटकर कपड़छान करके तिल्लीके १ तोला तेलमें मिलाय गर्म कर तीन दिन इन्द्रीपर लेप करै तो उसकी इन्द्रीमें जरूर जोर होगा पर परहेज ऐसा करना कि जिस तरह मुर्गी अपने अंडेको४०दिन प्रमाण सेवती है.

लेपके ऊपर खानेकी दवा.

नामर्द होनेसे आदमीकी धातु फट जाती है, सुजाक होजाता है, पीब बहने लगता है (दवा) मुसरी स्याह,असगंधनगौरी,गुलधवा,चना भूँजा हुआ,वेदसा सोंठि, उटंगनके बीज, गाजरके बीज, पोस्ताके फल, तालमखाना ये सब दवा एक २ तोला ले और सब दवाके बराबर मिश्री मिलायके एक तोला सबेरे खाय ऊपरसे आधा सेर दूध पीवै.

इसके खानेके पीछे दूसरी दवा खानेकी.

चिलगोजाके बीज, खसखस, सफेद स्याह मुसरी, कुलंजन, लवंग फुलवाली, सालममिश्री, जावित्री,

मोगली तालमखाना, छोटा बीजबन्ध, ब्रह्मदंडी, दालचीनी ये सब दवा चार चार तोले ले और काकंज ९ मासे ये सब दवा कूट कड़छान करके आधा सेर मधुमें मिलाय दो मासे शाम और दो मासे सबेरे खाय और परहेजसे रहे तो नामर्दी, नपुंसकी जाती रहे और अतुल बल होवे.

सेंक दूसरा.

बीरबहूटी, केंचुआ सूखा, असगंध नगौरी, जरबचोप, आंबाहलदी, भूँजा चना ये सब दवा छः २ मासे ले कूट कपड़छान करके गुलरोगन डारके खल कर दो पोटरी बनावे फिर चूल्हे पर तवा रख मधुरी आँचसे १ घंटा सेंके चार दिन तक सेंके ऊपरसे बँगला पान गर्म करके बाँधे नहाय नहीं.

सेंकके ऊपर लेप.

अकरकरा दक्षिणी, बीरबहूटी दो २ मासे और लवंग २० नग, बकराका गोश्त १० तोले ये सब दवा खल करके इन्द्रीकी मोटाई प्रमाने एक लकड़ी लेवे उसमें दवा लगावे जितनीबड़ी इन्द्री हो उतनी लकड़ी तक दवा लगावै और उस लकड़ीको आगपर सेंकै जब थोड़ा कड़ी होजाय तो लकड़ी परसे ज्योंका त्यों निकाल कर या आधे आधे फारके निकाल कर वैसे ही दवाई इन्द्रीपर चिपका देवे और पानीका परहेज रक्खे

घीकुवारि योग लेपके ऊपर.

घीकुवारिका गोझा, गेहूँका आटा, कपासके बीज, शक्कर, घी ये सब दवा एक २ सेर लेकर दवा कूटै फिर शक्करकी चासनी कर उपरोक्त दवा घीमें जुदी २ भूँज उसी चासनीमें छोड़ दे पीछे ये दवा और मिलावे. गोखुरू ५ तोले, पिस्ता ७ तोले, सफेद खोपड़ा ७ तोले, चिलगोजा ७ तोले, ये सब कूटके मिलायके योग तय्यार करै तब पाँच तोले सबेरे खाय और पीछे आधा सेर दूध पीवै परहेज खट्टा मीठा बचावै.

अथ नामर्दीके दूर करनेका तेल.

शेरकी चरबी, मालकांगनी, अकरकरा, बीरबहूटी, सोंठि, जावित्री, जहर, कुचिला, दालचीनी, लोहवान कौड़िया, लवंग, वच्छनाग, हरताल तबकी, जायफल, जमालगोटा, पारा, हाथीका दाँत, गंधक, अँवरासार, भटकटैया, घूँघची सफेद, केचुआ, सफेद कनेरकी जड़, खुरासानी अजवायन, पियाजका बीज, इसबन्द शंखिया सफेद, रेंड़ीका बीज, कालीजीरी ये सब दवा चार २ तोले और पाँच मुर्गीके अंडाकी सफेदी मिलायके अग्नि कांच सीसीमें भरके पाताल यँत्र से

तेल निकाल लेय और ६ मासे प्रमाण ४० दिन इन्द्री पर लेप करै. पानीसे न नहाय तो नामर्दी और नपुंसकी दूर होय और स्त्रीभोगकी शक्ति होवे.

यह पाताल यंत्र है.



इस यंत्रसे तेल निकाला जाता है.

१ अथ इन्द्रियका लेप.

लोहवान अच्छा १० टंक लेकर करौंदाके रसमें खल करै फिर चार तोले घीमें खलकर गोला बनाकर पातालयंत्रसे तेल निकालकर पहले इन्द्रियको हरदी

मले फिर तेलसे मलै, तब गरम गरम पानका पत्ता बाँधै, तो पन्द्रह दिनमें नामर्द मर्द होय.

२ लेप.

समुद्रफेन, देवदारु, हरदी, मुलहठी, शहद, सब बराबर ले गदहाके पेशाबमें घिस लेप करै, तो इन्द्रिय निश्चय बड़ी होय.

इन्द्रियका सेंक.

नगौरीअसगंध, केचुवा, बीरबहुटी, आंबाहरदी, भूँजाचना सब बराबर लेकर गुलाबका तेल मिलाय पोटरी बनाकर सेंकै, तो सब दुःख दूर होय.

१ दवा नामर्दकी.

गोखरू तीन टंक, स्याहतिल तीन टंक, दोनोंको कूट कपड़छान करके एकसेर दूधमें मिलाकर चुरावै, जब खोवा होजावै तब खाय। इसी विधिसे इक्कीस तथा बयालीस दिन खाय, तो नामर्द मर्द होय.

२ दवा दूसरी.

अकरकरा एक टंक, केसर दो टंक, जायफल तीन टंक, लौंग तीन टंक, सिंगरिफ छः टंक, अफीम दो टंक ये सब चीजें एकमें मिलाय बराबर खरल करके मधुमें चना बराबर गोली बाँधै शामको एक गोली खाय और ऊपरसे एक सेर औटाया हुआ दूध पीवै तो बंधेज होय.

बंधेजकी गोली.

केसर, लौंग, जावित्री, जायफल, खपरिया, अजमोदा, माजूफल, समुद्र शोष, मोटकी जड़, मस्तंगी, कुलंजन, अफीम, सिंगरिफ, बत्सनाग, कस्तूरी, कपूर, सब वस्तु बराबर लेकर कूट छान मधुमें गोली बाँधकर मटर सम छोटी गोली बनावै और एक गोली शामको खाय ऊपरसे एकसेर औटा दूध पीवै तो बंधेज होय.

१ नामर्दकी दवाई.

सफेद घुँघुची, खिरनीके बीज, लौंग सब पाव पाव भर लेकर कूटकर सीसीमें भरके पातालीयंत्रसे इसका तेल निकालके एक सींक निकालके पानमें खाय। ऊपर एक छटांक घी खाय और दो सींक खाय, तो दो छटांक घी खाय, तो नामर्द मर्द होय.

२ तथा.

तालमखाना ४ तोले और नगद बावची ४ तोले, इसबगोल ४ तोले और इमलीका चीया ४ तोले, बीजबंध ४ तोले, कौंचबीज ४ तोले, नागरमोथा ४ तोले बबूलका गोंद४ तोले ये सब चीजें एकमें मिलायके कूट कपड़छान करके घी ३६ तोले लेकर गुड़ पुराना अच्छा३६तोले लेकर एकमें मिलायके तीन दिन पीछे खाय परहेजसे रहे, तो २१ दिनमें पुष्ट होय मर्द होय.

छोहारा पाककी विधि.

छोहारा १० टंक, पिस्ता ४ टंक, जटामासी (बालछड़) २५ टंक, केबाँचके बीज २५ टंक, तेजपत्र २५ टंक, नागकेसर २५ टंक, बदाम ४ टंक, जायफल २५ टंक, दालचीनी २५ टंक, केसर २५ टंक, चब २५ टंक, सोंठ २५ टंक, कमलगट्टा २५ टंक, चिरौंजी २५ टंक. जावित्री २५ टंक, ये सब दवा ले कपड़छान करके तब ५ सेर दूधका खोवा करके खोवामें अढ़ाई सेर मिश्री और १६ तोले घी डालके तब सब दवा उसमें डालके अच्छी तरहसे मिलाकर अबरख रस, लोहारस, बंगरस ये रस एक एक तोले लेकर येभी उसी दवामें मिलावै और लड्डू बाँधके खाय तो पुष्ट होय. सौ स्त्रीसे भोग करै, बल न घटै.

सोंठपाक विधि.

सोंठ पाँच सेर लेकर चूर्ण करके गायका घी ५ सेर डालके भूँजिले फिर २५ सेर दूध औटावै। जब आधा रहजाय, तो चूर्ण डालके मिलावै जायफल ८ टंक, जावित्री ८ टंक, लौंग ८ टंक, त्रिफला २० टंक, जीरा दोनों १६ टंक, मिर्च ८ टंक, इलायची ८ टंक, नागरमोथा ८ टंक, भीमसेनी कफूर ४ मासे, छोहारा २० टंक, विदारीकंद ८ टंक सतावरी ८ टंक, लसोढ़ा

८ टंक,केसर ८ टंक,दालचीनी ८ टंक. सालम मिश्री ८ टंक, मस्तंगी ८ टंक, वंशलोचन ८ टंक,नारियलकी गिरी ८ टंक,बदामकी गिरी ८ टंक,चिलगोजे ८ टंक, पाषाणभेद ८ टंक ये सब दवा पीसकर मावामें मिलाके अबरखरस, बंगरस, सोनारस, चांदीरस, एक एक तोले डालके मिलाकर तीन तोले रोज सबेरे शामको खाय तो सुन्दररूप होय। शरीर शोभायमान होय और शरीरभरका रोग दूर होय, बल अतुल्य होय वीर्य चढै.

असगंध पाक विधि.

असगंध ४० तोले, सोंठ २० तोले;पीपर १० तोले, मिर्च ४ तोले, दालचीनी ४ तोले, इलायची ४ तोले, तमालपत्र ४ तोले, लौंग ४ तोले. ये सब दवा कूट कपड़छान करके दूध २०० तोले चुरावे। जब आधा दूध रहजाय तो मधु १०० तोले,मिश्री १२० तोले, गायका घी ५० तोले, ले चूर्णमें मिलायके अच्छी तरहसे रक्खै और पीपरी, जीरा, गिलोय, लौंग, तगर, जायफल,बाला,काला चन्दन,खिर्नी,कमलगट्टा, धनियां,धौकाफूल,वंशलोचन,आमला,कैथ,सोंठ,कपूर,असगंध,चीता,सतावरी ये सब दवा छःछःमासे लेकर कपड़छान कर मावामें मिलावै और पाक तय्यार करे. सोनारस, चांदीरस, अबरख रस. तांबारस, हरतालरस, सब

मिलायके खुराक दो तोले या तीन तोले खाय और एक महीना सेवन करै, तो खाँसी, श्वास, दमा, बीस परमा, अस्सी शूल, चौरासी वायु सब रोग हरै। शरीर फूलके समान होय और बल अतुल्य होय. पुष्ट होय, इसका गुण वर्णन करने योग्य नहीं है.

पुष्टाईका पाक.

बड़ा गोखरू,छोटा गोखरू,चिरैया कन्द,कामराज, मुसली सफेद, मुसली स्याह, सेमरका मुसरा, तालमखाना, फुलमखाना, नागौरीअसगंध, बीजबंध, गुरुचका सत, सफेद तुदरी,बड़ी इलायची, मिर्च, दालचीनी, कवचबीज दो २ तोले ले फिर दवा सफेद बहिमन, लालबहिमन, मस्तगी,शकाकुल मिश्री, सालममिश्री, उटंगन, सुरियाली तावाखीर, तेजबल, इमलीका बीज वंसलोचन, गुजराती इलायची, बेनउरका बीज, विही दाना,सब एक एक तोले ले बबूल गोंद पाव भर, गरी एक टंक,बदाम एक टंक,पिस्ता एक टंक, छोहारा एक टंक, किसमिस एक टंक, घी अढ़ाई पाव, मिश्री अढ़ाई सेरकी चासनी कर और सब दवा कपड़छान करके उनको घीमें भूंजि ले और चासनीमें मिलाके लड्डू बाँघे एक एक लड्डू खानेको दे और खट्टा मीठा तीता वर्जित रक्खै, परहेजसे रहे तो शरीर पुष्ट हो। शरीरका रोग सब दूर हो। गुण इसका बहुत है.

आंवला पाककी विधि.

अच्छा आँवला दो सेर सुखायके चूर्ण करै और फिर दो सेर आंवलाका रस निकालके चूर्णमें सुखायके तब एक सेर मधु, एक सेर घी और एक सेर मिश्री मिलायके, दो तोले रोज खाय तो सब रोग हरै। पुष्टाई होय. बल अतुल्य होय, सुवर्णके सरीखा शरीर होय.

नामर्दकी दवाई.

पारा शुद्ध १० मासे, चाँदीवरक ११ मासे लेकर भृंगराजके रसमें दो पहर खरल करै। तब एक तीतल लेआवै, एकदिन भूखा रक्खै, दूसरे दिन दवामें एक तोला गेहूंकी मैदा डालके तीतलको खिलावै। तब दिन दो पीछे तीतलको मारडाले। कलिया बनायके सिकारका मसाला डालके और घीमें तलै। मधुरी आँचसे चुरावै जब लाल हो जाय, तो एक बरतनमें रख दे और गेहूँकी रोटीके साथ खाय, तो तीन दिनमें नामर्द मर्द होय. और सब रोग हरै.

१ बीसपरमेकी दवाई.

अच्छी उरदी दश सेर लेके बीस सेर दूधमें सुखायके झुरावै कि फिर पीसके मैदा बनायके पावभर मैदा आधा पावघीमें भूँजे फिर एकसेर दूधमें हलुवा बनाकर मिश्री चारि तोले, इलायची छः मासे, लौंग छःमासे,

बंगरस एक रत्ती ये सब दवा डालके एक महीना खाय तो बीस परमा और सब रोग हरै.

२ तथा.

आंबाहलदी ४ तोले, आंवला ४ तोले. मिश्री ४ तोले, ये सब दवा कूट कपड़छान करके छःमासे खाय तो सब परमारोग दूर होय.

३ अथ सफेदपरमाकी दवाई

फिटकरीका रस ६ मासे,एक पके केलेमें बीस दिन खाय तो असाध्य परमा दूर होय.

४ अथ लाल परमाकी दवाई.

जसवंती और ककही दोनोंकी पाती आधे सेर पानीमें मलकर तीन तोले मिश्री डालके पीवै; तो लाल परमारोग दूर होय.

५ अथ पीले परमाकी दवाई.

इसबगोल पाव भर सामको भिगोकर सबेरे एक निंबू निचोड़े एक तोले छःमासे मिश्री डालके पीवै, तो ग्यारह दिनमें परमा दूर होय.

६ अथ मूत्रियापरमाकी दवाई.

सांठीकी जड़,सतावरी, गोखरू,खरेटी,तालमखाना असगंध सब दश दश टंक ले मिश्री और सांठीके

चावलका चूर्ण दश दश टंक और गायके घीके साथ ६ मासे दवाई खाय, तो मूत्रपरमा दूर होय.

७ परमाकी दवाई नोनिया क्षारकी.

हर्रै १० टंक, बहेडा १० टंक, आंवला १० टंक, आँबा हरदी १४ टंक, माजूफल १० टंक, मंजिष्ठ १० टंक ये सब दवा पीस छानकर ४ टंक शहदमें रोज खाय, तो नोनियां क्षार परमा दूर होय.

८ घृत परमाकी दवाई.

ग्वार पीस छानकर सात पुट गोभीके रसका देकर चूर्ण करै । जितना ग्वारका चूर्ण होय उतनी मिश्री डालके ५ टंक रोज खाय । पानीके साथ २१ दिन खाय तो घृतपरमा दूर होय.

९ बीस परमाकी दवाई.

लौंग, चित्रक, कूट, सफेद चदंन, नागरमोथा, खस, छोटी इलायची, अगर काला, वंशलोचन, असगंध, सतावरी, गोखरू, जायफल, गिलोय, निसोत, तगर, नागकेसर कमलगट्टा, इन सब दवाओंके बराबर मिश्री मिलाकर तीन टंक सबेरे खाय, तो बीसपरमा दूर होय.

१० बीस परमाकी चंद्रप्रभाकी गोली.

लोहासार तीनटंक, जायफल, लौंग, जावित्री, छोटी इलायची, अकरकरा, दालचीनी, त्रिकूट, केसर, चीत्ता

असगंध, नागौरी, सतावरि, गोखरू, यह सब दवा दो२ तोले ले और मिश्री ५० तोले लेकर सब दवा एकमें खल करके दो टंककी गोली बाँधकर एक गोली सामको और एक गोली सबेरे खाय तो बीस परमा दूर होयँ.

अथ गंधक योग.

शुद्धगंधक १ तोला गुड़के साथ खाय, ऊपरसे दूध पीवे, तो बीस परमा अठारह दिनमें दूर होयँ.

अथ शिलाजित योग.

शिलाजित मिश्री दूधके साथ खाय तो सब परमा २१ दिनमें दूर होयँ.

अथ अबरख योग.

अबरख रस, त्रिफला,हलदी एकमें मिलाय शहदके साथ खाय, तो १९ दिनमें सब परमा जायँ.

सल्यपाक.

दूधमें संभलकी छाल सोलह तोले मन्दी आगसे चुरावै इसके पीछे ६४ तोले गुड़ मिलाकर दाल चीनी, इलायची, तालपत्र, नागकेसर, लौंग,जायफल, नागरमोथा, वंशलोचन, धनियाँ, सोंठ, पीपल, मिर्च, असगंध, हरैं, लोहा भस्म सब दो दो तोले लेकर कूट कपड़छान करिके उस दवामें डालके पाक तयार करके एक तोला रोजीना खाय तो वीस परमा जायँ, वात-

दोष, हिध्र, सिररोग इत्यादि रोगोंको दूर करता है.

अथ बवासीरका लक्षण.

वात पित्त कफके कोपसे तीनोंके मिलनेपर एक खूँनी एक बादी यानी मांसवाली होती है और एक सहज अर्थात् जन्मके साथ ही उत्पन्न होती है. ये छे प्रकारकी बवासीर होती हैं. तीनों दोष त्वचा मांस वा मेदाको दूषित करके गुदा आदि स्थानोंमें मांसके अंकुर उत्पन्न करते हैं. बस उन्हीं मांसके अंकुरोंको बवासीर कहते हैं सो गुदहीमें नहीं वरन कभी कभी नाक नेत्र लिंग वा तोंदीमें भी मांसके अंकुर वा मस्से होजाते हैं ।

अथ बादी बवासीरका लक्षण.

जो हात, पैर, गुदा, मुख, वृषण, इतनी जगह शूल हो, पसलीमें शूल हो, खाज्ञ पीड़ा बहुत होय, गुदा भारी बहुत हो तो बवासीर रोग असाध्य है.

अथ खूनी बवासीरका लक्षण.

तृषा, अरुचि, गुदामें शूल, रुधिर चले, देह दुर्बल हो, अतिसार होय, खाज्ञ बहुत होय, गुदाके बीच मस्सा होयँ, ये लक्षण खूनीके हैं.

अथ बवासीरका इलाज.

कलमी सोरा, निसोत दोनों एकमें मिलायके

चना बराबर गोली बनावै। एक सबेरे एक सामको खाय तो सब बवासीरका रोग जाय। जो बादी होय तो फोरापर यह गोली घिसके लगावै तो खूनी बादी दोनों बवासीर दूर होयँ.

२ बवासीरका इलाज.

अच्छी सुर्ती, अच्छा चूना, अच्छा गुड़ मिलायके अग्निपर दवा रखके बादी बवासीरको धूवाँ दे तो दूर हो-

अथ खूनी बवासीरका इलाज.

नागकेसर मिश्री मिलायके बराबर दोनों मक्खन घीके साथ छःमासे साम छे मासे सवेर खाय तो दूर हो.

दवा दूसरी.

माखनके साथ काले तिल सबेरे एक तोले खाय तो बवासीर दूर होय.

अथ बवासीरका इलाज.

सूरनका भरता बनाकर दहीके साथ रोज खाय, तो रक्त बवासीर दूर होय.

अथ बवासीरकी गोली.

लहसुन, सज्जी, हींग, नीबोलीकी गिरी, बराबरले पाँच पाँच टक, गुड़ २० टंक, सब दवा एकमें मिलायके तीन

टंककी गोली बाँधकर एक सबेरे एक सामको खाय तो छःप्रकारकी बवासीर दूर होयँ.

२ बवासीरकी गोली.

संखिया६मासे, अँवरासार गन्धक एक तोला, हरताल १ तोला, हरैं १ तोला यह सब दवा एकमें मिलायके परईमें रखकर दूसरे परईसे ढाँपके कपड़मिट करके सुखायके चूल्हापर रखकर पन्द्रह मिनट आँच दे तब उतारकर दो तोले घी तावा पर रखकर दो पहर तक दवा डालके घोटै,फिर बाजरेकी बराबर गोली बाँध कर एक गोली नींबूके रसमें बवासीरके मसापर लगावै,तो बवासीरकी जड़ टूटै ६ प्रकारका बवासीर दूर होय। इस दवाके समान दूसरी दवा नहीं और इस दवासे जड़ टूटती है तथा भगन्दर दूर होता है.

अथ भगन्दररोगका वर्णन.

गुदासे दो अंगुलकी दूरपर बगलमें एक छोटासा फोड़ा होता है। वह पीड़ा बहुत करताहै। उसके फूटजानेसे भगन्दर होजाता है। वह भगन्दर पाँच सकारका होता है.

अथ भगन्दरका लक्षण.

कसैली व रूखी वस्तुओंके खानेसे वायु अति कुपित होकर गुदाके निकट एक छोटीसी फुड़िया कर-

ता है उसकी अपेक्षा करनेसे वह पकती और दारुण पीड़ा करती है. फूटनेपर उसमेंसे लाल फेना बहने लगता है और फिर बहुत घाव होजाते हैं।

अथ भगन्दररोगनाशक लेप.

हलदी, आकका दूध, सेंधानोन, चीता, शरपुंखी मजीठ, कूड़ा इन सब दवाओंको तेलमें सिद्ध कर भगन्दर पर लगावे तो शीघ्र अच्छा होवे.

पुनः लेप.

कूट, निसोत, तिल, जमालगोटेकी जड़, पीपल, सेंधानोन, शहद, हल्दी, त्रिफला, तूतिया मिलाय लेप करनेसे वह भगन्दरको नाशता है.

भगन्दर नाशक खानेकी दवा.

हर्र, बहेड़ा आँवला, पीपल, शुद्ध गूगुल ले कूट कपड़ छानकर २ टंक खानेसे भगन्दर रोग जाय.

पुनः दवा.

नागकेसर, पोस्ताकी गिरी दोनों दो दो टंक ले काढ़ा कर पीवै, तो भगन्दरको शीघ्र नाशै.

अथ आमवातके लक्षण.

अंग टूटै, अरुचि होय,तृषा लगै, शरीर भारी हो,

आलस्य आवै, ज्वर हो, अन्न पकै नहीं, अंगोंमें सूजन हो तो आमवात जानिये.

अथ मिश्रित आमवातके लक्षण.

कोपको प्राप्त हुआ आमवात सब रोगोंमें कष्ट-साध्य होता है. अब उसका दोष लिखते हैं. हाथ, पैर, शिर, गाँठ, त्रिकस्थान और जाँघोंकी संधियों (जोड़ों) में प्राप्त होकर बिच्छूके डंकके समान पीड़ा करै और किसी किसी स्थानमें सूजन हो, अग्नि मंद होजावे, उत्साह जाता रहै, अरुचि हो, शरीर भारी रहै, मुखका स्वाद जाता रहै, मूत्र बहुत उतरै, कुक्षिमें कठिन शूल हो, नींद नहीं आवै व वमन हो, तृषा अधिक लगै, भ्रम और मूर्च्छा हो, मल उतरै नहीं, शरीर जड़ होजाय, आंतैं बोला करैं, अफारा हो और वातव्याधिके कहे हुए और भी उपद्रव हों तथा जिसमें पित्त अधिक हो ऐसे आमवातमें दाह और पीलापन हो और वाताधिक आमवातमें शूल हो; कफाधिकमें जड़ता हो, शरीर भारी रहै, खरज चलै ये लक्षण जानो.

अथ आमवातकी दवा.

रास्ना, देवदारु, अमलतास, सोंठि, मिर्च, पीपल, अरंडकी जड़, सांठी, गिलोय इन के काढ़में सोंठका कल्क मिलाय पीनेसे आमवात जावै.

दूसरा काढ़ा.

रास्ना, गिलोय, सुंठि, अरंडकी जड, दारुहलदी इनका काढ़ा बनाय एरंडका तेल मिलाय पीनेसे आमवात जावै.

अथ अजमोदादि चूर्ण.

अजमोद, बायविड़ंग, सेंधानोन, देवदारु, चीता, पीपल, पीपलामूल, सौंफ़, मिर्च ये सब दवा दश दश मासे, छोटी हर्र ४ तोले, सुंठि ८ तोले, भिदारा ८ तोले यह सब दवा एकमें मिलाय कूट चूर्ण कर गरम पानीके संग लेनेसे सूजा हुआ तथा पीड़ा सहित सब तरहका आमवात दूर होय। गुड़में गोली बाँधिके खाय तो सब शरीरकी पीड़ा और सूजन दूर होय.

अरंडीका योग.

अरंडीके बीजोंका तुष दूर करके दूधमें खीर बनाय खानेसे आमवात दूर होय.

पुनः हरीतकी योग.

हरोंके चूर्णमें अरंडीका तेल मिलाय पीनेसे सब तर का आमवात नाश होय.

पुनः आमवातका इलाज.

त्रिफला, नागरमोथा, कूट, वायविडंग यह सब दवा बराबर ले कूटके चूर्ण कर गिलोयके रसमें एक२टंक-

की गोली बाँधकर एक सबेरे और एक शामको खाय तो कमलबाय आमवात दूर होय.

अथ प्लीहा रोगका इलाज.

शुद्ध सिंगिया, शुद्ध सोहागा दोनों अदरखके रसमें खरल करके बजरीके एक दानाके बराबर खाय तो प्लीहा, वायुगोलादि उदरके सब रोग दूर होयँ.

अथ सर्व उदररोगनाशक चूर्ण.

हर्र, बहेड़ा, आँवला, मिर्च, पीपर, सोंठ, दोनों जीरे, पाँचों नमक, जवाखार, झाऊके पत्ते, फिटकरी, अजवाइन, चिरायता, लौंग ये सब दवा बराबर ले कपड़छान करके नींबूके रसकी एक पुट देकर इनका छः मासे चूर्ण खाय, तो सब उदर रोग दूर होयँ.

तथा.

हींग, पीपलामूल, धनियाँ, चीत, वच, बड़ा कचूर, अमिलतास, पाँचों नमक, सोंठ, मिर्च, पीपल, सज्जीखार, जवाखार, अनारकी छाल, जीरा, तुलसी सब बराबर ले कपड़छान करके ६ मासे रोज खाय तो सब प्रकारके उदर रोग दूर होयँ.

अथ स्त्रीरोगका इलाज.

स्त्रीको जो खून गिरता होय, तो जीराशंख शुद्ध लेकर उसमें मिश्री मिलाके छः मासे खिलावे तो खून बंद होय.

वातके प्रदर रोगकी दवा.

सोंचरनोन. जीरा सफेद, जेठीमधु, कमलगट्टा इन सबका चूर्ण कर शहदके साथ खाय, तो प्रदररोग शान्तहो और पित्तको गुण करता है.

सब प्रकारके प्रदररोगका इलाज.

मुलहठी आढ़ई टंक, चौराईकी जड़का रस दो टंक दोनोंको शहदमें मिलायके पीवै, तो सब प्रकारका प्रदर रोग दूर होय.

१ स्त्रीधर्म होनेका इलाज.

काले तिल, सोंठ, पीपल, मिर्च, भारंगी, गुड़ सब दवा बराबर ले काढ़ा बनाय बीस रोज तक पीवै, तो सब रोग दूर होयँ, धर्म होय, पुत्र निश्चय होय.

२ तथा.

बिजौरा नींबूके बीज पीसकर जिस गऊके बछवा पैदा हुआ होय, उसके दूधके साथ पीवै, तो निसन्देह पुत्र होय.

३ तथा.

नागकेसर, बछवावाली गायके दूधके साथ पीवै, तो बाँझिनीके पुत्र होय.

वेश्यास्त्रीको गर्भ न रहनेका इलाज.

पीपल, वायविडंग,सोहागा बराबर पीसकर ऋतुके समय स्त्री ९ दिन जलसे पीवै, तो कभी गर्भ न रहै.

२ गर्भ न रहनेका इलाज.

पलाशके बीज जरायके उसकी राख और हींग दोनों मिलाय दूधमें पीवै, तो गर्भ न रहै.

१ गर्भिणी स्त्रीका यत्न.

मुलहठी, लाल चंदन, खश, गौरीशर, कमलगट्टे-की जड़, मिश्री ये दवा बराबर लेकर काढ़ा बनाकर पीवै, तो गर्भिणी स्त्रीका ज्वर दूर होय.

२ तथा.

धनियेके कल्कमें मिश्री डालके और पुराने चावलका धोवन मिलायके पीवै, तो उलटी और ज्वर दूर होय.

३ तथा.

कुशकी जड़, कांसकी जड़, दूबकी जड़, तीनोंका काढ़ा बना कर पीवै, तो मूत्र उतरै प्रसूत होय.

गर्भिणी स्त्रीका लक्षण.

गर्भिणी स्त्री सात महीनाके बाद दस्तावर वस्तु नहीं खावै और डरकी बातों,तथा भयंकर शब्दसे बची रहै।पर दो महीनाके व्यतीत होते ही, पुरुषको त्याग करना चाहिये और अधिक खाना नहीं खावे. खराब

चीजसे बची रहे, अजीर्णसे डरती रहे। गर्भिनी स्त्रीको गोली न देवै न मारै और न किसी बातका त्रास देवै जो देवने गहना व कपड़ा घरमें दिया होय, उनको देना और जिस देवताका दर्शन चाहे, सो कराना, मनुष्यको चाहिये कि जिस चीजपर गर्भिनीका चित्त चले वही जहाँ तक बनपड़े देवे।

जो लड़का जल्दी न होवे उसकी दवाई.

गायका दूध आधा पाव और पानी पावभर मिलायके स्त्रीको पिलावै, तो तुरंत लड़का पैदा होवे कष्ट न होवै तथा चक्रव्यूह कागजपर बनाकर दिखाना चाहिये और कोई चीज सुंगधित सोवरमें न जानी चाहिये.

बालककी दवाई.

जो बालकको कोई रोग हो तो खानेकी दवाई एकमासासे ज्यादा न देवै।जब बालक चार बरससे ऊपर हो तब दवाई बढ़ाना चाहिये। बालकको घी मिश्री शहद मिलाकर पिलावै तो जो कोई रोग हो दूर हो। जो बालक चूंची न पीवै और बारंबार रोवै, तो यह दवा दे। सेंधानमक, घी, मिश्री एकमें मिलाकर बालकको देवै, तो रोग शांत होवै,अथवा पीपल, अतीस,ककड़ासिंगी, नागरमोथा यह सब सम भागले कपड़छानकर

मधुके साथ बालकके खानेको देवै तो शरदी, ज्वर, अतीसार, खाँसी सब दूर हों और वंशलोचन शहदके साथ बालकको दे, तो खाँसी दूर होय-अथवा मुलहटी, वंशलोचन,धानकी खील, रसवत एकमें मिलाय कूटके कपड़छान करके खिलावै, तो सब ज्वर दूर होय, और जो दवाई मर्दके हरएक रोगपर दीजाती हैं. वही बालकको देवै (बालकके पलईका लेप) नारियलकी जटा, आंबाहलदी, दोनोंजीरे ये सब पदार्थ समभाग ले कूट कपड़छान करके घी और पानी डालके चुरावै। फिर पतला लेप करै, तुर्त अच्छा होवे।

इति श्री मुन्शी भगवानप्रसाद शिष्य भगत भगवानदास विरचित वैद्यक रसराजमहोदधिमध्ये जवारीस, हिन्दी गोली. आनन्दभैरव रस, अजीर्णकंटक रस, त्रिफलादि क्रिया, राजमृगांक क्रिया, बारहों महीना हर्र खानेकी विधि,सब तरहका मुरब्बा बनाना, जुलाबकी बिधि, शिर और कान, आँख, दाँत, नाक, व खाँसी, दमा, श्वाँस, उदररोग, संग्रहणी, अजीर्ण, कृमिरोग, पांडुरोग, वातातिसार, सुनबहरी, नामर्दपना,परमा, बवासीर, भगंदर, आमवात, स्त्रीरोग बालकरोगादि नाशके अनेक प्रकारकी हिक्मत व इलाज वर्णन नाम चौथा खंड समाप्त ॥

अथ पाण्डुरोगका वर्णन.

प्रथम पाण्डुरोग पाँच प्रकारका उपजै है। जैसे वातका, पित्तका, कफका, सन्निपातका, मिट्टीखानेका, खेद करने, खटाई खाने, दिनके शयन, तीखी वस्तु खाने या ये सब वस्तु घनी खाने और वात पित्त कफके कोपसे मनुष्यका लोहू बिगड़के शरीरकी त्वचाको पीली कर देता है, शरीरमें पीड़ा और सूजन होजाता है.

वातपाण्डुका लक्षण.

जिसकी त्वचा, मूत्र, नेत्र रूखे तथा काले वा लाल होयँ और शरीरमें कम्प हो, अफारा हो, भ्रमादिक हो, ये लक्षण हों, तो वातका पाण्डुरोग जानो ।

पित्तपाण्डुका लक्षण.

जिसका मल मूत्र नेत्र पीले हों, शरीरमें दाह हो, तृषा ज्वर हो और मल पतला हो, शरीर पीला हो ये लक्षण पाण्डुरोगके जानो.

कफपाण्डुका लक्षण.

मुखसे थूक निकले, शरीरमें सूजन हो, तन्द्रा हो, आलस्य आवे, शरीर भारी हो, त्वचा, नेत्र, मूत्र सफेद रंगका होय तो कफका पाण्डुरोग जानो.

अथ सन्निपातपाण्डुका लक्षण.

ज्वर हो, अरुचि हो, हिया दूखै, छर्दि (कय) होवे,

प्यास होवे, इन्द्रियोंका बल जाता रहे ऐसे त्रिदोषके पांडु रोगीको त्यागना वैद्योंको योग्य है.

अथ मिट्टीखानेसे उपजे पाण्डुका लक्षण.

वातादिक अलग अलग कोप करते हैं जैसे कसैली मिट्टीके खानेसे वायु कोप करता है। खारीके खानेसे पित्त, सफेद मिट्टी खानेसे कफ कुपित होता है। फिर वह खाई हुई मिट्टी पेटमें जैसीकी तैसी रहती है और कोप करके सारे शरीरकी इन्द्रियोंको क्लेश देती है। पेटमें कृमि पड़ जाते हैं। वात पित्त कफके कोपसे पाण्डुरोग बढ़े है, यही लक्षण पांडुका जानो.

अथ वातपांडुकी दवा.

शुद्ध मंडूर २०० तोले, लोहेके टुकड़े तिल सरीखे २०० तोला, पुराना गुड़ २९२ तोले, जलवेत ८ तोले, चीता ८ तोले, पीपल १६ तोले, बायविड़ंग १६ तोले, हड़ ६४ तोले, बहेड़ा ६४ तोले, आमला ६४ तोले, पानी १०२४ तोले इनको बर्त्तनमें डाल १५ दिन तक अन्नके कोठामें धरै। पीछे रोगीका बल देख विचारिके देय. तो पांडुको नाशै और कृमि, बवासीर, कुष्ठ, कास, श्वास, व कफके रोगोंको नाशै व पाँचो प्रकारके पांरोडुगको हरै.

अथ पित्तपांडुकी दवा.

आँवलेका रस १०२४ तोले मन्द मन्द अग्निसे चुरावे, फिर ये दवा डाले पिपली ६४ तोले, मुलहटी ८ तोले, मुनक्का ६४ तोले, सुंठी ८ तोले, वंशलोचन ८ तोले, खाँड़ २०० तोले, शहद६४तोले सब मिलाय खानेसे पांडुरोगको एसे नाशै जैसे हाथीको शेर नाशै.

अथ कफपांडुकी दवा.

दशमूल, सोंठ इनका काढ़ा बनाकर पीनेसे पाडुको नाशै, ज्वर,अतिसार, सूजन, संग्रहणी, कास, अरुचि, कंठके रोगोंको किन्तु सब रोगोंको दूर करै.

पुनः मंडूर लवण.

लोहेकी कीटको अग्निमें लाल करके गोमूत्रमें बीस-बार बुझावे फिर सेंधानोन मिलाय खल करै पीछे बहे-ड़के रसमें पाँच दिन घोटै तत्पश्चात रोगीका बल देखकर तक्रके साथ खानेको दे, पांडुरोग दूर होय.

अथ सन्निपातपांडुकी दवा.

हड़ १ भाग,बहेड़ा १ भाग, आमला १ भाग, सोंठ१ भाग, मिर्च १ भाग, पीपल १ भाग, चीता १ भाग, बायविड़ग १ भाग, शिलाजीत ९ भाग, चाँदीकी भस्म ९ भाग, मंडूर ९ भाग, लोहकी भस्म ८ भाग,

सोनामाखी ८ भाग इनको कूट चूर्ण कर शहद मिलाय लोहके बर्त्तनमें डाल दे पीछे १ तोला रोज खावै, अग्निका बल देखिकै और परहेजसे रहे तो पांडु रोग, विष, कास, श्वास, क्षयी, राजयक्ष्मा, विषमज्वर, पेटके रोग, प्रमेह, सूजन, अरुचि, मृगीरोग इत्यादि शरीरके सारे रोगोंको नाशै.

पुनः पाडुकी दवा.

सोंठ, मिर्च, पीपली, हड़, बहेड़ा, आँवला, नागरमोथा, वायविड़ंग, चीता ये सब दवा समभाग ले और लोहचूर्ण ८ भागले इनको कूट चूर्ण कर घृत शहदमें मिलाय खानेसे असाध्य पांडुरोगको नाशै, और सब शरीरके सारे रोग दूर होयँ.

पांड़ुनाशक अमृतहरीतकी.

सतावर २८ तोले, भृंगराज २८ तोले, सोंठ २८ तोले, कुरंटक २८ तोले, इनका चूर्ण कर ४४८ तोले पानीमें चुरावै। जब २८तोले रहै तब कपड़ामें छान पीछे हड़ १४४० तोले, दूध १२० तोले मिलाय पकावै पीछे हड़ोंको चीरिके बीज निकाल दूर करे फिर पारा गन्धकका रस बनाय पीछे गिलोयका चूर्ण २८ तोले शहदमें मिलाय गोली१४६० नग बाँधे

पीछे एक एक गोली एक एक हड़में भर सूतसे बाँध शहदमें डाल बर्तनमें रक्खे फिर एक गोली रोज खाय,तो पांडुरोग नाश होय और सम्पूर्ण रोगोंको हरै शरीरकी रक्षा करै इस दवाका गुण लिखने योग्य नहीं.

गजकर्णकी दवाई.

फिटकरी, मुर्दाशंख, मैनशिल, माजूफल, पलाशपापड़ी ये सब दवा समभाग ले कूट कपड़छान कर नींबूके रसमें खरल करके गजकर्ण पर लगावैतो अच्छा होय.

२ तथा.

सफेद चन्दनका चूर्ण एक तोला, आँवलासार गंधक एक तोला,जलाया हुआ नीलाथोथा आधा तोला,मैनशिल आधा तोला, कलमी सोरा आधा तोला, चौकिया सोहागा एक तोला,बनारसी राई आठ तोले, सब कपड़छान करके नींबूके रसमें एक दिन खरल करै तो दाद, खुजली, गजकर्ण इत्यादि रोग दूर होयँ.

फोरी फोरा नाशक मलहम.

संगजराव दो तोले, सिंदूर दो तोले, मुर्दाशंख चार तोले,रक्तबोल चार तोले, गूगल दो तोले, सब कूटके तिलका तेल दो तोले, घी चार तोले सब एकमें मिलाकर अंगारपर रखके मलहम तय्यार करले, सब जखमोंको दूर करै.

२ मलहम.

राल दो तोले, कपूर दो तोले, नीलाथोथाकी भस्म एक तोला, मोम दो तोले, सेंदुर एक तोला, केवला एक तोला, सफेदा एक तोला सब कपड़छान करके घीमें मिलाकर मलहम तय्यार करे. इससे असाध्य भी जख्म अच्छा होवे और सब तरहके फोड़े फुन्सी अच्छे होवें.

सब दर्दपर लेप.

आंबा हलदी दो तोला, पियाज दो तोला, शहद दो तोला, चूना एक तोला, गुड़ एक तोला, सीका चूरण दो तोला, सब दवा एकमें मिलाकर गर्मकरके जहाँ दर्द होय तहाँ लगावे और ऊपरसे रुई लिपटावे, सब दर्द दूर होय.

पेटकी पीड़ाका लेप.

दोनों जीरे, बबूना, आंबाहलदी, रेंडीका तेल ये सब मिलाकर गेहूँकी रोटी बनायके उसपर दवाई लगाके गर्म करके दर्दपर लगावे तो अच्छा होय.

असाध्य रोगियोंकी छातीपर.
कफ रहनेका लेप.

बनारसी राई, आंबाहलदी, महुएके फूल सब बराबर ले कर चुराय छाती पर लेप करै.

खाँसी दमा नाशकवटी.

बदामका तेल नवमासे, मधु तीन तोला, तीसीकी आठ तोला ये सब मिलाकर खावै खुराक छः मासे.

तेल बनानेकी विधि.

मंदार, धतूर, थूहर, सेहुंड, मेहँदी, अडूसेकी पत्ती, एरंडकी जड़, मेवड़ीकी पत्ती, सहिंजन सबका रस पाव पावभर, सोंठि, पीपल, रसवत, अजमोदा, कुलिंजन, कलियारी, सोवा, पीपलामूल, चिरायता सब दो दो तोले ले, मेथी बारह तोले, लहसुन बीस तोले इन सब दवाइयोंको तीनसेर पानीमें जोश दे जब आधा पानी रहै तो उपरोक्त रस डालके तिलका तेल आधासेर, कडूतेल १सेर, रेंड़ीका तेल आधासेर सब अर्क डालके मधुरी आँचसे चुरावे जब पानी जल जाय, तब बीस भेलावां छोड़े जब भेलावां भी जल जाय, तब तेल ठंढाकर सीसीमें रख दे, वात, जोड़ा, साना, गठिया इत्यादि सब तरहका दर्द मालिश करनेसे जाय.

अथ जीवनारायण तेल.

दश सेर तिलका तेल, दश सेर कडुवा तेल, दशसेर बकरीका दूध, दश सेर गायका दूध, शतावरीका रस दशसेर, हड़, आँवला, गिलोय, बेलका मगज, दोनों गोखरू, भटकटइआ, जीवंती, मुलहठी, दोनों अरंड, महामुंडी, मुंडी, जायफल, निसवत, इंद्रायन, चिरायता, नाम, बकाइन, मैनफल, सम्भालू, वरियारी, रासना, सहिंजन, गदापुरैना, मेडुकी, गुलसकरी. फफई, गंधपसारन, असगंध, कटसरैया, कुश, करंज, खैर, चन्दन, बच, विजैसार, रेड, वरुना, दोनों इलाइची, बच बड़ी.

कुटकी, दोनों सिरसा, चिचिरी, रूस, हैंस, जामुन, कचनार, कैथा, किरवारा, दूधिया, विधारा, दरिमा, निर्गुंडी, जसापुरैया, पुष्करमूल, तज, पीपल, गजहर्ण, गूलार, नागफणी, घीकुवारी, चम्बेली, खस, वेरी, कुलथी, केवाँच, मन्दार, गुर्च, सेहुड, केतकी, कलियारी, पलास, चितावारि, बड़, पाकरि, टेकारि, मुसली, हंसपदी, थूहर, धतूर, दात्यून, असगंध ये सब दोदो तोले ले सब चीजमें दो मन पानी छोड़कर चुरावे जब एकमन पानी रहजाय, नब दूध तेल डालके सब एकमें चुरावै, जब तेल मात्र रहजाय, तब सीसीमें उठायके रक्खै, इस तेलके मालिश से शरीरके सर्व रोग दूर होयँ इसका गुण अपार है वर्णन करने योग्य नहीं है.

१ अंडकोषसूजेका इलाज.

वायविड़ंग, कुन्दर, पुरानी ईंट, तीन तीन नोले लेकर कपड़छान करके चार मासे घीके साथ खाय जो पहले उलटी हो तो अंड़ अपनी जगहपर चला जाय.

२ इलाज.

दूध और रेंडीका तेल मिलाके कुछ दिन पिये तो असाध्य अंडकोष दूर होय, अथवा पलाश व जमीकन्दका चूर्ण करके इक्कीसदिन खाय तो अंडकोष दूर होय, अथवा आँबाहलदी, रेंड़ीकी जड़, व फल व तेल मेथी चारों दवा बराबर लेकर गर्म करके लेप करै तो अंडकोष अच्छा होय.

३ इलाज-लेप.

टैसूके फूल, आंबाहलदी, खुरासानी, अजवाइन तीनों बराबर ले पीसे फिर गर्मकर लेप करै, तो अंडकोष जाय. अथवा असगन्ध, जसवंतीकी पत्ती, रेंडीका मगज तीनों कूट करके गर्मकर लेप करै तो अंडकोष जाय अब एक तंत्र लिखते हैं जिससे अंडकोष दूर होय.

अथ अंडकोषनाशक तंत्रकी विधि.

जिस मनुष्यका अंड बाईं ओरका फूला होय तो दहिनी ओरकी गुट्टीके चार अंगुल नीचे एक रस्सी बाँधै, इक्कीस रोजके भीतर पैरमें गुट्टीके नीचे एक नस निकलैगी, उस नसको अग्निमुखीके तेलसे दागै। दूसरे दिन वह नस सूज आवेगी, तब उसपर थोड़ा घी लगाय दे। फिर वहाँसे पानी निकलना आपही आप शुरू होगा तब उस नसपर खोपड़ा जरायकेलगावै, तो अच्छी होय, असाध्य रोग या बीस वर्षसे ऊपरका हो, तोभी अच्छा होय। पर प्रथम चार मासे बूकके खानेको देवै.

अथ साँपके काटेकी दवाई.

सफेद मिर्च, सफेद मंदारकी भस्म, नीलाथोथा ये तीनों बराबर खरल करके मासे मासे भरकी गोली बाँधै फिर, पानीके साथ एकगोली खानेको देवै तो जहर दूर होय.

सांपकाटेकानास.

कच्चा नीलाथोथा, आककी जड़ दोनों बराबर लेकर

चूर्ण करके नाकमें छःछः मासे भरै. फिर एक फूकनी लेकर फूँकै, तो तुर्त छींट होय, आध घंटेमें वह आदमी अच्छा होय, अथवा जमालगोटा शुद्ध मटर बराबर खिलावे, तो जहर दूर होय, अथवा कसौंजोंकी जड़ पीसकर पिलावे और कसौंजीके बीज घिसके आंखोंमें लगावे व पियाज खिलावै तो जहर दूर होय. अथवा एक चूहा मारके उसका पेट फाड़ जहाँ साँपने काटा होय वहां रखदे तो जहर दूर होय.

बिच्छूके काटनेकी दवाई.

अधझड़ाका रस जहाँ बिच्छू डंक मारे वहाँ घिस कर लगाव। फिर उसकी अढ़ाई पत्ती गुड़में मिलायके खाय, तो जहर दूर होय अथवा नौसादर, कलीका चूना, सोहागा एकमें मलके सूँघे, तो जहर दूर होय अथवा इन्द्रायनकी जड़, जायफल, हरताल तीनोको घिसके लगावे तो जहर दूर होय.

अथ बावले कुत्तके काटनेकी दवाई.

दोनों जीरा, कालीमिर्च पीसके एक महीने तक पिलावै, तो सब जहर दूर होय अथवा पियाज कूटके शहदके साथ लेप करे, तो जहर दूर होय जो अंगपर बड़े बड़े चकत्ते, कोढके समान पड़जावै, तो आँबलासार गंधक छःमासे, जमालगोटा छःमासे, नीलाथोथा छः मासे तीनोंको बूकके लोनी घीमें डालके ताँबके बर्तनमें एकसै एक दफे पानीसे धोवै फिर सबशरीरमें लेप

करके १ प्रहर अग्निमें तापै आंख कान अर्थात् गलेके ऊपर न लगावै और तापनेसे शरीरमें बजरीसे दाने सब जगह पड़जायँ तो दूसरे दिन गोबरसे धो डालै निरोग्य होय.

अथ नोकरससाना असाध्यरोगकी दवा.

साम्पुरोमी सात मासे, जीरा करमनी सात मासे, सफेद मिर्च सात मासे, छोटी पीपल सात मासे, बैरका मगज सात मासे, दालचीनी मोटी साढ़ेतीन मासे, सोंठ चौदह मासे, फरफीऊन चौदहमासे, रूमीमस्तंगी पौनेदो तोले, सुरंजन जंगली जिसको सिंघारा भी कहते हैं, पांच तोले इन सबका चूरण कर साम्पुके रसमें गोली बांधे सात मासे जीराके अर्कके साथ खाना बहुत गुणकारक है.

१ महजूम सांदेकी.

सुरंजन तीनतोले, सनायके पत्ते १७ मासे, तगर सात मासे, सोंठ७ मासे, जीरा करमनी ७ मासे, पीपरी ७ मासे सब दवा कूट कपड़छान करके दवाके बराबर मधु लेके एकमें मिला महजूम तय्यार करै खुराक नौ मासे गर्म पानीके साथ खाय तो सबप्रकारका दर्द दूर होय.

२ महजूम.

केसर, अकरकरा, अजवाइन, खुरासानी, फरफिऊन. कुलिंजन, इलायची बडी, पीपरी, यह सब दवा ले कपड़छानकरके मधुमें मिलाय महजूम तय्यार करै खुराक६ मासे. वीर्यको बढ़ाता, सुस्ती को दूरकरता और शरीरको मजबूत करताहै, तथा सब तरहके रोगोंको दूर करता है.

बंधेजकी दवा.

अफीम, मिश्री, जायफल, लौंग, कस्तूरी, केसर, कालीमिच, सोंठ, ताज यह सब दवा कूट कपड़छान कर तथा मधुमें खल कर पौने दो मासेकी गोली बाँधै खुराक एक गोली शाम और एक सबेरें खाय तो पन्द्रह दिनके पीछे शरीर पुष्ट होय बंधेज भी निश्चय होवे.

गर्मी-उपदंश तीन दिनमें आरोग्य करनेकी दवा.

भृंगराज छः तोले, मिर्चा दो तोले मिलाके खरलमें एक दिन पीसता रहै फिर जंगली बेरकी बराबर गोली बांधै. एक गोली सांझ और एक गोली सबेरे खाय तो सब प्रकारकी फिरंगवायु तथा उपदंश गर्मी दूर होय.

तिजारीकी दवा.

नीमकी अढ़ाई पत्ती गुडके साथ खाय तो ताप, नाहरू, तिजारी, दाह दूर होय.

सर्व रोगनाशक दवा.

सोंठ, सोहागा, सिंगरिफ, सेंधानमक, वायविड़ंग, हलदी, मिर्च, हींग, चित्रक, चीता, जमालगोटा ये सब दवा समभाग ले कूट कपड़छान कर दो रत्तीके बराबर गोली बाँध एक शाम और एक सबेरे ठंढ़े पानीके साथ खाय, तो कफ, खाँसी, और चौरासी प्रकारकी बायु पन्द्रह दिनमें जाय तथा सब रोग दूर होयँ ।

हूकका इलाज.

चनेका खार एक मटर बराबर और चार चने भर गुड़ले एकमें मिलायके शामको खाय, सबेरे चंगा होय.

सब प्रकारका ज्वरनाशक चूर्ण.

नीमकी जड़, फल, फूल, पत्ती तथा छाल बारह टंक, सोंठ नौ टंक, मिर्च तीन टंक, पीपरी तीन टंक, त्रिफला (हड़ बहेड़ा आमला) नौ टंक, सोचर नमक तीन टंक, अजवाइन तीन टंक, जवाखार तीन टंक, ये सब दवा कूट कपड़छान कर दो टंक गरम पानीके साथ खाय तो शीतज्वर, नित्यज्वर, दाहज्वर, एकान्तरा, बेला, तिजारी, चौथियाज्वर इत्यादि सब प्रकारके ज्वर नाश हों.

तिजारीज्वरनाशक काढ़ा.

छड़, नागरमोथा, केसर, कुटकी, पटोलपत्र ये सब दवा बराबर ले काढ़ा बनायकर पीवै तो ज्वर जाय.

चौथियाज्वरका काढ़ा.

अरूसकी जड़, आँवला, सोंठ, देवदारु ये सब दवा सम भाग ले काढ़ा बनायकर पीवै, तो चौथियाज्वर दूर होय.

२ तथा.

लालचंदन, सोंठ, चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, गिलोय, आंवला सब बराबर लेकर काढ़ा करके पीवे, तो चौथियाज्वर दूर होय.

रोग दोष दूर होनेका उपाय.

आक अरंडी फूल मँगावे। पुनि तापर सेंदूरलगावे॥ गूगुल धूप देय अति चायन। मंत्रराज यह करिकै गायन॥ ॐ श्रीं ह्रीं फट्स्वाहा॥ रोगीके शिरसे उतार कर बाँये कोनेमें गाड़े,तो संपूर्ण रोगोंके दोष मिटजावें.

घावके झारनेका मंत्र.

राम मारै पेढुकी, लछिमन ओढ़ घाव.
फूलै औ न पाकै दरै सूखि जाव॥

अथ मंत्र बेरवा घिनहीं जहरबात थन इलगोहियाका इलाज.

चौ०-लंका के दानव पलंकाके पूत अंजनीके पूत नरक हवा झारै अंजनीके पूत बेरवा झारै अंजनीके पूत घिनही झारै अंजनीके पूत जहरबात झारै अंजनी के पूत थनइल झारै अंजनीके पूत गोहिया झारै नाचत आवै नाचत जाय खेलत खात पखंडे जाय पिंडको सामननी हंक डकनी आलीम सालीम दुख रचाहा हो जाय राम लछिमन तीनो भाय बेरवाके पानमें खाय राम लछिमन तीनों भाय धृक चं नरक हवाझारै धृक-चं जहर बातझारै धृक चं थनइल झारै धृक चं गोहिया झारै हमरे झारे लेइ झुरि जाय.

कानका मंत्र.

आसमीन न, गोट वन्हीं कर्म हीन न जायते दोहाई

महावीरकी जो रहे कान पीरकी अंजनीपुत्र कुमारी बायें पुत्र महाबलको मारि ब्रह्मचारि हनुमंताई नमो नमो दोहाई महावीरकी जो रहै पीर मुंडकी.

प्रेतका मंत्र.

त्वन्मायामोहिताः सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसः ।
गता हि त्वामजानंतो देवि त्रिशूलधारिणी ॥
साकला होम करे भूत दूर हो.

सनाय खानेकी विधि.

शहदके साथ सनाय जो कोई खावै
बल होय अतुल्य जो नव मासा पावै.
सक्करके साथ सनाय जो खावै
छातीको दर्द और सुस्ती मिटावै.
गुलकंदके साथ सनाय जो खावै
शर्दी सब दूर हो खाना बहुत खावै.
मिश्रीके साथ सनाय जो खावै
तमाम बदनमें ताकत दिखावै.
गायके घीके साथ सनाय जो खावै
कोई दर्द नहीं सदा खुश होवै.
दहीके साथ सनाय जो खावै
जहर खाया होवै सभी दूर होवै.
चोपचीनीके साथ सनाय जो चालिस दिन खावै
आंखोंकी रोशनी सदा बढ़ावै.
आधा तोला सनाय पानीसे जो खावै

हमेशा तन्दुरुस्त रहै रोग कभी ना पावै.
गायके दूधके साथ सनाय जो खावै
नया खून पैदा करै गलीजको नशावै.
बकरीके दूधके साथ सनाय जो खावै
तीस दिनोंमें अतिसुख पावै.
हरिनीके दूधके साथ सनाय जो खावै
नामर्द मर्द होवै बल अतुल्य पावै.
अगर ऊंटके दूधके साथ सनाय जो खावै
खुशी रहै हमेशा कलेश ना पावै.
छोहाराके साथ सनाय जो खावै
मुँह दाँतकी दुर्गंध तुरत हटावै.
अनारके शरबतके साथ सनाय जो खावै
छातीके रोग दूर और उदर साफ पावै.
अगर भंगराके रसके साथ सनाय जो खावै
जवानी रहै बालपर सफेदी न आवै.
इमलीके रसके साथ सनाय जो खावै
छातीका कफ और कब्जियत नशावै.
अदरखके रसके साथ सनाय जो खावै
जीरनज्वर सन्निपातको मिटावै.
गर्म पानीके साथ सनाय जो खावै
कान शिर और नाकका दर्द तुरत हटावै.
ककरीके बीजके रसके साथ सनाय जो खावै

इन्द्रीकी पथरीको तुरत हटावे.
इसका गुण बहुत कहाँतक वर्णन कर बतावे
जो सेवै तो रोग कभी नहिं पावै.
चेला नादान भगवान दास कहावे
फारसीको उलथाकर हिन्दी बनावे.

अथ पारेका सिद्ध गुटका.

पारा दो तोले, संग्रासिक चार तोले, नमक दो तोले, जामुनका सिरका तीन सेर यह सब लेकर पहिले तवापर आधा नमक रक्खे फिर पारा रक्खै पीछे पारेको नमकसे ढाँप देवै और तवेके नीचे अग्नि जलावै. ऊपरसे सिरका छोड़ करछुलीसे चलाता जावे सिरका छोड़ता जावे. जबतक मसका न होवै तबतक अग्नि जलाता रहे, और सिरका छोड़ता जावे जब मसका हो जावे, तो मोटे कपड़ेमें रखकर पोटरी बाँधिकर गाड़ै जो कपड़े में पारा रहजाय उसको साफकर ऐसा धोवे कि,सूर्यकीसी ज्योति होवै तब गोली बाँधिकर धतूरेके तेलमें दो दिन रक्खे फिर नींबूके रसमें दो दिन रक्खै,पीछे पोस्ताके रसमें दो दिन रखने पर निकाल ले और जसवंतीके पत्तोंके रससे धोकर साफ करले इस गोलीको जो दहिने भुजापर बाँधे तो वो मनुष्य देवताओंके सदृश होवे.गोली दिवाली या होलीके रोज बनावे अथवा शुद्ध होकर ग्रहण लगनेपर बनावे.

अथ केशजमनेका इलाज.

खरबूजेके बीज अंडेकी जर्दी ३० जैतून तेज-पात, मोरद लोहचूर्ण ये सब दवा बराबर ले कूट लेवे और मलहमकी तरह बनाकर लगावे, तो जिस जगह केश न होयँ, उस जगह १६ रोजमें केश निश्चय जमैं.

चित्रकादि चूर्ण.

चीता, पीपलामूल, पीपल, गजपीपल ये सब दवा बराबर ले कूट कपड़छान कर शहदके साथ छःमासे खाय, तो खाँसी दूर होय.

हरीतक्यादि चूर्ण.

हर्र, बहेडा, लोहारस यह तीनों दवा बराबर ले कूट कपड़छान कर छःमासा खाय, तो सबप्रकारके वातरोग दूर होयँ.

पंचवटिकादि चूर्ण.

पाँचो नमक दो तोले, कलमीसोरा दो तोले, नौसादर दो तोले, पीपर दो तोले, मिर्च दो तोले, ये सब दवा कूट चूर्ण बनाय छःमासा खाय तो उदररोग दूर होय.

हिंगाष्टकादि चूर्ण.

सोंठ एक तोला, भुना सोहागा एक तोला, बड़ी हर्र एक तोला, सेंधानमक एक तोला, हींग एक तोला, ये सब दवा कूट कपड़छान कर सहिंजनेके पत्तोंके रसमें खरल करिके जंगली बेरके बराबर गोली बाँधै एक गोली सबेरे और एक शामको खायतो भूख खुलकर लगै और सबप्रकारके उदर रोग दूर होयँ.

दशमूलासव.

दशमूल२० तोला, पुस्करमूल(पोहकरमूल)१०० तोला, हर्ड़ै८०तोला, आंवला१२८तोला, चीता १०० तोला,धमासा ५० तोला,गुरुची ४०० तोला,बिसाला २० तोला, खैरसार ३२ तोला, विजौरा १६ तोला, मजीठ ४ तोला,मुलहटी ४तोला, वायविडंग ४ तोला चवक ४ तोला, लोध ४ तोला, जीवक ४ तोला,ऋष-भक ४ तोला. मेदा४तोला, महामेदा ४ तोला,ऋद्धि ४ तोला, वृद्धि ४ तोला, कंकोल ४ तोला,क्षीरकाकोली ४ तोला, पीपल ४ तोला, जीरा ४ तोला, गजपीपल ४ तोला, चिकनी ४ तोला, पद्माख ४ तोला, कचूर ४ तोला, इलायची ४ तोला. हर काबुली ४ तोला, जटामासी ४ तोला, पित्तपापड़ा ४ तोला, नागकेसर ४ तोला, निसोत ४ तोला, हलदी ४ तोला, रास्ना ४ तोला, मेढ़ासींगी ४ तोला, सोंठ ४ तोला, सतावरि ४ तोला,इन्द्रयव४तोला, नागरमोथा ४ तोला,इन सब दवाओंका चौगुने पानीमें काढ़ा बनावै। जब पानी आधा रहै तो पीछे दाख२४० तोला, धौके फूल१२० तोला,गुड़१६तोला, शहद१२८तोला मिलायके घीके चीकने बरतनमें रख दे। पहले जटामासी मिर्चीं दोनोंके चूर्णका धूपदेवै।पीछे पीपल८तोला,चन्दन८तोला,बाला ८तोला जायफल८ तोला,लौंग८ तोला,दालचीनी ८

तोला, इलायची ८ तोला, तमालपत्र ८ तोला, नागकेसर८तोला, कस्तूरी १तोला, धतूरबीज ४ तोला, यह सब दवा घड़ोंमें डालके उसका मुँह बंद कर जमीनमें गाड़ दे फिर १५ दिनके पीछे रोगीका बल विचार खानेको देय तो धातु क्षय, पांच प्रकारके श्वाँस, छः प्रकारकी बवासीर ८ प्रकारका उदररोग, बीस प्रकारका परमा, महाब्याधि, अरुचि, पांडु, सब प्रकारके वातरोग, शूल, शर्दी, रक्तप्रदर, अठारह प्रकारके कुष्ठ रोग, मूत्र, शर्करा, मूत्रकृच्छ्र इन सब रोगोंको दूर करता है बांझको पुत्र देता है, और शरीरको नीरोग करता है.

गूगुल योग.

गिलोय ५६ टंक, गूगुल १२७ टंक, त्रिफला २०० टंक इन औषधियोंको तिगुना पानी डालके चुरावै। जब ३ भाग जरजाय एक भाग पानी रहजाय तब छानले फिर दात्यून, कूट, त्रिफला, वायविडंग, तज, गिलोय निसोत ये सब दवा ४।४ टंक ले चूर्ण कर आगके काढ़ामें मिलादे। खुराक ३ टंक इसके सेवनसे वातरक्त, दुष्टवर्ण, परमा, भगंदर, आमवात इत्यादि सब रोग दूर होयँ.

अथ गूगुलकिशोर.

शुद्ध भैंसागूगुल एक सेरको एक मन पानीमें चुरावै पीछे हर्र एक सेर, बहेड़ा एकसेर, आंवला एक सेर, गिलोय १६ तोला डालके चुरावै जब आधा रहजाय तब छान, पारा अढ़ाई टंक, गंधक अढ़ाई टंक. वायविरंग अढ़ाई

टंक, निसोत अढ़ाई टंक, गिलोय अढ़ाई टंक, दात्यूनी अढ़ाई टंक, पहले पारा गंधककी कजरी करै तब दवा कूट कपड़छान कर सब दवा एकमें मिला दे खुराक ८ मासा सबेरे खाय तो आमवात और वातरोग इत्यादि दूर होयँ.

१ दवा हैजेकी बीमारीको तुर्त शांत करै.

मिर्च एकमासे, अरहरके पत्ते एक तोले, लेकर खूब घोटै फिर पावभर पानी डालकर पिलावै तो तुर्त हैजा मिटै.

२ तथा.

आककी जड़को अदरखके रसमें खरल करै फिर मिर्च बराबर गोली बाँध एक गोली पानीके साथ खिलावै, तो हैजेका असर मिटै.

३ तथा.

बिजौरा नींबूके पंद्रह बीज दो तोले पानीके साथ मिश्री डालकर पिलावै, तो तुर्त अच्छा होय.

हुचकीकी पहली दवाई.

कलौंजी ३ मासे चूर्ण करके माखनमें खाय तो अच्छा होय.

तथा.

काले उर्द चिलममें रखकर तंबाकूके समान पीवै तो अच्छा होवै.

पीपलका चूर्ण.

एक सेर पीपल, दो सेर दूधमें चुरावै, जब दूध जल

जाय, तो पीपलको सुखाय कर चूर्ण कर चौदह मासे चूर्ण और छःतोला मिश्री डेढ़ पाव दूध डालकर प्रतिदिन पीवै तो नामर्दपन मिटे, वीर्य बढ़े.

पीपलकी गोली.

अस्पंद, कपूर, बीजाबोल; अजवाइन इन सबको कूटकर अदरखके रसमें चनेकी बराबर गोली बनावै एक गोली खाकर दूध पीवै, तो बहुत बल होय.

हडोंकी जवारिस.

हडैं बारह तोले, सनाय बारहतोले, हडैं घीमें चुराय कूट कपड़छानकर मधुमें मिलाय जवारिस तय्यार करै, फिर नव मासे खानेको देवे. यह आँखोंकी गर्मीको दूर करता, अन्नको पचाता और सबरोगोंको लाभ देताहै.

मिर्चादि चूर्ण.

मिर्च, सोंठमें पाँचो नमक मिलाकर कपड़छान करके सबेरे फंकी मारै तो कब्जियत दूर होय. यह बातरोगको बहुत लाभदायक है.

शुंठ्यादि चूर्ण.

सोंठ, मिर्च, पीपल, तज, तेजपात, इलायची, लवंग, जायफल, वंशलोचन, कचूर, बावची, अनारदाना इन्होंको बराबर ले कूट कपड़छान कर सब चूर्ण बराबर लोहरस लेवे और लोहरसके बराबर मिश्री मिलायकर छः मासे नित्य सबेरे खाय और ऊपरसे बकरीका दूध पीवै तो राजरोग, मन्दाग्नि, बीसों परमा दूर होयँ अत्यंत पुष्टहोय.

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसाद शिष्य भगतभगवानदास विरचित वैद्यक रसराज–महोदधिमध्ये गजकर्णकी दवा, मलहम, लेप, तेल बनानेकी विधि, खाँसी, दमा और अंडकोष सूजनेका इलाज, साँप काटेकी दवा, बिच्छूकी दवा, बावले कुत्तेके काटनेकी दवा, सांदेकी दवा, महजूम, बन्धेजकी दवा, गर्मीतिजारीकी दवा, सब रोगोंकी दवा, हूककी दवा, सर्व ज्वरका चूर्ण और चौथिया तिजारीकी दवा, अति उपयोगी मंत्र यंत्र प्रयोगादि और घावका मंत्र, कानका मंत्र, प्रेतका मंत्र, और नर्कहवा बेरबा घिनहीं जहरवातथनइलका एकमंत्र सनाय खानेकी उन्नीस विधि, पारेकी सिद्ध गुटिका, चूर्ण, गोली, दशमूल गूगुलयोग, गूगुल किशोर, सब रोगोंकी दवाई व सबके बनानेका सरल सरल उपाय वर्णन नाम पंचमखंड सम्पूर्ण ॥ ५ ॥

अथ कुष्ठ रोग वर्णन.

गुरुपत्नीके संग, गौ और गोत्रकी स्त्रीके संग मैथुन करनेसे कुष्ठ होता है अथवा विरुद्ध भोजन करनेसे, अजीर्णमें भोजन करनेसे, पतली, चिकनी, भारी वस्तुके खानेसे, मल मूत्र रोकनेसे, मछली और दूध के एकही संग खानेसे, शीतल गरम एकही संग खानेसे, ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता, इनका आदर न करनेसे कुष्ठ होता है तथा पाप कर्म करनेसे एवं वात पित्त कफके कोपसे त्वचा, रक्त, मांस, लोहूको बिगाड़ कर

१८ प्रकारका कुष्ठ उत्पन्न होता है इसमें ७ महाकुष्ठ और छोटे छोटे ११ कुष्ठ सब मिलके १८ कुष्ठ हैं.

सात महाकुष्ठके लक्षण.

जिस कुष्ठका रंग काला लाल मिला हुआ तांबेके रंगका हो वा मिट्टीके खपरेके समान रूखा हो, कड़ा पतला चर्म्म होजाय और गूलरके फलके रंगके समान खाल होय तथा अंगमें पीड़ा सूजन हो. रुधिर काला हो, हाथ पैरमें कांखमें फुन्सियें हों इन सब उपद्रवोंके शांति होनेके लिये ३ चांद्रायण व्रत करे और ब्राह्मणोंको भोजन करावे तथा यथा शक्ति दान करे तो पापशांति होय और वैद्यकशास्त्रमें कही औषधियोंको दान करै तो कुष्ठकी शांति होय.

अथ कुष्ठकी दवा.

वायविडंग, त्रिकुटा, नागरमोथा, चीता, मीठा तेलिया, बच, गुड़ यह सब समभाग ले तीनबार लेप करेतो कुष्ठ दूर होय.

पुनः दूसरा लेप.

कलमी सोरा इमलीकी लकड़ीके कोइले पर धरे फिर कोइलेमें अग्नि जलाय रात्रिभर अग्निमें रहने दे सबेरें निकालकर कलीका चूना १ भाग, सोरका खार २ भाग मिलाय जहाँ कुष्ठकी फुन्सियां होयँ तहां सँभालकर थोड़ा लेप करै, तो कुष्ठ अच्छा होय.

कुष्ठके खानेकी दवा.

सेहुँडका दूध आधासेर, भूंनेचने पाँच तोले एकमें मिलाय खल करै फिर चनेबराबर गोली बाँधे. कुष्ठवाले रोगीका बल देख सेवन करावे. गलितकुष्ठ दूर होय, इसपर खटाई और सब परहेज रक्खै, कुछ दिन सेवन करे तो आराम होय.

कुष्ठकी दूसरी दवा.

नीम, कडू परवर, कटैली, गिलोय, बांसा यह सब चालीस चालीस तोले ले कूटकर एक द्रोण पानीमें चुरावै जब चौथाई काढ़ा रहजाय तो घृत ६४ तोले त्रिफलेका काढ़ा ६४ तोले मिलायकर पकावे. घृतको सिद्धकर खानेसे कुष्ठ दूर होय और ८० प्रकारका वातरोग, ४० प्रकारका पित्तरोग, २० प्रकारका कफरोग. दुष्टव्रण, कृमि, बवासीर. पाँचों खाँसी इन सबको नाशै.

अथ त्रिफलादि मोदक.

त्रिफलाका चूर्ण ६० तोले, वायविड़ंग २८ तोले, लोहभस्म ८ तोले, बावची ४० तोले, शिलाजीत २ तोले, गूगुल ८ तोले, पोहकरमूल ४ तोले, निसोत १ तोला, मिर्च, पीपल, सुंठी, दालचीनी, तमालपत्र, केसर, नागरमोथा ये सब दवा दो दो तोले लेय सब औषधियोंके समान मिश्री मिलाय४तोलेके लड्डू बनाय सबेरे एक लड्डू नित्य खाय तो मनोवांछित भोजन करे.

१८ प्रकारके कुष्ठ, तिल्ली- गुल्म, भगंदर, ८० प्रकारके वायुरोग, ४० प्रकारके पित्तरोग, २० प्रकारके कफरोग, द्वंद्वज सन्निपात, शालक्यरोग, नेत्ररोग, भृकुटीरोग, कंठरोग, तालुरोग, जीभरोग, उपजीभरोग, कांधे कंठके बीचके रोग, भोजनके ऊपर देनेसे और पेटके रोगोंमें भोजनके मध्यमें खानेसे सम्पूर्ण रोगोंको नाशै, यह रसायन है.

अथ सफेदकुष्ठका लेप.

असगंध, वायविड़ंग, चीता, भिलावाँ, जमालगोटेकी जड़, अमलतास, निंबोली इनको कांजीमें पीस लेप करनेसे सफेद कुष्ठ नाश होवै.

पुनः लेप.

हरताल ४ मासे, बावची १६मासे, इनको गोमूत्रमें पीस कर लेप करनेसे श्वित्र (सफेदचकत्ते) नाश होवैं.

अथ घोड़ाचोली लिख्यते.

रस विष गंधक औ हरताल। त्रिकुटा त्रिफला औ भृँगराज ॥ जमाल मिलायके बाँधे गोली। कह गोरख यह घोड़ाचोली ॥

औषध.

पारा, हरताल, गंधक, बच्छनाग, पीपलामूल, मधु, पीपली, सोहागा, हड़, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, सफेद निबरसी यह सब औषधि सम भाग ले कपड़छान कर भृंगराजके रसमें छः दिन खल करे फिर मिर्च बराबर

गोली बाँधै और रोगीका बल विचार कर एक गोली शाम और एक सबेरे १ महीनातक खावै तो भूक बहुत लगै. जिस स्त्रीके बालक नहीं होता हो तो इस गोला-को ऋतुके पीछे तीन दिन स्त्री पुरुष दोनों आदमी पानके साथ खावैं तो अवश्य बालक होय. यह गोली गायके घीके साथ खाय, तो अजीर्णज्वर जाय, दही और अनारके दानेके साथ खाय तो संग्रहणी रोग जाय. जिसका पेट पत्थरके समान कड़ा होय,तो इस गोली-को पानीमें पीस पेट पर लेप करै,तो पीड़ा और क-ड़ापन दूर होय,और जो कोई यह गोली अदरखके र-सके साथ खाय,तो सब प्रकारका वातरोग जाय और जिस आदमीको बीछीने डंकमारा होय, तो यह गोली सोंठके साथ घावपर लेप करै,तो तुर्त बीछीका जहर दूर होय और अरसीके चूर्णके साथ खाय,तो तापज्वर जाय. जीरा और शक्करके साथ खाय,तो पुराना ज्वर जाय.

सेंदुर एक टंक,घी छः टंकके साथ एक गोली घिस कर लगावै. तो मुखकी झाईं दूर होय.

यदि यह गोली मिर्चमें पीस नास लेवै तो मृगी रोग, नाक रोग दूर होय, और खीरेके बीजके साथ गोली खाय, तो मूत्ररोग जावै, पेशाब होवै, अकरकरे-के साथ यह गोली खाय तो इन्द्रियकी पथरीको तुर्त निकालै,पानके रसके साथ पंद्रह दिन खाय, तो भूख

लगे, मधु पीपलके साथ खाय तो हड़फूटन रोग जाय, खसखसके रसके साथ खाय तो वायशूल रोग जाय, कड़ुआ गुंजा और अनारके रसके साथ गोली घिस बालोंपर लगावै तो बाल झड़जायँ और फिर जमआवें पानीके साथ घिस आँखोंमें लगावै तो जो आँखें लाल होयँ तो अच्छी होयँ.

मोचरस बदामके साथ उपरोक्त गोली खाय तो खून गिरना बन्द होय, सोंठ और स्त्रीके दूधके साथ गोलीको घिस कानमें डाले तो कानका रोग दूर होय और तुलसीके रसके साथ गोली खायतो तिजारी ज्वर जाय.

कोहरिया धतूरेके बीजके साथ यह गोली खाय तो सफेद कुष्ठ दूर होय और भंगरेके रसके साथ खाय तो शरीरकी सुस्ती जाय, सँभालूके रसके साथ खाय तो प्रमेह रोग जाय.

पीपर और गुरबेलके साथ यह गोली लेप करै, तो सन्निपात दूर होय। पुराने गुड़के साथ यह गोली खाय तो मुँहकी दुर्गंध दूर होय, पावर रसके साथ यह गोली खाय तो मुँहकी जरदी और सूजन दूर होय, अँवरा के चूरणके साथ गोली खाय, तो सब प्रकारकी गरमी जाय, अँवराके चूरणके साथ वर्षदिन खाय, तो निरोग होय रोग कभी न पावै. मधुके साथ खाय तो शरीर पुष्ट और बल अतुलित होय.

मधुके साथ इन्द्रियपर लेप करै तो स्त्री बहुत प्यार करै। शंखाहोलीके साथ खाय, तो पिंडरोग जाय.

छोहारेके बीजके चूर्णके साथ गोली खाय तो बाँझ स्त्रीके गर्भ रहै। ब्राह्मीरस दमयंतीरसके साथ गोली खाय तो जलंधर रोग जाय.

नकछींकनी और निवोराके रसके साथ गोली खाय तो पेटकी वायु तुर्त दूर हो जाय.

पीपल व हींगके साथ गोली खाय तो बवेंशीरोग जाय। गंगेरूके रसके साथ गोली खाय तो बिन्दुकुशादि जाय। छांछके साथ गोली खाय तो शरीरकी सूजन जाय, सोंठके चूरणके साथ गोली खाय तो हथरसरोग जाय, जावित्रीके साथ गोली खाय तो बांझ स्त्रीके पुत्र होय.

ऊँटकटेरीके साथ गोली खाय तो पेटकी अग्निको तुर्त बुझावै। निबोरीके साथ गोली खाय तो दाँतका चबाव बन्द होय, सफेद चौंटलीमें घिसके आँखोंमें लगावै तो आँखोंका रोग दूर होय, निबोरेके साथ गोलीको घिसकर शरीर पर लगावै तो भूत प्रेत भाग जायँ. नीबीके फूलके साथ यह गोली खाय, तो सांपका विष दूर होय. नीबीके पत्रके साथ गोली खाय तो सब ज्वर जाय. पीपरके साथ गोली खाय तो अवलेहरोग जाय. काले नमकके साथ गोली खाय, तो पेटका मल दूर होय. भंगराके रसके साथ यह गोली खाय, तो सन्निपात

जाय. जीरे मिश्रीके साथ गोली खाय तो शरीरको पुष्ट करै। शहदके साथ गोली खाय तो बायगोला रोग जाय.

इमलीके रसके साथ गोली खाय तो पित्तज्वर जाय. तुलसी और अनारके दानोंके रसके साथ गोली खाय तो शूलरोग जाय. तुलसीके रसके साथ घिस आँखोंमें लगावे तो रतौंधी जाय. सफेदचौंटलीमें घिस आँखोंमें डाले तो फूलीरोग जाय.

अथ दूसरा घोड़ाचोली.

पारा, त्रिफला, सोंठ, जमालगोटा, निसोत, कुटकी, बच्छनाग, हरताल, हलदी, मिर्च, सोहागा, अफीम, लवंग, जायफल, जावित्री, मधु, पीपल, वायविड़ंग ये सब दवा सम भाग ले कूट कपड़छान कर भंगराके रसमें छः दिन खरल करे, फिर मिर्च बराबर गोली बाँधे और ऊपरकी घोड़ाचोलीके अनुसार रोगीको देवै ॥ चौपाई ॥ भगवानदास धन्वन्तरिको शीश नवावै ।। घोड़ाचोली गोली बनावै ॥ जो गुरुका ध्यान लगावै । अरु सतनको शीश नवावै ॥ यहि औषधको करै विचारी। इसका गुण है सबसे न्यारी ॥ संतन वचन ध्यानमें लावै । सोई वैद्यक सुख उपजावै ॥ जो परहेजसे गोली खावै । सो नर कभी रोग नहिं पावै ॥

इति घोड़ाचोली समाप्त ।

अथ गोरखमुंड़ी कल्प प्रारंभः

अमावसके दिन जड़समेत मुंडी उखाडकर छायामें

सुखावे फिर एक तोला गायके दूधके साथ ४० दिन खाय तो शरीर निरोग होय. और इसी विधिसे एक वर्ष तक खाय तो महाबली होय । आचारसे रहै फिर वही चूर्ण शामको पानीमें भिगोवै और सबेरे बालोंमें मलै तो बाल काले होयँ । फिर वही चूर्ण इक्कीसदिन खाय और ब्रह्मचर्य्यसे रहै तो अग्निमें मुख न जले और न पानीमें डूबै तथा जिस मुंड़ीमें फल फूल नहीं लगा हो,तो उसको उखाड़ लावै और छायामें सुखाय चूर्ण कर दूधमें पीवै तो ब्रह्मज्ञानी होय, आगम जानै, महा-सिद्ध होय । फिर उसी चूर्णको पानीमें भिगोय आँखमें डाले तो आँखका रोग दूर हो और फिर वही चूर्ण जौंके आटेमें मिलाय गायकी छाँछ लेकर साने और रोटी बनाकर गायके घीके साथ खाय तो कायाकल्प होय सुवर्ण जैसा शरीर होय। कुछ दिन सेवै तो पूज्य-मान होय। ब्रह्मचर्य्यसे रहे फिर मुंडी उखाड़कर रस निकाल शरीरमें मलै तो पीड़ा दूर होय । फिर मुंडीके बीज एक तोला नित्य खाय, वर्षदिन सेवै, तो बूढ़ा नहीं होय.

फिर मुंडीपंचांगले चूर्ण करके शहदके साथ कुछ दिन खाय, तो कवि होय और बल बहुत होय.

इति गोरखमुंडी समाप्त ।

अथ शुक्रपाक ।

एरंड़ीका बीज एकसेर, दूध आठसेर, मिश्री चारसेर पहिले एरंडीके छिलके दूर करले फिर दूधमें मिलाय मिश्री डाल मधुरी आंचसे खोवा (मावा) कर पीछे सोंठ, पीपल, लवंग, इलायची, दालचीनी, साठी, हड़, बाला, जावित्री, जायफल, तमालपत्र, नागकेसर, असगंध, रासना, खडगंधा, पित्तपापड़ी दोदो तोला ले कूट कपड़छान कर खोवेमें डाले, फिर अदरखरस एक तोला, लोहाभस्म एक तोला, सब एकमें मिलाय पाक तैय्यार करै रोगीका बल देखकर सबेरे खानेको देवै । कुछ दिन सेवै तो अस्सी प्रकारका वातरोग दूर करै । चालिस प्रकारके पित्तरोगको दूर करै, आठप्रकारके उदररोगको हरै। बीस प्रकारके प्रमेहरोगको हरै। साठ प्रकारके नाड़ीव्रण रोगको हरै, अठारह प्रकारका कुष्ठरोग हरै, सातप्रकारका क्षयरोग हरै। पांच प्रकारका पांडुरोग हरै। पाँचप्रकारका श्वास रोग हरै।चार प्रकारका संग्रहणिरोग हरै । और नेत्ररोगादि सब रोग दूर करै पथ्यसे ब्रह्मचर्यसे रहै।

अथ मेथीपाक प्रारम्भः ।

मेथी बत्तीस तोले, सोंठ बत्तीस तोले इनका चूर्ण कर कपड़छानकरके दूध दोसौ छप्पन तोले, घृत बत्तीस तोले सब एकमें मिलाय चुरावै। जब कड़ा होजाय, तब अग्निपरसे उतार लेवै। पीछे मिर्च, पीपल, सोंठ, पीपलामूल, चित्ता, अजवाइन, धनियाँ, जीरा,

कलौंजी, सौंफ, जायफल, कचूर, दालचीनी, तमालपत्र, नागरमोथा ये सब दवा चार चार तोले और सोंठ छः तोले, मिर्च छः तोले इनको चूर्णकर मिलाय पाक तैयार करै। ये मेथीपाक चार तोले अग्निबलको विचारकर खाय तो आमवात और सब वातरोगोंको शांत करै, तथा विषमज्वर, पांडुरोग, कामला, उन्माद, अपस्मार, प्रमेह, रक्तपित्त, अम्लपित्त, शिरपीड़ा, नासिकारोग, नेत्ररोग, प्रदररोग और सूतिका रोग इन सब रोगोंको हरै संशय नहीं। यह शरीरको पुष्ट करै, बलवीर्यको बढ़ावै, सब रोगोंको हरै, पथ्यसे रहै.

जुलाब अमीरोंका.

चावल ९ टंक, शक्कर ९ टंक, गुलाबके फूल ९ टंक, दूध आधासेर ये सब एकमें मिलाय खीर बनावै फिर ९ टंक घी उसमें डालकर खाय तो जितना ठंढा पानी पीवै, इतना ही जुलाब होवै और गर्म पानी पीनेसे बन्द हो जाय। इसके बराबर दूसरा जुलाब नहीं.

इति श्रीभगतभगवानदास विरचित घोड़ाचोली गोरखमुंडीकल्प शुक्रपाक मेथीपाक जुलाबादिवर्णनं नाम उत्तर भाग समाप्त ॥

अथ लकवाकी दवा.

सवा ३ तोले सनके बीज शहदमें मिलाय सबेरे खाय तो लकवा १५ दिनमें नाश हो जाय.

पुनः

यह तेल लकवेको नष्ट करता है. सफेद कनेरकी जड़के छिलके, सफेद चिर्मिटीकी दाल, काले धतूरेके पत्ते सब दवा दो दो तोले चार चार मासे लेना फिर कूटकर टिकिया बनाय पावभर तेलमें टिकिया डाल खूब घोटै फिर अग्निपर चुरावै जब दवा जल जाय तो उतार ठंढा कर अर्द्धाङ्गवायवाले और पक्षाघात-वालेके तेल मलनेसे शरीरका रोग दूर होय.

पुनः मिर्चादि लेप.

कालीमिर्चे महीन पीस तेलमें मिलाय, गरमकर पतला लेप करे तो पक्षाघातको तुरंत नाश करै इसके बराबर दूसरी दवा नहीं.

पुनः वचका पाक.

लकवेकी दवा अजमाई हुई। वच ५ तोले, सोंठ कालाजीरा प्रत्येक दो दो तोले एकमें मिलाय कूट कपड़छान कर शहदमें मिलाके साढ़े ३ मासे, नित्य खाय तो अच्छा होय.

पुनः लकवेकी दवा.

बच ३ तोले, काली मिर्चे, पोदीना, स्याहजीरा, कलौंजी प्रत्येक दश दश मासे सब कूट कपड़छान कर पावसेर शहदमें मिलाय सात मासे खावे तो पक्षाघात लकवेको दूर करै.

लवंगादि चूर्ण.

लवंग १ तोले, जायफल १ तोले, पीपली १ तोले, बहेड़ा ३ तोले, मिर्च २ तोले, सोंठ १६ तोले इन सब दवाओंके बराबर खाँड़ मिलाय खानेसे खाँसी. श्वास, ज्वर, गुल्म, अग्निमंद और संग्रहणीको नाश करता है.

अथ व्रण फोड़नेका लेप.

मालकांगनी, सज्जीखार, एरंडीबीज तीनों दवा बराबर ले कूट कपड़छान कर पानी डाल गरमकर लेप करै तो फोड़ा तुरंत फूटै.

तथा.

हाथीके दाँतका चूर्ण पीस व्रणपर लेप करै तो फूटै और पुराना व्रण (फोड़ा) नाश होय.

पुनः लेप.

भंगरा, हलदी, सेंधानोन, धतूरके पत्ते सब बराबर लेकर पीस ले फिर गरम करके लेप करै तो व्रण फूटै.

अंडोंका लेप.

महुएके फूल, एरंडीके बीज, मुलतानी मिट्टी. काले तिल सब मिलाय पीस भेंड़ीके दूधमें चुराय अंडपर लेप करै तो बहुत दिनकी सूजन दूर होय.

तथा.

अंडकोशवाले रोगीको जुलाब देय; तब ये लेप

करै. मालकांगनी, एरंडीके बीज, असगन्ध. आमाहलदी सब पीस भेड़ीके दूधमें मिलाय गरमकर लेप करै तो अच्छा होय सूजन हटै.

अथ अजीर्णका वर्णन.

पेट भारी रहे, शिर भारी रहे, आलस रहे, देह टूटे, मुँहसे पानी छूटे तो जानो कि अजीर्ण हुआ और पेटमें पीड़ा, जँभाई बहुत आवें, अजीर्णमें गरम पानी पीना हित है. स्नेह जुलाब देना उलटी करना हित है. शीघ्रतासे इसकी दवा करै, नहीं तो नाना प्रकारका रोग पैदा करता है.

अथ आहारका वर्णन.

हलकी रोटी तुरंत पचजाती है. मावेदार रोटी देरमें पचती है. गरम गरम रोटी भोजन करनेसे उदरकी तरीको सोख लेती है, ठंढी रोटी उदरको तर करती है और सूखी रोटी भोजन करनेसे रोग पैदा करती है, तथा दाल तरकारी कच्ची न रहै, अच्छी प्रकारसे चुरालेवे. रोटी भी अच्छी तरहसे सेंक ले. मनुष्यके जीवनका आधार भोजन ही है सो मनुष्यको चाहिये कि सँभालके भोजन करै, कच्ची पक्की देख ले और गरम ठंढ़ी देख लेय, तथा जबतक अच्छी क्षुधा न लगै, तब तक भोजन न करै.

अथ मलका वर्णन.

मनुष्यको चाहिये कि मलको दो बार त्याग

करै रोकै नहीं. जो रोकैगा तो मलकी गरमीसे वात पित्त मिल कर समस्त शरीरमें नाना प्रकारके रोग पैदा करेंगे. मनुष्य मलको बराबर त्याग करै और पेशाब उसी तरहसे करै रोकै नहीं. पेशाब रोकनेसे सुजाक प्रमेह पैदा होता है, इसे बचाये रहना.

अथ पानीका वर्णन.

पानी भोजनमें कमती पीवे. भोजनके दो घड़ी पीछे पीवे. गरम शरदकी प्रकृति समझकर पीवे. दरियाका पानी सबसे अच्छा, पीछे कुएँका पानी अच्छा है और तालपोखरीका पानी रोग पैदा करता है. मैथुनमें पानी विकार है. कुस्ती परिश्रममें विकार है. ठंढे पानीसे गरम पानीका स्नान करना हित है.

अथ शीतपित्तका वर्णन.

शीतपित्त महारोग है. क्षणमें निकलता है क्षणमें समाता है, दवासे दूर होता है. किन्तु उसकी जड़ नहीं जाती मरने तक रहती है. कभी शीतमें निकलता है,कभी गरमीमें निकलता है. शरीरका खून सब बिगाड़ देता है, इसके दूर करनेकी दवा लिखते हैं। परमेश्वरकी कृपासे रोगी निसंदेह निरोग होगा, यही दवा करना भूलना नहीं.

अथ शीतपित्तकी मालिश.

सज्जीखार, सेंधानमक, कड़वातेल मिलाय शरीर

पर एक घंटा मालिश करना. फिर गरम पानीका सेंक करना. पानीका भाफ देना, जितना पानीके भाफसे सेंक करेगा, उतना रोग दूर होगा. इसी विधिसे पन्द्रह दिन साँझ सबेरे जो करेगा तो शीतपित्तकी गाँठ दूर होजायगी. रोगी नीरोग हो जायगा. यह कुछ कड़ा दवा नहीं है.

अथ शीतपित्तके खानेकी दवा.

उसबा मगरबी सात तोले, सनायकी पत्ती अढ़ाई तोले, सौंफ अढ़ाई तोले, बिसफैज दो तोले, सहदरा २ तोले, लालचन्दनका चूर्ण एक तोले, मिश्री सात तोले, सब दवा मिलाय कूटि कपड़छान कर सात तोले शहद मिलाय रोगीका बल देख इकइस दिनतक खानेको देय, तो शरीरके खूनको साफ कर देगा, खराब खूनको दूर करेगा, नया खून पैदा करैगा, शीत पित्तकी जड़ दूर होगी और रोगी निरोग हो जायगा.

अथ शीतपित्तमें पथ्य.

चावल, मूँग, कुलथी, करेला, पोईशाक, गरम पानी, पित्तकफनाशक औषध ये सब शीतमें पथ्य हैं.

अपथ्य.

स्नान करना, घाम, खटाई, भारी अन्न ये रोगमें अपथ्य हैं। शीतमें पहिले उलटी जुलाब देना, पीछे आगलका दवा करना सेंकना.

अथ अच्छी रीति सिखनेका वर्णन.

मनुष्योंको उचित है कि अपने लड़कोंको बाल अवस्थामें अच्छी रीतिसे रखें और सिखावें पढ़ावें. और बालकको चाहिये कि, माता पिताकी आज्ञा माने, पढ़नेमें मन लगावे, सफाईसे रहे और अपनी जीवन-यात्रा निर्वाह करनेके लिये व्यवसाय करै. जो बाप दादा करते आये हैं. इसके उपरांत बिवाह करै, बालपनमें बिवाह होना पीछे कष्टदायक होता है, क्योंकि कुछ विद्या नहीं सीखी और न काम धंधा सीखा इससे उनको शोच चिन्ता करके बहुत कष्ट होता है. वरन् उसी सोचसे नाना प्रकारके रोग पैदा होते हैं; सो इस रोगको हमने अनेक प्रकारकी चिकित्सा अजमायी पर इसमें किसी दवाने काम नहीं किया, परमेश्वरकी कृपाके अतिरिक्त दूसरी दवा काम नहीं आती. मनुष्योंको चाहिये कि छोटेपनसेही भगवान्‌का ध्यान करैं और दान पुण्य यथाशक्ति किया करैं और बुरे कामको त्याग करै, अच्छा काम करैं और अच्छे आदमीकी संगति करैं बुरेसे दूर रहैं. अच्छा आदमी वह जो अपनी नीतिसे रहै और दूसरेका उपकार करै और बुरे आदमी चोर ज्वारी लबार बातछुटक उचक्के इनकी संगति करनेसे अनेक भाँतिकी तकलीफ उठानी पड़ती है. हमने इसको अच्छे प्रकारसे अजमाया है. और अनेक भांतिका दुःख उठाया है. हे सज्जन पुरुषो!

ऐसे सब लोगोंको त्याग करो, यह वेदकी रीति है.

नाड़ीभेद-चौपाई.

वात पित्त कफ ये सुनि लेहू । क्लेश होत इनहींसेदेहू ॥
जो इनते एको बढ़ि जावै।तो जनु मृत्यु निकटआजावै॥
जो त्रिदोष ये बढ़हिं समाना।तो नर पहुँचे यमके धामा॥
रहि रहि पुनि हलकेही हालै। नाड़ीप्राण नाशनी चालै॥

दोहा.

रहि रहि नाड़ी जो चले, जो वह प्राण हराय ।
पुनः क्षीण शीतल चलै, सो यम घरलै जाय ॥

चौपाई.

समझ इलाज करै जो कोई।ताको अपयश कबहुँ न होई॥
हैं भगवानदास नादाना । सुनियो सज्जनपुरुष महाना॥
कठिन पारसी भाषाजान। रोगचिकित्सा और निदान ॥
तनिक लोभ ना कीजे भाई । दयाधर्म करिदेहु दवाई ॥

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत
भगवानदास विरचित वैद्यक रसराज
महोदधि भाषा ग्रंथ समाप्त ।

श्रीः

वैद्यक रसराजमहोदधि

भाग दूसरा २.

सर्व प्रकार के रोग-विनाशार्थ अनेक प्रकार की
यूनानी, मिसरानी दवा और फकीरों की
जड़ी बूटी विविध वनस्पतियोंका
अपूर्व संग्रह

★

जिला-जौनपुर चकबढ़बलनिवासी
भगत भगवानदासकृत

★

मुद्रक एवं प्रकाशक:
खेमराज श्रीकृष्णदास™,
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४.

संस्करण : नवंबर २०१७, संवत् २०७४ मूल्य : १९० रुपये मात्र

© सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

रसराज महोदधि - (द्वितीय भाग)

भूमिका

सब सज्जन विद्वान् वैद्यजन भारतवासी भाइयोंको विदित हो कि, यह वैद्यक "रसराजमहोदधि भाषा, दूसरा भाग" बनाके प्रगट करता हूं इस ग्रंथमें पांच खण्ड बनाये हैं और यूनानी, मिसरानी दवा सब हिन्दीमें बनायी हैं और फकीरोंकी जड़ी बूटी सब किस्मकी दवा और सब किस्मके रोग दूर होनेके वास्ते, नानाप्रकारकी तरकीबें बतायी गयी हैं और जो मनुष्य इस ग्रंथके विधिप्रमाण तन, मन, धन और ईमानसे दवा करेंगे तो परमेश्वरकी कृपासे इस संसारमें उनको यश और मान मिलेगा और मैं इस ग्रंथकी उपमा और गुण कहाँ-तक लिखूं, जो ग्रंथ देखेंगे उन्हें सब गुण मालूम हो जायंगे और इस "रसराजमहोदधि" के वास्ते बहुत मित्र विद्वान् जनोंने कहा कि, इसका दूसरा भाग बनाओ तब मैंने परब्रह्म परमेश्वरको नमस्कार कर उनकी कृपासे यह दूसरा भाग बनाके तैयार किया और अब मैं सबको प्रणाम करता हूं, और साधु विद्यावान् वैद्यजन पंडित स्वामी लोगोंसे विनय करता हूं कि, जो कुछ मेरी भूल चूक हो सो कृपादृष्टिसे शुद्ध कर लें और जैसा मैंने ग्रंथ बनाया उसीके अनुसार भैया गजाधरलालने लिखा है और यह ग्रंथ श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास वल्द सुबराज मुराई जिला जौनपुर गांव चक-बढ़वल निवासीसे ठाठरीके गोदामके पास बनाकर अपनी खुशीसे सेठजी—सन्तन उपकारी खेमराज श्रीकृष्णदासजीको हक रजिस्टरी सहित दे दिया। मिती वैशाख सुदी तीज, वार बृहस्पति संवत् १९५३, तारीख १६ अप्रैल सन् १८९६ ईसवी।

आपका सेवी—भगवानदास.

श्रीः

रसराजमहोदधिके दूसरे भागकी अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठांक.
भूमिका	
वन्दना	१
प्रश्नयन्त्र	३
दूतपरीक्षा	४
दूतलक्षण	"
दूसरा दूतलक्षण	"
दूतशकुन	५
दूतशुभाशुभ	"
दूतके कहे अक्षर शुभाशुभ	"
रोगी के पास जाते हुए वैद्यको शुभाशुभ	"
रोगीके पास जाते वैद्यके शकुन	६
वैद्यको अपशकुन	"
वैद्यगमननिषिद्धकाल	"
वैद्यरोग विषयक नियम	७
निषिद्ध वैद्य	"
वैद्यकर्तव्य	"
रोगीके लक्षण	८
रोगीके पास रहनेवाले का लक्षण	"
निषिद्धरोगी त्याज्य	"
रोगीकी परीक्षा	९
स्वप्न परीक्षा	"
वैद्यकी परीक्षा	१०
रोगीकी अष्टस्थानपरीक्षा	"
नाड़ीलक्षणकथन	"
वातनाडीलक्षण	११
पित्तनाडीलक्षण	१२
कफनाडीलक्षण	१४
त्रिदोषनाडीलक्षण	१५
पित्तलक्षण	"
बायुलक्षण	"

विषय.	पृष्ठांक.
कफलक्षण	१६
रुधिरकोपका लक्षण	"
नाडीपरीक्षा दूसरी विधि	"
मूत्रपरीक्षा	१८
मृगीकी दवा	२०
पुनः मृगीकी दवा	"
वैद्यभेद	"
मलपरीक्षा	"
जिह्वाकी परीक्षा	२१
शब्दपरीक्षा	२२
स्पर्शपरीक्षा	"
नेत्रपरीक्षा	"
मुखपरीक्षा	२३
स्वरूपपरीक्षा	"
आयुविचार	२४
नक्षत्रके वृक्षका फल	"
शीतलाष्टकका वर्णन	२५
देवीज्वरहर अर्क	"
वैद्यको शिक्षा	२६
वैद्यको दूसरी शिक्षा	"
वमनयोग्य	२७
वमन-अयोग्य	"
वमन जुलाब विधि	"
वमनद्रव्य	"
वमनकी दूसरी दवा	२८
वमनकी तीसरी दवा	"
जुलाबविधि	"
दूसरा जुलाब	"
साधारण जुलाब	२९
शर्बत काहूका अरुचिको	"

विषय.	पृष्ठांक.
शर्बत कुलफीका कफज्वरको	२९
शर्बत खूबकलाका पित्तज्वरको	३०
शर्बत धनियांका अतिसारको	"
शर्बत सौंफका कब्जियत को	"
शर्बत पोदीनाका शीतांग सन्निपातको	"
शर्बत मुलहठीका कमलसन्निपातको	"
शर्बत जायठीका चिनगबायको	३१
शर्बत जीराका कलेजेकी गरमीको	"
शर्बत बदूनाका वातज्वरको	"
शर्बत सोंठका कफज्वरको	"
शर्बत हर्रका कफज्वरको	"
शर्बत बहेड़ेका सर्वज्वरको	३२
शर्बत आंवलोंका जलनबायको	"
शर्बत नागरपानका उन्मादरोग	"
शर्बत खीराके बीजका चिलिक प्रमेहको	३३
शर्बत ककरीके बीजका मूर्च्छाको	"
शर्बत कद्दूके बीज का संग्रहणीको	"
शर्बत कमलगट्टेका फोड़ीफोड़ा	"
शर्बत दहीका पित्तको	३४
शर्बत गुडूचीका शीतज्वरको	"
शर्बत बचका शूलवायुको	"
शर्बत लौगंडीका अर्धांगबायको	"
शर्बत सम्भालूका कमलबायको	३५
शर्बत एरण्डीका गठियाको	"
शर्बत गुलखैरेका क्षीणधातुको	"
शर्बत बौखलीका पित्तज्वरको	"
शर्बत अनारका छातीजलनको	३६
शर्बत दादोरीका शीतज्वरको	३६
शर्बत शतावरीका सुन्नबायको	"
शर्बत इनाईका तिजारीज्वरको	"
शर्बत बाईसुरठीका विषमज्वरको	"
शर्बत गुलखुलका प्रमेहरोगको	३७
शर्बत नींबूका हाथपांवको जलनको	"
शर्बत खुरासानी अजवायनका भ्रमवायको	"
शर्बत नीमका बिगड़े खूनको	३८
शर्बत ककहीका प्रमेहरोगको	"
शर्बत यशवंतीका प्रमेहको	"
शर्बत छोटी गोदन दूधीका कामलाको	"
शर्बत महुआका प्रमेहको	३९
शर्बत बकायनका बवासीरको	"
शर्बत हुरहुरका बवासीरको	"
शर्बत कुकुरौंधाका पुष्टिको	"
शर्बत रीसोंका प्रमेहरोगको	"
शर्बत बबूरके पत्तोंका सुजाकको	४०
शर्बत रत्नजोतिका सन्निपातको	"
शर्बत ब्रह्मदंडीका सर्वरोगको	"
शर्बत मोंगली बिहीदानाका सुजाक प्रमेहको	"
शर्बत मुरलीका सर्वरोगको	४१
शर्बत कुशका स्त्रीरोगको	"
शर्बत इमलीका पित्तज्वरको	"
शर्बत फालसाका स्त्रीरोगको	"
शर्बत उन्नाबका खांसीको	"
शर्बत सहदेईका सर्वज्वरको	४२

विषय.	पृष्ठांक.
शर्बत दूधी का गरमीको	४२
शर्बतमृङ्गराजका सर्वज्वरको	"
शर्बत वडका सुजाकको	"
शर्बत तुलसीका सर्वरोगको	"
शर्बत पीपरका कलेजेकी ज्वालाको	४३
शर्बत आमकी गुठलीका संग्रहणीको	"
शर्बत गूलर का प्रमेहको	"
शर्बत फिटकरी का विषको	"
शर्बत बेलपत्रका संग्रहणीको	४४
शर्बत अफीमका हैजेकी बीमारीको	"
शर्बत भांगका पुष्टिको	"
शर्बत कासनीके बीजका हौलदिलको	"
शर्बत असगन्धका पुष्टिको	४५
शर्बत अरहरका हैजेको	"
शर्बत कटेरीका खाँसीको	"
शर्बत केंवाचका पुष्टिको	"
शर्बत नोनीका सुजाकको	"
शर्बत चिरायतेका सर्वज्वरको	४६
शर्बत धतूरेका चौथिया ज्वरको	"
शर्बत सनायपत्तीका जुलाबको	"
शर्बत चन्दनका गर्भिणी स्त्रीको	"
शर्बत ईसबगोलका प्रमेहको	४७
शर्बत केसरका पुष्टताको	"
शर्बत कइतका बरुवटको	"
शर्बत मूलीका अजीर्णको	"
शर्बत अफीमका संग्रहणीको	"
मुंजिश	"
दूसरी मुंजिश	४८
तीसरी मुंजिश	"

विषय.	पृष्ठांक.
चौथी मुंजिश	४९
माजूम सबरोगपर	"
माजूम उसवा	५०
माजूम उसवा मगरवी	"
माजूम छोटी हड़का	"
माजूम पुष्टि करण	५१
माजूम नपुंसकपनापर	"
माजूम राहुलथोमियानी	५२
माजूम लौंगादि	"
मूत्ररोगकी दवा	५३
परमारोगकी दवा	"
कानरोगकी दवा	५४
शिरोरोगका लेप	"
वांझस्त्रीकी दवा	"
आँखोंकी दवा	"
बायपित्तकी दवा	"
बातपित्तकी दवा	५५
पित्तवायकी दवा	"
वायपित्तकी दवा	"
पित्तवायज्वरकी दवा	"
शीतपित्तज्वरकी दवा	"
सन्निपात ज्वरकी दवा	"
सन्निपातज्वरकी दूसरी दवा	"
कर्णशूलकी दवा	५६
आठों ज्वरोंकी दवा	"
सन्निपातज्वरकी दवा	"
अतीसारकी दवा	"
आमवातकी दवा	"
शूलकी दवा	"
हुचकीकी दवा	५७
मुखरोगकी दवा	"
मन्दाग्निकी दवा	"
परमाकी दवा	"

विषय.	पृष्ठांक.
पित्तदाहकी दवा	५७
श्वास दमा खांसीकी दवा	५८
उदरवायुकी दवा	,,
उदरपीड़ाकी दवा	,,
इन्द्रियलेप	५९
पुष्टताकी दवा	,,
कासश्वासकी दवा	,,
फकीरकी बतायी हुई उपदंशकी दवा (कण्टकारि की बूटी)	,,
गठिया-सानेका तेल	६०
दूसरी बूटी	,,
शीतवातका तेल	६१
सर्ववातव्याधिका तेल	,,
दाद-गजकरणका मलहम तुरन्त अच्छा करे	,,
फुन्सी फोड़ाका लेप	६२
व्रणशोथका वर्णन	,,
दवा	,,
एरंडीपाक	६३
केसरपाक	,,
सोंठपाक	६४
सौभाग्यशुण्ठीपाक	६५
कुमारीपाक	,,
वात्रीपाक	६६
सेवतीपाक	६७
छोहारापाक	,,
लौंगादिपाक	६८
सुपारीपाक	६९
सेमरपाक	७०
शुक्लपाक	,,
रसोनपाक	७१
कुबेरपाक	७२
लहसुनपाक	७२
मिरचपाक	७३
पीपलीपाक	७४
मेथीपाक	,,
पूगीपाक	७५
असगन्धपाक	७६
शाल्मपाक	,,
द्राक्षापाक	७७
केवांचबीजपाक	७८
गोखरूपाक	,,
पञ्चजीरपाक	७९
नागरखण्डपाक	,,
लघुसौभाग्यसोंठपाक	८०
महापीपलीधाक	,,
मुसलीपाक	८१
महाअसगंधपाक	८२
नारिकेलपाक	८३
चोपचीनीपाक	८४
सफेद कुम्हड़ापाक	,,
घीकुवारीपाक	८५
बीजमोदकपाक	,,
पाकविधि	,,
हवाका बयान	८६
बयान (नब्ज) नाडीका	८७
फस्दका वर्णन	८८
फस्दसरारू	८९
फस्द हफ्त अन्दाम	,,
फस्दवासलीक	,,
उन्सरका वर्णन	९०
गलबे : खूनका वर्णन	,,
गलबे : सफराकी निशानी यानी पित्तलक्षण	९१

विषय.	पृष्ठांक.
गलबे : बलगमकी निशानी यानी कफ़ लक्षण	९१
गलबे : सौदाकी निशानी यानी वातलक्षण	,,
कारूरादेखनेकी पहचान	,,
कायदा देखनेका	९३
बयान हजामत पछने और सींगी लगानेका	९४
इन्सान की सेहतका बयान	,,
मुसहिल याने जुलाब देनेकी तरकीब और फायदा	,,
दवा मुञ्जिश सफरा	९६
दवा मुञ्जिश बलगमके वास्ते	,,
दवा मुञ्जिश सौदाके लिये	,,
दवा मुसहिल सफराके वास्ते	,,
मुसहिलबलगम	९७
दवा मुसहिल सौदाके लिये	,,
जोशखूनके वास्ते दवा	,,
बयान तप यानी बुखार	९८
तप दमवी	,,
तप सफरावी	९९
हिन्दी दवा	१००
शर्बत नीलोफर	१०१
शर्बत नींबू	,,
खमीरहखस	,,
शर्बत बजूरी	,,
आनन्दभैरव वटी	१०२
रामवाण गोली	१०३
तपेसौदावी	,,
तपेदिक का बयान और इलाज	१०५
तपचेचक	१०७
वोरानके दिनोंका बयान	१०८
दूधपीनेवाले लड़कोंका इलाज	१०९
बयान अनाजका और फायदा नुकशान गेहूं	११२
फायदा खमीरी रोटीका	११३
पानीका बयान	११४
बयान सोने और जागनेका	११५
ताकत और उसरका बयान	,,
जहरका इलाज	११६
मोतियाबिंदका इलाज	१२०
आंखोंके दर्द और वरमका इलाज	१२१
आंख और पलकोंकी खुजलीका इलाज	,,
आंखकी कमजोरीका इलाज	,,
फूलीको काटनेवाली गोली	१२२
दलकेका इलाज	१२३
खांसीका इलाज	,,
कानकी बीमारीका इलाज	१२४
ऊंचा सुननेका इलाज	१२५
कानके जख्मका इलाज	,,
कानके कीड़ोंका इलाज	,,
नाककी बीमारीका इलाज	,,
जुकाम और नजलेका इलाज	१२६
इलाज दांतोंके दर्दका	१२७
आसानीसे लड़कोंके दांत निकालनेकी विधि	१२८
जवानकी बीमारीका इलाज	,,
मुंह आनेका इलाज	,,
मुंहसे लार बहनेका इलाज	१२९
होंठ फट जानेका इलाज	,,
शिरके दर्दका इलाज	,,
सरसामका इलाज	,,

विषय.	पृष्ठांक.
सीनेकी बीमारियोंका इलाज	१३०
सिलका इलाज	१३१
मेदः—यानी पेटकी बीमारीका इलाज	१३१
जवारिश आंवला	१३२
जवारिश कलौंजी	,,
सोजाकका इलाज	,,
आतशकका इलाज	१३३
गठियाका इलाज	१३४
जुजामका इलाज	,,
ववासीरका इलाज	१३५
दर्द गुरदेका इलाज	,,
पेशाब बहुत आनेका इलाज	१३६
पेशाब बन्द हो जानेका इलाज	,,
पेशाबमें खून आना	,,
ज्यादा प्यासका इलाज	,,
हिचकीका इलाज	१३७
पेट में दूध और खून जम जानेका इलाज	१३८
बगल की बदबूका इलाज	,,
शीतका इलाज	,,
नासूरका इलाज	१३९
खूनके बंद करनेका इलाज	,,
आगसे जल जानेकी दवा	,,
कंठमालाका इलाज	१४०
आवाजके बढ़जानेका इलाज	,,
चोटका इलाज	१४१
चोट और वदनमें खून जम जानेका इलाज	,,
बदन दुबला हो जानेकी दवा	१४२
कमलबायुका इलाज	,,
तिल्लीका इलाज	,,
दादका इलाज	१४३
नाखून फट जाने का इलाज	१४४
शिरके जूका इलाज	,,
फिसाद मुंहके रंग का इलाज	,,
झाईंका इलाज	१४५
खारिश या खुजानेका इलाज	,,
हरताल-तेल दाद और खुजलीके वास्ते मुफीद	१४६
रोगन पंवाड़	,,
छीपका इलाज	१४७
बदका इलाज	,,
हाथपांव फट जानेका इलाज	१४८
फुन्सी यानी छोटे दानाका इलाज	,,
मकड़ीकेफलका जानेका इलाज	,,
सफेद दागोंका इलाज	१४९
घूस का तेल	,,
बांझ स्त्रीका बयान	१५०
दूसरी पहचान	,,
तीसरी पहचान	,,
बांझस्त्रीकी दवा-६	१५१
इलाज उस वक्तका कि जब औरत गर्भसे हो	,,
गर्भको न गिरने देनेवाली दवा-३	१५२
बीमारी खून हैजेका इलाज-७	१५३
इलाज बन्द हो जाने खून हैजेका-८	१५४
वरम छाती यानी स्तनका इलाज-४	१५६
स्त्रीके दूध बढ़ जानेका इलाज-३	१५७
गर्भ गिरानेकी दवा-१०	,,

विषय.	पृष्ठांक
प्रसूतका इलाज-५	१५९
इलाज उस वक्तका जब बच्चा पैदा हो-६	१६०
कुव्वत वाहका इलाज, माजूम सफूफ, गोली, हलवा, तेल	१६५
इलाज गुरदे और मसानेका शर्बत, सफूफ, दवा, जवारिश, कलौंजी	१६६
हलक यानी नरखरेका इलाज शर्बत, शहतूत, गरगरा दवा लेप	१६८
निस्यान यानी भूलका इलाज माजूम, सफूफ	१७०
सक्तेका इलाज	१७१
जिनूका इलाज	१७२
माली खोलिया यानी दीवानगीका इलाज	,,
जलन्धराका इलाज	१७३
शर्बत, रेबन्द	१७४
जुशांदा गोली	,,
माजुम जाफरान, सफूफ	१७६
कुलजका इलाज गोली	१७७
पेटके कीड़ोंका इलाज	१७८
काच निकल आनेका इलाज	१७९
पेचिशका इलाज	,,
जवारिश मडोड़ और बवासीरपर	१८०
पेचिशपर सफूफ	,,
सफूफ दूसरा खूनपर	१८१
दमेका इलाज गोली	,,
शर्बत तम्बाकू चटनी	१८४
इलाज, पसली जो लड़कोंको बीमारी होजाती है, गोली	१८४
हैजेकी बीमारीकी दवा	१८५
बावले कुत्तेके काटनेका बयान दवा, लेप	,,
शिरके गंजका इलाज	१८७
जोडोंके दर्दका इलाज	१८९
जुशांदा, हलुवा, गोली दवा	,,
सब तरहके जख्म यानी घावका इलाज	१९०
रोगन, रोगन कमीला	१९२
रोगन मिलावां	,,
कुचले का तेल	१९३
सब तरहके मरहम की तरकीब और उनका फायदा	,,
मरहम कोंच	,,
उबकाईका आना और जी मिचलानेका इलाज	१९५
गोली मिचलीके वास्ते	१९६
जवारिश इलायची	,,
शर्बत अनार	,,
हैजेका इलाज	,,
मरहम अलसी	१९७
कुश्ता बारहसिंगेका	१९८
कुश्ता सोनेका	,,
कुश्ता चांदीका	,,
कुश्ता रांगेका	१९९
कुश्ता पारेका	,,
मिर्गीका इलाज	,,
जुजामका इलाज	२००
शीशमका शर्बत	२०२
तरकीब बाल बढ़ानेकी	,,
नुस्खे खिजाबके	२०३

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
नवदुर्ग चूर्ण	२०४	शृंग्यादिक चूर्ण	२१३
दूसरा चूर्ण	,,	पथरी मूत्रकृच्छ्रका चूर्ण	,,
वाईका चूर्ण	,,	अग्निमुखका चूर्ण	२१४
पाचन चूर्ण	२०५	भगन्दरविजय चूर्ण	,,
वायुनाशक चूर्ण	,,	अतीसारका चूर्ण	२१५
अग्निदीपक चूर्ण	,,	संग्रहणी और अतीसारका चूर्ण	,,
नागरादि चूर्ण	,,	वायुशूलका चूर्ण	,,
अमृत चूर्ण	२०६	कालचूर्णकी विधि	,,
ज्वरका चूर्ण	,,	शीतज्वरका चूर्ण	२१६
आमवात और शूलका चूर्ण	,,	तालीसादि चूर्ण	,,
हिंग्वाष्टक चूर्ण	,,	तुम्बरु आदि चूर्ण	,,
वायुका चूर्ण	२०७	गुडूच्यादि चूर्ण	२१७
वायुका दूसरा चूर्ण	,,	तालीसादि चूर्ण	,,
वायुका तीसरा चूर्ण	,,	अतीसार चूर्ण	,,
सुदर्शन चूर्ण	२०८	तेरहों सन्निपातों पर सिद्धार्थ चूर्ण	,,
लवंगादि चूर्ण	,,	आतीसारपर चूर्ण	२१८
भास्कर चूर्ण	२०९	द्वितीय चूर्ण	,,
चन्दनादि चूर्ण	,,	हिंग्वाष्टक चूर्ण सर्व रोगोंपर	,,
गंगाधर चूर्ण	,,	दूसरा हिंग्वाष्टक चूर्ण	,,
नागकेसरादि चूर्ण	,,	द्वितीय तालीसादि चूर्ण सर्व रोगोंपर	२१९
दूसरा चूर्ण	२१०	मिरचादि चूर्ण सर्व प्रमेहपर	,,
पुरुषत्ववर्धक चूर्ण	,,	पुष्टिकरण चूर्ण	२२०
कपूरादि चूर्ण	,,	मर्चुयष्टि चूर्ण	,,
तालीसादि चूर्ण	२११	प्रमेह नाशक चूर्ण	,,
अजवायनादि चूर्ण	,,	खण्डादि चूर्ण	२२१
बायखांडव चूर्ण	,,	असंगन्धादि चूर्ण	,,
इलायची चूर्ण	२१२	प्रसूतिका चूर्ण	,,
सरस्वती चूर्ण	,,	श्वेत कुष्ठका चूर्ण	२२२
सिद्धार्थ चूर्ण	,,		
पेटके दुःखका चूर्ण	,,		
निम्बादिक चूर्ण	२१३		

विषय.	पृष्ठांक.
लाही चूर्ण	२२२
अमलवेत लवण भास्कर चूर्ण	२२३
संचल क्रिया	,,
बाईशूलका चूर्ण	२२४
समुद्र चूर्ण	,,
पाचक चूर्ण	,,
चित्रादि चूर्ण	२२५
प्लीहाका चूर्ण	,,
अग्निकर चूर्ण	,,
अफरेका चूर्ण	,,
हडक्रिया	२२६
अपूर्व चूर्ण	,,
ज्वरपर पीपल चूर्ण	,,
प्रमेहपर त्रिफला चूर्ण	२२७
त्रिकुटाचूर्ण	,,
कफादिपर पञ्चकोल चूर्ण	,,
त्रिगन्धचूर्ण	,,
जीवनीचूर्ण	२२८
बद्धमूत्रपर लवणपंचक चूर्ण	,,
वृद्धसुदर्शन चूर्ण	,,
कासश्वासज्वरपर त्रिफलादि चूर्ण	२२९
कफज्वरपर कायफलादि चूर्ण	,,
बालकोकी खांसी और ज्वरपर काकराशृङ्गी आदि चूर्ण	२३०
आमातिसारपर शुण्ठयादि चूर्ण	,,
आमवातपर हरीतक्यादि चूर्ण	,,
सर्वातिसारपर लघुगंगाधर चूर्ण	,,
अतिसारपर अन्य वृद्धगंगाधर चूर्ण	२३१

विषय.	पृष्ठांक
संग्रहणीपर कपित्थाष्टक चूर्ण	२३१
संग्रहणीपर दाडिमाष्टक चूर्ण	२३२
आतीसारपर वृद्धदाडिमाष्टक चूर्ण	,,
सुकुमारलवणादि चूर्ण	,,
जातीफलादि चूर्ण	२३३
अरुचिपर महाखांडव चूर्ण	,,
उदररोगपर नारायण चूर्ण	२३४
इसका अनुमान	,,
अजीर्णपर चूर्ण	,,
शूलादिपर पंचसम चूर्ण	२३५
नाराच चूर्ण	,,
प्लीहादिपर लवणत्रितयादि चूर्ण	,,
शूलपर तुम्बरु आदि चूर्ण	२३६
मंदाग्निपर चित्रकादि चूर्ण	,,
मंदाग्निपर अग्निदीपन चूर्ण	२३७
वातादिपर अजमोद चूर्ण	,,
शूलादिपर हिंग्वादि चूर्ण	,,
अरुचिपर अजवाइनि खांड चूर्ण	२३८
अरुचिपर तालीसादि चूर्ण	,,
कासक्षयपित्तादिपर सितोपलादि चूर्ण	२३९
ग्रहणी गुल्मपर लवणभास्करचूर्ण	,,
वात-कफ-पित्त-छर्दिपर एलादि चूर्ण	२४०
कुष्ठपर निंबचूर्ण	,,
पुष्टताकारक शतावरि-चूर्ण	,,
पुष्टतापर अश्वगन्धादि चूर्ण	२४१
धातुवद्धिपर नवायसादि चूर्ण	,,
स्तंभनपर अकरकरादि चूर्ण	,,
पुष्टताकारक शतावरि-चूर्ण	२४२
अन्य चूर्ण	,,
अन्य चूर्ण	,,
अन्य चूर्ण	२४३

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठाक
अन्य चूर्ण	२४३	सञ्चल क्रिया	२४५
चिन्तामणि चूर्ण	,,	समपाचक चूर्ण	,,
अन्य चूर्ण	२४४	वायुहरण चूर्ण	२४६
अन्य चूर्ण	,,	काबुली हड़का चूर्ण	,,
अन्य चूर्ण	,,	एकसौ चौहत्तर प्रकारकी पृथक् २ औषधियोंके अर्क निकालने की विधि	२४६-२६३
लोलिंबराज कथित चूर्ण	,,		
अमलबेत चूर्ण	,,		

इति अनुक्रमणिका समाप्त

श्रीगणेशाय नमः

अथ

वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा

भाग २ दूसरा

--०--

वन्दना

★

दोहा–आदि ब्रह्म धन्वन्तरी, लीन्ह मनुज अवतार ॥
नाना विधिकी औषधी, प्रगट कीन्ह संसार ॥
बार बार सुमिरन करूं, जगदम्बा जगदीश ॥
जिनकी कृपाकटाक्षते, रंक होत अवनीश ॥
मैं तो बहुत अबूझ हौं, सूझि परत नहिं पंथ ॥
कृपा करहु जगदीश प्रभु, वैद्यक बिरचों ग्रन्थ ॥
श्रीभगवान प्रसादको, बहु विधि करूं प्रणाम ॥
आज्ञा तिनकी पायकै, वैद्यक रचों ललाम ॥

यूनानी हैं औषधी, बूटी बहुत प्रकार ॥
रोगहरन औ सुखकरन, रचहूँ वैद्यकसार ॥
तिब्ब निघंटू चरक अरु, वाग्भट्ट गुणखान ॥
सुश्रुत भावप्रकाश ले, वैद्यक बना सुजान ॥
जानत श्रम गुणवानके, वैद्य चतुर मतिधीर ॥
समुझि औषधी करै जो, रहै न तनु दुख पीर ॥
भटकत फिरते रोगिया, वैद्यन केरी चाह ॥
जो याको पढ़ि है समुझि, वैद्य होय सक नाह ॥
जिला जौनपुर मोर है, चकबढ़बल है गाम ॥
जन्म मुराई कुल भयो, भगवान दास है नाम ॥
हाल बम्बई शहरमें, चूना-भट्टी पास ॥
तहां हमारो वास है, राम नाम कर आस ॥
पर उपकारी सेठजी, खेमराज जग जान ॥
तिनकर छापा बम्बई, जानत सकल जहान ॥
तहां ग्रन्थ छापो गयो, सुनहू सज्जन लोग ॥
दवा करै जो रीतिसे, रहै न तनु दुख रोग ॥
वनस्पती सब औषधी, वैद्यकके अनुकूल ॥
करहु अनुग्रह सुजनजन, शुद्ध करहु मम भूल ॥
चूक समारो मोर जो, मनमें करब न राग ॥
दुसरी बार छपायके, बहुत करब अनुराग ॥

प्रश्न यंत्र

जिस मनुष्यको प्रश्न करना हो वह आँख मूँदकर किसी कोठेमें अँगुरी धरे फिर उसी अंकके बाहरकी इबारत बाँच फल समझ लेवे ।



(१) रामे च शुभदा लक्ष्मीः,
(२) सीतायां बहुदुःखदा ।
(३) लक्ष्मणे कार्यसिद्धिः स्यात्,
(४) सर्वसिद्धिर्भवेद् द्विज ॥ १ ॥
(५) कुम्भकर्णे तु मरणं,
(६) रावणे च कुलक्षयः ।
(७) महाभाग्यं धर्मकेतौ
(८) नारदे कलहो भवेत् ॥ २ ॥
(९) अङ्गदः शुभदः प्रोक्तः,
(१०) सुग्रीवे बन्धुदर्शनम् ।
(११) हनुमत्कार्यसिद्धिः स्यात्,
(१२) सर्व सिद्धिर्विभीषणे ॥ ३ ॥

अथ दूतपरीक्षा

दूतकी चेष्टासे साध्यासाध्य रोगीको वैद्यजन जान सकते हैं। दृष्टान्त जैसे–धूमको देखकर अग्निका अनुमान करते हैं वैसे ही विद्यावान् वैद्य रोगीके रोगका अनुमान कर सकते हैं।

अथ दूतलक्षण

जो दूत वैद्यको बुलाने जाय उस दूतका लक्षण कहते हैं–रोगीकी जातिका हो सफेद वस्त्र पहने हुए कुछ द्रव्य फलादिक हाथमें लिये, हाथी-घोड़ा सवारी-पर सवार हो ऐसा दूत वैद्य बुलानेको श्रेष्ठ है अथवा चतुर, विद्यावान्, शीलवान्, ब्राह्मण-क्षत्रिय जातिका हो पान खाये हुए, शीलस्वभाववाला, शुभवचन मुखसे बोलता हुआ ऐसा दूत वैद्यको बुलाने जाय तो श्रेष्ठ है।

अथ दूसरा दूतलक्षण

जो दूत वैद्यको बुलाने जाय वह काले लाल कपड़े पहने हुए हाथमें लकड़ी लिए, बालोंकी जटा शिर-पर धारण किये अथवा मूड़ मुड़ाये हुए तेलमें भीगे कपड़े पहने हुए, भयकारी वचन कहता हुआ, दरिद्री व रोता हुआ, राख, कोयला, अँगार, खोपरी, फाँसी हाथमें लिए हुए सूर्यके अस्तसमय जो चुप होकर वैद्यके पास बैठ जाय ऐसा दूत यमरूप है, और वैद्य बुलानेके हेतु स्त्रीको नहीं भेजना चाहिये, क्योंकि महा अशुभ है और दो

आदमीको जाना भी अच्छा नहीं और अङ्गहीन, रोगी, शोकित, रोता हुआ, काना, अन्धा, लूला, लँगड़ा, अशुभ वचन बोलता हुआ, ऐसा दूत वैद्य बुलानेको नहीं जाय, ये सब अशुभ हैं ।

अथ दूतशकुन

शकुनसे वैद्यजनको शुभाशुभ साध्य व असाध्य रोगीको जना देता है और बुलानेको दूतके चलते हुए सौम्य शकुन बाजादिक अच्छे नहीं, अङ्गारादिक प्रदीप्त शकुन अच्छे हैं ।

अथ दूत शुभाशुभ

जो दूत वैद्यके पूर्व दिशा व उत्तर, पश्चिम दिशा व ईशान दिशामें बैठे तो अच्छा है और दिशाओंमें बैठे तो अनिष्ट है और जो दूत तृण राख कोयलादिक लिये बैठ जाय तो अच्छा नहीं और लाल माला, वस्त्र, तृण, लाठी, दल काटता, कीच, तेलमें भीजा, चूती नाक, माथे पर हाथ रखकर बैठे ऐसा दूत अनिष्ट है ।

अथ दूतके कहे अक्षर शुभाशुभ

दूतके मुखसे निकले अक्षर दुगुने कर तीनका भाग दे शून्य बचे तो रोगी मरे; अंक बचेतो आरोग्य हो और दूतके मुखसे निकले अक्षर तीन गुणे कर आठका भाग दे सम बचे तो मृत्यु हो, विषम बचे तो आरोग्य हो ।

अथ रोगीके पास जाते हुए वैद्यको शुभाशुभ

रोगीकी चिकित्सा करनेको चलते हुए मार्गमें बाजा इत्यादि शुभ हैं, दीप्त याने अंगारादिक शुभ नहीं और वैद्यके गमनमें हस्ती, घोड़ा, ब्राह्मण, बल, फल, छत्र, मांस, जल, स्त्री पुत्रवती, गौवत्ससहित, खंजरी, सिद्धान्न, राजा, पुष्प, वेश्या, चंदनादिक शुभ हैं, हरिण, काक बांये वैद्य-गमनमें शुभ हैं और कुत्ता, सर्प, मूसा, नकुल, मांस, दही, दूध, रूपा, बकरा, मुर्दा रोदन वर्जित, अग्नि प्रकाशित, सफेदवस्त्र, ध्वजा चित्तके आनंद यह शकुन वैद्यको शुभ हैं।

अथ रोगीके पास जाते वैद्यके शकुन.

छत्र, गौ, ब्राह्मण, कन्या, मांस, मदिरा, वेश्या, गोरोचन, मंगलशब्द, राजा, घोड़ा, हस्ती, दही, स्त्रोत्रपाठ, संगीत, भयानक करुणाविहीन शब्द करते हुए क्रीडारूप मनोहर मुखसे कहते हुए बालकादि शुभ हैं और पुरुषनामक पक्षी वाम शुभ, हस्ती खच्चर बीन स्त्री नामक पक्षी दक्षिण शुभ है।

अथ वैद्यको अपशकुन

बिलाव, गोह, कीरिली या वानर या कोई जीव मार्गमें छेद करे तो अशुभ है और रोगीके द्वार पर मंगल अमंगलरूप जानो।

अथ वैद्यगमननिषिद्धकाल

संध्याकालमें, रात्रिमें, स्नान, भोजन समयमें, विपरीत कालमेंबुद्धिमान्वैद्यगमन नहींकरे, इनसबकाध्यानरक्खे।

अथ वैद्यरोगी–विषयक नियम

वैद्य रोगीके मकानमें शयन नहीं करे, रोगीके घरका भोजन नहीं करे और विना बुलाए नहीं जाय, वैद्य रोगीके मुखपर मृत्यु प्रगट करे नहीं, सुन्दर चिकित्सा करे उसे वैद्य कहते हैं और वैद्य गुरुद्वारा शास्त्रार्थ जानता हो, संपूर्ण कर्म्म क्रिया जानता हो और अपने हाथसे औषध करनेवाला, हाथका हलका हो और शुद्ध शूर वीर संपूर्ण रसादिक जिसके पास हों, चंचल चतुर शीघ्र बुद्धिवाला और उद्योगी प्रियवचन बोलनेवाला, सत्यधर्मवाला ऐसा वैद्य शुभ श्रेष्ठ है; श्रेष्ठ वैद्य महा असाध्य रोगीकी चिकित्सा नहीं करे और चतुर हो, गुरुमुखसे पठन किया हो, सब कर्म–ग्रन्थ चिकित्साके देखे हुए पवित्र हो, यह वैद्य उत्तम है।

अथ निषिद्ध वैद्य

पुराना कपड़ा पहने हुए, क्रोधी, अत्यन्त गर्व-वाला, ग्रामग्राममें जानेवाला और बिना बुलाए रोगीके पास आवे ऐसे पांच प्रकारके वैद्य धन्वंतरि समान भी प्रशंसाको प्राप्त नहीं होते।

अथ वैद्य कर्तव्य

रोगका निश्चय कर पीड़ाकी शांति करना यह वैद्यका वैद्यत्व है, उमरका मालिक वैद्य नहीं है और मनुष्यकी

१०१ मृत्यु हैं उनमें १ मृत्यु कालसंयुक्त है, बाकी सब रोगरूप साध्य हैं. काल सभीको ग्रसता है, महामृत्युको दूर करनेके लिए कोई रसायन नहीं है, रोगी रोग-शांतिके पीछे वैद्यको द्रव्य देके पूजा करे, जो नहीं करे तो रोगीका किया सुकृत पुण्य आधा वैद्यको मिलता है।

अथ रोगीके लक्षण

धनवाला, विश्वास करनेवाला, अपनी प्रकृति जाननेवाला, पथ्य करनेवाला, सत्यगुणवाला, वैद्यका भक्त, ऐसा रोगी चिकित्सा करने योग्य है, द्रव्य विना दवा नहीं होती।

अथ रोगीके पास रहनेवालेका लक्षण

स्नेहवाला, निन्दारहित, बलवान्, रोगीकी रक्षामें निपुण, वैद्यवचनमें निश्चयवाला, दयावान्, पवित्र, चतुर, बुद्धिमान् ऐसा मनुष्य रोगीके समीप रहनेवाला श्रेष्ठ है।

अथ निषिद्ध रोगी त्याज्य

जार, चोर, म्लेच्छ, ब्रह्महत्यावाला, मच्छी मारनेवाला, वैरी, ग्राममें कपट रचनेवाला, जीवहिंसा करनेवाला, मांस बेचनेवाला, परस्त्रीगमनवाला, अंगार लगानेवाला ऐसे रोगीकी वैद्यजन चिकित्सा नहीं करें, जो वैद्य करे तो पापी हो।

अथ रोगीकी परीक्षा

देखकर, स्पर्श कर पूंछकर रोगीकी परीक्षा करे। चिकित्साके चार अंग हैं-वैद्य १ द्रव्य २ परिचारक ३ रोगी ४ इन सबकी तैयारीमें चिकित्सा श्रेष्ठ है।

अथ स्वप्न परीक्षा

जो रात्रिके पहिले प्रहरमें स्वप्न आवे तो १वर्षमें फल करे और जो दूसरे प्रहरमें स्वप्न आवे तो६महीनेमें फल करे,जो तीसरे प्रहरमें स्वप्न आवे तो३महीनेमें फलकरे, जो चौथे प्रहरमें स्वप्न आवे तो ३ महीनेमें फल करे जो प्रात:कालमें स्वप्न आवे तो १० दिनमें फल करे, जो रोगी अथवा निरोगी हो और स्वप्न देखे तो उसका विचार करावे, जो स्वप्नमें अग्नि जलती हुई देखे या वृक्ष फला हुआ देखे या कन्या देखे अथवा घोड़ा हाथीपर राजाको सवार देखे अथवा सफेद कपड़े पहने हुए सफेद फूलोंकी माला धारण किये हुए नारी या पुरुष मिले तो चारों तरफसे लक्ष्मीकी प्राप्ति हो और वृद्ध वा ब्राह्मण वा मित्र वा अपनेसे श्रेष्ठ जो स्वप्नमें मिलें तो शुभ है ऐसा स्वप्न सुख देनेवाला है और लाल काले कपड़े पहने और काला तिलक दिए हुए जो नारी स्वप्नमें मिले तो मृत्यु हो, जो स्वप्नमें अपना शिर मुड़ाये हुये अपना विवाह देखे और अपने घरमें नाच गानादिक देखे तो मृत्यु जानो और जो

खराब स्वप्न आवे तो कुछ दान पुण्य करे, अच्छा स्वप्न अच्छा होता है, खराब स्वप्न खराब जानो।

अथ वैद्यकी परीक्षा

वैद्यको चाहिए कि, रोगीका वचन ध्यानसे सुने और अपने सत्यसुकृतसे दवा करे, झूंठ बात नहीं बोले और जहां तक रोगीका श्वास आवे वहां तक दवा करे, बहुत रोगी असाध्य भी जीते हैं और वैद्य-जन रोगीकी परीक्षा पहले करें तब औषधीकी परीक्षा करें और काल वेला विचारके दवा करें और शरद-गर्मका विचार करें तब जैसा रोगी हो वैसी दवा करें।

अथ रोगीकी अष्टस्थान परीक्षा

रोगीके आठ स्थान देखे, प्रथम नाड़ी १ मूत्र २ मल ३ जिह्वा ४ शब्द ५ स्पर्श ६ नेत्र ७ शरीरका आकार ८ इस आठ प्रकारसे रोगीकी परीक्षा करे। प्रथम नाड़ी देखे कि दोषकोप ज्यादा है या कम और वैद्य नाड़ी की आदि व अन्तमें स्थिरता देखे (दृष्टांत) जैसे, वीणामें प्राप्त स्वर यन्त्री संपूर्ण रागोंका प्रकाश करे, वैसे वैद्यके हाथमें भी नाड़ी भी प्राप्त होती है इसीसे सब रोग जाने जाते हैं।

अथ नाड़ी लक्षणकथनम्

दोहा—प्रथम गुरुपद वन्दिकै, धन्वंतरि धरि ध्यान।
करै परीक्षा रोगकर, सो वैद्यक जग भान॥

प्रातः कालके आदिमें, नाड़ी देखै आन ।
पुनः चिकित्सा कीजिये, कहै दास भगवान ।

अथ वातनाड़ीलक्षण–चौपाई

सरस्वती सुमिर कर भाई । तब नाड़ी पर ध्यान लगाई ॥
भगवानदास कहत विचारी । प्रातकाल उठि धारै नारी ॥
पित्त वात श्लेषम जानै । देखि धामिनीको पहिचानै ॥
कहता तिक्त उष्ण के खान । सो नाड़ी परखत यह जान ॥
काक चालसम चंचल नाड़ी । चपलचित्त जो चलै उछाड़ी ॥
दूध दही पुनि केला खाय । यह सुभाय जाते सुनि भाय ॥
प्रात समय में पानी प्याय । जाकी नाड़ी कफ घर थाय ॥
खारो खाय सम्पूरण नाड़ी । मिष्ट खार फल पित्तविगाडी ॥
पित्त पापनी हो सन्तापू । वात पित्त कफ होय बतापू ॥
जलदी जलदी मृग ज्या फादे । हंस मयूरगती नहिं ज्यादे ॥
फुलधनिया या जीरा भखिया । वात घघूकी चाल परखिया ॥
मिश्री गरी जु जीरा खाय । वात पित्तका भेद बताय ॥

दोहा–पहिले नाड़ी देखिये, त्रय अंगुष्ठकरमूल ।
तीन दोष परगट करै, आदि गुरू नहिं भूल ॥
दहिना हाथ पुरुषकर, बायां स्त्रीकर जान ।
ऐसे नाड़ी देखिये, सुनहू वैद्य सुजान ॥

चौपाई

पितनाड़ी कहु कफघर बास । जो जानिये वैद्य हुलास ॥
मक्खी हो जो आवै भारी । फिर पीछे कफके घर प्यारी ॥

पानी शरदी होय अलाप। लक्षण नाड़ी पित्त कलाप ॥
पेट रक्त जो धमनी जान। वातप कोपै शीतल खान ॥
शीघ्र चलै शीतलता आवै। वात पित्त का भेद लखावै ॥
भूखे कोख चपल हो चलै। रक्त उष्णकी जानहु भलै ॥
तप औ निरखा बहुत अहार। बेगवती सो बेग अपार ॥
मिष्ट रु दूध दही पुनि खाय। चीडी कुलग जु कूदे ताय ॥
शीतल भोग कपोल जु जावै। जब नाड़ी कफके घर आवै ॥
कफश्लेष्म दोनों यक रास। शीत वातका एक जु श्वास ॥
क्षुधाहीन बल बहुत ते देहा। गुप्तनाड़ि पल में न सनेहा ॥
भगवानदासगुरु ध्यान लगावै। सबही नाड़ी भेद बतावै ॥

दोहा—लम्बा हाथ करायके, मन सुस्थिरचित लाय ॥
तीन बार नाड़ी धरै, बधिसे रोग बताय ॥
बात पित्त कफ जानिकै, साध्य असाध्य विचार ॥
आठ परीक्षा आदि हैं, लक्षण बहुत प्रकार ॥

अथ पित्तनाड़ी लक्षण—चौपाई

आदि चलै जो पित्त कहीजे। मध्यमश्लेष्म जानि जु लीजै ॥
अन्त होय सो वायु विजारै। त्रयविधि नाड़ी लक्षण सारै ॥
श्लेष्म नाड़ी है परभात। दूजे याम पित्त हो जात ॥
तीजे याम वायु बखानी। पुनिसंध्या में पित्तहि आनी ॥
नागसमान वायुकी नाड़ी। चपल चित्त ज्यों जलै उघाड़ी ॥
मन्द मन्द श्लेष्म है संध्या। लक्षण त्रय नाड़ीका बध्या ॥

सोरठा—नाड़ी इक सौ सात, जानि जानि चौबीस तन ॥

प्रथम हि जनों जात, आवह वेग रु वहिनी ॥
दोनों होय जनाय, थानक मिष्ट कुरंग ज्यों ॥
पुनि आवै यहि भाय, ज्यों मेढ़क पक्षी फेरे ॥

चौपाई

रहि रहि पुनि चलती लहकानै। नड़ी प्राणनाशिनी जानै ॥
अतिक्षीण बल होय वह शीत। सोजीवित जोकर निरजीत ॥
पित्त दग्ध जो केहुके होवै। ताते नाड़ी वह थिर जोवै ॥
देह महाबल तनु जो घटै। कम्पै रोम क्षुधा घणि मिटै ॥
वात दग्धकी नाड़ी चंचल। रक्त विकारक होवै अञ्चल ॥
इन पर देखौ नाड़ी सारी। पेखि वैद्य तुम करौ बिचारी ॥

दोहा–जुरकै कोपै धामिनी, वेग उष्णता होय ॥
काम क्रोध पुनि वेगसे, चिंता क्षीणा सोय ॥
मंदगति चपली चलै, धातु क्षीण होजात ॥
अंश पूर्ण ते उष्णता, भारी भइ दिन रात ॥
दीपक अग्नि रु लघु बहै, पुनि बेगवती भेद॥
मुख माहीं स्थिरता हवै, बलवन्ती उनभेद ॥
मंद मंद पुनिशीतता, व्याकुल थिरता धाम॥
वदति धामनी सुषमना चलै क्षीण यह नाम॥

सोरठा–पांच भेद यह जानि, लक्षण नाड़ीके कहे ॥
समझबात जिय जानि, पीछे औषधि कीजिये ॥
व्याकुल मल पित देन, भार खेद मल शीलता ॥
शीतल सुख में लेन, चिहुंठ कुसुममें धीरता ॥

भोजन मिष्ट करेन, ताते सेवै पित्तमें ॥
अथवा गान धरेन, पितलक्षण जिसकी थकी ॥
रक्त धातु पुनि जाय, पित्त पिंगु कफ वायु हो॥
ताको पित घर थाय, वायूसी नाड़ी चलै ॥

चौपाई

कामक्रोधपुनिहोयस्वक्रीड़ा । वायु थकी पुनि होवै पीड़ा ॥
प्राज्ञ समय तनु होवै क्षीण । तनु जो क्षीण रोग होय क्षीण॥
तीक्षण खार श्वान पुनि थाय। धातु क्षीण हो निश्चय जाय ॥
कण्ठ शोष अधरहु पुनि सूखे । इंद्रिय थकित देहु सब सूखे ॥
धन्वन्तरि सम्बंधहि मानै । इत्यादिक लक्षण ये जानै ॥
दोहा-सनिसनि जो नाड़ी चलै, बकरत ही पुनि बीत ॥
हृदय धवल तनु शीतता, क्षीण करै भै भीत ॥
क्रोध उदे गह काम कर, थिर चिन्ता मन क्षीन ॥
मंद अग्नि मन्दै चलै, बाय झिकौला दीन ॥
रोधरूप परमानको, क्रोध शीत बिच नैन ॥
देह थकै अरु बल घटै, भोजन की रुचि है न ॥

अथ कफनाड़ी लक्षण चौपाई

हंससखी एकै गति हीड़ै । तब नाड़ी कफ के घर मीड़ै ॥
भारी होय शीत न राखै । थिरथिर बहती मृत्यू भाखै ॥
तन उद्वेग वृद्धिकी नारी । सुख राख कफ नाड़ी प्यारी ॥
सन्निपातको भेद लखावै । सो नाड़ी कफके घर जावै ॥
ज्योति विहीन श्वेत जब होई । ताकर भेद कहै सब कोई ॥

चक्र समान नेत्र जे जोवै । कफ कोपै यह लक्षण होवै ॥
दोह-रहि रहि नाड़ी जो चलै, सो वह प्राण हराय ॥
पुनः क्षीड़ शीतल चलै, जो यमघर ले जाय ॥

अथ त्रिदोष नाड़ीलक्षण

दोहा-तीतर लवा बटेरसी, इनही गति जो जाय ॥
सो नाड़ी त्रयदोषकी. रोग तनूक्षय जाय ॥
तंद्रा निद्रा मोहवश, व्याकुलता में आय ॥
मग्ननेत्र अरु अरुण पुनि, रक्त वर्ण होजाय ॥
नेत्रबोध बलिजानिकै, वह त्रिदोष पहिचान ॥
कृष्णनाड़ि पुनि तापकी, रुधिर अधिक है मान ॥
गरुई सामग्री धसी, तामैं दिये बताय ॥
परिहा मुखकी छबि भई, कृष्ण फिरै पुनि भाय ॥
विकल नैन हो देहमें, सुख नहिं पावै सोय ॥
मैन उतप्फुल बाय थी, और उन्माद जु होय ॥

अथ पित्तलक्षण-चौपाई

बढ़ै पित्त दाह अति करै । सूखैं अधर मन्त्र बहु सरै ॥
होय पित्त मुख हलद समान । शीतउ पाय किये सुख जान ॥
नाड़ी चलै वेगवत् जोई । सूखैं जीभ कठिन सी होई ॥
शीतल वस्तु मांगि मख लेइ । कोऊ आन मिष्ट मुख देइ ॥
ज्यों जलहीन मीन तरफरै । पित्त कोप ये लक्षण करै ॥

अथ वायुलक्षण-चौपाई

कहौं वायुके लक्षण ऐसे । कहता भगत वैद्य रह जैसे ॥

सबै वैद्य मत एकै जानो । यही विचार सत्य करि मानो ॥
रूखा अंग होय बहुत्रास । झूठो मुख राखै विश्वास ॥
घरी एक चुपको नहिं रहै । की बात मुखहिते कहै ॥
भ्रमराख चित निशिदिन रोवै । दुखै अंग पीड़ा नित होवै ॥
दोहा—हडपीडा अरु उदर दुख, प्रगट मबेसी होय ॥
तैल बराबर मूत्र है, वायु कोप है सोय ॥

अथ कफलक्षण-चौपाई

सुनो मीत कफलक्षण जोई । श्वेत वर्ण मुख शुद्ध न होई ॥
लघु गरिष्ठ भोजन नहिं पचै । चले पेट अति देहो तपै ॥
आलस अधिक होत है ताही । होय विवर्ण सूज है जाही ॥
अधिक उष्णसों राखै प्रीति । तृषाहीन यह कफकी रीति ॥

अथ रुधिरकोपका लक्षण-चौपाई

लोहू बढ़ै पित्त बढ़ि जाय । रक्तमिष्ट मुख सदा रहाय ॥
भारी रहै शीत अति ताको । राइ अंग तप्त नित वाको ॥
दुखे हाड़ नित ऐसो कहै । बिनश्रम कियेही थाक्यो रहै ॥
सूख मुख तालुका सुखाई । उपजै खाजु अंग अधिकाई ॥
मूते रक्त नयन अतिराते । रहे सदा निद्रासों माते ॥
चलै वेगसों नाड़ी जाकी । कहै भक्त लोहूगति वाकी ॥

अथ नाड़ीपरीक्षा दूसरी विधि-चौपाई

अब नाड़ीका भेद बताया । समुझि लेहु याको मन लाया ॥
जबलग भेद न याको पावै । रोगी हतन वैद्य बहु धावै ॥

मारग कठिन रोग की जान । सब वैद्यन मिलि किया बखान॥
रहै वर्ष बहु वैद्यन साथ । तब वैद्यक कछु आवै हाथ ॥
दोहा—जब लग नाड़ी भेदकी, समुझि परै नाहिं कोय ॥
वहै वैद्य यमरूप है, औषध सिद्धि न होय ॥

चौपाई

अबै ठौर नाड़ी की कहै । कर अंगुष्ठ मूलमें रहै ॥
हस्त बांहकी संधि बखान । तथा देख नाड़ीकी थान ॥
अंगुरी तीन तहां ले धरै । पित्त बात कफ परगट करै॥
ताकी चाल कहौं समुझाय । भिन्न भिन्न करि देउँ बताय॥
दोहा—कुकरी वायस वेषकी, चाल चलत है पित्त ।
नाग जलौका गति गहे, वायु समझिये मित्त ॥

चौपाई

हंस मयूर कपोल बखान । कफनाड़ी गति ऐसे जान ॥
तीतरचाल बटेर चलाई । सन्निपात समुझौ यहि भाई॥
कबहुँ मन्द कबहूँ वेगाय । द्वान्द्वभेद यदि दियो बताय ॥
चातुर वैद्य देखि त्यहि तजे । सो रोगी यमपुर को भजे ॥
दोहा—भूख लगेते चपल है, भोजन ते दबि जाय ॥
बेगि चलै मल-पातते, उष्ण रक्तकी बाय ॥

चौपाई

मन्द मन्द नाड़ी है जास । सो नर जाय बसे यम पास ॥
उलट पलट जाकी नस होई । मरै सही जीवै नहिं सोई ॥

व्याकुल बहै नाड़ि जो चले। सो वह पितर पक्षमें रले ॥
ऐसी समुझि करै जो कोई। ताको अपयश कबौं न होई ॥
नाड़ि–ज्ञान कठिन ते आवे। भगवानदास यह भेद बतावे ॥
औषधि करे शीलता राखी। झूठ बात मुख कबौं न भाखी॥

दोहा–रोगपरीक्षा लक्षणहुँ, नाड़ी दिया बताय ॥
यही आदि सब जानहुँ, बिन गुरु ग्यान न पाय ॥

चौपाई

धर्म इलाज करै जो कोई। धन्वन्तरि सम वैद्य सुसोई ॥
मोह क्रोध मद लोभहि खोई। तब पढ़े नर वैद्यक सोई ॥
निरंकार को नावे माथ। यह अपयस जिनके है हाथ ॥
राम नाम ले करे इलाज। जीवे रोगी सिद्धि सुकाज ॥
आदि गुरु को मनमें राखे। तब रोगीको औषध भाखे ॥

अथ मूत्रपरीक्षा चौपाई

मूत्रपरीक्षा कहौं बखान। जिससे रोग होय पहिचान ॥
वात पित्त कफ तीनों होय। रंग अनेक मूत्रमें जोय ॥
कांचपात्रमें मूत्र धरावे। विकसत सूर्य परीक्षा लावे ॥
वातरोग अधिकै जो होई। तेकर मूत्र सफेदै होई ॥
झागदार हो कफका कहिये। पित्तमें लाल मूत्र हो सहिये॥
वात पित्त कफ तीनों होय। रंग अनेक मूत्रमें होय ॥
वात पित्त कफ जाके होई। नीला पीला लीहे होई ॥
सन्निपात जो होवे रोग। मूते कृष्णवर्ण नहिं सोग ॥

दोहा--करो परीक्षा मूत्र कर, सुनहू वैद्य सुजान ॥
तेल मूत्रमें डारिये, रोग होय पहिचान ॥

चौपाई

फैले तेल मूत्र में जबै । कहु असाध्य रोगीको तबै ॥
वात कोपमें मूते नीला । पित्त कोप में होवे पीला ॥
मूत्र तेल सम जाकर होई । कफकर कोप रुधिर कहि सोई
गरम रु लाल जाकर हो ताके । अन्न न पाक क्षुधा नहिं जाके॥
धूमा लिहे मूत्र अधिकाय । बात पित्त ज्वर पिये बताय ॥
मूत्र रुधिर सम जाके होई । पित्त कफज्वर कहिये सोई ॥
वात कफज्वर मूत्र सफेद । अनेक रंग सन्निपातके भेद ॥
मूत्र पात्रमें तेल डराई । रोग रु दोष प्रगट ह्वै जाई ॥

दोहा--मूत्र पात्रको लायकर, तेल बुंद इक डार ।
पूर्व दिशामें जाय तो, घटै रोग तत्काल ॥

दक्षिण दिशा बुंद बढ़ि जाय । तो रोगीको ज्वर अधिकाय॥
उत्तर दिशा बुंद बढ़ि जोई । जीवै रोगी निश्चय सोई ॥
पश्चिम दिशा बुन्द बढ़ि जावै। तो रोगी को सुख उपजावै ॥
जो चलनी सम छिद्र देखाई । प्रेत दोष तो देहु बताई ॥
तेल होय नरके आकार । झार फूँकसे रोग उतार ॥

दोहा--मूत्रपरीक्षा भेद अरु, लक्षण विविध प्रकार ।
रोग जानहू यहीसे, कहुं मैं वैद्यकसार ॥
वैद्यक विद्या पढ़ै जो, निज गुरुकेरे पास ॥
क्षणहु एक भूले नहीं, कहे भगवानदास ॥

अथ मृगीकी दवा-चौपाई

रसगन्धक कजली कर लीजै। भृंगराज रस खरल करीजै ॥
कर गोली गुञ्जा परमान। वर्ष एक लग खाय सुजान ॥
एक प्रात इक सन्ध्या काल। सेवे रोगी मृगी बहु टाल ॥
तुवर वस्तु सब ही परिहरी। दही मांसको अशन न करी॥
अहित वस्तु सबको तजि देय। कहै वैद्य रोगी सुनि लेय ॥

पुनः मृगीकी दवा

जो मसानसे खोपरि लावै। कूटि छानकर चून बनावै ॥
गुप्त आनि भाषै नहिं कोई। करे युक्ति जाने नहिं कोई॥
मासे तीन रोज जो खावै। रोगी सेवे मिरगी जावै ॥
मासहु पुण्य करे जो कोई। मृगी रोग ताको ना कोई ॥

अथ वैद्य भेद

दोहा—वैद्यकविद्या आदिसे, पढ़ सीखै मन लाय ॥
आदि अन्त भूलै नहीं, देवै भेद बताय ॥
भगवानदास कर जोरिकै, विनती कर मन लाय ।
सुनहू वैद्य सुजान सब, लीजै चूक बनाय ।

अथ मल परीक्षा

वातकोपसे मल टूटा हुआ झागराला और रूक्ष व धूम्रवर्ण होता है और वात-कफमें मल पीले रंगका होता है॥ और वातपित्त कोपसे मल बँधा हुआ और टूटा हुआ

होता है और पीला व काला होता है। और पित्तकफ-कोपसे मल श्याम व कुछ गीला व चिकना होता है और त्रिदोषसे मल काला व त्रुटित पीला व बंधा हुआ होता है। जो मल दुर्गंधयुक्त व शिथिल हो तो अजीर्ण रोग जानो और क्षयरोगमें श्याम मल होवे, आमवातमें मल पीला दस्त समय कटिमें पीड़ा होवे, अतिकृष्ण अतिसफेद व अतिपीत व अतिलाल अतिगर्म ऐसा मल जिस रोगीके आवे तो मृत्यु हो, वातमें मल काला, पित्तमें पीला, कफमें लाल और सफेद मिला हुआ होता है, वातपित्त व वातकफमें मल आमरूप होता है, सफेद मिश्रित रंग होता है, अजीर्णमें मल कच्चा होता है और वैद्यको चाहिए कि मल की परीक्षा अच्छी तरहसे करे, तब दवा करे। मलकी परीक्षासे रोगीका रोग मालूम हो जाता है तब वैद्य रोगीकी विधिसे परीक्षा करे तो यश होता है।

अथ जिह्वाकी परीक्षा

वात अधिकमें जीभ शीतल खरखरी व स्फुटित होती है, पित्तकोपमें लाल व काली होती है और कफ-कोपमें सफेद व चिकनी होती है और सन्निपातमें काली कांटेवाली व सूखी, दो दोषके कोपमें मिश्रितरूपा जानो। तीन दोषके कोपमें एकदम काली जानो।

अथ शब्द परीक्षा

मोटे स्वरमें बोले तो कफ दोष जानो, स्पष्ट बोले तो पित्त कोप जानो, पूर्वोक्त दोनोंसे रहित बोले तो वातकोप जानो।

अथ स्पर्शपरीक्षा

पित्तकोपमें गर्म शरीर जानो, वातकोपमें शीतल शरीर जानो, कफकोपमें चिकना शरीर जानो, सब ही चिह्न मिलें तो सन्निपात जानो, कफ रोगवाला गीला सम रहता है।

अथ नेत्रपरीक्षा

नेत्र रूप धूम्रवर्ण व किंचित् लाल गोलकमें प्रविष्ट गर्ववाले मनुष्यकी तरह देखना ऐसे लक्षण वात-कोपके हैं और पित्तसे नेत्र हल्दीके समान पीले, लाल, हरे, व दीपकको न देख सके, दाहसहित ऐसे नेत्र पित्तकोपसे कहे हैं और चिकने व जलयुक्त, सफेद्-वर्ण व ज्योतिरहित कफयुक्त ऐसे नेत्र कफकोपसे होते हैं, दो दो दोष कोपसे दो दो दोषके नेत्र होते हैं, त्रिदोष कोपसे त्रिदोष लक्षणवाले नेत्र जानो और त्रिदोष दूषित जो नेत्र हैं सो गोलकमें गड़े हुए व जलसे भरे हुए व बराबरसे खुले हुए नेत्र जिस रोगीके हों उसको सन्निपातग्रस्त जानो, जिस रोगीके एक नेत्र भयानक हो, दूसरा मिचा रहे उसकी तीन दिनमें मृत्यु हो और जिसके नेत्र लाल व काले रंगके हों, भयानक देखे तो अवश्य मरे और

जिनके नेत्र ज्योतिरहित हों, कुछ काले रंगके हों उसकी मृत्यु हो। वैद्यजन अच्छी तरह नेत्र-परीक्षा करें।

अथ मुखपरीक्षा

वातकोपसे मुख मीठा रहता है. पित्तकोपमें मुख कड़वा रहता है, कफदोषमें मुख मीठा व खट्टा रहता है, त्रिदोषमें मुख सर्वरस करके युक्त रहता है और अजीर्णमें मुख घृतसे सम पूर्णके सम रहता है अग्नि-मन्दमें मुखका स्वाद कसेला रहता है।

अथ स्वरूपपरीक्षा

वायु सब दोषोंमें प्रबल है, कारण समर्थ होने व वेगवान् होनेसे व बलवान् होनेसे व अन्यका कोप करानेवाला होनेसे स्वतन्त्रसे व व्याधिकारकसे इन कारणोंसे प्रबल है और बहुत करके पवनयुक्त मनुष्य स्फुटित गात्र होता है, शीतलताका वैरी चलायमान बुद्धिवाला वा स्मरणपूर्वक बातोंका व मित्रदृष्टि व ज्यादा प्रबल करनेवाला होता है। और पित्त अग्निका रूप है, पित्तकोपसे तृषा और भूख ज्यादा लगती है, सफेद रंग शरीर व गर्म, हाथ पांव गर्म व मुख तांबा-सम, शूर वीर सम अभिमानीके सम पीले केश होते हैं, अल्प रोमावली यह पित्तकोपके लक्षण हैं और कफ चन्द्ररूप है इस वास्ते कफवाला अपने शरीरका कपड़ा चिकना देखे।

अथ आयुविचार

वैद्य आदिमें आयु परीक्षा करे, मनुष्यकी और जो आयु बाकी हो तो चिकित्सा सफल हो और जो रोगीकी आयु न हो तो दवा करे नहीं रोगीको त्याग दे।

अथ नक्षत्र वृक्षका फल

अश्विनीका वृक्ष कुचिला है १, भरणीका वृक्ष आमला है २, कृत्तिकाका वृक्ष गूलर है ३, रोहिणीका वृक्ष जामन है ४, मृगशिराका वृक्ष खैर है ५, आर्द्राका वृक्ष अगर है ६, पुनर्वसुका वृक्ष बांस है ७, पुष्यका वृक्ष पीपल है ८, अश्लेषाका वृक्ष चमेली है ९, मघाका वृक्ष बड़ है १०, पूर्वाफाल्गुनीका वृक्ष ढाक है ११, उत्तराफाल्गुनीका वृक्ष पिलखन है १२, हस्तका वृक्ष जाई है १३, चित्राका वृक्ष बेलपत्र है १४, स्वातीका वृक्ष अर्जुन है १५, विशाखाका वृक्ष बब्बुल है १६, अनुराधाका वृक्ष नागकेशर है १७, ज्येष्ठाका वृक्ष शंभल है १८, मूलका वृक्ष रालवृक्ष है १९, पूर्वाषाढाका वृक्ष बेत है २०, उत्तराषाढाका वृक्ष पनस है २१, श्रवणका वृक्ष आक है २२, धनिष्ठाका वृक्ष जांठी है २३, शतभिषाका वृक्ष कदम्ब है २४, पूर्वाभाद्रपदाका वृक्ष आम है २५, उत्तराभाद्रपदाका वृक्ष नींब है २६, रेवतीका वृक्ष महुआ है २७, ये वृक्ष हैं; सत्ताईस नक्षत्र हैं, मनुष्य को मालूम करना चाहिये कि जिस मनुष्यका जो नक्षत्र हो उसी

नक्षत्र-वृक्षकी पालना करनी चाहिये, यह सुखदेनेवाली हैं और अपने नक्षत्रवाले वृक्ष को काटनेसे शरीरमें रोग उपजता है और दुःख पाता है इससे अपने नक्षत्रके वृक्षको काटे नहीं, पालन करे।

अथ शीतलाष्टकका वर्णन

जिसके घरमें शीतलादेवी आवें उसको चाहिये कि अपना घर लिपा पोताके साफ रक्खे और कपड़ा बर्तन बहुत साफ रक्खे और उस जगह शीतल पानीका फुहारा दे और जो आदमी शीतला की सेवा करे वह स्नान और कपड़ासे पवित्र रहे और ब्राह्मण बुलाके शीतलाष्टकका मंत्र और पाठ करावे और धर्म करे, ब्राह्मणको चावल दहीका भोजन करावे और आप भी दही चावल का भोजन करे और जब शीतलादेवी आवें उसी दिनसे गरम वस्तु को त्याग शीतल वस्तुका सेवन करे तो शीतलादेवी प्रसन्न रहती हैं और जो गरम खाता है उसके ऊपर बहुत कोप करती हैं इसलिये दही चावलका सेवन करे, जो शीतलाष्टकका पाठ करता और सुनता है उसको विस्फोटकका भय नहीं होता है।

अथ देवीज्वरहर अर्क

चंदन, बासा, नागरमोथा गिलोय और दाख इनका अर्क शीतल है, शीतलासे उपजे ज्वरको नाशता है और शीतलका लेप यह है-लौंग, इलायचीका चूर्ण

कर और नेनू या घीमें मिलाके लेप करे तो परमेश्वरकी कृपासे जरूर आराम हो ।

अथ वैद्यको शिक्षा

वैद्यको चाहिये कि जहांपर दवाका अङ्ग नहीं लिखा वहांपर दवाका मूल लेना चाहिए और जहांपर दवाका वजन नहीं लिखा है वहाँपर सब दवा बराबर लेना चाहिये और जहाँपर टाइम (काल) नहीं लिखा है वहाँपर प्रातः समयमें लेना चाहिये और जहाँपर दवा खानेका प्रमाण नहीं लिखा है वहाँपर रोगीका अग्निबल विचार कर देना चाहिये । और जहाँपर दवाका अनुपान नहीं लिखा है वहाँपर पानीके साथ देना चाहिये ।

अथ वैद्यको दूसरी शिक्षा

वैद्यको चाहिये कि प्रथम रोगीके रोगकी परीक्षा करे फिर रोगीके बलकी परीक्षा कर; फिर दवाके शरद और गरमकी परीक्षा करे, फिर टाइम–कालकी परीक्षा करे, तब गुरुका ध्यान करके और परमेश्वरका नाम लेकर स्त्री व पुरुष, बालक, जवान व वृद्ध और दवाको गरम व शीतल कमती जियादा इन सबको भलीभांति विचार कर तब दवा करे, यह शिक्षा वैद्यकका अङ्ग है ।

अथ वमनयोग्य

विष रोग, स्तन्यरोग, मन्दाग्नि, श्लीपद, अर्बुद, कुष्ठ, विसर्प, प्रमेह, अजीर्ण, भ्रम, विदारी, अपची, कासश्वास, पीनस, अपस्मार, ज्वर, उन्माद, रक्तातिसार, नासा, ओष्ठ और तालुपाक, कर्णस्राव, गलगण्ड, अतिसार, पित्त, कफ, मेद और अरुचि, इन रोगोंमें वैद्य वमन (उलटी) करावे यह रोगमें हित है।

अथ वमन अयोग्य

तिमरी, गुलमरोगी, उदररोगी, कृश, दुर्बल, अतिवृद्धि, गर्भिणी, मोटा, क्षतरोगी, मदपीड़ित, बालक, रुक्ष, देही, भूखा, निरूहणबस्तिवाला, उदावर्ती, ऊर्ध्वरक्ती, छर्दिरोगी, वातरोगी, पांडुरोगी, कृमिरोगी, बहुवाक्य श्रमसे स्वरभंगी ऐसे रोगियोंको वमन जुलाब न देवे।

अथ वमन-जुलाब विधि

वैद्यको चाहिये कि, प्रथम रोगीको स्नेहपान कराकर तीनों दोषोंको पका; रोग दोषक प्रगट कर मुञ्जिश पिलावे फिर वमन कराके जुलाब देवे पश्चात् दवा देवे।

अथ वमनद्रव्य

मनफलके चूर्णमें सेंधानमक मिलाके खिलावे ऊपरसे गरम पानी पिलावे तो बहुत उत्तम वमन हो, इसी विधिसे तीन दिन वमन करावे तो तीनों दोष शुद्ध हों।

अथ वमनकी दूसरी दवा

नीलाथोथा, फिटकरी दोनों एकमें मिलाके निंबूरस डालके खरल कर गोला बना आधा मन गोबरमें फूँक दे, शीतल होनेपर मिश्रीके साथ खावे ऊपरसे गरम पानी पीवे तो उलटी हो, बहुत उत्तम, कंठ उदर साफ हो जावे और दो दो तोले अग्निमें फूँके, खानेको रोगीका अग्निबल विचारके दे ।

अथ वमनकी तीसरी दवा

शुद्ध नीलाथोथा, मनफल, फिटकरी तीनों एकदम मिलाके खावे, ऊपरसे गरम पानी पीवे तो बहुत उत्तम वमन हो ।

अथ जुलाब-विधि

जमालगोटा छिलका रहित एक तोला लेकर भैंसाके गोबरमें दो घंटा चुरावे फिर धोके जीभी निकालके इमलीकेरसमें चुरावे फिर गायके दूधमें चुरावे फिरतीनतोला भुना हुआ चना छिलका रहित एकमें मिलाके निंबरस डालके खरलकर मटर बराबर गोली बना अग्निबल विचारके गरम पानीकेसाथ खावे तो बहुत उत्तम जुलाब हों, पथ्य घी, खिचड़ी खावे, गरम, शीतल पानीसे बचा रहे

अथ दूसरा जुलाब

शुद्ध जमालगोटा १ तोला, रेवतचीनी २ तोला, सेहुँ-

डका दूध १ तोला जलमें मिलाके दही डालकर तीन दिन खरल करे फिर छोटी मटर बराबर गोली बांधके एक गोली थोड़े गरम पानीके साथ खावे तो जुलाब बहुत उत्तम हो।

पथ्य मूँगकी खिचड़ी और घी खावे, मगर आठ दिन शीतल पानीसे बचा रहे, खट्टा, तिक्त मना है।

अथ साधारण जुलाब

सनायकी पत्ती लेके उसकी सब नसें निकालकर धूपमें दो घंटा रक्खे फिर कूटके कपड़ेमें छान लेवे तब १ तोला सनायपत्ती, १ तोला गुड़, एकमें मिलाके खावे, ऊपरसे तीन पाव भैंसका दूध पीवे बहुत उत्तम जुलाब हो।

इति श्रीमुंशी भगवानप्रसादके शिष्य भगवानदासविरचित
वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा दूसरे भागका
प्रथम खंड समाप्त ॥ १ ॥

अथ दवा वनस्पति सर्व रोगोंपर शर्बतकी तरह वर्णित हैं।

अथ शर्बत काहूका अरुचिको १.

काहूके चार पत्ता लेकर एक पाव पानीमें पीसके १ मासा जवाखार डालके पीवे तो भूखको लगावे, अन्न को पचावे अरुचिको दूर करे, खट्टा मीठा मना है।

अथ शर्बत कुलफीका कफज्वर को २.

कुलफी बीज २ तोला लेकर सौ बार धोके एक

पाव पानीमें पीसके एक मासा जवाखार डालके पीवे तो कफज्वर दूर हो, क्षुधा लगे, अन्न पचे, कब्जियत और कमरका दर्द तथा शिरका दर्द दूर हो ।

अथ शर्बत खूबकला पित्तज्वरको ३.

खूबकला १ तोला, मिरच १ मासा लेकर १ पाव पानीमें पीसके पीवे तो पित्तज्वर, खांसी, पेटकी गरमी, शिर और पेटका दर्द ये सब दूर हो ।

अथ शर्बत धनियांका अतिसारको ४.

धनियां १ टंक, मिरच एक मासा पावभर पानीमें पीसके सबेरे पीवे तो शरीरकी गरमी और अतिसारको दूर कर भूख लगे, मन प्रसन्न हो ।

अथ शर्बत सौंफका कब्जियतको ५.

सौंफ १ टंक, मिरच १ मासा पावभर पानीमें पीसके सेमरका गोंद डालके पीवे तो कब्जियत व पेट का दर्द और शूल व हिचकी दूर और भूख लगे ।

शर्बत पुदीनाका शीतांग सन्निपातको ६.

पुदीना तोले, मिरच १ मासा, पीपल १ मासा एक पाव पानीमें पीसके पीवे तो शीतांगसन्निपात दूर हो और अजवायनको सोंठमें मिलाके देहपर धूरा करे, ऊपरसे धुआं करे तो शरीर की पीड़ा नाश हो ।

अथ शर्बत मुलहठीका कमलसन्निपातको ७.

मुलहठी १ तोला, मिरच १ मासा १ पाव पानीमें

पीसके ४ तोले मिश्री मिलाके सबेरे पीवे तो, कमल-सन्निपातको नाश और छातीकी दर्द हुचकी, छर्दि दूर हो

अथ शर्बत जायठीका चिनगबायको ८.

जायठी १ तोला, मिरच १ नग आधपाव पानीमें पीसकर पीवे सो लपटज्वरको, दाहको, देहकी चिनग-बायको दूर करे और भूख लगे।

अथ शर्बत जीरे का कलेजेकी गरमी को ९.

जीरा १ तोला, मिरच १ मासा, मिश्री ९ मासे १ पाव पानीमें पीसके पीवे तो कलेजेकी गरमी, देहकी जलन, हाथ पांवकी जलन दूर हो, उलटी बन्द हो और मन प्रसन्न हो।

अथ शर्बत बबूनाका वातज्वरको १०.

बबूना १ तोला, बच १ मासा, मिरच १ मासा लेकर आधपाव पानीमें पीस पीवे तो वातज्वर दूर हो और अजवायन, सोंठका चूर्ण कर शरीरपर मालिस करे तो शरीरका शीतांग और वातकी पीड़ा सब दूर हो।

अथ शर्बत सोंठका कफज्वरको ११.

सोंठ ९ टंक, तीन पाव पानीमें सामको भिगो देवै, सबेरे मलकर छान लेवे, मिश्री डालकर पीवे तो कफ-ज्वरको नाश करे और कफका संग्रहणी रोग दूर हो।

अथ शर्बत हर्रका कफज्वरको १२.

हर्रका छिलका ९ टंक तीन पाव पानीमें सामको

भिगो देवे, सबेरे मलकर कपड़छानकरके रुईका खार १ मासा, सेमरका गोंद १ मासा डालके पीवे तो कफज्वर, पित्तज्वर दूर हो और भूख लगे, कुछ दिन पीवे तो बुद्धि बढ़े।

अथ शर्बत बहेड़ेका सर्वज्वरको १३.

बहेड़ेका छिलका १ टङ्क तीन पाव पानीमें सामको भिगो देवे सबेरे मसलके कपड़छान करके कूट १ मासा, चन्दन १ मासा, मिरच १ मासा पीस छानकर मिलाके पीवे तो कफज्वर पित्तज्वर और वातज्वरको नाशे और छातीका दर्द, शूल, कमरका दर्द शिरका दर्द और खांसी दूर हो।

अथ शर्बत आंवलोंका जलनबायको १४.

आंवला १० टंक तीन पाव पानीमें भिगो देवे, सबेरे उसको छान लेवे फिर बायबिडंग २ मासे, दालचिनी १ मासा इनको पीस छानकर उसी पानीमें मिलाकर पीवे तो जलनबायको दूर करे, तृषा और हाथ पांवकी जलन तथा हडफुटनेको नाश करे।

अथ शर्बत नागरपानका उन्मादरोगको १५.

बंगला नागरपान १ तोला, मिरच १ मासा आधपाव पानीमें पीस पीवे तो जलनबाय दूर हो और उन्माद रोगको नाश करे और शरीर पुष्ट हो।

अथ शर्बत खीराके बीजका चिलिकप्रमेहको १६.

खीरेका बीज २ तोले, इलाची पांच मासे, मिरच २ मासे, पीपल १ मासा सबको १ पाव पानीमें पीस पीवे तो, चिलिक प्रमेहरोग नाशे और चिलिकबाय वा मूत्रकृच्छ्र दूर हो, धातुको बढ़ावे, शरीर पुष्ट हो ।

अथ शर्बत ककरीके बीजका मूर्छाको १७.

ककरीके बीज १ तोला, तरबूजके बीज १ तोला, पीपल १ तोला इन सबको आधसेर पानी से पीस छानके पीवे तो जिस रोगीको मूर्छा आवे उसकी मूर्छा दूर हो, शरीरकी हडफूटन शिरके दर्दको नाशे तथा बल वीर्यको बढ़ावे ।

अथ शर्बत कद्दूके बीजका संग्रहणीको १८.

कद्दूका बीज ६ मासा, खीरेका बीज १ तोला, कोहड़ा बीज १ तोला, मिरच १ मासा, पीपल १ मासा इन-सबको पाव पानीमें पीसके पीवे तो संग्रहणी और सर्व ज्वरको नाशे, नाभीका शूल और नासारोग दूर हो ।

अथ शर्बत कमलगट्टेका फोड़ी फोड़ाको १९.

कमलगट्टा ४ तोला लेकर उसका मगज निकाल लेवे और मिर्च २ मासा मिलाके १ पाव पानीमें पीस पीवे तो जो देहमें फोड़ी फोड़ा हों तो सब दूर हों ।

अथ शर्बत दहीका पित्तको २०.

गायका दही १ सेर, जीरा२ तोले १ सेर पानीमें मथकर तीन भाग बनावे, एक सबेरे, एक भाग बारह बजे दिनको, एक भाग शामको पीवे तो सब रोगको एक ही दिनमें नाश करे और शरीरकी सुस्ती भी दूर हो ।

अथशर्बत गुड्चीका शीतज्वरको २१.

गुडूची १ तोला, चिरायता १ टंक, पीपल२मासे इन सबको १ पाव पानीमें पीसके पीवे, तो शीतज्वर, पित्तज्वरको नाशे और अजवायन, कायफल इनका चूर्ण करके शरीरपर मालिश करे तो सब तरहकी देहपीड़ा दूर हो, वातज्वरको नाशे, शरीर हलका होवे ।

अथ शर्बत बचका शूलबायको २२.

बच खुरासानी १ टंक, अजवायन १ टंक, काय-फल १ टंक, मिरच १ मासा इन सबको १ पाव पानीमें पीसकर सात रोज पीवे तो शूल अफरा, अंगबाय, दो अंगबाय रींघनबाय, चिनंगबाय, चमकनबाय इन सबको नाशे (पथ्य) रोटी घी खावे ।

अथ शर्बत लौगण्डीका अर्धांगबायको २३.

लौगंडीका पत्ता ५ टंक, मिर्च १ मासेको १ पाव पानीमें पीस पीवे तो अर्धांगझोला और अर्धांगबायको

नाशे, १९ दिनमें गठियाबाय दूर हो, खांसी और पेटका शूल दूर हो।

अथ शर्बत संभालूका कमलबायको २४.

संभालूका पत्ता ५ टंक, मिरच १ मासा, पीपर १ मासा, सोंठ १ मासा इन सबको १ पाव पानीमें पीसकर पीवे तो कमलबाय जावे और शरीरका बाय और शूल नष्ट हो।

अथ शर्बत एरंडीका गठियाको २५.

एरंडीका बीज १ मासा, मिरच २ मासा लेकर १ पाव पानीमें पीसकर पीवे तो जिसका हाथ पाव सिकुड़ गया हो वह दूर हो, और शरीरकी सूजन दूर हो और गठियाबात दूर हो खट्टा मीठा पथ्य राखे।

अथ शर्बत गुलखैरका क्षीणधातुको २६.

गुलखैरेका फूल ५ टंक, मिरच १ मासा पाव भर पानीमें पीसकर पीवे तो पेसाबद्वारा धातु जाती हो तो बन्द हो पेशाब खुले, चिलक जाय।

अथ शर्बत बौखलीका पित्तज्वरको २७.

बौखली ५ टंक, मिरच १ मासा आधासेर पानीमें शामको भिगो देवे, सबेरे मसलकर २ मासे मिश्री मिलाकर पीवे तो पित्तज्वर दूर हो धातु बढ़े शरीर पुष्ट हो, बन्द पेशाब खुले और हाड़का ज्वर और शिरका दर्द दूर हो।

अथ शर्बत अनारका छातीजलनको २८.

अनारके दाना १ तोला, मिर्च दो मासेको १ पाव पानीमें पीस पीवे तो पित्तज्वर और छातीका जलन दूर हो, उलटी बन्द हो और भूख लगे ।

अथ शर्बत दादोरीका शीतज्वरको २९.

ददोरी १ तोला, सोंठ ६ मासे, मिरच ६ मासे आधसेर पानीमें पीस पीवे तो शीतज्वर और आमवात रोगको दूर करे और चिनंगबाय, मूत्रकृच्छ्र, शूल सब दूर हो।

अथ शर्बत शतावरीका सुन्नबायको ३०.

शतावरी ५ टंक, चिरायता १ मासा, पीपरि १ मासा, सोंठ १ मासा शामको १ पाव पानीमें भिगो देवे सबेरे मसलकर छान लेवे तब पीवे तो सुन्नबाय, चमकबाय, माथेका शूल, कमरका दर्द, स्त्रीकी प्रसूत ये सब दूर हों और भूख लगे ।

अथ शर्बत इनाईका तिजारीज्वरको ३१.

इनाई ५ टंक, मिरच २ मासे, तीन पाव पानीमें पीस पीवे तो तिजारीज्वर विषमज्वर जाड़ेका ज्वर, उन्मादज्वर सब दूर हो और भूख लगे ।

अथ शर्बत बाईसुरठिका विषमज्वरको ३२.

बाईसुरठि १ तोला, मिरच १ मासा १ पाव पानीमें

पीसकर पीवे तो विषमज्वर, अन्तराज्वर दूर हो और जो पेशाब कड़क हो तो वह दूर हो और पेटका शूल दूर हो, खट्टे मीठेका परहेज रक्खे ।

अथ शर्वत गुलखुलका प्रमेहरोगको ३३.

गुलखुलका पंचांग ५ टंक, मिरच १ मासा, मिश्री ५ मासे इनको आध सेर पानीमें शामको भिगो देवे, सबेरे छानकर पीवे तो असाध्य प्रमेह इत्यादिक सब प्रकारके प्रमेह दूर हों, शरीर पुष्ट करे, आंखोंकी ज्योतिको बढ़ावे, भूखको लगावे, पथ्य रोटी, घी और परहेज रक्खे ।

अथ शर्वत निंबूका हाथपांवकी जलनको ३४.

कागजी निंबूका रस आध पाव, मिश्री १ तोला मिरच २ मासेको पावभर पानीमें मिला कर पीवे तो हाथ पांवकी जलन और पित्तज्वर दूर हो, शिरका दर्द तथा अरुचिको दूर करे, भूख लगावे, पथ्य मूंग चावल ।

अथ शर्वत खुरासानी अजवायनका भ्रमवायको ३५.

अजवायन ३ मासे, बच ६ मासे, मिरच २ मासे, मिश्री ५ मासे इन सबको पीसकर पीवे तो भ्रमवाय, हौलदिल दूर हो और पेटका दर्द इन सबको दूर करे, खट्टे मीठेका परहेज रक्खे ।

अथ शर्बत नीमका बिगड़े खूनको ३६.

नीमकी छाल १० टंक, खुरासानी बच १ मासा, मिरच २ मासे इनको आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो बिगड़े खूनको दूर करे, दाद, ददोरा फोड़ा, फुन्सी इत्यादिको दूर करे, स्त्री पीवे तो बालकको रोग नहीं हो और इस दवापर खट्टे मीठेका परहेज रक्खे, नमक खावे नहीं ।

अथ शर्बत ककहीका प्रमेहरोगको ३७.

ककहीका पत्ता ३ तोले, मिर्च १ मासा, मिश्री १ तोला सबको आधसेर पानीमें पीस पीवे तो प्रमेह दूर हो, चिलक पेशाबको दूर करे, थोड़ा निंबूरस डालके पीवे तो सुजाक दूर हो और इन्द्रियकी जलन जाय ।

अथ शर्बत यशवन्तीका प्रमेहको ३८.

यशवंतीके पत्ते ४ तोले, मिरच २ मासे, मिश्री १ तोला पावभर पानीमें पीसकर पीवे तो सुजाकको, प्रमेहको और इन्द्रियकी जलनको दूर करे, शरीरकी जलनको दूरकर पेशाब बिगड़ा अच्छा होवे ।

शर्बत छोटी गोदन दूधीका कमलको ३९.

छोटी दूधी जड़ समेत ३ तोले, मिर्च २ मासे, गायका दूध १ पाव, पानी १ पावमें पीसकर पीवे तो कमलरोग ११ दिनमें दूर हो, जो सब शरीर पीला

पड़ जावे वह सब अच्छा हो और प्रमेहरोग, सुजाक इंद्रियके चिलक तथा सब ज्वरको दूर करे।

अथ शर्बत महुआका प्रमेहको ४०.

महुआकी छाल ६ मासे, मिर्च आधा मासा, आधापाव पानीमें पीसकर पीवे तो असाध्य प्रमेहरोग दूर हो।

अथ शर्बत बकाइनका बवासीरको ४१.

बकाइनकी छाल ५ टंक, मूलीके बीज २ मासे, आधापाव पानीमें पीसकर छान लेवे, मिश्री डालकर पीवे तो खूनी बवासीर, संग्रहणी, हाथ पांवकी जलन, शिरकी जलन, शिरका दर्द, गुल्मरोग और प्लीहारोग इन सबको दूर करे, खट्टे मीठेका परहेज रक्खे।

अथ शर्बत हुरहुरका बवासीरको ४२.

हुरहुरका पत्ता ५ टंक मिर्च १ मासा आधा पाव पानीमें पीसकर पीवे बवासीर रोग जड़से जाय और तिली वरवट बायगोला को नाशे।

अथ शर्बत कुकुरौंधाको पुष्टिको ४३.

कुकुरौंधाको दश टंक आधपाव पानीमें पीस गायका घी डालकर पीवे तो शरीरको पुष्ट करे। कमरके दर्दको दूर करे और आँखोंकी ज्योतिको बढ़ावे, सुस्तीको मिटावे, भूखको लगावे।

अथ शर्बत सीसोंका प्रमेहरोगको ४४.

सीसोंका पत्ता ५ टंक, मिर्च २ मासे एक पावपानीमें

पीसकर पीवे तो सुजाक, प्रमेह और शरीरकी गरमी दूर हो, खट्टा मीठा और तीता पथ्य रक्खे ।

अथ शर्बत बबूरके पत्तोंका सुजाकको ४५.

बबूरका पत्ता ५ टंक, मिर्च ३ मासे; आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो सुजाकको नाशे और जो पेशाब बन्द हो तो खुले, पथरी चिनिंगबाय जाय ।

अथ शर्बत रत्नज्योतिका सन्निपातको ४६.

रत्नज्योति ५टंक, सोंठ २ मासे, मिरच १ मासा आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो सन्निपातरोग जाय और बायशिरका दर्द दूर हो ।

अथ शर्बत ब्रह्मदण्डीका सर्वरोगको ४७.

ब्रह्मदंडी ५ टंक; मिरच २ मासे आधापाव पानीमें पीसकर पीवे तो खून मूत्र होता हो तो अच्छा हो और हाथ पांवकी जलन व चिलन दूर हो और बुद्धि हो, सब रोगको गुण करे और नीरोग हो ।

अथ शर्बत मोंगली बिहीदानाका सुजाक प्रमेहका ४८.

मोंगलीबिहीदाना १ तोला, मुरला१तोला, मिरच १ मासा आधसेर पानीमें शामको भिगो देवे सबेरे मसलकर पीवे तो सुजाक, चिलक, प्रमेहरोग जावे, अंतःकरणकी गरमी दूर हो,पेशाब चिलक अच्छा हो।

अथ शर्बत मुरलीका सर्वरोगको ४९.

मुरली पंचांग ५ टंक, मिरच ३ मासे, गोखरू ६ मासे इन्हें शामको भिगो देवे, सबेरे पीस और छानकर पीवे तो शरीरकी जलनको तीन दिनमें बुझावे और शरीरको पुष्ट करे, आंखोंकी ज्योतिको बढ़ावे, वायु और त्रिदोषज्वरको दूर करे और भूख लगे।

अथ शर्बत कुशका स्त्रीरोगको ५०.

कुशकी जड़ ३ टंक, मिरच १ मासा, पावभर पानीमें पीस मिलाकर पीवे तो स्त्रीके कलेजेकी गरमी फेफड़ाकी गर्मी और ज्वर दूर हों तथा उसको बहुत गुण करे।

अथ शर्बत इमलीका पित्तज्वरको ५१.

इमली ३ तोले, मिरच १ मासा, मिश्री १ तोला इनको पावभर पानीमें पीसके पीवे तो पित्तज्वर मलज्वरको नाशे और उलटीको बन्द करे।

अथ शर्बत फालसा स्त्रीरोगको ५२.

फालसा५ टंक, मिरच १ मासा, मिश्री १ तोला पावभर पानीमें पीसकर पीवे तो स्त्रीका प्रसूतरोग दूर हो और स्त्रीके कलेजेकी गरमीको दूर करे और भूख लगे।

अथ शर्बत उन्नाबका खांसीको ५३.

उन्नाबकी जड़-पत्ता १ तोला, मिरच १ मासा आध पाव पानीमें पीसकर पीवे तो कफ, खांसी दूर हो और

हूक रोग, माथाकी जलन दूर हो, भूख लगे; मन प्रसन्न हो और मल साफ हो ।

अथ शर्बत सहदेईका सर्वज्वरको ५४.

सहदेईका पंचांग १ तोला, मिरच २ मासे आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो सब ज्वर दूर करे, शरीरको शुद्ध करे, कलेजेके रोगको दूर करे, भूखको लगावे और मन प्रसन्न करे ।

अथ शर्बत दूधीका गरमीको ५५.

दूधी छोटी ६ मासे लेकर, गोरख मुण्डी ६ मासे, मिरच १ मासा १ पाव पानीमें पीसकर पीवे तो पित्त ज्वर, कफज्वर, शिर पांव और हाथोंकी जलन दूर हो और कमल रोग दूर हो ।

अथ शर्बत भृङ्गराजका सर्वज्वरको ५६.

भृङ्गराज ६ मासे, मिरच १ मासा आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो सर्वज्वरको गुण करे और भूखको लगावे, खूनको साफ करे ।

अथ शर्बत बड़का सुजाकको ५७.

बड़का बरोह १ तोला, मिरच १ मासा, बताशा १ तोला पावभर पानीमें पीसकर पीवे तो सुजाक, प्रमाद और शरीरकी गरमी दूर हो ।

अथ शर्बत तुलसीका सर्वरोगको ५८.

तुलसीके पत्ते १ तोला, मिरच १ मासा १ पाव पानीमें

पीसकर पीवे तो सर्वज्वरको दूर करे, शरीरके सब रोगोंको गुण करे, मन प्रसन्न हो, और भूख लगे वातरोग दूर हो।

अथ शर्बत पीपरका कलेजेकी ज्वालाको ५९.

पीपरकी छाल १ तोला, मिरच १ मासा, १ पाव पानीमें पीस कर पीवे तो संग्रहणीरोगको, कलेजेकी जलनको दूर करे, पेटपीड़ाको गुण करे और भूख लगे।

अथ शर्बत आमकी गुठलीका संग्रहणीको ६०.

आमकी गुठली १ तोला, मिरच १ मासा आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो संग्रहणीरोग जाय, कलेजेकी गरमी जाय और कोई विष खाया हो वह भी दूर हो।

अथ शर्बत गूलरका प्रमेहको ६१.

गूलरका फल और जड़ १ तोला, मिरच १ मासा १ पाव पानीमें पीसकर पीवे तो सुजाक, प्रमेह, देहकी जलन तथा तृषा दूर हो और भूख लगे।

अथ शर्बत फिटकरीका विषको ६२.

फिटकरी ६ मासे, नील थोथा शुद्ध २ मासे आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो जो विष खाया हो वह दूर हो, वमन बहुत हो, रोगी चंगा हो।

अथ शर्बत बेलपत्रका संग्रहणीको ६३.

बेलपत्र ६ मासे, कालानोन २ मासे, मिरच १ मासा १ पाव पानीमें पीसकर पीवे तो संग्रहणीरोग दूर हो, हाथ पांवकी जलन दूर हो, बाय रोग और उलटी दूर हो ।

अथ शर्बत अफीमका हैजाकी बीमारीको ६४.

अफीम आधा मासा, निंबूरस १ तोला, मिश्री ३ तोले १ पाव पानीमें पीसके पीवे तो उलटी और जुलाब होता हो तो बन्द हो, छातीका धकधकाना बन्द हो और कलेजेकी तृषा, जलन बन्द हो।

अथ शर्बत भांगका पुष्टिको ६५.

भाँग २ मासे, भंगरा २ मासे, गोरखमुण्डी ६ मासे, मिरच १ मासा, खांड ३ तोले सवा पाव पानीमें पीस कर पीवे तो शरीरको पुष्ट करे, बलको बढ़ावे रोगको नगीचे नहीं आने देवे नशा करे ।

अथ शर्बत कासनीके बीजका हौलदिलको ६६.

कासनीके बीज ६ मासे, ककरीके बीज ६ मासे, मिरच १ मासा १ पाव पानीमें पीसकर पीवे तो हौल-दिल और कलेजेकी गरमी दूर हो ।

अथ शर्बत असगन्धका पुष्टिको ६७.

असगन्ध ६ मासे, मुसली ३ मासे, मिरच १ मासा, मिश्री १ तोला १ पाव पानीमें पीसकर पीवे तो शरीरको पुष्ट करे, वीर्यको बांधे।

अथ शर्बत अरहरका हैजेको ६८.

अरहरके पत्ता ९ मासे, निम्बूका रस १ तोला, मिरच १ मासा, आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो उलटी-जुलाब बन्द हो गरमी दूर हो।

अथ शर्बत कटेरीका खांसीको ६९.

कटेरीकी जड़ १ तोला, पीपल १ मासा, इलायची १ मासा, आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो खांसी और दमा दूर हो तथा तीनों ज्वर दूर हों।

अथ शर्बत कैंवाजका पुष्टिको ७०.

कैंवाजके बीज १६ मासे लेकर शामको पानीमें भिगो दे, सबेरे डेढ़पाव गायके दूधमें पीसकर मिश्री मिलाकर पीवे तो शरीरको पुष्ट करे बल धातुको बढ़ावे और प्रमेहरोगको दूर करे।

अथ शर्बत नोनीका सुजाकको ७१.

छोटी नोनी जो जमीनमें चिपकी रहती है तीसी ऐसी पत्ती होती है उसे १ तोला, मिरच १ मासा, मिश्री १ तोला आधपाव पानीमें पीसके पीवे तो पथरी मूत्रकृच्छ सुजाक और प्रमेहको दूर करे।

अथ शर्बत चिरायतेका सर्वज्वरको ७२.

चिरायता १ तोला, धनियां १ तोला, पीपल ३ मासे इन सबको १ पाव पानीमें शामको भिगो दे, सबेरे छानकर पीवे तो सब ज्वरको नष्ट करे। फिर इस दवापर १ पाव दूध पीवे तो बहुत गुण करे, भूख लगे, खट्टा मीठा पथ्य रक्खे।

अथ शर्बत धतूरेका चौथियाज्वरको ७३.

धतूरके पत्ते ६ मासे, नागर पान ६ मासे, गुड़ १ तोला पावभर पानीमें पीसकर पीवे तो चौथियाज्वर, तीसरा ज्वर दूर हो परन्तु चौथिया ज्वरवालेको प्रथम जुलाव देवे तब इस दवाको पिलावे।

अथ शर्बत सनायपत्तीका जुलाबको ७४.

सनायपत्ती और धनियांको शामको आधसेर पानीमें भिगो देवे, सबेरे कपड़ासे छानकर गुड़ मिलाके पीवे तो जुलाब हो और उदररोगके सब विकार दूर हों और भूख लगे।

अथ शर्बत चन्दनका गर्भिणी स्त्रीको ७५.

सफेद चन्दन ३ मासे, धनियां ३ मासे, मिश्री १ तोला, आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो गर्भिणी स्त्रीका ज्वर तृषा उलटी दूर हो।

अथ शर्बत ईसबगोलका प्रमेहको ७६.

ईसबगोल १ तोला, निम्बूका रस १ तोला, मिश्री २ तोला १ पाव पानीमें पीसके पीवे तो प्रमेहरोग दूर हो, पथ्यसे रहे।

अथ शर्बत केशरका ७७.

केशर १ मासा, शहद १ तोला, गायका दूध आधेसेरमें पीसकर पीवे तो शरीरको पुष्ट करे और बलको बढ़ावे।

अथ शर्बत कइतका बरवटको ७८.

कइत ६ मासे, पांचों नमक ६ मासे, खार ३ मासे १ पाव पानीमें पीसकर पीले तो बरवट, बायगोला उदररोग दूर हो।

अथ शर्बत मूलीका अजीर्णको ७९.

मूलीकी जड़ २ तोले, पांचों नमक १ तोला, मिरच २ मासे आधपाव पानीमें पीसकर पीवे तो सब तरह के अजीर्णको नाशे।

अथ शर्बत अफीमका संग्रहणीको ८०.

अफीम १ मासा, अदरक ६ मासे हिंगु आधा मासा ३ तोले पानीमें पीवे तो संग्रहणी रोग दूर हो।

अथ मुञ्जिश

उन्नाब, लसोढा, मकोय, गुलाबका फूल, बनफशा, सौंफ, खतमी, खबाजी, नीलोफर, हंसपदी, मुनक्का,

अंजीर, हर्र, छोटी, कासनीके बीज, मुलहटी, खीराके बीज, मिश्री, सनाय पत्ती, ये सब दवा २ मासे लेवे थोड़ा कुचल देवे तब डेढ सेर पानीमें शामको भिगो देवे सबेरे अग्निपर रखकर चुरावे, जब आधसेर रहे तब छानकर सबेरे पीवे तो यह मुंजिश मलको पकाता है, जुलाबको उतारता है, तीनों दोषोंको निकालता है, शरीरको सुधारता है, जिसका पेट कठिन हो उस रोगी को मुंजिश सात दिन ग्यारह दिनतक पिलावे तो दोष निकलता है, मुंजिश सब रोगको हित है।

अथ दूसरी मुंजिश

सनायपत्ती १ तोला, गुलाबके फूल ३ मासे, त्रिफला ६ मासे, मुलहटी ३ मासे, मकोय तीन मासे, हंसपदी ३ मासे, बनफसा ३ मासे, सौंफ ३ मासे, कासनीबीज ३ मासे, ककरीका बीज ३ मासे, मिश्री ३ मासे, अंजीर ३ मासे, मुनक्का ३ मासे उन्नाब ३ मासे लसोढ़ा ३ मासे इन सब दवाइयोंको सवासेर पानीमें शामको भिगो देवे सबेरे चुरावे, जब १ सेर शेष रहे तब पीवे, यह भी मुंजिश प्रथम मुंजिशके समान गुण दायक है, इनका गुण बहुत है, परन्तु प्रथम की विधिपर पीवे।

अथ तीसरी मुञ्जिश

त्रिफला ९ मासे, सौंफ ६ मासे, सनाय पत्ती १८ मासे, गुलाबका फूल ६ मासे, मुलहटी ६ मासे, मुनक्का ६ मासे, हंसपदी ३ मासे, ककरी—खीराके बीज ६ मासे, बन-

फशा ३ मासे, मिश्री ६ मासे सबको सवासेर पानीमें चुरावे, जब आधसेर बाकी रहे तब छानके पीवे, यह मुंजिश दो, तो जुलाब साफ उतरे, खूनको साफ करे पेटकी गांठको नरम करे, रोग दूर करे, सब रोगोंपर देवे, जिनके जुलाब नहीं हो वह इनको नौ दिन पीवे।

अथ चौथी मुंजिश

सनायपत्ती २ तोले, सौंफ २ तोले, गुलाबके फूल २ तोले, मकोय २ तोले, मुलहठी २ तोले, मुनक्का २ तोले, मिश्री २ तोले, त्रिफला २ तोले, सबको डेढ़सेर पानीमें पकावे जब आधसेर शेष रहे तब छानके पीवे तो यह भी मुंजिश प्रथमकी मुंजिशके बराबर गुणकरे परंतु जैसी बड़ी मुंजिश है उनका वैसाही बड़ा गुण है।

अथ माजूम सब रोगपर

उसबा ९ तोले, सौंफ ३ तोले, बिसपैज ३ तोले, सहतारा ३ तोले, लालचन्दन २ तोले, सफेद चन्दन १ तोला सनायपत्ती ९ तोले, मिश्री ७ तोले सबको कूट कपड़छान करके डेढ़सेर मधुमें मिलाकर शामको १ तोला हररोज खावे तो मलको साफ उतारे, भूख लगावे, सांदा गठियाको दूर करे, देहको कुव्वत लावे, इसको सब रोगोंपर देना चाहिये।

अथ माजूम उसबा

उसबा मगरबी सात तोले, सनायपत्ती पांच तोले, सौंफ ढाई तोले, बिसपैज ढाई तोले, सहतरा ढाई तोले, चन्दनलाल दो तोले, भांग एक तोला, मिश्री सात तोले सबको कूट कपड़ छान करके मधुमें मिलाकर खावे तो उपदंश और सांदाको नाशे और भूखको लगावे, शरीरको पुष्ट करे, खून साफ करे, अजीर्णको दूर करे कलेजेको ताकत देवे, अग्नि बल को बढ़ावे ।

अथ माजूम उसबा मगरबी

उसबा मगरबी १ सेर, भांग५ तोले, पानी ५ सेरमें शामको भिगोदेवे, सबेरे अग्निपर रखकर पकावे जब एक सेर बाकी रहे तब डेढ़ सेर मिश्रीकी चासनी करके लाल चन्दन १ तोला, सफेद चन्दन १ तोला, सौंफ३ तोले बिसपैज ३ तोले, सहतरा ३ तोले, सनायपत्ती १२तोले इलायची ३ तोले, शहद १ सेर सबको चूर्णकर चासनीमें मिलाकर बल विचारकर खावे तो सब रोगोंका नाश करे, बल और शरीरको बढ़ावे, भूखको लगावे, गठिया सांदा दूर करे, शरीरके बिगड़े खूनको दूरकर नया खून बढ़ावे।

अथ माजूम हरड़का

छोटी हर्र ७तोले, सौंफ ३ तोले लेकर एरंडीके तेलमें भूनकर चूर्ण करके उसी चूर्णके बराबर सनायकी पत्तीका चूर्ण मिलावे पश्चात् डेढ़सेर शहद मिलाकर खावे

तो उदररोगको दूर करे, भूखको लगावे, बिगड़े कोठाकोसुधारे, मल मूत्रको उतारे, कब्जियतको दूर करे।

अथ माजूम पुष्टिकरण

पीपली १ तोला, अजवायन खुरसानी १ तोला, मकरकडा १ तोला, दालचीनी १ तोला, केसर १ तोला जावत्री १ तोला, रूमीमस्तगी २ तोले, मुसली दोनों २ तोले इलायची २ तोले सालममिश्री २ तोले, बदाम १ तोला, कबाबचीनी १ तोला, अफीम २ तोले, इन सबको कूट कपड़छान कर मिश्री १ सेर; मधु १ सेरकी चासनी कर उसीमें सब औषधियोंको मिलाकर अग्नि बल बिचारकर ६ मासे शाम और ६ मासे सबेरे खावे, ऊपरसे आधसेर दूध पीवे, तो शरीर वीर्य्यको पुष्ट करे, अग्नि बलको बढ़ावे, स्त्रीके प्रसंगमें मन न घटे, एक घण्टाका वीर्य्य बन्धेज हो और भूख लगे।

अथ माजूम नपुंसकपना पर

दालचीनी ६ मासे, जावित्री ६ मासे, जायफल ६ मासे, लौंग ६ मासे, इलायची ६ मासे, कस्तूरी २ मासे, जेठीमधु ६ मासे, केसर १ मासा, सालममिश्री ६ मासे, सतावरी तीखुरी ३ तोले, केवांचके बीज ६ मासे, गोखरू ३ तोले, वंशलोचन ६ मासे, भीमसेनी कपूर १ मासा, बादाम २ तोले, भांग ५ तोले, गायका घी ९

तोले, दूध ३ सेर, मिश्री ३ सेर; मधु १४ तोले सब दवाको कूट कपड़छान करके दूध मिश्री और मधुकी चासनी करके पहले सब दवा चासनीमें मिलाकर अग्निबल बिचार कर खावे तो शरीरको पुष्ट करे, नपुंसकपना दूर करे, बलवीर्य्यको बढ़ावे, कब्जियत दूर हो और भूख को लगावे ।

अथ माजूम राहुलमोमियानी

दालचीनी ८ मासे, अगर ४ मासे, तगर ८ मासे, इन्द्रयव (जौ) ८ मासे, लौंग ४ मासे, कुलंजन ४ तोले, बहिमन सफेद ४ तोले, बहिमन लाल ४ तोले, सौंफ रूमी ४ मासे, सेमरकी छाल ८ मासे, सकाकुल मिश्री ८० मासे, तवाखीर ८ मासे, कतीरागोंद ८ मासे, जायफल ८ मासे, बनफशा ८ मासे, बादाम ८ मासे, सोंठ १६ मासे, मधु ४४० तोले, सब दवाको कूट कपड़छान करके मधुमें मिलाकर ६ मासे खावे तो तमाम बदनको खुश कर उदरको ताकत देता है, दशों इन्द्रियोंको कुव्वत देता है, नपुंसकपनेको दूर करता है, शरीरको पुष्ट करता है, कमरके दर्दको मिटावे और भूखको लगावे, धातुबलको बढ़ावे, सुस्तीको मिटावे ।

अथ माजूम लौंगादि

लौंग २० मासे, चिरौंजी २० मासे जायफल २० मासे खरबूजाके बीज २० मासे, खसखसके बीज २०

मासे, नारियलकी गिरी २० मासे, बादाम २० मासे, दालचीनी २० मासे, तोदरी सफेद २० मासे, तोदरी लाल २० मासे, सक कुलमिश्री २० मासे, सालम-मिश्री २० मासे, पिस्ता ३० मासे, रूमीमस्तगी २० मासे, चिलगोजा २० मासे, जाफरान् १२ मासे, अफीम १२ मासे, बहिमन दोनों २४ तोले, अगर १२ मासे, अकड़कडा ८ मासे, बालक्षण ८ मासे, इंद्रयव ८ मासे जदावर खटाई ४ मासे, सब दवाको कूट चूर्ण बनाय बराबर मधु मिलाकर ३ मासे रोज खावे तो यह माजूम सब रोगोको नाशे, शरीरको पुष्ट करे और शरीरका बल, धातु कमती नहीं हो, स्त्री प्रसंगमें बल-रहित नहीं हो और बल शरीरकी अग्नि तथा भूखको बढ़ावे पथ्यसे रहे ।

अथ मूत्ररोगकी दवा

दोहा– त्रिफला सैधों गोखरू, खीरा बीज मिलाय ।
तप्तनीरसों पीजिये, मूत्ररोग न रहाय ॥

अथ परमारोगकी दवा

दोहा–सोंठ मिरच अरु कायफल, लहसुन लेय मिलाय ।
काढ़ा बनाके पीजिये, प्रमारोग मिटिजाय ॥

अथ कानरोगकी दवा

दोहा–देवदारु बच सोठ पुनि, सुधा सौंफ मिलाय ।
छेरीमूत्र सों पीसके, लीजे कपड़छनाय ।
सांझ सबेरे कानमें, डारे गरम कराय ।
दिवस सात जो कीजिये, कानपीर मिट जाय ॥

अथ शिररोगका लेप

देवदारु कुट कायफल, अण्डीतेल मिलाय ।
कांजीसों शिर लेपिये, पीर दूर ह्वै जाय॥

अथ बांझस्त्रीकी दवा

असगँध केशरनागमें, गोरोचनहिं मिलाय ।
शीतलजलसों पीजिये, बांझ गर्भ रहि जाय ॥

अथ आंखोंकी दवा

सेंधौ करुवातेल अरु, कांसे थारि मँगाय ।
रगरि के अंजन कीजिये, नयन पीर मिट जाय ॥
त्रिफला जस्ता मेहदी, पीसै इक संयोग ।
अंजन आंखी कीजिये, रहै न एकौ रोग ॥

अथ बायपित्तकी दवा

सोंठ गिलोय चिरायता, समकरि लीजै जोख ।
काढ़ा बनाके पीजिये, हरै बात पितदोख ।

अथ वातपित्तकी दवा

पत्र अडूसा लीजिये, त्रिफलाक्काथ बनाय ।
प्रात समय उठि पीजिये, वात पित्त तनुजाय ॥

अथ पित्तवायकी दवा

गुरच चिरैता आंवरा, दाख मुनक्का आनि ।
काढ़ा करके पीजिये, पित्तबाय हो हानि ॥

अथ बायपित्तकी दवा

उज्ज्वल जीरा भूँजिके, चूरण लेय बनाय ।
गुड़ मिलाय भोजन करै, बायपित्त नशिजाय ॥

अथ पित्तवायज्वरकी दवा

चौ०-भटकटाइ गुरुचीले आवे।बरियारा भारंगिमिलावे।
लाय कोरैया क्काथ बनावे।पीवे पित्तवायज्वर जावे॥

अथ शीतपित्तज्वरकी दवा

दोहा-जेठीमधु औ बरिबरा, त्रिफला क्काथ कराय ।
शहद मेलिके पीजिये, शीत-पित्तज्वर जाय

अथ सन्निपातज्वरकी दवा

चौ०-त्रिफलालेकेक्काथ बनावै।गायघीउ इक टंक मिलावै
प्रात समय जो पीवे कोई।सन्निपात तुरते सो खोई ॥

अथ सन्निपातज्वरकी दूसरी दवा

लाय मुनक्का क्काथ बनावै। पीपरि मासा दोउ मिलावै।
जो रोगी पीवे उठि भोरे। रहै न सन्निपातज्वर तोरे।

अथ कर्णशूलकी दवा

दोहा–सैंधौ मिर्च रु पीपरी, तीनिउ एक प्रमाण ।
जलहि नास जो लीजिये, कर्णशूल विनसान ॥

अथ आठों ज्वरोंकी दवा

गुरुचि चिरायत पीपरी, पितपापड़हि मिलाय ।
ताहि बराबर सोंठ लै, लीजै क्वाथ बनाय ॥
रोग दोष बल देखिकै, प्रात समय लव लाय ।
सात दिवस सो पीजिये, आठों ज्वर तनु जाय ॥

अथ सन्निपातज्वरकी दवा

मोथा सोंठ चिरायता, चरण लेय बनाय ।
मधुसों ताको खाइये, सन्निपातज्वर जाय ॥

अथ अतीसारकी दवा

सोंठ अजमोदा मोचरस, पूरणसम करि लेय ।
अतीसारका दुःख हरै, छांछ संग जो देय ॥
लोध इन्द्रयव मोचरस, गूदा बेल मिलाय ।
गुड़में गोली बांधिये, अतीसार मिटि जाय ॥

अथ आमवातकी दवा

देवदारु हड़ सोंठ अरु, बायबिरंग सम पाय ।
क्वाथ बनाके पीबही, आमवात मिटि जाय ॥

अथ शूल की दवा

पुष्करमूल लवंग अरु, जवाखार जलसंग ।

टंक डेढ ले खाइये, करै शूलको भंग

अथ हुचकीकी दवा

बेरवीज अरु मुलहठी, मिरच लौंग सम आनि
ताहि बराबर मीसरी, कूट पीस ले छानि ॥
टंक दोय ले खाइये, शहदसंग धरि ध्यान ।
हुचकी रोग सबहि हरै, सात दिवसमें जान ॥

अथ मुखरोगकी दवा

मैनशील अरु हलदिको, पीसकर समसंयोग ।
मुखमें धूनी दीजिये, नाशे मुखके रोग ।

अथ मन्दाग्निकी दवा-ज. छं.

सैंधौ सोंचर बायबिरंग । त्रिकुटा त्रिफला और लवंग ॥
चित्रक हींग जवाइन आन।लेय बराबर जोखि प्रमान॥
कूटछानिके पूरण करे । पुनि त्रयपुट नींबूका धरे ॥
एकटंक प्रातः उठि खाय। मन्द अग्निक्षणमें घट जाय ॥

अथ परमाकी दवा

दोहा-शंखाहुली इलायची, शिलाजीत पुनि लेत ।
सर्व प्रमाका दुख हरै, खांड संग जो देत ॥

अथ पित्तदाहकी दवा

देवदारु औ कूटकी, इन्द्र यवहु सम लेय ।
नागर मोथा जायफल, विधिसे क्वाथकरेय ॥
आधपाव जो पीजिये, पित्तदाहज्वर जाय ।

नौ दिनलौ ऐसहिं करे, रोग निकट नहिं आय ॥

अथ श्वास दमा खांसीकी दवा–ज. छं.

सेर पांच भटकटैया आन। बबुलकी छाल ताहि परमान
पोस्ता सेर जु तीन मँगाई। धावफूल सब एक मिलाई॥
आठ सेर पानी लै आवे। ताहिमें डारिके काढ़ा बनावे
एक सेर बाकी रहि जाय। तब कपड़ामें लेय छनाय।
और दवामें दियो बताई। सोंठ इलायची लेय मिलाई
हरैं पीपल लौंग मिलान। चार चार तोला परमान ॥
सबै कूटिके कपड़ छनाई। डारि काढ़ामें गोली बनाई॥
बल विचारके गोली खावे। खट्टा मीठा एक न पावे ॥
सांझ सबेरे गोली खाय। श्वास दमा खांसी जब जाय
भूलो नहीं दवा यह कीजै। बात हमारि मान तुम लीजै
सिद्ध दवा यह जानो भाई। भगवानदासने दिया बताई॥

अथ उदरवायु की दवा

समुद्रफेन औ बाय बिरंग। सोंचर सेंधा पाय निसंग॥
स्याह मिर्च अजमोदा आना। जवाखार शुंठी सम ठाना॥
चारहि चार टंक सब लेहु। भूनी हिंग टंक इक देहु ॥
चूरण तप्त नीरसों खाय। कर्ष एक मैं दियो बताय॥
राति खाय प्रातःसुख होय। बाढ़ै भूख वाय तनु खोय॥

अथ उदरपीड़ाकी दवा

दोहा–सैंधौं सोंचर कुट धनियां, हड़ कचूर समतूल।
जीरा बासा त्रीकुटा, लीजै पिपलामूल ॥

सबै औषधी पीसके, तप्त नीर सों खाय।
छः मासे परमान हैं, लगै भूख अधिकाय॥
वायुपीड़ा सब उदरकी, घंटा एक प्रमान।
औषधि कही विचारिके, भगवानदास धरि ध्यान

अथ इन्द्रियलेप ज० छं०

बीरबहूटी केचुये आन। तिलका तेल ताहि परमान॥
मेल एकमें अग्नि चढ़ाई। मन्द अग्निसे लेय पकाई॥
जारि केचुये लेहु उतार। छान कांचके बर्तन धार॥
बहुरि लिंगपरलेप कराय। वृद्धिस्थूल कठिन होजाय॥

पुष्टताकी दवा

सतुवा सोंठ दूसरी श्याम। तामें मुण्डी आवे काम॥
सबै पीसकर मैदा लेहु। खंड बराबर तेहिको देहु॥
दूध संग पैसाभरि खाई। धातु पुष्ट बलकी अधिकाई॥
दो दो पहर रमावै रण्डी। गिरे न बिन्दु नवै नहिं डण्डी

कास श्वासकी दवा

तोला षोसत डोड़ आन। ताते आधी शुण्डि बखान॥
धवै फूल इक तोला पाय। सेर नीरमें मेलि पकाय॥
रहै चतुर्थ अंश जब आय। ताको लीजै बसन छनाय॥
शयन समय निशि कीजै पान। प्रात हि होय काशकी हान

फकीरकी बतायी हुई उपदंशकी दवा

(कण्टकारिकी बूटी)

उपदंश-गरमीवालेको पहले स्नेहपान कराकर तब जुलाब

देवे पश्चात् यह दवा देवे—कण्टकारिका नाम कटेरी की जड़ और पत्ता लेकर कूटके ९मासेकी एक टिकरी बनाकर छायामें सुखाकर एक टिकरी नयी चिलममें धर ऊपरसे अग्नि रख कोठरीके अन्दर कपड़ा ओढ़कर पीवे और जहां घाव चट्टा हो वहां धुआं छोड़े, इस विधिसे सात दिन पीवे और इस पर खानेका पथ्य चनाकी दालके सिवाय सातदिनतक दूसरी चीज कुछ नहीं खावे और वैद्यजनोंको इस दवापर कुछ भी लेना हराम है।

गठिया-सानेका तेल

दालचीनी ३ तोले, कुचला ३ तोले, अच्छी खानेकी सुरती ३ तोले, लहसुन ४ तोले, भिलावां १ तोला, मीठा तेल २० तोले, एकमें मिलाकर मन्द मन्द अग्निमें पकावे जब दवा जल जावे तब तेल छानकर शीशीमें रख देवे जिधर दर्द हो उधर मालिस करे तो सब प्रकारका दर्द दूर हो।

दूसरी बूटी

सत्यानाशी जिसको भन्भना तथा करुवा कहते हैं उसका फल जब फूल गिरे तब २तोले तोड़ लावे और उसकी जड़ २ तोले, मिरची १ तोला कूटकर खरलकरके बड़ी मटर बराबर गोली बांधकर खावे, साम सबेरे एक एक गोली खावे तो गरमी, उपदंश, सुजाक सब प्रकारका प्रमेह दूर हो, पथ्य चनाकी रोटी दाल खावे और सब

चीजोंका परहेज करे रोगीसे एक पैसा लेना वैद्यको मना है

शीतवातका तेल

हिंगु १ तोला, अफीम ३ मासे, लहसुनका रस ३ तोले, करू तेल १० तोले, एकमें मिलाकर पकावे जब दवा जल जाय तब इस तेलकी मालिश करे तो सब प्रकारका शीतांग वाय तथा सब व्याधि दूर हों, परन्तु शीतलजलसे बचा रहे।

सब वातव्याधिके लिये तेल

कुचिला २ तोले, अफीम ६ मासे, धतूरेका रस ४ तोले लहसुनका रस ४ तोले, चिरायताका रस ४ तोले, नींबूका रस ४ तोले, टंकारीका रस ४ तोले, तमाखूका रस ४ तोले, दालचीनी ४ तोले, अजवाइन ४ तोले, मेथी ४ तोले, करू तेल १ सेर, मीठा तेल १ सेर, एरण्डीका तेल आधासेर एकमें मिलाकर अग्निपर रखकर चुरावे, जब सब दवा जल जावे तब छान लेवे जिस जगह दर्द हो उस जगहपर मालिश करे तो सब जगहकी वातव्याधि दूर हो।

दाद गजकरणका मलहम-तुरंत अच्छा करे।

जावित्रीका चूर्ण २ तोले, पारा ९ मासे; गन्धक ६ मासे मुरदाशंख ६ मासे, मोम १ तोला, मीठा तेल ९ तोले पहले चारों दवाओंको खरल करे पीछे मोम अग्निपर गरम करके मिलाकर सब दवा डालकर मलहम बना लेवे

और जिस जगह दादका चट्टा हो उस जगहपर दो दफे सांझ सबेरे लगावे तो अच्छा हो ।

फुन्सी फोड़ाका लेप

कुचला, गूगल; एलुवा ये तीनों एकमें मिलाकर पानीमें पीस गरम कर जिस जगहपर फोड़ा, फुंसी, गुलमी हो उस जगहपर लेप करे तो परमेश्वरकी कृपासे बैठ जावे, पके नहीं और अच्छा हो जाय ।

व्रण शोथका वर्णन

जिस किसीके फोड़ी, फोड़ा, व्रण, घाव, नासूर हो और किसी तरहसे आराम न होता हो उसके वास्ते विधि लिखते हैं ।

दवा

चिरायता, नीमकी पत्ती, गाजर, भृंगराज, लाहौरी नमक पीसकर जहांपर व्रण-घाव हो वहांपर चार पांच दिन लेप करे तो परमेश्वरकी कृपासे-घाव, पुराना नासूर अच्छा हो जायगा ।

इति श्री मुंशी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास विरचित वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा द्वितीय-भागका दूसरा खंड समाप्त ।। २ ।।

अथ एरंडीपाक १

एरंडीके बीज छिलका दूर किये हुए२सेर और भैंसका दूध १६ सेर लेकर दोनों एकमें मिलाकर अग्निपर चुरावे जब दूधका खोवा हो जाय तब एरंडीके बीज पीसकर उसमें५सेर मिश्री और ऊपरका कहा हुआ खोवा मिलाकर चासनी करे फिर सोंठ, मिरच, पीपल लौंग, इलायची, दालचीनी, तमालपत्र, नागकेशर असगन्ध, रासना, षड्गंधा, पित्तपापड़ा, शतावरी सांठी, हरैं, जावित्री, जायफल, अदरखका रस, लोहारस, चांदीरस ये सब दवा दो दो तोले लेकर सबको कूट कपड़छान करके घी में भूँज लेवे तब चासनीमें मिलाकर एक तोलेके प्रमाण गोली बांधे, एक शाम और एक सबेरे खावे तो ८० प्रकारके वायुरोगको, ४० प्रकारके पित्त-रोगको, ८ प्रकारके उदररोग को, २० प्रकारके प्रमेह रोगको,६०प्रकारके नाडीव्रणरोगको,१८प्रकारके कुष्ठ-रोगको,७प्रकारके क्षयरोगको,५प्रकारके पांडुरोगको, ५ प्रकारके श्वासरोगको, ४ प्रकारके संग्रहणी रोगको तथा नेत्ररोग, गलग्रहरोग अनेक प्रकारके वातरोग इत्यादिको यह एरंडी पाक दूर करता है; जबतक रोगको नहीं निकाले तबतक खाते ही रहें।

केसरपाक २

केसर १ तोला कस्तूरी ३ मासे, मृगांकरस ३ मासे,

चांदीरस ३ मासे, अभ्रकरस ३ मासे, वंगरस ३ मासे लोहारस १ तोला सब रसोंको एकमें घोटकर जुदा रखना, फिर जायफल, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, जावित्री, सोंठ, पीपल, मिरच ये दवा दो दो तोले लेवे असगन्ध १० तोले सब दवाइयोंको कूटकर घीमें थोड़ा भून लेवे तब २॥ सेर मिश्रीकी चासनी करके ऊपरके कहे हुए रस और पांचसेर दूधका खोवा और सब दवा एकमें मिलाकर ६ मासे खावे ऊपरसे आधा सेर दूध पीवे तो धातुको पुष्ट करे और शरीरको पत्थरके समान करे, और कांतिको बढ़ावे, नपुंसकपना दूर करे स्त्रीके प्रसंगमें कभी हारे नहीं।

सोंठपाक ३

सोंठ ४०० तोले, घृत ८० तोले, दूध ८१९२ तोले, मिश्री २०० तोले इन सबको एकमें मिलाकर पकावे जब चासनी हो जाय तब सोंठ, मिरच, पीपल, इलायची, तमालपत्र, नागकेशर, पीपलामूल, काला अगर, जावित्री, जायफल, कचूर, पाषाणभेद, तांबाभस्म, सोनामाखीभस्म, मण्डूरभस्म, लोहाभस्म, कांतिभस्म, ये सब दो दो तोले लेवे, सबको कूटकर कपड़छान करके घीमें भूनके चासनीमें मिलाकर बल देखकर खावे तो बल, उमरको बढ़ावे, निर्बलता दूर हो, सफेद बालोंको काला करे तथा

आमवात रोगको दूर करे और सौभाग्यको बढ़ावे, इद्रियाँ दृढ़ हों।

सौभाग्यशुंठीपाक ४.

सोंठका चूर्ण ३२ तोले, गायका दुग्ध १२८ तोले, खांड २०० तोले इन सबको एकमें मिलाकर चासनी करे फिर दवा मिरच, सोंठ, पीपली, दालचीनी, इलायची तमालपत्र ये सब चार २ तोले ले कूट कपड़छान करके घीमें भून लेवे तब पहलेकी चासनीमें मिलाकर रोगीका बल विचारकर देवे तो आमवात रोग तुरन्त नाश करे, शरीरको सुधारे, धातुको पुष्ट करे और उमरको बढ़ावे, मनी पड़ने देवे नहीं और सफेद बालोंको काला करे और वंध्यापनको हरे यह पाक रसायन है।

कुमारीपाक ५.

कुमारी कन्द ८० तोले, गायके ३२० तोले दूधमें पकावे फिर छायामें सुखाय चूर्ण कर पीपल १२ तोले, मिरच १२ तोले, सोंठ १२ तोले, जायफल ४ तोले, जावित्री ४ तोले, लौंग ४ तोले, गोखरू ४ तोले, ककड़ीका बीज ४ तोले, दालचीनी ४ तोले, इलायची ४ तोले, तमालपत्र ४ तोले, नागकेसर ४ तोले, चीनी ४ तोले, इन सब दवाइयोंको कूटकर कपड़छान कर घीमें थोड़ा भून लेवे तब दूध ४० तोले, मिश्री ८० तोले,

घृत ४० तोले, शहद ४८ तोले इन चारोंको लोहेकी कड़ाहीमें डालकर मन्द मन्द अग्निसे पकावे पीछे लोहारस १ तोला, सोनारस १ तोला, सिंदूर रस १ तोला सब चीजें एकमें मिलान करके ६ मासे तथा १ तोलेकी गोली बांधकर बल विचार कर खावे तो जीर्णज्वर,राजरोग,कास,श्वासरोग,सन्तापरोग,शूलरोग, अजीर्ण; आमवात और प्रदर इन सब रोगोंको दूर करे। वंध्या स्त्री खावे तो पुत्र हो, अण्डवृद्धिको नाशे और इस पाकको खानेवाला १०० स्त्रीके साथ भोग करे, बल कमती होवे नहीं यह दवा गुप्त करने योग्य है। यह अश्विनीकुमाररचित दवा परमोत्तम है।

धात्रीपाक ६.

अच्छे आंवलोंको एकसौ लेकर सुईसे वेधन करके पीछे अदरखका रस १ पाव दो सेर पानीमें डालके पकावे पीछे गौके दो सेर दूधमें पकावे, फिर केवल पानीमें सिझाकर उन फलोंको शहदमें २० दिन रक्खे, पीछे उस शहदको दूर करके दो सेर दूसरा शहद डेढ़सेर मिश्रीकी चासनी करे, तब गजपीपली, इलायची, बंशलोचन, लोहाभस्म, वंगभस्म, सब दो दो तोला लेकर एकमें मिलाकर दश दिन पीछे एक तोला रोज खावे तो बलक्षय व राजरोगको नष्ट करे। यह पाक मधुर है।

पथ्यसे खावे तो प्रमेहरोगको दूर करे। मूत्रकृच्छ्र, कुष्ठ, पित्तरोग तीनों दोषोंको दूर करे और यह सब रोगोंको नाशे, बलवीर्यको बढ़ावे। यह पाक उत्तम वाजीकरण है और सब रोगोंको गुण करता है।

सेवती पाक ७.

सफेद सेवतीके फूल एक हजार लेवे, इनको ६४ तोले, घृतमें पकाकर पीछे मिश्री २५६ तोले, शहद ३२ तोले, दालचीनी ४ तोले, नागकेशर ४ तोले, इलायची ४ तोले, तमालपत्र ४ तोले, मुनक्का २४ तोले, गिलोयका सत २ तोले, वंशलोचन २ तोले, सफेद-जीरा २ तोले, सीसाका भस्म २ तोले, वंगभस्म २ तोले, कपूर ३ रत्ती इन सब दवाइयोंको कूट कपड़-छान करके मिलाकर विधिप्रमाण पाक बनाकर सुन्दर बर्तनमें धरे, पीछे प्रभातमें ६ मासे खावे और पथ्यसे रहे। यह पाक जीर्णज्वर, क्षय, कास, मंदाग्नि, प्रमेह, दिनज्वर, रात्रिज्वर मस्तकरोग, रक्तप्रदर, रक्तविकार, कुष्ठरोग, बवासीररोग, नेत्ररोग, मुखरोग, इन सबोंको एक महीनामें नाशे और जो कोई कुछ दिन और सेवे तो और भी गुणकरे, दिनपर दिन शरीर पुष्ट होता है।

छोहारापाक ८.

छोहारा १० तोले, पिस्ता ४ तोले, जटामांसी ९ तोले, केवांचबीज ९ तोले, तेजपात ९ तोले, नागकेशर

१ तोले, बादाम ४ तोले, जायफल १ तोले, दाल-चीनी १ तोले, केशर १ तोले, चव्य १ तोले, सोंठ१ तोले, कमगट्टा १ तोले, चिरौंजी४ तोले, जावित्री १ तोले, घी १॥ सेर, मिश्री ५ सेर दूध १० सेर, अभ्र-करस २ तोले, लोहसार रस २ तोले, वंगरस २ तोले पहले सब दवाइयोंको कूट कपड़छान करके और मेवाको जुदा करके दवाको घीमें भून लेवे तब दूधका खोवा करे पश्चात् मिश्रीकी चासनी करके उसीमें सब दवा मिलाय रस और मेवा छोड़ एक २ तोलेके प्रमाण गोली बांधकर खावे तो भूख लगे, शरीरको पुष्ट करे सौ स्त्रीसे भोग करे। बल न घटे बल्कि दशों इंद्रि-योंको बलिष्ठ बनाता है।

लौंगादिपाक १.

लौंग ४ तोले,दालचीनी ४ तोले,नागकेशर ४ तोले, असगन्ध ४ तोले,सोंठ ४ तोले,मिरच ४ तोले,पिपली ४ तोले, कमलगट्टा ४ तोले, जटमांसी ४ तोले,गरी ४ तोले, बादाम ४ तोला,पिस्ता ४ तोले, किसमिस ४ तोले,केशर ४ तोले, चिरौंजी ४ तोले,जावित्री ४तोले, छोहारा ४ तोले, मिश्री४ सेर, घी दो सेर, दूध १सेर चांदीरस २ तोले, लोहसार दो तोले, अबरख ३ तोले, सब दवाइयोंको कूट कपड़छान कर घृतमें झलकारके दूधका खोवा बनाकर मिश्रीकी चासनी करके उसी

चासनीमें सब चीजें मिला करके बल विचारके खावे तो खांसी, श्वास, दमाको गुण करे और कमजोरीको दूर करे, शरीरको पुष्ट करे, दिनपर दिन बल बढ़ता जावे परन्तु खट्टा मीठा तीतासे परहेज रक्खे।

सुपारीपाक १०.

सुपारी आधा सेर दोसेर पानीमें चुरावे फिर सुखा-कर चूर्णकर पीछे दश सेर दूधमें चूर्णडालके पकावे, जब दूध खोवा होजाय तो दस सेर मिश्रीकी चासनी करके तब इलायची २५ मासे, बरियारेका बीज २५ मासे, गुरसकरी २५ मासे, जायफल २५ मासे, लौंग २५ माशे, जावित्री २५ मासे, तेजपात २५ मासे, सोंठ २५ मासे, शतावरी २५ मासे, श्याममुसरी २५ मासे, केवांचबीज २५ मासे, बिलारीकन्द २५ मासे, गोखरू २५ मासे, सालममिश्री २५ मासे, वंशलोचन २५ मासे, असगन्ध २५ मासे, केशर २५ मासे, अगर २५ मासे, कस्तूरी ४ मासे सब दवाइयोंको कूट कपड़छान कर घीमें भून चासनीमें छोड़ तब मृगांकरस ४ मासे, चन्द्रो-दयरस ४ मासे, बंगरस ४ मासे लोहारस ४ मासे अभ्र-करस ४ मासे ये सब रस छोड़कर पूर्वोक्त मिश्रित करके गोली बांधकर बल बिचारके खावे तो धातुको पुष्ट करे, वीर्य्यस्तंभन हो और नपुंसकपना दूर हो.

शरीरको सुधारे, स्त्री प्रसंगमें सुख दे, पुष्ट हो और भूख लगे।

सेमरपाक ११.

सेमरकी जड़का छिलका आधसेर लेकर छायामें सुखाकर कूट कपड़छान कर सात सेर दूधमें डालके पकाकर खोवा करे फिर पांच सेर मिश्रीकी चासनी करके पीछे इलायची, लौंग, पीपल, सोंठ, नागकेसर, जटामांसी, जायफल, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी, केसर और भांग ये सब दवा एक एक तोले ले, कूट कपड़छान करके घीमें भूनकर चासनीमें सब दवा और खोवा मिलाकर लड्डू बनाकर बल विचारके खावे तो कमरके दर्दको तुरंत दूर करे। शरीर और धातुको पुष्ट करे। बिगड़े खूनको दूर करके नवा खून जारी करे। यह पाक सब रोगोंपर देवे।

शुक्रपाक १२.

तुषरहित एरंडीके बीज ६४ तोले, भैंसके दुग्ध ५१२ तोलेमें डालकर मन्द अग्निसे पकावे जब खोवा हो जाय तब एरंडी बीजोंको पीसकर घी ४२ तोले, खांड १३२ तोले सब एकमें मिलाकर चासनी करे। पीछे सोंठ, मिरच, पीपल, दालचिनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेसर, पीपलमूल, चीता चबक, सौंफ, लघु सौंफ, कचूर, बेल, अजमोद, दोनों जीरा, दारुहलदी, देशी हलदी,

असगन्ध, बलियार, पाठा, शरणी, वायविडंग, पुष्कर, गोखरू, कूट, त्रिफला, देवदारु, भिदारा, ककरोलीके बीज, अरलू शतावरी इन सब दवाइयोंको एक एक तोला ले कूट कपड़छान कर घीमें भूनकर चासनीमें मिलाके बल विचार कर खानेको देवे तो वातव्याधि, सुजाक, पेटरोग, अफरा, बस्तिवात गुल्म, आमवात, कटिग्रह, ऊरुस्तंभको नष्ट करता है। जैसे सिंह हाथीको वैसेही यह पाक इन रोगोंको दूर करे शरीरको पुष्ट करे तथा धातुको बढ़ावे। यह पाक बहुत उत्तम है।

रसोनपाक १३.

तुषरहित लहसुन ६४ तोले लेकर छांछमें शामको भिगो दें सबेरे पीसकर ५ सेर दूधमें पकाकर तैयार करे, पीछे घी १६ तोले मिलाकर शीतल करके शतावरी, रासना, बासा, गिलोय, कचूर, सोंठ, देवदारु, भिदारा, अजमोद, चीता, सौंफ, सांठी, हर, बहेडा, आंवला, पीपल, बायबिडंग यह सब दवा एक एक तोले कपड़छान करके घीमें भूनके शहद १६ तोले लेकर सब सामग्री एकमें मिलाकर बल विचारकर खावे तो अर्धांगवात, हनुग्रह, अंगक्षेप, भग्नवात, कटिवात, ऊरुस्तंभ, हृद्रोग, सर्वांगवात, संधिगुप्तवात आदि ८० प्रकारके वातरोगोंको नाशे, कमरदर्दको दूर करे तथा गठिया साना

जिसको नोकरस भी कहते हैं उसको १५ दिनमें दूर करे, वातव्याधिको दूर करे। शरीरको पुष्ट करे।

कुबेरपाक १४.

तुणिको ६४ तोले लेकर पानीमें शामको भिगो देवे; सबेरे पानी दूर करके फिर २६६ तोले दूधमें पकाकर धूपमें सुखाकर घीमें मन्द अग्निपर पकाकर पीछे शहद में तीन दिन रक्खे तब दालचीनी, तमालपत्र, नागकेशर, इलायची, सोंठ मिरच पीपल, जावित्री, जायफल, लौंग, बायबिडंग, सौंफ जीरा, नागरमोथा, बलिया, जडहल्दी दारुहल्दी, लोहभस्म, तांबाभस्म, ये सब दवा दो २ तोले ले कूट कपड़छान करके पहलेकी दवामें मिलाकर बल विचारकर खावे तो यह पाक सब तरह की वातव्याधियोंको नष्ट करता है, मंदाग्नि, बलक्षय प्रमेहमूत्रकृच्छ्र अश्मरी, गुल्म, पांडु इन सब रोगोंको हरता है और पीनस, संग्रहणी, अतिसार, अरोचक, इत्यादि रोगोंको नाश करता है। कामदेव और कांतिको बढ़ाता है शरीरको पुष्ट करता है। यह पाक पथ्यसे खानेसे बहुत फायदा करता है।

लहसुनपाक १५.

तुषरहित लहसुन ६० तोले लेकर २१२ तोले दूधमें पकावे फिर १२ तोले घीमें पकावे फिर ११८ तोले खांड की चासनी बना करके उसमें लहसुन छोड़ देवे। तब

सोंठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, पीपलामूल, चबक, चीता, बायविडंग, हल्दी, दारुहल्दी, शेरणी भिदारा, पुष्करमूल, अजमोद, लौंग, देवदार, सांठी, शतावरी कचूर, गोखरू, निंब, रास्ना, सौंफ, असगंध, कौंचबीज, इन सबको एक १ तोला ले कूट कर कपड़छान करके थोड़े घीमें भून लेवे, तब चासनीमें मिलाकर बल देखकर खावे तो सब प्रकारके वातरोगको नाशे और शूल, अपस्मार, छाती फटना, गुल्म, पेटरोग, छर्दि, प्लीहा, अण्डवृद्धि, कृमिरोग, मलबद्ध, अफरा, सुजाक, मन्दाग्नि, बलक्षय, हिचकी, श्वास, खांसी, अपतन्त्र, धनुर्वात, अन्तरायाम, पक्षाघात, अपतान, अर्दि, आक्षेपक, कुब्जक, नवग्रह शिरोग्रह विश्वाची गृध्रसी, खल्लीवात, पंगुवात, संधिवात, बधिरपना, सब, प्रकार के शूल इस पाकके सेवन करनेसे दूर होते हैं। बात, व्याधि, हाथीको यह सिंहरूप होकर भगावे और कफव्याधिको हरे तथा बल पुष्टिको पैदा करे।

मिरचपाक १६.

सफेद मिरच एक पाव लेकर चूर्ण बना पांच सेर दूधमें पकावे खोवा करके तब तीन सेर मिश्रीकी चासनी करके एक सेर घी खोवा चासनीमें मिलावे, पीछे छोहारा ४ तोले, पिस्ता ४ तोले, बदाम ४ तोले, जावित्री ४ तोले, चिरौंजी ४ तोले, जायफल, ४ तोले,

सोंठ २ तोले, असगंध २ तोले, जटामांसी २ तोले, नागकेसर २ तोले, केसर २ तोले, लोहाभस्म २ तोले इन सब दवाइयोंको कूट कर कपड़छान करके सबको चासनीमें मिला करके बल विचार कर खावे तो शरीर को पुष्ट करे और सब तरहके फोड़ा-फोड़ी दूर करे तथा खाज-खुजलीको नाशे और बिगड़े खूनको साफ करे।

पीपलीपाक १७.

पीपल १ सेर लेकर १० सेर पानीमें पकावे जब पानी सब जल जाय तब पीपलको सुखाकर चूर्ण बना ले पीछे इलायची १ तोला लौंग १ तोला जात्रिवी १ तोला दालचीनी १ तोला नागकेशर १ तोला, जटा-मांसी १ तोला, असगन्ध ६ तोले, स्याहमुसली ४ तोले केसर २ तोले, अभ्रकरस २ तोले, लोहासार २ तोला, वंगरस २ तोले इन सब दवाइयोंको कूट कपड़छान करके एक सेर घीमें भून लेवे तब साढ़े तीन सेर मिश्रीकी चासनी करके उसमें सब दवा डालके मिलावे फिर १ तोला शाम और १ तोला सबेरे खावे, ऊपरसे दूध पीवे तो शरीरको पुष्ट करे, बल वीर्यको बढ़ावे और भूख लगे, मंदाग्नि दूर करे, अग्निको प्रचण्ड करे।

मेथीपाक १८.

मेथी ३२ तोले, सोंठ ३२ तोले, इनको कूट कपड़-छान करके २५६ तोले दूधमें पकावे जब खोवा हो जाय

तब १५६ तोले मिश्रीकी चासनी करके पीछे मिरच, पीपल, सोंठ, पीपलमूल, चीत, अजवाइन, धनियां, जीरा, कलौंजी, सोंठ, जायफल, कचूर, दालचीनी, तमालपत्र, नागकेशर, नागरमोथा ये सब दवा चार४ तोले ले कूट कपड़छान करके ३२ तोले घीमें झलकारके तब चासनीमें मिलाके खावे तो आमवातरोगको बल्कि सब प्रकारके वातरोगोंको दूर करे। विषमज्वर, पांडुरोग, कमल, उन्माद, अपस्मार, प्रमेह, रक्तपात, अम्लपित्त, शिर पीड़ा, नासिकारोग, नेत्ररोग, प्रदर, सूतिका इन रोगोंको यह मेथीपाक तुरन्त निकाल शरीरको पुष्ट करता है, तथा पथ्यसे खानेसे बलवीर्यको बढ़ाता है।

पूगीपाक १९.

सुपारी ३२ तोले लेकर चूर्णकर ११२ तोले दूधमें पकावै जब खोवा हो जाय, तब गायका घृत १५ तोले डालके पीछे मिश्री २००तोलेकी चासनी करके नागकेसर, नागरमोथा, चन्दन, त्रिकूटा, आंवला, चिरौंजी, कोकिलाक्ष, लाजवन्ती, दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, दोनों जीरा, सिंघाड़ा, वंशलोचन, जावित्री, लौंग धनियां ये सब दवाइयां एक २ तोला लेवे, शतावरी १६ तोले लेवे, सबको कूट कपड़छान करके थोड़े घीमें भून लेवे तब चासनीमें मिलाके अच्छे दिन और अच्छे

नक्षत्रमें अग्निबल विचारके प्रभातमें खानेसे प्रमेह, जीर्ण ज्वर, अम्लपित्त, रक्तस्राव, बवासीर और मन्दाग्निका नाश होता है, शरीरको पुष्ट करता है, वीर्यको बढ़ाता है और स्त्रियोंको गर्भ देता है तथा प्रदर, मद, आमको नष्ट करता है।

असगन्धपाक २०.

असगन्ध ३२ तोले गायका दूध ६ सेर, घी १सेर, मिश्री ५ सेर, दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेशर ये सब एक २ तोला लेवे और जायफल केशर, वंशलोचन, मोचरस, जटामांसी, दोनों चन्दन, जावित्री, पीपल पीपलामूल, लौंग कंकोल, मेढासिंगी, अखरोट भिलावाबीज, सिंघाड़ा, गोखरू, रससिंदूर, अभ्रकभस्म सीसाभस्म, वंगभस्म, लोहभस्म, ये सब दवा तीन ३ मासे लेवे, सबको कूट कपड़छान करके पहिले दूधका खोवा करे, तब सब दवाइयोंको घीमें थोड़ा झलकार लेवे पीछे मिश्रीकी चासनी करके सब चीजें मिलाकर तैयार करके पीछे शक्त्यनुसार खानेसे सब प्रकारके प्रमेहरोग, जीर्णज्वर, शोथ, गुल्म, पित्तरोग तथा सब प्रकारके वातरोगोंको नष्ट करता है, वीर्यको बढ़ाता है और चित्तको प्रसन्न करता है।

शाल्मपाक २१.

शाल्मके छिलका का चूर्ण १६ तोले, दूध ११२ तोले,

मंदाग्निसे पकावे जब खोवा हो जाय पीछे मिश्री ६८ तोलेकी चासनी बनावे, तब दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेसर, लौंग, जायफल, नागरमोथा, वंशलोचन धनियां, सोंठ, पीपल, मिरच, असगंध, हरैं इन सबोंको एक २ तोला ले, कूट कपड़छान करके घीमें भूनकर चासनीमें मिलाकर खावे तो हृदयरोग, क्षय शोष, वातका नाश होता है, और हिचकी, असृकशोषरोग और २० प्रकारके प्रमेहरोग व शिरोविकारोंको दूर करता है। शरीरको पुष्ट करता है। वीर्यको बढ़ता है। परन्तु खट्टी मीठी चीजका परहेज रखना चाहिये।

द्राक्षापाक २२.

दाख ६४ तोले, दूध ६४ तोले, मिश्री ६४ तोले एकमें मिलाकर पकावे, पीछे दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेसर, त्रिकुटा, केसर, कचूर, जावित्री, जायफल, चन्दन, कस्तूरी, लोहाभस्म, अभ्रकभस्म, चांदी भस्म, ये सब दवा दो दो तोले लेवे कूट कपड़छान करके पूर्वोक्तमें मिलाकर पीछे प्रभातमें बल विचारके खानेसे यह पाक शरीरको पुष्ट और वीर्य व कांतिको बढ़ता है तथा प्रमेह, पित्तरोग, मूत्राघात, विड्बन्ध, मूत्रकृच्छ्र, रक्तविकार, नेत्रपीड़ा, हृदयरोग, पैर हाथ तलवा इनके दाहका नाश करता है। पथ्यसे खानेसे सदा सुख होता है।

केवांच पाक २३.

केवांचके ५ सेर बीजको पानीमें भिगोकर छिलका दूर करे, फिर धूपमें सुखाकर चूर्ण करके दश सेर मिश्रीकी चासनी कर पीछे इलायची, लौंग, पीपल, सोंठ, जटामांसी, केसर, अभ्रकरस, लोहारस सब दवा २ तोले ले, कूट कपड़छान करके १६ तोले घृतमें भून कर चासनीमें खोवाके साथ मिलाकर दश टंकके प्रमाणकी गोली बनाकर सबेरे खावे तो यह केवांचका पाक शरीरको पुष्ट करे लोहाके मिसाल करे, नपुंसकपनाको दूर करे; वीर्यको बढ़ावे और स्त्रीके प्रसंग में सुख दे वीर्य देरमें गिरे और रोग निकट नहीं आवे ।

गोखरूपाक २४.

गोखरू आधा सेर लेकर चूर्ण कर–१ सेर गायके घीमे करमोदे(मसले) फिर ५ सेर गायके दूधमें मिलाकर पकावे जब खोवा हो जाय तब ४ सेर मिश्रीकी चासनी बनावे फिर बेलगिरी २॥ टंक, मिरच २॥ टंक, जायफल १॥ टंक, समुद्रशोष २॥ टंक, इलायची २॥ टंक, हल्दी २॥ टंक, कूट २॥ टंक, तालमखाना २॥ टंक, अफीम २॥ टंक इन सबको कूट कपड़छान करके चासनीमें मिलाकर पीछे ६ तोला भांग पीस मिलाकर अग्निबल विचारकर खावे ऊपरसे दूध पीवे तो प्रमेह,

रोगको दूर करे और वीर्य बलको बढ़ावे, वीर्यस्तंभ हो और स्त्री प्रसन्न हो शरीरको पुष्ट करे।

पञ्चजीरपाक २५.

दोनों जीरा, सौंफ, अजमोद, धनियां, मेथी, सोंठ, पीपल पीपलामूल, चीता झाऊकी जड़, बेरकी गूठली कूठ, साहजन ये सब दवा चार २ तोले, कपड़छान करके सब दवा १६ तोले उत्तम घीमें भूनकर १२८ तोले दूधका खोवा करे पश्चात् ४०० तोले खांडकी चासनी कर सब दवा मिलाकर पाक तैयार करके प्रसूता स्त्रीको खिलावे तो सूतिका रोग दूर हो; योनिरोग, ज्वर जो स्त्रीके जननेपर बालक मर जाता है व गर्भ गिरता है सो विकार दूर हो। और क्षय, खांसी, श्वास, पाण्डुरोग, कृशता, वातरोग, स्त्रीके सब रोग दूर हों; शरीर कमरको पुष्टकरे, स्त्रीके लिये हित है। स्त्रीको रोग हो तो तजबीज करके खिलावे

नागरखंड पाक २६.

सोंठका चूर्ण ३२ तोले, खांड २०० तोले, दूध १२८ तोले, घी ३२ तोले इनको एकमें मिलाकर पाक करे, पाक तैयार करके धनियां १२ तोले, सौंफ २० तोले, बाय बिडंग ४ तोले, अजमोदा ४ तोले, जीरा ४ तोले, सोंठ ४ तोले, मिरच ४ तोले, पीपल ४ तोले, नागकेशर ४ तोले, नागरमोथा ४ तोले, तमालपत्र ४ तोले,

इलायची ४ तोले इन सब दवाइयोंको कूट कपड़छान करके घीमें भूने तथा पीछे सोंठका चूर्ण,खांड,दूध,घृत एकमें मिलाकरके पकावे, जब खोवा हो जाय तब दवा मिलाकर स्त्रीको खानेके लिये दे तो तृषा, छर्दि, ज्वर, दाह, शोष, श्वास, कास, तिल्ली, कृमि, मन्दाग्नि इन सब रोगोंका नाश करता है। स्त्रीके लिये यह पाक हित है।

लघुसौभाग्यसोंठपाक २७.

सोंठ ३२ तोले,घृत८० तोले,दूध२५६तोले, मिश्री २०० तोले इनको एकमें मिला करके पकावे,जब खोवा हो जाय तब शतावरी, सोंठ जीरा, मिरच पीपर दालचीनी, इलायची, दोनों अजवायन, सौंफ चाबचीता, नागरमोथा ये प्रत्येक चार २ तोले लेकर कूट कपड़छान करके विधिप्रमाणसे पाक बनाकर चिकने बरतन में रक्खे फिर अग्निबल विचार खावे तो सूतिकारोगवाली स्त्रीको हितकर है; बल और शरीरको बढ़ाता है, निर्बलताका नाश करता है और जवान अवस्थाको प्राप्त कराता है। यह पाक मनोहर है। मन्दाग्निको दीपन करता है और आमवातरोगको हरता है।

महापीपलीपाक २८.

६४ तोले पीपलीका चूर्ण करके ९ सेर दूधमें पकावे

जब खोआ हो जाय तब गौका घृत १२८ तोले मिलावे फिर मंदाग्निसे पकावे पीछे दस सेर चौबीस तोले मिश्री की चासनीमें मिलाकर पकाके उतार लेवे; शीतल होने पर दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर; इनको तीन२तोले लेकर कूट कपड़छान करके पाकमें मिला के बल विचारके खावे। यह पाक बल वीर्य और शरीरके तेजको बढ़ाता है। जीर्णज्वर और क्षतक्षयरोगको नष्ट करता है, शरीरको पुष्ट तथा तृषा, अरुचि, श्वास, कास, जिह्वारोग, कामलारोग, वातरक्त, प्रतिश्याय आमवातरोगका नाश करता है। एक वर्ष खानेसे वृद्ध भी नवयुवक तथा सुन्दर सुडौल हो जाता है।

मुसलीपाक २९.

मुसली एक पाव, कौंचबीज १० मासे, विदारीकन्द १० मासे, गोखरू १० मासे, शतावरी १० मासे, खैरटीका बीज १० मासे, गंगेरनकी छाल १० मासे, सोंठ १० मासे इन सब दवाइयोंको कूट कपड़छान करके १६ तोले घीमें करमों करके दश सेर दूधमें पकावे जब खोवा हो जाय तो ५ सेर मिश्रीकी चासनी करके उसमें खोवा मिलावे। तब मिरच ६ मासे, पीपल ६ मासे, सोंठ ६ मासे, दालचीनी ६ मासे, तेजपत्र ६ मासे, इलायची ६ मासे, नागकेसर ६ मासे, लौंग ६

मासे, जायफल ६ मासे, जावित्री ६ मासे, वंशलोचन ६ मासे, कस्तूरी ६ मासे, वंगरस ६ मासे, अभ्रकरस ६ मासे, हरगौरीरस ६ मासे, इन सबको पाकमें मिलाकर बलविचार कर खानेसे शरीर पुष्ट रहता है, प्रमेहादि सब रोगोंका नाश होता है। यह पाक महाबल करने वाला है। ब्राह्मणको दान देकर तब पथ्यसे खानेको प्रारम्भ करना चाहिये।

महाअसगंध पाक ३०.

असगन्ध, ४० तोले, सोंठ २० तोले, पीपल १० तोले, मिरच ५ तोले, दालचीनी ४ तोले, इलायची ४ तोले, तमालपत्र ४ तोले, लौंग ४ तोले, इन सबको चूर्ण करके २०० तोले भैंसके दूधमें पकावे, जब खोवा हो जावे तब शहद १०० तोले, घृत ५० तोले, मिश्री १०२ तोले लेकर इनको मिलाकरके चासनी करे तब पीपलामूल, जीरा, गिलोय, लौंग, तगर, जायफल, बाला, कालाचन्दन, खीरणी, कमल, धनियां, धवका फूल, वंशलोचन, आँवला, कपूर, सांठी, असगंध, चीता, शतावरी इन सबको आधा आधा तोला लेकर कूट करके चूर्ण बनायके पूर्वोक्तमें मिलाकर पाक तैयार करके चिकने बरतनमें रक्खे, पीछे २ तोले रोज खावे तो भूख लगे, मनोवांछित भोजन करे। यह पाक-खांसी, श्वास, अजीर्ण,

वातरक्त, तिल्ली, मेद, आमवात, शरीरसूजन, शूल, बवासीर पांडु कामला, संग्रहणी, गुल्मरोग, वातकफ-जनित रोगोंको जैसे सूर्योदयसे अँधेरेका नाश होता है वैसेही नाश करता है। और इस पाकका १ अथवा २ महीना सेवन करनेसे वृद्ध तरुण हो जाता है, मन्दाग्निवालोंके लिये हित है और बल कांतिको बढ़ाता है, बालकको हित है स्त्रीको पुष्ट करता है, तथा दूधकी वृद्धि होती है, क्षीण नरोंको तथा अल्प वीर्यवालोंके लिये हितकर और कामदेव तथा जठराग्निको दीपन करता है और सब प्रकारकी व्याधियोंको दूर करता है। यह पाक अमृतके समान है, पथ्यसे खाना चाहिये।

नारिकेलपाक ३१.

१६ तोले नारिकेलको बारीक पीस करके ४ तोले घीमें भूनलेवे तब दूसर नारिकेलका रस ६४तोले, मिश्री२सेर इनको एकमें मिलाकर पकावे जब पाक हो जाय तब धनियां पीपल, नागरमोथा; वंशलोचन, दोनों जीरा, दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेशर प्रत्येक चार चार मासे लेके कूट कपड़छान करके पाकमें मिला कर खावे तो अम्लपित्तरोग, अरुचि, क्षय, रक्तपित्त, शूल छर्दि इन रोगोंका नाश होता है और शरीर तथा धातुको पुष्ट करता है, वीर्यको बढ़ाता है।

चोपचीनीपाक ३२.

चोपचीनीका चूर्ण ४८ तोले, पीपल, पीपलामूल, मिरच, सोंठ, दालचीनी, अकरकरा लौंग ये सब दवा एक २ तोले लेकर कूट कपड़छान करके डेढ़सेर मिश्रीकी चासनी कर दवा मिलाकर बहुत पथ्यसे खावे तो असाध्य उपदंश रोग दूर हो, भगन्दररोग,क्षयरोग, खांसी, श्वास, पीनस, पांच प्रकारका उपदंश और वर्णरोगको नष्ट करे तथा शरीरको पुष्ट करे।

सफेद कोम्हड़ापाक ३३.

सफेद कोम्हड़ा जिसको रकसवाँ कुम्हड़ा भी कहते हैं उसका मगज ५ सेर लेकर छोटा २ टुकड़ा करके ५ सेर दूधमें पकावे जब खोआ हो जाय तब २ सेर घीमें पकावे पीछे ४ सेर मिश्रीकी चासनी करके तब जटामांसी,इलायची, लौंग,दालचीनी,बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, जायफल,तमालपत्र, केसर,नागकेसर ये सब दवा दो २ तोले लेकर कपड़छान करके मिलावे,ऊपरसे दो सेर शहद मिलावे, फिर दो तोले रोज खावे तो बिगड़े खूनको नाश करे नवा खून पैदा करे, शरीरको पुष्ट करे बल वीर्यको बढ़ावे, भूखको लगावे इस पाकको गरमीके दिनमें सेवन करना चाहिये।

घीकुवारीपाक ३४.

घीकुवारसे पट्ठेका दो सेर मगज लेकर दो सेर दूध में पकावे पीछे १ सेर घीमें पकावे तब दो सेर मिश्री की चासनी करके लौंग, इलायची, नागकेसर, दालचीनी, तमालपत्र, केसर, चिरौंजी, बादाम, जावित्री सब एक २ तोले लेकर चूर्ण करके मिलाके खावे,यह पाक शरीरको पुष्ट करता है, नपुंसकपनाको दूर करता है तथा बल वीर्यको बढ़ाता है।

बीजमोदकपाक ३५.

खीराके बीज ९ तोले, ककरीके बीज ९ तोले तरबूजके बीज ९ तोले, कुम्हड़ाके बीज ९ तोले, पिस्ता ९ तोले, बादाम ९ तोले, इन सब दवाइयोंको कूट करके थोड़ा घीमें भून लेवे तब ९ सेर दूधका खोवा करके साढ़े तीन सेर मिश्रीकी चासनी बनावे उसी चासनीमें सब दवा मिला करके दो तोले रोजखानेसे शरीर व धातु पुष्ट होता है और बलवीर्य्यको बढ़ाता है। यह पाक गृहस्थको बहुत उत्तम है।

अथ पाकविधि

पाक बनानेवालेव खानेवालेको चाहिये कि पाकको साफ बर्तन साफ जगहमें रक्खे और पाक खानेवाला

पथ्यसे रहे, कोई खराब चीज नहीं खावे और पाकके ऊपर दूध, घी बहुत खावे तब पाकका आनन्द मिलता है।

इति श्रीमुंशी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदासविरचित
वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा द्वितीय भागका
दूसरा खंड समाप्त ॥ २ ॥

हवाका बयान

अच्छी हवा वह है कि, जिसमें धूआं और बुखार न मिला हो। हवाकी गति हर एक फसलमें बदलती रहती है और हकीमोंने चार फसलें लिखी हैं परन्तु हिंदुस्तान में तीन फसलोंका समय चार चार महीनेका है। गरमी फागुनसे शुरू होती है और चैत, वैशाख, ज्येष्ठ तक रहती है मौसम गरमीका फागुनसे शुरू होता है लेकिन रातके वक्त शरदी होती है और दिनको दोपहरके वक्त गरमी। इस महीनेमें गरमी और शरदीसे बचना चाहिये और गरमीके मौसममें खाना कमती खाना चाहिये और इस फसलमें गरमीके कारण शर्द पानी बहुत पिया जाता है और इससे हाजमा जईफ हो जाता है, इस वास्ते शर्द मकानमें रहना और ठण्ढी चीजोंको काममें लाना चाहिये। बरसात आसाढ़से शुरू होती है और सावन, भादों, क्वारतक रहती है। बरसातका हाल बदलता रहता है। जब पानी बरसता है तब हवा शर्द रहती है और जब नहीं बसरता तब

हवा गरम हो जाती है। इस मौसममें गरमी, शरदी पानी और हवा एकसी नहीं रहती है। इससे यह मौसम खराब होता है। इस वास्ते इन्सानको चाहिये कि जहां तक हो सके कोई बादी चीज न खावे, बल्कि जो हाजमा चीज हो उसको काममें लावे। जाड़ेका मौसम कार्तिकसे शुरू होता है और अगहन, पूस, माघ तक रहता है। जाड़ेके मौसममें पेटके अन्दर गरमी होती है इस वास्ते खाना बहुत जल्दी हजम होता है। इस फसलमें गिजाका जियादह करना नुकसान नहीं करता है। बल्कि जवान आदमीको खानेके वास्ते यह फसल सब फसलोंमें बहुत अच्छी है और कोई बिमारी नहीं होती है। अगर किसी पुरानी बीमारीका इलाज इस मौसममें किया जाय तो अच्छी तरह से हो सकता है किन्तु गरमीके दिन खराब होते हैं।

अथ बयान (नब्ज) नाड़ीका

वैद्यके लिये नाड़ीका देखना और उसकी पहिचान करना बहुत कठिन है। यह हर एक आदमीका काम नहीं है। नाड़ी उस वक्त देखना चाहिये जिस समय क्रोध व खुशी और थकावटसे रहित हो। मर्दोंकी नाड़ी औरतोंकी नाड़ीकी अपेक्षा अधिक बलवती होती है और लड़कीकी नरम और जवान आदमीकी नाड़ी लम्बाई

चौड़ाईमें जियादह होती है और बूढ़े तथा कमजोर आदमीकी नाड़ी मन्द चलती है मर्दका पहले दहिना हाथ और औरतका पहले बायां हाथ देखना मुनासिब है। बारह (१२) हरकत तक नाड़ीपर हाथ रखना चाहिये, अगर नाड़ी चार अंगुलसे लम्बाईमें जियादा हो और उँगलियोंको उसकी चाल जोरसे मालूम हो और जल्दी चलती हो और छूनेमें नरम मालूम हो तो दलील गरमीकी है और जो चार अंगुलसे लम्बान उसका कमती मालूम हो बल्कि जोरसे सहमा न दे और हरकत जल्दा न हो और छूनेसे भी गरम मालूम हो तो शरदीकी है अगर नाड़ीकी चाल एक तरहसे मालूम हो तो अच्छी है और जो रफ्तार एक तरह पर न हो तो खराब है। बस हर एक आदमी जो खान्दानी हकीम न हो तो उसको मुनासिब है कि बीमारीके हाल कहनेपर जियादह ध्यान करके इलाज करे और दवा सोच समझके लिखे। नाड़ीका विशेष वर्णन दोहा चौपाईमें लिखा है।

फस्दका वर्णन

बदनमें रगें दो तरहकी होती हैं। एक वे जो दिलसे निकली हैं, दूसरी वे हैं जो जिगरसे निकली हैं। उनमें खून मिला हुआ सब रगोंके साथ रहता है। पहले वा

वर्षकी उमरतक फस्द खुलवाना नहीं चाहिये। विशेषतः हृष्ट पुष्ट मनुष्यको आजीवन फस्द नहीं खुलवाना चाहिये, एवं बहुत मोटे और बहुत दुबले और कुलंजी आदमी को फस्द लेना मुनासिब नहीं है और जिस औरतको गर्भ हो याने लड़का होनेवाला हो उसकी फस्द भी खुलवानी मुनासिब नहीं है और शर्दीके दिनोंमें दोपहरमें पहले और गरमीके मौसममें दोपहरके बाद फस्द खुलवानी चाहिये। फस्द खुलवाने के बाद आराम करना आवश्यक है परन्तु सोना खराब है और फस्दमें खून कम निकालनेसे मावह हर कतमें आता है और बहुधा बुखार भी हो जाता है। जिस आदमीको फस्दके बाद गश आजावे उसको मुर्गेका पर हलकमें डालकर वमन करावे या किसी हकीमकी रायसे दवा पिलावे।

फस्दसरारू

यह फस्द बीमारियोंके वास्ते है जो मस्तकसे गले तक है, उत्तम है इस रगको कुशादः खोलें

फस्द हफ्त अन्दाम

तमाम बदनका खराब खून फस्दके खुलवानेसे निकल जाता है।

फस्द बासलीक

यह फस्द गर्दनके नीचेसे कमरतककी बीमारियोंके वास्ते उत्तम है इसमें नस्तर तिरछा लगावे और ख्याल

रक्खे कि इसके नीचे दो रगें और हैं वहां तक नस्तर नहीं आना चाहिये और बीमारी जिगरके बांई तरफसे खोले और बांई तरफसे दिलकी बीमारियोंको उत्तम है लेकिन खून उससे बहुत न निकाले और रग पेशानीकी शिरके दर्द और आंखोंकी बीमारियोंको उत्तम है और दोनों होठोंके नीचे जो चार रगें हैं उनकी फस्द मुँहके जख्मोंको फायदा देती है। जो फस्द खराब खून निकालनेके वास्ते खोली जाती है उसमें मुनासिब है कि, जब खराब रंगत खूनकी बदल जावे और खून अच्छा निकलना आरम्भ हो तब बन्द कर दे, अगर खून बन्द न हो तो मकड़ीका जाला उसपर रखकर बांध दे । अगर गर्म हो जावे तो सर्द दवाईका लेप लगावे बहुत फायदा होगा ।

उन्सरका वर्णन

उन्सर चार हैं, आग गरम और खुश्क है। दूसरी हवा गरम और तर है। तीसरी पानी सर्द है। चौथी खाक जो सर्द और खुश्क है जबतक इन चारोंमेंसे कमती जियादा न होगा तबतक आदमीको किसी तरहकी बीमारी न होगी ।

गलबेः खूनका वर्णन

बहुधा समूढ़ोंसे खूनका निकलना और पेशाबका रंग

सुर्ख हो जाना और आंखोंमें सुर्खीका रहना और देहपर दानोंका निकलना या भारी हो जाना इसकी पहचान है।

गलबेः सराफकी निशानी याने पित्तलक्षण

मुँख आंखों और पेशाबका रंग जर्द होना और मुँखका कडुवा रहना और नाकमें सुर्खी या खुश्की और खरखराहट मालूम होना या नींदका कमती आना या पियास कम लगनी और बदन पर सोजिशका हो जाना ये सब निशानी हैं।

गलबेःबलगमकी निशानी यानी कफलक्षण

बदनका दुबला हो जाना, पेशाबमें सफेदीका मालूम होना मुँख और नाकसे रतूबतका जारी रहना, सरदीका मालूम होना या पियासका कम लगना और जबान और आंखोंकी रंगतका बदल जाना ये सब इनकी निशानी हैं।

गलबेःसौदाकी निशानी याने वात लक्षण

बदनपर दुबलापन, खुश्की और सोजिशका हो जाना मुँहपर तुरसीका मालूम होना या बदनपर थकान और भारी रहना और कोरूरकी रंगतका स्याह हो जाना ये वातकी निशानी हैं।

कारूरा देखनेकी पहँचान

कारूरा शीशेको कहते हैं और बीमारीका पेशाब कई तरकीबोंसे शीशेमें डालके देखते हैं-पेशाब कारूरेके

नामसे मशहूर होगया है कारूरा देखनेमें यह मुनासिब है कि सबेरे पेशाब किया हो और सोनेके पीछे पानी न पिया हो तथा ऐसी चीज न खायी हो कि जिसमें पेशाब रंगीन हो जावे। जागना गुस्सा करना, स्त्रीप्रसङ्ग और शराब पीनेसे पेशाबका रंग बदल जाता है और जो देरतक करूरा रक्खा रहे तो उसको देखना मुनासिब नहीं है। सफरासे पेशाबका रंग जर्द हो जाता है और खूनसे सुर्ख रंग और बलगमसे सफेद रंग और सौदा से स्याह रंग और सब्ज रंग सरदीसे होता है। मवादके पक जानेकी निशानी यह है कि पेशाब पहले पतला या गाढ़ा हो और बाद इसके मौतदिल किवाम हो जावे। तपकी बीमारीमें पेशाबका हरवक्त गलीज रहना बुराईकी निशानी है और कारूरेका पतला हो जाना शरदीकी दलील है और पेशाबमें बू बिलकुल न होनी शर्द मिजाज परदलील करती है और बहुत बदबू सड़ जाने खलत्की दलील है और कारूर कंपका जियादह होना और देर रहना रिहाकी अलामत है। अगर पेशाब छीचड़ नजर आवें तो अलामत जाफ जिगर या जख्म मसानाकी है। अगर पीव मालूम हो तो फोड़ा फूट जानेकी निशानी है। औरतोंका पेशाब मर्दोंकी निस्बत सफेद और गलीज होता है और गर्भवाली स्त्रीका पेशाब साफ होता है और रतूबत मिजाजसे लड़कों और बूढ़ोंका गाढ़ा होता है।

देखनेका कायदा

एक प्यालेमें पेशाब कराकर उस पर एकबून्द तिलके तेलको डाले अगर वह बून्द पेशाबपर फैल जावे तो खून और सफराका फसाद है और तेल उसी तरह बाकी रहे तो बुराईकी निशानी है और जो तेलका बून्द पेशाबके नीचे बैठ जावे तो मौतकी निशानी है। अगर बून्द पेशाबपर चौड़ी हो जाय तो आराम हो जावे। अगर बून्दमें सूराख हो जावे तब भी मौतकी निशानी है अगर बून्द टुकड़े टुकड़े हो जावे तो बीमारी तूल पकड़ेगी और जो पेशाब साफ आवे तो सफराकी अलामत है और जो दर्द और कुछ सुर्खी भी हो तो एक बीमारीके साथ दूसरी बीमारीका होना जरूरी है लेकिन सफरा गलबा होना चाहिये और जो पेशाब बहुत और उसमें कुछ सफेदी हो तो बदहजमीकी दलील है और गोस्तके धुँएके रंगका पेशाब आवे तो बीमारी गुरदेकी हो और जो रोगनकन्दरकी मानिंद पेशाब हो और दाना भी दिखायी दे तो बीमारी जलंधरकी होनी चाहिये और जो पेशाब मिश्रीके हमरंग हो तो बीमारी जीके याने दमेकी होनी चाहिये और जो पेशाब हमरंग आतिश याने आगके हो तो सरसाम याने दिमागकी दलील है और पेशाब जर्द और साफ हो तो जिगरकी अलामत है।

बयान हजामत, पछने और सींगी लगानेका

लड़कोंके वास्ते बजाय फस्दके हजामत है और दो बरसकी उमरसे काममें मुनासिब नहीं है और आठ बरसके पीछे जायज नहीं है और बीमारी जिल्दके वास्ते जोंकका लगाना अच्छा क्योंकि जोंक जहरदार भी होती है मगर ऊपर काले खत होते हैं अगर जोंक छूट जानेके बाद खून जारी रहे तो छानकर उसपर बांध दे।

इन्सान की सेहतका बयान

आदमीको लाजिम है कि, हरवक्त अपनी सेहत और तदुरुस्ती का ख्याल रक्खे और नुकसान करनेवाली चीजको कभी काममें न लावे और न खावे और जो चीज मुफीद हो उसको जरूर काममें लावे और जहांतक गिजासे काम चले दवा न खावे।

मुसहिल याने जुलाब देनेकी तरकीब और फायदा

मुसहिल उसको कहते हैं कि, मावेकी रगों और इजासे निकाल लावे और मुसहिलसे पहले मुंजिस पिलाना मुनासिब है और एक दिनमें दो जुलाब देना मुनासिब नहीं है और पीनेके वक्त नाक बंद करले ताकि मुसहिलकी बूसे तबीयत नफरत न करे और के न हो जावे।

दोनों बाजू मजबूतीसे बांधे और उस वक्त खुशबू सुँघाना छोटी इलायची या पोदीना लौंगके साथ चबानेसे कै नहीं आती। मुसहिलसे पहले कोई चीज न खावे और सोना भी मुनासिब नहीं है। मुसहिलमें बहुत मीठा न डाले और पाखानेके वास्ते बहुत पानी गरम न हो और न बहुत सर्द। अगर मुसहिलके बाद खफकान या गशी मालूम हो तो जल्दी कै करावे और नाकिस मुसहिल बड़ा नुकसान करता है अगर बीमार कमजोर हो तो एक दो रोजके फासलेसे जुलाब दे और दिन उस सरदीसे परहेज करना लाजिम है। खुश्क मिजाजवाले लड़के और बूढ़ेको ताकतदार मुसहिल देना मुनासिब नहीं और मुसहिलपर गोलियां या सौंफका अर्क नीमगरम या गरमपानी जैसा मौका हो इस्हालकी मददके वास्ते है। मुसहिलसे फुरसत पानेके बाद गरम मिजाजवालेको ईसबगोलकी भूसी और शर्द मिजाजवालेको तुख्मरैहां या और कोई चीज पीना लाजिम है। बहुत लोगोंको यह आदत हो जाती है कि छठे महीने या बरस दिनके बाद मुसहिल लेते हैं मगर यह आदत खराब है लेकिन वक्त जरूरतके मुसहिल लेना जरूरी है, बल्कि उस मौकेपर दरगुजर न करें और जहांतक हो सके किसी कामिल हकीमकी रायसे जुलाब दे और गोलीका मुसहिल न दे। क्योंकि इसका फायदा बहुत कम दिन रहता है।

दवा मुञ्जिश सफरा

पर्शं, ओशां, बेखकासनी, नीलोफर, बेखखत्मी, तुक्मखुब, बाजी, बनफशा, गुलसेख, तुख्मकासनी, शातरा और गुलखेरू इनको देनेसे मवाद तीन दिन या पांच दिनमें पक जाता है ।

दवा मुञ्जिश बलगमके वास्ते

इन दवाइयोंको काममें लाना जरूरी है बेखबदियान, मुनक्का, मको, पर्शओशां, काज़ुबां, बादरञ्ज, बोया, मुलहठी, अजखर, तुख्मकरफस, बेखकबरि, अनीसू, शुकाई, अस्तकदूस और बलगम औसतके वास्ते ९ दिन और बहुत गलीज बलगमके लिये दो तीन दिन जियादा, और रकीक बलगमके वास्ते पांच दिन देना जरूरी है ।

दवामुञ्जिश सौदाके लिये

सौदाका मवाद १८ दिनमें और कभी कमती कभी जियादह दिनोंमें पकता है लेकिन इनको काममें लाना जरूरी है। बादरंजैबाया, काज़ुबां, सिपिस्ता, बेखकासनी, सौंफ, शातरा, उन्नाव, अस्तखदूस, पर्शओशां, मुलहठी, अञ्जीर, और बसफायज इनको काममें लावे ।

दवा मुसहिल सफराके वास्ते

पोस्त हलहेल, इमली, आलूबुखारा, गुलसुख, सकमनियां इनको भूनके काममें लावे ।

मुसहिल बलगम

इन्द्रायणके फलका गूदा, माहीजहरज, गारीकन, बहडलनील याने नीलोफरका बीज, अमलतास इन दवाइयोंको मुसहिल बलगमके वास्ते काममें लावे।

दवा मुसहिलसौदाके लिये

हल्लेह काबुली, हल्लेह सिया, आकाशबेल, अमलतास, सनामकी, गेरू, हबडलनील, गरीकून, हिजलाजवर्द इन दवाइयोंमेंसे जो मुनासिब जाने वह काममें लावे।

जोशखूनके वास्ते

बेश कासनी, ख्योरैन, उन्नाब, अज्ञावार, कबडेकी जड़, आबतर्बुज, गूलबनफूसा, इमली, काहू, जातरा, इसबगोल, खूबकलां, काजुबा ये दवा बीमारियोंके वास्ते बहुत मुफीद हैं बल्कि हामलह औरतों, लड़कों और बूढ़ोंको फायदेमन्द हैं और तप तथा वरमको मुफीद हैं और जिस कदर मुनासिब समझे उतना अमलतास और गुलेसुर्ख भी शामिल करें और अकर्मको या कासनी या गुलाब गरम पानीमें या अर्क कासनीमें भिगोवे और थोड़ा रोगन बादाम और गुलकंन्द या तरञ्जबीन या शीरखिश्त मिलावे।

बयान तप याने बुखार

तप एक गरमीका नाम है, पहले दिलमें पैदा होती है। फिर तमाम बदनमें फैल जाती है और इसकी किस्में बहुत हैं एक वह तप है कि, बसबब गरमी या शर्दी या खुशी या गम या किसी दूसरी बीमारीके बायस बुखार आवे। उसका इलाज इस तरकीबसे करना चाहिये कि जो तप शरदीसे हो तो इलाज गरम करे और जो तप कसरत गरमीसे हो तो दवा सर्द काममें लावे और जो गरमी बुखारकी रंज या गमसे हो तो सामान खुशीका मौजूद करना चाहिये और जो तप किसी दूसरी बीमारी के हो जानेसे आजावे तो इलाज पहले उस बीमारीका करे इसी तरहसे जैसा मौका देखे वैसा इलाजकरे और अक्सर यह ताप दो तीन दिन बाद बेइलाजके भी जाती रहती है

तप दमवी

यह तप बराबर रहती है, अगर सफरा शामिल होगा तो दो तीन दिन बीच देके जोर करती है, इसके वास्ते इलाज बेहतर यह है कि फस्द हस्तअंदान खुलवा दे और जितना खून नाकिसै मुनासिब जाने निकलवावे और इन दवाइयोंमेंसे जो मुनासिब समझे, पिलावे-आब, जौ, धनियां, आमला, सन्दल सफेद, उन्नाव, निलोफर आलूबुखारा, या इमली या अनार तुर्श लेकिन मीठा कमती डाले और बीमारको. मकान सर्दमें रखना और

लखलखा बनाकर सुँघावे और कपड़ा गुलाबमें भिगो के दिलपर रखना अच्छा है।

तपसफरावी

यह तप खफी रहती है मगर एकदिन बीच देके जोर करती है और तपसे पहले कांपना भी हो जाता है। अथ दवा २ तोले इमली रातको पानीमें भिगो दे सबेरे छान-कर थोड़ी शक्कर मिलाके दे लेकिन पहले १ तोले इसबगोल फँका दे फिर यह दवा पिलावे—जुशांदा उस तपसफराबीको जो तीसरे दिन आती है—गिलोय, धनियां खुश्क, संदल सुर्ख, मरज, कमलगट्टा हर एक पांच मासे कूट छानकर तीन पाव पानीमें जोश दे जब आधपाव पानी रहे तब साफ करके २ तोले शरबत नीलोफर मिला दे। दवा—तप सफरावीको मुफीद है कत्था सफेद ४ हिस्से कापूर एक हिस्सा कूट छानकर बेरकी बराबर गोली बनावे एक गोली रोज खावे। दवा नीलोफर १ तोला, खूबकला ६मासे दोनोंको डेढ़पाव पानीमें जोश दे जब आधपाव पानी रहे तब कपड़ेमें छानकर मिश्री मिलाकर पिलाव। दवा—धतूरेके बीज एक मिट्टीकी कुलियामें रखकर ऊपरसे मिट्टी लपेटके आगमें रख दे जब बीज जल जावे तब आगसे निका-लकर बारीक पीस ले। खुराक जवान आदमीके वास्ते

४ मासे, लड़केको २ रत्ती, तप लरजेको मुफीद है। दवा–अफीम १ मासा, काली मिर्च २ मासे, कोयला कीकर ६ मासे सबको पीस ले। खुराक १ मासा या कमती जियादा मिजाजके लायक लेकिन यह दवा तप आनेसे ४ घड़ी पहले खिलावे और निहारने न देवे कि कै हो जावेगी और फिर दवा खानेके पीछे खाना ६ घण्टे बाद देवे एक खुराकमें आराम होगा। दवा-अगर तपकेसाथमें खांसी हो तो यह दवा पिलावे। मुलहठी, गाजुबां बनफशा, खतमी, उन्नाव इनको रातके वक्त गरमपानीमें भिगो दे। सबेरे छानकर और मिश्री मिलाकर सात दिनतक पिलावे। दवा–फिटकरीको भूनकर बराबरकी मिश्री मिलाके आधे मासेसे दो मासे तक खिलावे अगर खांसी हो तो न दे।

हिन्दी दवा

एक दिनमें बुखार बलगमी और सफरावीको दूर करे। हरताल १ तोले, फिटकरी १ तोले, घीकुवारके रसमें १६ पहरतक नीमके सोटेमें पैसा लगाके रगड़े फिर गोली बनाकर छायामें सुखाकर हांडीमें ऊपर नीचे अरंडके पत्ते रखकर बीचमें गोली रख दे और हांडीके ऊपर मिट्टी और कपड़ा लपेटके १२ पहरतक आरने उपलोंकी आगमें रख दे। खुराक एक चावल पानीमें और खानेको दूध, चावलोंके सिवाय कुछ न दे।

शर्बत नीलोफर

तप गरम और दर्द सर गरमको मुफीद है।

शर्बत नींबू

तप सफरावीको मुफीद है।

खमीरहखस

तप सफरावी और प्यासको मुफीद है और दिल व जिगरको ताकत देता है।

शर्बत बजूरी

बुखार सफरावीको मुफीद है। तरकीब दूसरे भागमें लिखी है। तपवनगमी–यह तप हरदम मौजूद रहती है और शरदी व कांपना बहुत रहता है। इसकी दवा सौंफ ४ मासे, सौंफ की जड़, मुलहठी, काजुवां बेख फरफर दर एक ६ मासे, पर्श ओशां ६ मासे रातको गरमपानीमें भिगो दे फिर सबेरे छानकर २ तोले गुल-कंद और २ तोले शर्बत बजूरी मिलाकर पिलावे। अथवा सरदी लगनेसे पहले मकड़ीका एक सफेद जाला गुल-कंदमें मिलाकर तीन दिन तक निगले। अथवा-मदारकी कली जो खिली न हो गुलकंदमें लपेटकर तथा गोली बनाकर तीन दिनतक खावे। अथवा-धतूरा १ तोला, रेवंदचीनी ८ मासे, सोंठ ४ मासे, बबूलका गोंद २ मासे, कूट छानकर चनेकी बराबर गोली बनाकर दो गोली

सरदी लगनेसे पहले खिला दे। अथवा-करंजवेकी कोंपल ३, काली मिर्च पानीमें मिलाकर पिलावे।

आनन्दभैरव वटी

यह दवा तमाम बलगमी बीमारियों और तप बलगमी जुकाम और बदहजमी और हरतरहके दर्दके लिये बहुत मुफीद है। तरकीब-वत्सनाग, काली मिर्च, पीपल, सुहागा, शिंगरफ ये सब दवा बराबर तौलके नींबूके रसमें पांच घड़ी खरलमें पीसे फिर उरदके बराबर गोलियां बनावे। तथा एक गोली सबेरे और १ शामको शक्करके साथ और जिस आदमीका मिजाज बहुत सर्द हो उसको २ गोली एक वक्तमें देवे। दवा-पारा, गंधक, वच्छनाग सब एक २ मासे, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, हरताल ५ मासे, धतूरेके बीज ३ मासे, हरताल ८ मासे। तरकीव-पारे और गंधकको पीस ले और बाकी कूट छानकर फिर अदरखके रसमें ४ पहरतक खरल करे और दो रत्तीकी गोली बनावे तथा एक गोली पानीके साथ खावे। अथवा गंधक, पारा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, सुहागा और जमालगोटा सब बराबर तौलके दो पहरतक नींबूके रसमें पीसे और काली मिर्चके बराबर गोली बनावे तथा १ गोली मदारके जर्द पत्तेमें रखकर कोयलेकी आगमें जला करके सबेरेके वक्त ४ रत्ती शहद मिलाके चटावे।

रामबाण गोली

यह दवा भूकको बढ़ाके कब्जको दूर करती है और पित्त बलगमीको मुफीद है। तरकीब-पारा, गंधक, बच्छनाग, लौंग हर एक २॥ मासे जायफल १। मासे, जमालगोटा १॥ मासे कूट छानकर ३ दिन तक नींबूके रसमें घोटे फिर काली मिर्चके बराबर गोली बनावे तथा २ गोली गरम पानीके साथ तप आनेसे पहले खिलावे। पीपल, काली मिर्च, कलौंजी, चिरायता, गेरू सब एक एक मासे वंगके पत्ते २ मासे, कूट छानकर १ मासा रोज दे, यह दवा तप बलगमी सौदावीको मुफीद है। १ तोला संखिया १ बैंगनमें रखकर ऊपरसे कपड़ा मट्टी लपेटके थोड़े ऊपलोंमें फूंकदे बाद इसके पीसकर कड़ाहीमें आधासेर पानी डालकर गरम पानीसे पकावे, जब पानी जल जावे तब कड़ाहीसे निकालकर १ तोला गेरू साथ खरलमें पीस तथा ४ चावलसे १ रत्तीतक बतासेके अन्दर मरीज (रोगी) की ताकत देखकर दवा दे गिजा चावल और मूंगकी दाल नमक छोड़कर खानेको देना चाहिये।

तप सौदावी

यह तप चौथे दिन जोर करता है और कांपना भी कुछ देर तक रहता है। हिंदीमें इसको चौथिया कहते हैं और यह तप बरसों रहता है और देरमें जाता है। दवा-अजवाइन देशी, कलौंजी, सौंफ, बदरञ्जबोवा, शातरा, मुलहटी,

सिपिस्तां,आलूबुखारा,बनफ्शा,काजुबांजिसकदरमुना सिब हो रातको गरम पानीमें भिगो दे, सबेरे जोश देके छान कर थोड़ीशक्कर मिलाकर पिलावे। अथवा-हींग२ मासे,नमक २ मासे,दोनोंको १ सेर पानीमें जोश दे जब ६तोले पानी बाकी रहे तब उसको अग्निपरसे उतार ले, ठंढा करके तब रोगीको पिलावे। थोड़े दिनमें तप जाता रहेगा। अथवा-कलौंजी १ तोला ८मासे बारीकपीस-कर शहदमें मिलाकर ज्वर आनेके दिनसे इसे४दिनतक खावे। अथवा-२॥ पत्ता काले धतूराका और ढ़ाई पान और २॥ काली मिर्च सबको बारीक पीस करके काली मिर्चके बराबर गोली बनावे-तथा १ गोली सबेरे और एक सांझके वक्त गरम पानीके साथ खावे, दवा बहुत मुफीद है मगर पत्ते ताजे होने चाहिये। सफूफ-गिरी, समुद्रफल, काली मिर्च, तुलसीके पत्ते बराबर कूटके फिर साफीमें छानकर एक मासे या कमती जियादह जैसी ताकत हो तपसे एक घड़ी पहले गरम पानीके साथ खिलावे। दवा-टेसूके फूलके १॥ तोले, धनियां १॥ तोले, चनेकी भूसी ३ तोले कूट छानकर तीन हिस्से करे। एक हिस्सा पानीके साथ खावे। दवा-तीन मासे चूना गाढ़ाहोकर बर्तनमें जम जावे तब उसका पानी निकालकर बुखार आनेसे पहले एक या दो दफेमें पिलादे। गोली-विलास पापड़का लाल

छिलका दूर करके और सफेद गूदा लेके उसके बराबर करंजबेकी गिरी मिलाकर बारीक पीस ले फिर काली मिर्चकी बराबर गोलियां बनावे। एक गोली बासी पानीके साथ निगला दे। शर्बत-सब तरहकी तप और खांसीको मुफीद है। तरकीब-गिलोय, शातरा, खतमी, नीलोफर, तुख्म कासनी, बुरादा चन्दन सब एक २ तोले, मुलहठी पांच तोले, लसोढे ३० दाने, बिहिदाना १॥ तोला रातको गरम पानीमें भिगो दे। सबेरे जोश दे जब तीन हिस्से पानी जल जावे और तीन छटांक पानी बाकी रह जावे तब मलके साफीसे छान ले फिर आधसेर कंदमें किवाम करे। खुराक दो तोलेसे चार तोले तक-अगर ताकत कमती देखे तो दोनों वक्तमें दो दो तोले पिलाया करे।

तपेदिकका बयान और इलाज

यह तप दिलमें कयाम करती है और शुरूमें कम और कभी जियादह और कभी छिपी रहती है और अक्सर गम या फिक्रसे होती है, या तप गरम रहते २ तपेदिक हो जाता है और गरमीका जोर खानेके पीछे होता है। बीमारके वास्ते सामान खुशीका और मकान शर्दमें रखना अच्छा है और औरतका दूध या गधी या घोड़ीका मुफीद है। और बीमारके वास्ते यह अर्क भी मुफीद है। तरकीब-लम्बा घिया १ सेर, पेठा १ सेर,

कासनीके पत्ते आधसेर, काहूके पत्ते व खुरफेके पत्ते, आध २ सेर, अगर पत्ते न मिलें तो बीज तीन २ छटांक लेवे, हरी गिलोय, कचनारके अन्दरका छिलका, बेखकासनी सब बीस २० तोले, काजूबां, बनफसा, नीलोफर, झाऊके पत्ते, खस, आमला तुख्म बराबर हरएक तीन २ छटांक संदल सफेद, संदल सुर्ख हर एक दो दो छटांक सब दवासे पांचगुने पानीमें चार पहर तर करे फिर पानी बराबर बकरी या गायका दूध मिलाकर और थोड़ा पानी मिलाके अर्क खीच ले और ताकत देखकर पिलाया करे। अगर मुनासिब हो तो इसके साथमें कुर्सतवाशीर या कुर्सकाफूर दिया करे। कुर्सकाफूर-काफूर ३ मासे जाफरान ३ मासे मुलहठी ६ मासे बिहीदाना ६ मासे, खसखस ६ मासे, तुख्मखयारेन, तुख्म काहू, तुख्म तरबूज सब नौ-नौ मासे, कतीरा २ मासे, संदल सफेद ९ मासे इसको गुलाबमें घिसकर और बाकी दवाको पीस कूट छान करके फिर अर्क गुलाबमें गोलियां बनावे और ३ मासे रोज देवे। गोली काफूर-तपेदिकके वास्ते मुफीद हैं-२ मासे जहरमोहरा, २ मासे संदल गुलाबमें घिस ले, कतीरा, कत्था, खुरपा, बनफसा, खसखस तीन मासे, जाफरान डेढ़ मासे, बिहीदाना साढ़े चार मासे, गिरीकद्दू ४॥ मासे, कूटछानकर लुआबबिहीदाना और लुआब इसबगोलमें गोली बनावे और जैसी ताकत

हो वैसी दे दे। गरचजोकोब १ तोला, मुलहठी ६ मासे, खतमी खुब्बाजी, शातरा, हरएक ६ मासे पाव-सेर गरम पानीमें रातको भिगो दे। सबेरे छानके तुख्म खुरफा, तुख्म काहू बासी पानीमें पीसकर मिश्री मिला कर पिलावे। जुशांदा नींबके २१ पत्ते और २१ काली मिर्च दोनोंको कपड़ेमें बांधकर आधसेर पानीमें जोश दे जब ५ तोले पानी बाकी रहे तब छानकर दोनों वक्त पिलावे यह आठ दिन तक बराबर करे। बहुत जल्दी आराम होगा।

तपचेचक

हिंदीमें इसको विस्फोटक कहते हैं और इस बीमारीसे अक्सर बालकोंका नुकसान होता है हकीम लोग इस बीमारीसे नफरत करते हैं। इस वास्ते इलाज नहीं करते, यह बात एक किताबमें लिखी है। हमने आजदिनतक किसी बच्चेको यूनानी इलाजसे अच्छा होते नहीं देखा मगर डाक्टर लोग जो टीका बालकोंको लगाते हैं वह मुफीद है। चेचककी पहिचान यह है कि हाथोंमें बिसाँद आना, मुँह और आँखोंका सुर्ख हो जाना, आवाजका भारी हो जाना, मुँहके अंदर खुश्की पैदा हो जाना और काँपना पांवका वक्त लिटानेके बुखारका यकसां रहना, नाकका खुजाना, सोतेमें डरणा उछलना बेहोशीका होना और बकना। इस मुकामपर कुछ यूनानी इलाज लिखते हैं।

शुरूमें अर्कउन्नाबका पिलाना, दालमूसरकी खिलाना बिछौने पर खूब कलां डालना और जब दाने निकल आवें तब सुरमाँ गुलाबमें पीसकर आँखमें लगाना जिससे आँखोंको नुकसान न हो, धनियाँ और संदल सफेद पानीमें घिसके बार २ मुहमें टपकाना और जब दाने सूख जावें तब सफेद और लालचन्दन पानीमें पीसकर लगावे मगर चिकनाई बादमें न दे और दूध पीनेवाला बालक हो तो उसकीमाको परहेज करावे और बादमें तीन चार दिन तक सफेद जीरा और तुलसीदल पानीमें पीसकर बच्चेको पिलावे।

बोरानके दिनोंका बयान

तप अगर दो पहर पहले आवे तो वह दिन ख्याल करो और जो तप दो पहर बाद आवे तो दूसरा दिन शुमारमें होगा और बोरान बारीके दिन जुलाब देना बहुत बुरा है और दिन खराब बोरानके आठ हैं। दूसरां छठां, आंठवां, बारहवां, पन्द्रवां, सोलहवां अठारवां और उन्नीसवां, इन दिनोंमें खौफका मुकाम है। जिन दिनोंमें बोरान नहीं होता वे तेरह दिन हैं। बाईसवां, तेईसवा, पच्चीसवां, छब्बीसवां, अट्ठाईसवां, उनतीसवां, तीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां, अड़तीसवां, उनचालीसवां, और इन पांच दिनोंमें बोरान कभी कभी होता है और कभी नहीं होता तीसरां, पांचवां, नवां, तेर-

हँवां, सत्रहँवां, इन बारह दिनोंमें बोरान कुछ खौफका मुकाम नहीं है । चौथा, सातँवां, ग्यारहँवां, चौदँहवां, बीसँवां इक्कीसँवां, चौबीसँवां सत्ताईसँवां, इकतीसँवां, बत्तीसँवां, सैंतीसँवां, चालीसँवां, चालिस दिनके बाद हकीम सुकरातके नजदीक बोरान नहीं होता है और बोरान कई तौरसे होता है कभी नकसीर फूट जाती है और कभी दस्त आते हैं और कभी कै (वमन) होती है और कभी बहुत पेशाब होता है और कभी बदनसे पसीना आता है। बोरान बीमारीके साथ तबीयतकी लड़ाईको कहते हैं। अगर तबीयत गालिब हो तो बोरान नेक है और एक लड़ाईमें पूरी गालिब न आवे बल्कि दूसरी लड़ाईकी मोहताज रहे तो उसको बोरान नाकिस कहते हैं, यह बीमारीके बढ़ जानेकी दलील है अगर बीमारी गालिब आवे तो बुरा कहते हैं अगर बिल्कुल गालिब न आवे बल्कि दूसरी लड़ाईकी मोहताज हो तो उसको बहुत बुरा कहते है ।

दूध पीने वाले लड़कोंका इलाज

दूध पीनेवाला बालक अपनी जबानसे अपनी बीमारीकी तकलीफ कुछ नहीं कह सकता इस वास्ते हकीम लोग इलाजकी तरफ गौर नहीं करते बल्कि दाइयोंके हवाले कर देते हैं कि इनका इलाज उनसे खूब होगा, मगर यह बात ख्यालमें नहीं आती कि दाईको हकीमसे

क्या निसबत ? जब तक बच्चा दूध पीता है दवाई इस वास्ते नहीं बताते बल्कि उसकी माको या जो कोई उसको दूध पिलाती हो दवा खिलायी पिलायी जावे कि दवाका दूध पीनेसे लड़केको दवाईका असर पहुँचेगा बल्कि लड़केको दवा पिलावे तब भी उसकी माको दवा दे और गरम शर्द बादी चीजका हरदम ख्याल रखना चाहिये, उसका नुकसान बालकको उसी दम होगा। दवा-अगर लड़का न सोवे या बहुत रोवे तो रोगन काहू या खसखस कनपटीपर लगावे या काहू, खस-खस, सौंफ पीसके शक्कर मिलाकर पिलावे। दवा-अगर सोतेमें रो उठे तो बदहजमी है, शहद चटावे या सौंफ और पोदीना जोशके करके पिलावे। दवा-अगर दस्त पतली आवे तो जीरा सफेद और गुलाबके फूल पानीमें पीसके पेटपर लगावे या माजू या पोस्ता, अनार लगावे या पोदीना और दाने इलायची और मिश्री पीसके माके दूधमें घोटके चटावे। दवा-अगर कब्ज हो तो रोगन गुल गरम करके पेटपर लगावे। चूहेकी मेंगनी और शहद मिलाके पेटपर चिकनाई लगा-कर लेप करे। दवा-यदि पेटपर हाथ मारे तो जानो कि इसके पेटमें दर्द है, पुरानी रुई गरम करके सेंके या नमक पीसके गरम करके पिलावे दवा-अगर हिचकी आवे और आपसे बंद न हो तो

सौंफ, शक्कर पीसके चटावे या शहद चटावे । दवा-जो आँव लोहू आता तो चार तुख्म और लुआब रेशा खत्मीके साथ पिलावे। दवा-अगर चुन्ने पैदा हो जावें तो हल्दी और बायडिंग पानीमें पीसके शक्कर मिलाकर पिलावे, या एलुवा पानीमें घोलकर पाखानेकी जगह लगावे या तंबाकू करोंदेका पत्ता पानीमें पीसकर लगावे । दवा-अगर पेटमें केचुवे हो जावें तो पोस्त बेखअनार जोश करके पिलावे। दवा-अगर बालकको बीमारी कांच निकलनेकी हो तो पोस्त अनार शीरीं और हुब्बुल्लास या जुत्फबलूतया गुलनार शीरीं और माजू जोश करके उस पानीसे आबदस्त करावे । दवा लड़कोंको मिरगीकी बीमारी होने पर पोदीना और काला जीरा पानीमें पीसकर पिलावे या ऊदउलसलीब घिसकर पिलावे या तिर्याकअर्बा खिलावे और खून गोशखरका हलकमें टपकावे,रोगीको उसी वक्त आराम हो जायगा और जदबार माके दूधमें घिसके पिलाना और मोहरह मुर्जानसे दोनों अबरूके याने भौंहके बीचमें दाग देना मुफीद है । दवा-अगर दिमागमें बालकके वरम हो जावे तो पहचान यह कि मुँह सुर्ख या जर्द होगा और पेशानी दुखेगी इस बायससे लड़का पेशानी मलेगा, ताजी मकोंके पत्तोंके पानीमें गुलत्ता पीसके रोगन गुलमें मिलाके शिरपर लगावे या मुर्गेके

अंडेकी जरदी रोगन गुलमें मिलाके चांदपर लगावे। दवा-अगर छींक बहुत आवे तो पुरानी रुई या अरहर भूनके शिरको सेंक करे। दवा-अगर जुकाम हो जावे तो एक कपड़ा गरम पानीमें तर करके दिमागपर रखदे और थोड़ा शहद चटाकर चिड़ियाका पर चिकना करके हलकमें डाले उसी वक्त कै आवेगी। दवा-अगर खांसी हो तो खत्मी, मुलहटी, उन्नाब और शक्कर जोश करके पिलावे, दवा-बीमारी पसलीकी हो तो पहले दस्त आनेकी दवा दे गावजुबां, सिपिस्तां, बनफशा, मुलहटी, खतमी और गुलकन्द, जोश करके पिलावे, पियाजके रसमें एलवा घोलकर पहलूपर लगावे या मुश्क शहदमें मिलकार चटावे। दवा-अगर रोवे और कान मले तो कानमें दर्द है तो पोदीनेका अर्क डाले या हरी मकोला अर्क डाले। दवा-अगर कानसे मवाज जावे तो फिटकरी, माजू पीसके शहदसे मिलाके बत्ती बनाकर उसपर लगाके कानमें रख दे या जाफरान शहदमें घिसके इसी तौरसे कानके अन्दर रख दे। दवा-अगर आंखकी पलके फूली रहें तो गरम करके आंखमें लगावे।

अनाजका बयान और गेहूँका फायदा नुकसान

आदमीके वास्ते गेहूँ सबसे अव्वल चीज है और गिजायत जियादह रखता है और गरमी शरदीमें मोत-

दिल है। चना-पहले तो गरम तर है मकव्वी बाह है और खून पैदा करता है। चावल-गिजामतमें अच्छा है जिस कदर खुशबूदार और बारीक और पकानेमें दराज हो बेहतर है, गरमी और शरदीमें मोतदिल मगर दूसरे दरजेपर शर्द और गरम मिजाजमें गरमी और शर्द मिजाजमें शर्दी पैदा करता है और जिस कदर सुर्ख और मोटा हो खराब है, रिहाको नुकसानमन्द है और काबिज है जिसको बवासीर खूनी या बादी हो उसको बड़ा नुकसान करता है। मूँग-शर्द और बहुत नफारा नहीं करता इस वास्ते हकीम लोग अक्सर बीमारीमें तजबीज करते हैं। जौ-शर्द खुश्क है लेकिन काबिज है प्यास कम लगता है। अरहर-बहुत कहते हैं कि शर्द वो खुश्क और कोई गरम खुश्क कहते हैं और बीमारीको मुफीद है। गरम मिजाजको नुकसान करता है। बाजरा तीसरे दर्जेमें शर्द व खुश्क है और बाह पैदा करता है और रतूबतको दफे करता है उड़द गरम और तर है मुकव्वी वाह है। मसूर-गरम और खुश्क है मगर अफारा करती है। मकी-बादी वदरजे कमाल है। मटर अफारा बहुत करती है।

खमीरी रोटीका फायदा

खमीरी रोटी जल्द हजम है लेकिन थोडासा अफारा रखती है और मैदेकी रोटी बहुत सकीत है और

आटेकी रोटी बहुत मुफीद है और गरम रोटी रतूबत पेटको खुश्क करती है और शर्द रोटी कुछ नुकसान मंद है मगर न बहुत शर्द हो न गरम मुफीद है, बाजरे और ज्वारकी रोटी शर्द व खुश्क और काबिज है और जवकी रोटी बाजरेसे जल्द हजम है लेकिन शर्द व खुश्क है और अफारा करती है।

पानीका बयान

सबसे अच्छा पानी दरियाका है, उसके बाद कुएँका, खाना खानेके पीछे पानी पीना अच्छा नहीं मगर जो लोग गरम मिजाज हों उनको मुनासिब है कि खाना खानेके बीचमें कुछ पानी पी लेवें लेकिन दो तीन घडी बाद पानी पीना बहुत अच्छा है और भूखके वक्त पानी कम पिये या पानीकी जगह थोड़ा शर्बत या कुछ खाना खाके पिये तो नुकसान नहीं करता और खाली मुख पानी पीनेसे कमजोरी और बीमारी पैदा होती है और खरबूजा या तरबूजा ऐसी चीजोंपर भी नुकसान करता है और हरवक्त बहुत पानी बुरा है, तांबे और सीसेके बर्तनमें पानी खराब है, कलईदार बर्तनमें नुकसान नहीं करता अगर सफरमें जावे और पियाज खाता हो या भंग पीता होय या ये चीजें काममें लावे तो उस मुकाम का पानी उस आदमीको कभी नुकसान न करे।

सोने और जागने का बयान

चित्त सोना खराब है बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं दिमागका भी नुकसान होता है अगर आदत भी हो तो छोड़ दे। पट सोना इस तरहसे, शिर तकिये पर इस तरहसे रक्खे कि मुँह और दोनों आंखे दाहिने या बांये तरफ हों तो फायदा करता है और खाना भी बहुत जल्द हजम होता है और करवट सोना नुकसान नहीं करता और निहार सोना नुकसान करता है और भूखमें सोना वदनको दुबला करता है और धूपमें सोना खराब है और चांदनीमें सोना मुफीद है और बहुत सोना रतूबतको पैदा करता है आर बहुत जागना गरमी और खुश्कीकी निशानी है, बस लाजिम है कि न बहुत जागे और न बहुत सोवे जहांतक हो सके वक्तसे काम करे।

ताकत और उमरका बयान

आदमीकी उमरके वक्त चार हैं—एक बढ़नेका वह तीसवर्ष तक है इस वक्तमें जो कुछ खावे पीवेगा वह उसके वास्ते आखीर उमरतक काम आवेगा बल्कि उस आदमीकी ताकत और बीनाई कमती न होगी। दूसरा वक्त चालीस वर्ष जवानीका है। इस जमानेमें हरारत असली कायम रहती है। तासरा जमाना साठ वर्ष तकका है जिसको अधेड कहते हैं। इस समय आदमीके मिजाजपर शरदी जोर करती है।

चौथा बुढ़ापा, यह साठ वर्षसे आखीर उमरतक है इस वक्तमें शरदी रतूबत खारखीके साथ मिजाजपर गालिब रहती है और इस अवस्थामें पाचनशक्ति भी मन्द पड़ जाती है। इस अवस्थामें मनुष्य सांसारिक विलासितासे वंचित हो जाता है।

जहरका इलाज

जिस आदमीने जहर खालिया हो उसको गरम पानीसे कय कराना चाहिये, कई दफे घी और दूध पिलाना चाहिये और मुर्गेकी बीट पानीमें घोलके पिलावे,उससे उसी दम कै होगी। जंगल और दरियामें काटनेवाले जानवर बहुत होते हैं। उनके काटनेसे मिजाजमें आरजे जहरके होते हैं। इसका कायदा यह है कि, जहरको सुखावे जबतक दूसरी बीमारी न जावे जख्मको भरने न दे।

दवा-सांपके काटनेके लिये मुफीद है। तीन तोले गायके घीमें ३ मासे लाहोरी नमक मिलाकर पिलाना चाहिये। दवा-थोड़ा कुचला और काली मिर्च पीस कर पिलानेसे सांपके जहरको मुफीद है दवा-यह सब तरहके जहरको मुफीद है। दरियाई नारियल पानीमें पीसके पिलाना चाहिये। अथवा-बकरीके मेंगनी जलाकर खिलावे और लेप करनेसे भी फायदा होता है। अथवा-बिनोलेकी गिरी कूटके गायके दूधमें

जोश देके पिलावे। अथवा कापूर १ मासा, घी १ तोला मिलाकर पिलावे। दवा-जहरके कै करानेके वास्ते मुफीद है। कमलगट्टा १ मासा, तूतिया २ रत्ती गरम पानीमें पीसकर पिलानेसे जहर कै द्वारा निकाला जाता है। दवा-अफीमके नशेको मुफीद है। २ मासे हीरा हींग दो तीन दफेमें खिलावे। दवा-गायका घी और दूध अफीमके वास्ते मुफीद है। दवा-धतूरेके जहरके वास्ते एक बैगनके टुकड़े २ करके पानीमें खूब मलके पिलावे अगर बैगन न मिले तो इसके पत्ते या जड़ पानीमें पीसके पिलावे। दवा सांपके काटनेको मुफीद है-तीन मदारकी कोंपल गुणमें लपेटके खिलावे और बादमें घी पिलावे या कली, मदार और ७ काली मिर्च और एक मासे इन्द्रायन पीसके पिलावे मुफीद है। दवा-मदारका दूध जिस जगह सांपने काटा हो टपकावे जब तक सूखे नहीं मौकूफ न करे। दवा-मदारे की जड़ पीसके सांपके काटे हुएको पिलावे और मदारकी रुई भी पिलाते हैं। दवा काली मिर्च ३ मासे, जमाल-गोटेकी गिरी ३ मासे, कागजी नींबूके रसमें काली मिर्च के बराबर गोली बनावे और २ या तीन गोली सांपके काटेको खिलावे और पानीमें पीसके आंखमें लगावे, दवा-सांपके जहरको मुफीद है कृसोदीके बीच बारीक पीसके आंखमें लगावे। दवा-एक खटमल निगल जावे।

दवा-सांपके जहरको मुफीद है। तेलिया सुहागा ४ मासे भूनकर घीमें मिलाके पिवे। दवा चूहेका पेट फाड़कर उस जगह बांधे जहां सांपने काटा हो सब जगहको चूस आवेगा। दवा काटोल कूट छानकर पानीमें मिलाके पिलावे कै आवेगी। दवा-समुद्रफल पीसके दोनों आंख में लगावे। दवा सांपके जहरको मुफीद है। ६ मासे फिटकरी पानीमें पीसके पिलावे। दवा बिच्छूके जहर को मुफीद है। ३ मासे लहस-नका रस और २ मासे शहद पीलावे दो दो घड़ी बाद और जमालगोटा पानीमें पीसके आंखोंमें लगावे और जहां काटा हो उस मुकाम पर मले। दवा-नौसादर, सुहागा, चूनेकी कलई हथेली पर मलकर सूंघे और कसोंदीका फल भूनके खावे और बीज कसोंदीके पानीमें पीसके लेप करे। दवा-मोरका पर चिलममें रखके तंबाकूकी तरहसे पिलावे। दवा-चूहेकी मेंगनाका लेप करे। दवा-मूली और नमक मिलाके लगावे। दवा-जहर धतूरके वास्ते ६ मासे बिनोलेकी गिरी पानीमें मिलाकर पिलावे या नमक पानीमें घोलके पिलावे। दवा-सिन्दूरके नुकशानको मुफीद है-सात दिन तक अदरख नमकके साथ बल्कि रोटीके साथ खिलावे। दवा-पारे और सिंगरफके नुकशानके वास्ते मुफीद है-ज्वासा पानीमें पीसछानके पिलावे। दवा-भिलावेके नुकशानको मुफीद है-भिलावां खाने-

से बदनमें खुजली हो या वरम हो तो इमलीके पत्तोंको पीस छानके पिलावे या इनका बीज पीसकर खिलावे या चिरोंजी और तिल भैंसके दूधमें पीसके खावे, अखरोटकी गिरी खिलावे अगर भिलावेके धुएँसे वदनपर किसी जगह वरम हो गया हो तो आंबाहल्दी और सांठी चावल और दूध बासी पानीमें पीसके उस मुकामपर मले या काले तिल सिरके और मस्केमें मिलाके लगावे। दवा-अगर किसी आदमीको शेरका बाल खिला दिया गया हो तो उसकी यह पहचान है कि बैठते वक्त पेटमें दर्द हो और अरंडके पत्तेपर पेशाब करावे तो टुकड़े २ हो जावे। इलाज-कसौंदीका रस तीन दिनतक पिलावे या तीन चार झींगे रोज निगल जावे। दवा-सांपके जहरके वास्ते, लेकिन सांप बहुत तरहके होते हैं और उनकी जातें बहुत हैं मगर काला सांप जहरमें और सांपोंसे ताकतदार बल्कि फुरसत नहीं देता है। मुनासिब है कि जिस जगह सांप काटे अगर वह मुकाम काबिल काटनेके हो जैसे ऊँगली उसी वक्त काट डाले और जो काटनेके लायक न हो उस मुकामको आगसे जलादे और आवाज चक्कीकी उसके कानमें न आने दे। दवा-अगर काले सांपने काटा हो तो सातजमालगोटा या और किस्मके सांपने काटा हो तो दो या तीन जमालगोटा कूटकर खिलावे और आंखोंमें भी आंजे बाद जमालगोटा खानेके

सिंगीसे इस मुकामको खूब चूसे कि जिसमें जहर तमाम बदनमें अपना असर न करे और लहसन, प्याज, राईका खाना मुफीद है। एक किताबमें लिखा है कि सांपका काटा बेहोश हो जावे लेकिन मरा न हो तो कुचला पानीमें पीसके उसकी हलकमें डाले और पीस के वदनपर मले उसी वक्त होशमें होगा। दवा-बिच्छूके जहरको मुफीद है, हरताल, हींग, सांठी चावल पानीमें पीसके लगावे। दवा-बंगके बीज कूटकर मोममें मिलाकर खावे या नींबूका रस लगावे या ६ मासे इन्द्रायनका फल ताजा खावे, बहुत मुफीद है। दवा-हींग, हरताल, तरंजके रसमें पीसकर गोली बनावे और जिस मुकामपर बिच्छूने काटा हो लेप करे। दवा-मोम जलाकर बिच्छू के जख्मको धूनी दे। दवा-भिड़के जहरको मुफीद है। इसबगोल सिर्केमें डालके लुआब निकालके पिलावे, या खतमी खुब्बाजीके लुआब निकालकर मले या खावे या पानी से धोवे।

मोतियाबिंदका इलाज

इस बीमारीके पहले आंखोंमें आगे मच्छरसे उड़ते मालूम होते हैं और जब पानी नजलेका उतर आता है तब पुतलीका रंग बदल जाता है और बीनाई जाती रहती है। शुरू नजलेके वास्ते कनपटी पर गुल और जोंक लगाना मुफीद है और जब पानी बिलकुल उतर

आवे तब दिमागका तनकिया करे । माजूम--नजलके वास्ते हींग, वच, सोंठ सौंफ बराबर शहदमें मिलाके ४ मासे रोज खावे । दवा--कापूर भीमसेनी औरतके दूधमें, कि जिसकी गोदमें लड़का हो पीसके पिलावे। दवा-नौसादरको सुरमेकी तरह लगावे । दवा-कब्बेका पित्ता शहदमें मिलाके लगावे, मुफीद है ।

आँखोंके दर्द और वरमकी इलाज

जो सुरखीके साथ हो तो उसके वास्ते जोंक लगाना और फस्द सरेरू खुलवाना मुफीद है, गोली-फिटकरी २ तोले, हलदी २ मासे, अफीम १ मासा, पहले फिटकरीको भूनकर फिर ७ तोले नींबूके रसमें लोहेकी कड़ाहीमें कम आगपर मिलावे जब गाढ़ी हो जावे तब गोली बनावे और आंखके ऊपर पानीमें घिसके लेप करे और अन्दर भी लगावे ।

आँख और पलकोंकी खुजलीका इलाज

पहले फस्दसरेरू खुलवावे फिर दवा करे, दवा-माजू, छोटी हड़ पीसके लेप करे । दवा-शिरके बालोंको जलाकर लगावे । दवा-अण्डेका छिलका जलाकर और पीसके लगावे ।

आँखकी कमजोरीका इलाज

जो दिमागसे यह बीमारी होती है । बालोंमें कंघा करना या पानीमें आंख खोलना और मूंदना या मुंडी

का शर्बत पीना या सौंफका इतर आंखमें लगाना या सोते वक्त ६ मासे सौंफ और खांड खाना मुफीद है। दवा-सीसेको आगमें गलाकर पहले पानीमें फिर मेहके पानीमें फिर भांगरेके रसमें फिर घीमें फिर शहदमें बुझाकर इसके बाद सलाई बनाकर आंखोंमें फेरे। दवा-कपड़ा तीन बार सिरसके पत्तोंके अर्कमें भिगोकर सुखावे फिर बत्ती बनाके चँबेलीके तेलसे काजल पारे और आंखमें आंजे, बहुत मुफीद है। पियाजका पानी आंजना मुफीद है। सुरमा--काली मिर्च १६, पीपल ६०, चँबेलीकी कली ५०, तिलके फूल ८० सबको खरलमें पीसकर सुरमेकी तौरसे आंखमें लगावे।

फूलीको काटनेवाली गोली

बड़ी हड़; बीलास पापड़ा, नमकसंठ लालचन्दन सबको बराबर कूटछानकरके गोली बनावे, फिर पानीमें घिसकर लगावे। गोली सफेदीके वास्ते-साबुन५मासे, तूतियाखाम ३ मासे, राल २ मासे, पहले कछलीमें आगपर साबुनको लगावे फिर रालको फिर तूतिया पीसकर मिला दे। खसखसके बराबर ये दवा पानीमें पीसकर आंखमें आंजे, फिर तीसरे दिन बारहसिंगेका सींग दूधमें घिसकर लगावे, फूलीके वास्ते मुफीद है- और फूलाके वास्ते मिश्री दूधमें घिसके लगाना फायदेमन्द है, पियाज और कबूतरकी बीट घिसके लगावे.

कटाईकी लकड़ी नींबूके रसमें घिसकर लगावे, कड़वी तोरई मीठे तेलमें घिसके लगावे।

ढलकेका इलाज

हरवक्त आंखोंमें पानी गिरनेको ढलका कहते हैं। बड़ी हड़, माजू, बालछड़, कालीहड़, पानीमें पीसके गोलियां बनाकर अञ्जन और लेप करना चाहिये। सुरमा—दो मासे बड़ी हड़ जलाकर एक मासा माजू और लाहोरी नमक मिलाकर बारीक पीसकर आंखोंमें सलाईसे लगावे रगड़ा-रूईकी तीन बत्ती बनाकर सात तोले धतूरेके रसमें भिगोकर सुखावे, फिर मदारके दूधमें भिगोकर छायामें सुखावे, फिर अरण्डीके तेलमें एक चिराग भरकर वही बत्ती जलाकर काजल उतारे, पुनः उस काजलमें घी और तूतिया और फिटकरी भूनकर मिला दे तब आंखमें लगावे। इलाज परवाल इसका इलाज यह है कि बालोंको अन्दरसे उखाड़कर खटमलका खून लगावे, बाल उखाड़ते हुए बालोंपर नौसादर बकरीके पित्तमें मिलाकर तिला करे।

खांसीका इलाज

खांसीकी दो किस्में हैं एक तर जिसके साथ बलगम आता है और सीनेपर खरखराहट होती है, दूसरी खुश्क जिसमें कोई चीज नहीं निकलती है। जो बल-गममें हो तो उसके वास्ते गोली मुफीद है। गोली—

काकड़ासिंगी कूटछानकर काली मिर्चके बराबर गोली बनाकर सोनेके वक्त मुंहमें डाले। अथवा-हल्दी १ तोला, सज्जी सफेद ३ मासे पानीसे पीसकर बेरके समान गोली बनाके मुंहमें सोते वक्त डाले। गोली-लड़कोंके वास्ते मुफीद है। नौसादर आधा भूनकर और आधा कच्चा तथा उसके बराबर काली मिर्च मिलाकर घी कुवारके रसमें पीसकर फिर चनेके बराबर गोली बनाकर मांके दूधमें घिसकर पिलावे। गोली--मुलहठी, काली मिर्च और मिश्री कूट छानकर चनेके बराबर गोलियां बनाकर रातको दो चार गोली सोतेवक्त खावे। दवा--लौंग, कालीमिर्च, नमक जलाके चटावे। दवा--कतीरा, गोंद, मुलहठी, मिश्री बिहीदानोंके लुआबमें गोली बनावे, सोते वक्त दो चार गोली मुँहमें रखले।

कानकी बीमारीका इलाज

हकीम लोगोंने लिखा है कि सोते वक्त कानमें रुई रखकर सोनेसे कोई बीमारी नहीं होती, नीमके पत्तेका जोश करके देनेसे भी लाभ होता है। तीन हिस्से मूलीके पत्तोंका अर्क व एक हिस्सा तिलके तेलको जोश दे, जब पानी जल जावे तब तेल कानमें डालनेसे शरदीसे होनेवाली बीमारीको फायदा करता है। इस्पंद, मालकांगनी, अजवायन सब बराबर लेकर और मीठे तेलमें

जलाकर छान ले फिर कानमें डाले । लहसुनका अर्क गरम करके डाले।

ऊँचा सुननेका इलाज

ऊँटका पेशाब गरम करके कानमें डाले। इन्द्रायनका फल तेलमें जोश देके डाले । दो काली मिर्च पानीमें पीसके डाले। काली गायका पेशाब औटाके टपकावे।

कानके जख्मका इलाज

कानका बरम बहुत खौफ रखता है । फस्दसरेरु करावे, लहसुनकी पत्तियां कूटके कानमें टपकावे ।

कानके कीड़ोंका इलाज

एलवा पानीमें पीसकर कानमें डाले।

नाककी बीमारीका इलाज

नाकमें दो रास्ते हैं एक दिमागकी तरफ दूसरा, मुँहकी तरफ जिसको नकसीर कहते हैं। अगर बुखार या सरसामसे हो तो बन्द न करे, सरसों और मुलतानी पानीमें पीसकर नाकपर लेप करे । ईसबगोलको सिरकेमें भिगोकर माथेपर लेप करे। गायका गोबर जलाके नाकमें फूँके। रसोतको जलाके नाकमें फूँके। बेरीके पत्ते पीसकर माथेपर लेप करे। घोंघा गायका सींग या बकरीका सींग जलाकर नाकमें फूँके, बहुत फायदा करेगा ।

जुकाम और नजलेका इलाज

दिमागसे फ़ुजलात याने रतूबत नाककी राह निकले उसको जुकाम कहते हैं और जो हलकके रास्ते गिरे उसका नाम नजला है। अगर इस मवादमें खराश और जरदी या आंखमें सोजिश हो तो गरमीसे होगा, नहीं तो शरदीसे है, इस बीमारीमें औंधे सोना और दूध दही और स्त्रीकी संगतसे बहुत परहेज करना चाहिये। काजूम--अजवाइन ५ मासे, अफीम ५ मासे, काली मिर्च १० मासे और अकरकरा, बालछड़, नारकचूर, गुग्गल, तज, कायफल, सोंठ ये सब दवा एक एकमासा मरमरकी आधा मासा सबको बराबर तीन गुणे शहदमें किवाम करके अन्दाजसे खावे। बफारा--झाऊके पत्ते जोश देकर बफारा ले। शक्कर और चन्दरसका धुआं जुकाम गरमको मुफीद है (गोली जदबार) जदबार खताई, कतीरा, गोंद, मुलहठी; कालीमिर्च, दाने इलायची सब दवा दो दो मासे और नरकचूर नागरमोथा, बालछड़; तेजपात, कबाब, पीपल, खोलन जान, सोंठ इस्पन्द ये सब दो दो मासे और मरमकी, अकरकरा चार २ रत्ती पीस छानकर चने बराबर गोलियां बनावे खुराक २ गोली रोज, नजले और जुकामको मुफीद है और भूख जियादा करे। दमा नजलेको सीनेपर गिरने नहीं देता है। दवा--७कालीमिर्च पानीसे

निगला करे, मुफीद है दवा--समुद्रफलकी गिरी औरतके दूधमें पीसके नास करे। तिला--लौंग पीसके तालूपर लगावे। जुशांदा--जुकामके वास्ते। मुलहठी, गावजुवां, बनफूसा, खतमी, उन्नाव मुनक्का रातको गरम पानीमें भिगोके सबेरे मल, छानके शर्बत या मिश्री मिलाके ३ दिन पिलावे जुखाम और खांसीको मुफीद है।

दांतोंके दर्दका इलाज

मुनासिब है कि कड़ी चीज न खाके और बाद खाना खानेके दातोंको साफ करता रहे और जो दर्द दातोंके हिलनेमें हो और दांत कम हिलते हों और बुढ़ापा न हो तो इलाज करे। इलाज--नर कचूर मुँहमें रखना मुफीद है। अगर मसूढ़ोंपर वरम हो तो एक बार शर्द पानीसे और एक दफे गरम पानीसे कुल्ली करे और ख्याल करे कि किस पानीमें फायदा मालूम होता है। अगर दर्द शर्द है तो गरम पानीसे फायदा मालूम होगा। हल्दी पीसके मलना मुफीद है। कालीमिर्च तुलसीकी पत्ती पीसके गोली बनाके दातोंके नीचे दबाये। अञ्जीरके दूधमें रुई भिगोके दबाये। इसबगोल सिरकेमें भिगोके दांतोंमें रखना-मुफीद है। सिरके और शहदमें सोंठ पीसके दातोंके सुराख भर दे मुलीम घिसके दांतोंपर रख दे।

आसानीसे लड़कोंके दांत निकलनेकी विधि

अंडेकी जरदी या नलीका गूदा मले या मछलीके दांत व सीप गलेमें डाले ।

जबानकी बीमारीका इलाज

रतूबतसे जबान भारी हो जाती है। नौसादर,राई, अकरकरा,सोंठ पीसके मले या कायफल भिगोके उसके पानीसे कुल्ली करे । मकोयके पत्तोंके पानीमें गुलाब के फूल और मसूर पीसके मले। अगर जबानपर सोजिश हो तो दही पानीमें मिलाके कुल्ली करे ।

मुँह आनेका इलाज

खूनके गलेबसे है तो रंग सुर्ख होगा और सफरासे जर्द और बलगमसे सफेद और सोदावीसे काला रंग मुँहके दोनोंका होगा । मगर यह रंग बहुत खराब है और बच्चोंके वास्ते मौतकी निशानी है । बकायनकी छाल और कत्था पीसके जबानपर छिड़के । अथवा कत्था और इलायची पीसकर फिटकरी भूनकर कागज जलाकर मुंहमें छिड़के। अथवा--कत्था और मसूर जलाकर छिड़के। अथवा-सुहागा भूनकर शहदमें मिलाकर मलनेसे बहुत फायदा होता है । तथा--जौ जलाकर और कत्था मिलाकर छिड़कनेसे फायदा होता है । अथवा--रसोत नींबूके रसमें घिसके मलनेसे भी फायदा होता है ।

मुँहसे लार बहनेका इलाज

राईको पीसकर तथा शक्कर मिलाकर फांके। जवारिश मस्तगी मुफीद है। खांड सवा पाव, मस्तगी १ तोला।

होठ फटजानेका इलाज

खुश्कीका सबब है। दवा-होंठ और जबान फट जानेको कतीरा पीसकर लुआब और बिहीदाना मिलाकर मले।

शिरके दर्दका इलाज

अगर शरदी है तो पीपल पानीमें पीसकर लगावे। दवा-बिनोलेकी गिरी पानीमें पीसकर माथेपर लेप करे। दवा-नरकचूर पानीमें पीसकर तलवोंपर मेंहदीके तौरसे लगावे। दवा जो दर्द गरमीसे हो तो इलाज करे। मेंहदीके फूल पानीमें पीसकर तिला करे। दवा-खुरफेकी पत्ती सिरके या पानीमें पीसकर तिला करे। दवा-खत्मी-धनियां, गेरू पानीमें पीसकर लेप करे। दवा-जौका आटा पानीमें घोलके लगावे।

सरसामका इलाज

सरसाम दिमागका वरम है और तप और बेहूदा बकना लाजिम है इसका इलाज किसी हकीम काबलकी तदबीरसे करना चाहिये। मगर सींगी खिचना, पाशोय

करना या औरतका दूध शिरपर मलना मुफीद है और रोगन कद्दू शिरपर मलना या तर चीजें शीशेके बर्तनमें भरकर सुंघाना और गरमके वास्ते काहूका पानी सिरका मिलाकर सुंघावे। इस बीमारीके इलाजमें जल्दी करना बहुत अच्छी बात है बल्कि दो तीन हकीमोंकी रायसे इलाज करे और मरीजको जहांतक हो सके बहुत बकने न दे और उसका ख्याल और तरफको लगावे।

सोनेकी बीमारियोंका इलाज

यह बीमारी बुढ़ापेमें होती है और बलगमके लिये जुलाब देना मुफीद है। गोली-करञ्जवेकी गिरी, पीपल अदरखके रसमें कालीमिर्चके बराबर गोली बनाकर दो तीन रोज खावे। मदारका पत्ता १, कालीमिर्च२, दोनोंको पीसकर गोली बनावे, ५ रोज खावे। गोली एलवा, सज्जी, काली मिर्च, हल्दी कूट छानकर घीकुवारके रसमें बेरके बराबर गोली बनाकर एक रोज खावे। गोली-नील, चूकेकी लकड़ी चार चार मासे, मालकांगनी १ मासा पानीमें पीसकर चनेके समान गोली बनाकर १ रोज खावे लेकिन खटाई और मिर्च न खावे। गोली तरखांसीके वास्ते मुफीद है। अकरकरा, काली मिर्च, अनारकी छाल, अजमोदा, पत्ती पियाबांसा, छोटी कटाईकी जड़, बबूलकी छाल, सज्जी नमक, सांभर नमक, लाहौरी नमक, सब दवा एक एक मासे कूटछान

कर अफीम २ मासे अदरखके रसमें चनेके बराबर गोली बनाकर एक गोली सांझ और एक सबेरे मुँहमें रक्खे। कसोंदीका ताजा फल भूनके खावे। जाड़ेके दिनोंमें मदारकी कोंपल पानमें रखे इस तरकीबसे खावे कि तीन दिनतक १ कोंपल-फिर चालीस रोज-तक आधी कोंपल जियादह करते जावे, मुफीद है रोज पीवे। चटनी--द्विगुणे शहदमें मिलाकर १ तोला रोज चाटे बहेड़ा जलाकर चाटे।

अथ सिलका इलाज

यह बीमारी फेफड़ेसे होती है, खासी और तपका होना जरूरी है। कभी खांसनेके साथ खून भी आता है और बीमार दिनबदिन दुबला होता जाता है, इलाज इस बीमारीका मुश्किल है, पहले फस्द खुल-वावे फिर बुखार, खांसीका इलाज करे। गोली-जहरमोहरा, सेल खड़ी, निशास्ता, खसखस, खतमी और गेरू बारीक पीसकर गोली बनाकर खावे।

अथ मेदः यानी पेटकी बीमारीका इलाज

अगर गिरानी खानेके फसादसे हो तो पानीमें नमक मिलाकर जोश देकर पिलावे और कै करावे और जबतक भूख न लगे खानेको न दे और जो दर्द रीहसे हो तो गेहूँकी भूसी औ नमक या बाजरा या

कंबनी कपड़ेमें बांधकर सेंक दे या गरम रेतसे सेंक दे और अजवायनका अर्क पीना मुफीद है। दवा-जवारिशदार फिलफिल रीहको मुफीद है।

जवारिश आँवला

मेदको ताकत दे और पेचिसके वास्ते शीशा मुफीद है।

जवारिश कलौंजी

बलगमको दफे और रिहा करता है और पेठके अफारेको तहलीला करता है। चूरण-सोंठ १ तोला, सौंफ ५ तोले, मस्तंगी ३ तोले पीसकर ५ मासे खाना चाहिये। चूरण-भूखके वास्ते मुफीद है, कालानमक, काली मिर्च, पीपल दो दो तोले और सुहागा भूना १ तोला नींबूके रसमें पीसकर १ मासा खाना खानेके बाद खावे।

अथ सोजाका इलाज

बहुत शर्द दवाई पेशाबकी सोजिशके वास्ते मुफीद है। गोली-पियाबांसेका पेड़ जलाकर उसकी राखको कतरीके पानीमें मिलाकर चनेके समान गोली बनावे और १ गोली गुलखेरूके पानीके साथ खावे। सफूफ-सेलखरी, राल, मिश्री दो दो तोले, तालमखाना, गोखरू और सरयाली एक २ तोला कूट छानकर १४ हिस्से कर १ हिस्सा शर्द लस्सी बकरीके दूधके साथ फांके। दवार

जिसका शर्द मिजाज हो उसको मुफीद है-सहिंजनेका गोंद्र १ तोला पीसकर सबेरेके वक्त ७ दिन दहीके साथ खावे। दवा-आमला और हल्दी बराबरकी कूट छान-कर उसके बराबर शक्कर मिलाके खुराक एक तोला रोज पानीके साथ खाना मुफीद है। दवा-सोजाककी पीबके वास्ते मुफीद है-राल पीसके उसके बराबर मिश्री मिलाकर ३ मासे रोज १८ दिनतक खावे।

अथ आतशका इलाज

इस बीमारीमें शर्द दवा बहुत न खावे क्योंकि बीमारी गठियाकी हो जाती है, मुनासिब है कि पहले मुसहिल ले फिर और दवा करे मुसहिल-पुरानी सुपारी ४तोले जवाहड़ ४ तोले कूटकर रातको एक सेर पानीमें भिगो दे, सबेरे आगपर जोश दे जब तीन हिस्से पानी जल जावे तब छानकर पिला देवे, इस तौरसे एक एक दिनका बीच देके तीन जुलाब दे और खानेको मूँगकी खिचड़ी खिलावे और खटाई, मिर्च, तेल, गुण, थोड़े दिनतक न खावे। गोली-तुलसीकी पत्ती हरी ४ मासे, तूतिया १ मासा पीसकर बेरके समान गोली बनावे १ गोली सबेरेके वक्त गरम पानीके साथ खावे, खुराक खिचड़ी व घी देवे। गोली-कत्था संखिया, इलायचीके दाने, खरिया सब बराबर तौलके गुलाबके अर्कमें पीस-कर ज्वारके समान गोलियां बनावे, फिर १२ दिन

तक १ गोली रोज खावे। अगर ताकत हो तो १ गोली रात दिन बीच देकर खिलावे, बहुत परहेज करे।

अथ गठियाका इलाज

इस बीमारीका इलाज बहुत जल्द करे हरएक बंद मे दर्द होता है और हाथकी उंगली टेढी हो जाती है इसका एक नुसखा माजूमका अजमाया हुआ लिखते हैं। माजूम अरंडीके फलकी गिरी १० तोले, बादामकी गिरी ५ तोले लौंग ६ मासे, जाफरान ६ मासे, पीपल छोटी ६ मासे और इलायची ६ मासे सब दवा बारीक पीसकर १ सेर दूधमें पकावे जब दूध जल जावे तब तीन पाव खांड़ मिलाकर किवाम पकावे और एक अमृत-बान जो चीनीका हो उसमें भरके चालिस दिनतक जौके भीतर दबाये फिर शरदीके दिनोंमें रोगीको ३ मासेसे शुरू करे। अगर ताकत हो तो १ तोला तक रोज खिलावे, नारायणकी कृपासे आराम होगा मगर चालीस दिनतक परहेज करे, बादमें ताकतकी गिजा खिलावे।

अथ जुजामका इलाज

यह बीमारी सोदावी है, मुश्किलसे आराम होती है। फस्त और मुसहिल इस बीमारीमें मुफीद है बकरी का दूध पीना फायदेमन्द है दवा—नींबकी पत्ती और सबके बराबर काले तिल, थोड़ासा लाहौरी नमक और

सबके बराबर पुराना गुड़ मिलाकर हररोज ५ दिवस खावे । झाऊ और शीशमका शर्बत भी मुफीद है ।

अथ बवासीरका इलाज

इसकी दो किस्में हैं एक खूनी, दूसरी बादी मगर परहेज तेल गुड़, खटाई मिर्च और गन्ना जो चीज बादी या काबिज हो न खावे गोली-खूनी और बादी के वास्ते मुफीद है, बल्कि आजमूदा है। नगर कोठी रसोत ५ तोले, शोरा कल्मी ५ तोले, एक मूलीको अन्दरसे खाली करके उसके भीतर ये दो चीजें भरकर और एक टुकड़ा मूलीकी डाट लगाके ऊपरसे कपड़ा मिटी लपेटके आगके भूभलमें दबा दे फिर निकालकर कपड़ा छुड़ाकर मूली समेत पीस ले और चनेके समान गोलियां बनाकर छायामें सुखाकर आठ दश गोली रोज खावे ।

अथ दर्द गुरदेका इलाज

दवा-गुलदाउदीकी पत्तीसुखाके कूट छानकर बराबरकी शक्कर मिलाकर खावे, मुफीद है । दवा-जंगली कबूतरकी बीट २ मासे बराबरकी शक्कर मिलाके खावे दवा-तिलकी लकड़ीकी राख करके २ मासे रोज २ तोले शहदमें मिलाके,खावे मुफीद है। दवा-१ मासा करञ्जवेकी गिरी कूट छानकर १ तोला शहदमें मिलाकर खावे; मुफीद है।जवारिश कलौंजी बहुत मुफीद है ।

अथ पेशाब बहुत आनेका इलाज

दवा–काले तिल और शक्कर मिलाकर खावे और जवारिश कलौंजी भी मुफीद है। तथा–जवारिश खोलनजान बहुत मुफीद है। सफूफ-सूखे सिंघाड़े कूट छानकर शक्कर मिलाकर १ तोला रोज खावे। दवा-बबूले की सूखी फली कूट छानकर घीमें भूनकर शक्कर मिला कर ६ मासे रोज खावे।

अथ पेशाब बंद हो जानेका इलाज

दवा–राई १ मासा, शोरा कलमी १ मासा बराबर की शक्कर मिलाकर दो खुराक करे दवा–चूहेकी मेंगनी पानीमें पीसकर नाभिके नीचे लगावे तो पेशाब खुल जावे। दवा–शोराकलमी कपड़ेमे तरकरके नाभि के नीचे रख दे।

पेशाबमें खून आना

दवा–जवासा पीसकर पीना मुफीद है। दवा-१२ दाने चाकसूके पीसकर खावे ऊपरसे बुरादा चन्दनको पानीमें भिगोके छानकर पीवे।

अथ ज्यादा पियासका इलाज

अकसर गरमीसे होती है। शीरा, तुख्म, खुरफा, या सिकञ्जबीन सदा पिलावे और लुआब ईसबगोल, शर्बत नीलोफरमें मिला कर पीना मुफीद है। दवा–पियास

और कैको मुफीद हैं। पीपलकी छाल जलाकर पानीमें डाल दे, जब राख नीचे जम जावे तब पानी निकाल कर पिलावे। दवा-लड़कोंकी प्यासके लिये जो गरमी होती है उसमें कमलगट्टा कूटकर पानीमें भिगो दे फिर पानी पिलावे। दवा-नींबकी पत्ती मिट्टीके पिंडोलमें मिलाकर गोली बनाकर आगमें डाल दे. फिर पानीमें बुझाकर वह पानी पिलावे, बहुत फायदा करे। दवा-आमला सफेद कत्था मुँहमें रखना मुफीद है। दवा-नारियलका छिलका आगमें जलाकर पानीमें बुझाकर फिर पानीको छानकर पिलानेसे फायदा करता है।

अथ हिचकीका इलाज

अगर खाना खानेके पीछे हिचकी आवे तो कै करानी मुनासिब है और हाथ पांवका बांधना, खुशी, डर गुस्सा, गफलतसे शर्द पानी मुँहपर डालना, छींक लाना, दम रोकना, कंधोंपर सींगी और पछने लगना हिचकीके वास्ते बहुत मुफीद है। दवा-२ मासे कलौंजी पीसकर दहीके गरमेमें मिलाकर खाना मुफीद है और तरकीब गरमेकी यह कि, ताजे दहीको कपड़ेमें बांध ले जब पानी निकल जावे तब काममें लावे। दवा-काले उड़द चिलममें रखकर पीना बहुत फायदेमन्द है। दवा-चनेका भूसा हुक्केमें पीना मुफीद है। दवा-झाऊका जीरा पानीमें जोश देकर छानकर पीना मुफीद है। दवा-

बबूलके कांटे आधसेर पानीमें जोष दे जब तीन हिस्से पानी जल जावे तब छानकर पिलावे बहुत मुफीद है।

पेटमें दूध और खून जमजानेका इलाज

पेटका फूलना और शर्द पसीना आना और गशका आना इसकी निशानी है। दवा–पोदीनेके अर्कमें शक्कर मिलाके पीना मुफीद है। दवा-पानीमें राईको पीसकर पीना मुफीद है। दवा अंजीरकी लकड़ी जलाकर उस राखको पानीमें घोलकर पीना फायदा करता है।

अथ बगलकी बदबूका इलाज

चूना पानीमें पीसकर लगावे दवा–जामुनकी छाल और पत्ते पानीमें जोश देकर बगलको धोवे। दवा-अड़ूसेके पत्ते पीसकर बगल पर मले। दवा-मुरदार-सींगी पानीमें पीसकर बगलमें मले।

अथ शीतका इलाज

मूंग जलाकर पीसकर मले। दवा-बैंगन, पोस्ता, खसखस कूटके पानीमें जोश देकर हाथ पांवको उसमें तर करे। दवा काले धतूरेके बीज जलाकर पीसके ८ दिनतक १ मासे रोज खावे तो फायदा करे। दवा-बबूलके पत्ते पीसकर हाथ पांव पर मले। दवा-ऊँटकटोरकी सूखी जड़ पीसकर १ तोला शहद मिलाकर ७ दिनतक खावे, मुफीद है।

अथ नासूरका इलाज

पापोटनकी जड़ पानीमें घिसके नासूर पर लगावे। दवा-सांपकी केंचुल जलाकर उसकी राख बरगदके दूधमें मिलाकर फिर उसमें रुई भिगोकर नासूर पर रख दे. १० दिन बाद फायदा देखे। अथवा-एरंडकी कोंपल पानीमें पीसकर नासूर पर लगावे। अथवा-छोटी कटाईके फलको कूट छानकर पानीमें मिलाकर फोहा भिगोकर लगावे। अथवा घोड़े का सुम जलाकर अलसीके तेलमें मिलायके लगावे। या चिड़ियाकी बीट पानीमें पीसकर लगावे; मुफीद है।

अथ खूनके बन्द करने का इलाज

घोड़ेकी लीद बांधनेसे उसी वक्त खून बन्द हो जाता है। दवा-संगमरमर जलाकर उसकी राख लगावे, मुफीद है। दवा माजूम जलाके उसकी राख लगावे, मुफीद है। दवा-कुएँकी काई खूनको बन्द करती है।

अथ आगसे जलजानेकी दवा

इमलीकी छाल पीसकर घीमें मिलाकर लगावे। दवा-बरगदकी कोंपल पीसके दहीमें मिलाकर लगावे। दवा-सीप घिसकर अण्डेकी सफेदी मिलाकर लगावे। दवा लाल मिर्च पीसकर लगावे मगर उस वक्त बहुत तकलीफ होगी।

अथ कण्ठमालाका इलाज

इस बीमारीमें आदमीके गलेपर वरम हो जाता है। पहले बलगमको दूर करे अगर मुनासिब हो तो जोंक लगावे और परछावेका ख्याल करे। दवा–लसोढ़ेके पत्ते भूभलमें गरम करके रोज कण्ठमाला पर बांधे, मुफीद है। दवा–मूलीके बीज बकरीके दूधमें पीसकर लेप करे, बहुत मुफीद है। दवा–कसोंदीकी पत्तियां और चार काली मिर्च रोज पीसकर लेप करे, मुफीद है। दवा-पांच हिस्से कतीरा, दो हिस्से नानख्वा बारीक कूट छानकर फिर धनियां की पत्तीके रसमें मिलाकर रोज लेप करे, बहुत मुफीद होगा और जबतक बीमारी अच्छी तरह न जावे तबतक ४ मासे छोटी हड़ कूट छानकर रोज खाया करे और यह दवा लगाया करे, बहुत मुफीद। मलहम-गूगल १ तोला, काली मिर्च तीन मासे सिरकेमें पीसकर मलहम बनावे।

अथ आवाजके बढ़जानेका इलाज

जो नजला हलककी तरफ गिरे उससे आवाज बढ़ जावे तो थोड़ी अफीम खाया करे और खसखस और जो अजवायन जोश देके गरारे करे, बहुत मुफीद है और बलगमके बायससे हो तो पुरानी तीन वर्षकी गोंदीकी जड़को थोड़ी २ मुँहमें रक्खे। दवा-आवाज बन्दको खोल दे, अदरखमें सुराख करके थोड़ा हींग और नमक

भरके फिर अदरखको कपड़ेमें लपेटकर उसपर मिट्टी लगाकर भूभलमें रख दे जब अदरख पक जावे और खुशबू आने लगे तब आगसे निकालके कपड़ा उतार कर थोड़ी २ खावे, आवाज खुल जावे। दवा-मूलीके बीज कूटकर गरम पानीमें मिलाकर फिर साफीमें छान कर खावे। दवा-मालकांगनी, बच अजवाइन, खुरासानी, कुलिंजन औ पीपल सब बराबर तोलकर पीस छानकर शहदमें मिलाकर २ मासे रोज दोनों वक्त चाटे मगर लालमिर्च, खटाई, तेल और गुड़ कुछ दिन न खावे। दवा-थोड़ा हींग गरम पानीके साथ खावे। दवा-करनबकी चटनी बारीक पीसकर खावे। मुफीद है। दवा-मुँहमें कबाबचीनी रखना मुफीद है।

अथ चोटका इलाज

आदमीको मुनासिब है कि पहले इस बातका ख्याल करे कि चोटसे पहले कोई बीमारी तो न थी अगर वरम या तप हो तो पहले उसका इलाज करे, फिर चोटका इलाज करना मुनासिब है। गोली-चोट के वास्ते पीपलकी २१ पत्ती पीसके गुड़में मिलाकर ७ दिन तक खावे। दवा-बारहसिंगेका सींग पानीमें पीसकर पीवे।

चोट और बदनमें खून जम जानेका इलाज

एक मासा फिटकरी पीसकर ४ तोले घीमें भूने

जब फिटकरी घीमें जम जावे तब ऊपरके घीको लेकर उसके बराबर शक्कर और मैदा मिलाकर हलुवा पकाकर खिला दे। बहुत मुफीद है। सफूफ-नमक चोट और दर्द के वास्ते मुफीद है। नमक ६ मासे, शक्कर ६ मासे मिलाकर फांके।

अथ बदनके दुबला हो जानेकी दवा

दूधमें रोटी भिगोकर खाना मुफीद है। दवा-असगन्ध और दोनों मुसली बराबर गायके दूधमें पकाकर खावे दूधके साथ फांकनेसे औरतोंके लिये हितकर होता है।

अथ कमलवायका इलाज

बबूलके फूल और मिश्री बराबर २ मिलाकर सबेरे १ तोला खावे। दवा-दो तोले बिनौले रातको भिगो दे सबेरे पीसकर कुछ लाहौरी नमक मिलाकर पिया करे। दवा-१० तोले मूलीके पत्तोंका रस, शक्कर १० तोले मिलाकर सात दिन पिलावे, नारायणकी कृपासे बहुत जल्दी आराम होगा।

अथ तिल्लीका इलाज

खराब पानी तावमें पीनेसे यह बीमारी हो जाती है। एलुवा बक्कल, बड़ी हड़, सोहागा, काली मिर्च सब बराबर लेकर घीकुवारके पानीसे ४ पहर खरल करे फिर गोली बनाकर एक मासे रोज खावे। गोली-हींग,

एलुवा, सुहागा, नौसादर, सज्जी सफेद बराबर लेकर घी-कुवारके लुआबमें जंगली बेरके बराबर गोलियां बनावे और एक खावे। फायदा-जिस आदमीको तिल्ली हो जावे उसको मुनासिब है कि, रोज लोहेका बुझा हुआ पानी पिया करे। गोली-भूना हुआ सुहागा, सोंठ, सैंधानमक और हींग सब बराबर लेके सहिंजनके रसमें जंगली बेरके बराबर गोली बनाकर सबेरे वा साम एक गोली खाया करे। दवा-नमदेका टुकड़ा सिरकेमें भिगोकर तिल्लीपर बांधे। दवा-भूना हुआ सुहागा एक हिस्सा, राई तीन हिस्से बारीक पीसकर एक २ मासे सबेरे और साम खाया करे। दवा-नींबूका रस एक तोला, प्याजका रस एक तोला मिलाकर १४ दिनतक दिया करे और दाल चावल या खिचड़ीके सिवाय और कुछ न खावे।

अथ दादका इलाज

यह बीमारी सौदावी है और जिल्दके ऊपर फैलाती है औ खूनसे भी हो जाती है। अव्वलमें इसका इलाज अच्छी तरह हो सकता है फिर जरूरत पड़ने और जोंक लगानेकी हो जाती है। गोली-राल, गंधका, सुहागा, अजवायन खुरासानी पीसकर पानीसे गोली बनावे और दादको खुजाकर उसपर लगावे। गोली--गन्धक, मुर्दारसिंग, नौसादर, कत्था, सुहागा, माजूस अफीम, चीनिया गोंद पीसके गोली बनाकर नींबूके

रसमें घिसकर लेप करे। तिला--दादको खुजा पहले घी लगावे फिर उसपर चूना मले। दवा--मदारके फूल और पवांड़के बीज पीसके खट्टे दहीमें मिलाकर मालिस करे दवा–मूलीके बीज शराफके पत्तोंके रसमें पीस कर लगावे। दवा–कुचला सिरकेमें पीस कर लगावे। दवा–इमलीके बीज सिरकेमें पीसकर लगावे।

अथ नाखून फट जानेका इलाज

अगर नाखून टूट गया हो तो अनारके पत्ते पीसके बांधे या नीला कपड़ा उसपर लपेटकर पेशाब किया करे और जो नाखून फट गया हो तो सिरका और तिलका तेल और सरसोंको आगपर गर्मकर थोड़ा २ बांधा करे।

अब शिरके जूँका इलाज

पारा मूलीके पत्तोंके रसमें या पानके रसमें हलकरके बालोंमें डाले या कालीमिर्च पानीमें पीसकर शिरमें डाले। दवा–शरीफेके बीज पानीमें पीसकर डाले।

अथ फिसाद मुँहके रंगका इलाज

अगर तिल्ली जिगर या पेटके फसादसे हो तो पहले उसका इलाज करे और जो चीज खराब हों उनको न खावे बलिक धूपमें फिरनेसे और गरम हवासे बचे और रंज यानी गम और स्त्रीप्रसंग न करे। दवा–गायके

दूधमें जर्द सरसों पकावे जब दूध जलजावे तब सरसों को सुखा ले फिर पीसकर उसका उबटन करे। दवा-चना, चावल, मटर, यव इनके आटेका उबटन करे। दवा-गोंद, कतीरा, निशाशता, ईसबगोलके पानीमें पीसकर मले तो मुँहका रंग उजला हो।

अथ झाईंका इलाज

आमकी बिजली, जामुनकी गुठली पानीमें पीसके अथवा तुलसीकी पत्ती पानीमें पीसके मले। सिरकेमें शहद और नमक मिलाकर लगावे।

अथ खारिश या खुजानेका इलाज

इस बीमारीकी दो किस्में हैं एक तर, जिसमें खुजानेसे पानी निकल आता है और दूसरा खुश्क और बदनके ऊपर यह बीमारी मालूम होती है और अक्सर यह बीमारी एक आदमीके होनेसे दूसरेके भी हो जाती है, इस वास्ते इसको उड़ना रोग कहते हैं। लेकिन मुनासिब है कि, पहले फस्द हफ्तअन्दाम खुलवावे और मिर्च खटाई,तेल, गुड़, नमक न खावे। दवा-खुजली तरके लिये मुफीद है-छोटी हड,चिरायता,शातरा सब दवा एक २ तोले,मुंडी ६ मासे रातको गरम पानीमें भिगो दे। सबेरे छानके शर्बत उन्नाब पिलाकर पिलावे। दवा--चैत्रके महीनेकी नीमकी कोंपर २ तोले पानीमें

पीसकर छानके कुछ दिन तक पीना मुफीद है और सर-फाका पीना भी तरकीबसे इस बीमारीके वास्ते मुफीद है दवा-छोटी हड़ ३ तोले अफ्तीमू १० मासे आधासेर गरम पानीमें भिगो दे। सबेरे छानकर २ तोले मीठा मिलाकर दो दफेमें पिये। दवा-गंधकका तेल खुजली तर और खुश्कके वास्ते मुफीद है। तरकीब-गंधकको मदारके दूधमें दो दिनतक खरल कर फिर गोली बना-कर छाहमें सुखा ले, फिर बर्त्तनमें रखके पानी भरके चार पहर तक गरम आगपर जोशदे जब तेल पानीके ऊपर आ जावे तब उसको काममें लाना मुफीद है।

हरतालका तेल-दाद और खुजलीके वास्ते मुफीद है

हरताल जर्द एक हिस्सा, मीठा तेल दो हिस्से, पहले तेलको जोश दे जब लाल हो जावे तब हरताल पीस-कर थोड़ा थोड़ा उसमें डालकर लकड़ीसे हिलाता जावे लेकिन आग नरम करे जब तेलमें भड़का यानी आग लग जावे तब उस वक्त उस बर्त्तनको बन्द कर दे इसी तरह पांच दफे बर्त्तनको बन्द करे और भड़का दे फिर ठंढा करके शीशेमें रख दे और धूपमें बैठकर मालिश करे फिर कुछ देर पीछे गरम पानीसे बदन धो डाले।

रोगन पँवाड

पँवाडके बीज एक सेर, गंधक १छदाम; एक सेर

गायका दूध और पावसेर घी मिलाकर जोश करे जब जलजावे तब छानकर बर्तनमें रख ले और मालिश करे। बहुत मुफीद है। दवा–२१ दफे गायका घी धोकर उसमें गन्धक और नीलाथोथा मिलाकर मालिश करे।

अथ छीपका इलाज

काले तिल और हलदी भैंसके दूधमें पीसकर लगावे दवा–चम्पाके फूल और छाल इनको पानीमें पीसकर लगावे। दवा–चम्पाके फूल नींबूके रसमें पीसकर लगावे। दवा–सीप जलाकर सिरकेमें मिलाकर लगावे, मुफीद है दवा–चुकंदरके पत्ते भी मुफीद हैं।

बदका इलाज

मुनासिब है कि, पहले उसको तहलील यानी बैठ जानेकी इलाज करे क्योंकि जब पककर फूट जाती है तब बहुत तकलीफ होती है। दवा केलेकी जड़ आदमीके पेशाबमें पीसकर कुछ गरम करके बांध दे। दवा–लसोढ़के पत्ते गरम करके बांधना मुफीद है। दवा–बिनौले कूट के गरम करके बांध दे। दवा–जब बद निकल आवे तब एक कपड़े पर चूना और शहद लपेट कर लगावे दवा–चनेका आटा गूगल पानीमें टिकिया बनाकर बांधना मुफीद है। दवा–पानीमें राई पीसकर लगावे और पियाज कूटकर लड़केके पेशाबमें पकाके बांधना मुफीद है।

अथ हाथ पांव फटजानेका इलाज

अगर एँडी फट जावे तो बड़का दूध भर दे दवा-बबूलका गोंद पानीमें पीसकर भरदे । दवा-मेंहदी पानी में पीसकर भरदे मुफीद है। दवा-चूहेकी मेंगनी सिरकेमें मिलाकर लगावे । दवा-पानीमें लसोढ़के पत्ते डालकर जोश दे। जब पानी गाढ़ा हो जावे तब मले। दवा-सफदरिया जलाके सिरकेमें मिलाकर लगावे ।

अथ फुन्सी याने छोटे दानाका इलाज

सिरसकी छाल पानीमें पीसकर लगावे । गोली-रसोता, गेरू, मुरदारसिंग, कत्था, लालचंदन काबुली हड़ ये बराबर कूटछानकर मकोयके रसमें गोलियां बनाके फिर पानीमें घिस कर लगावे । गोली-हरएक किस्मकी फुन्सीको मुफीद है। मुरदार सिंह बड़ी हड़का बक्कल, भंग चूनेकी कलई, कत्था ये सब दो दो मासे नीलाथोथा १ मासा पानीमें पीसकर गोली बनावे फिर पानीमें घिसकर लगावे । गोली-कत्था, मुरदासिंग, नीलाथोथा ये सब बराबर लेके भून ले और मग्ज बेलगिरी भी बराबर ले फिर बारीक पीसकर गोली बनाकर जब जरूरत हो पानीमें घिसकर लगावे ।

अथ मकड़ीके फलका जानेका इलाज

सफेद जीरा और सोंठ पानीमें पीसकर लगावे तिला-मंडवा पानीमें पीसकर लगावे ।

अथ सफेद दागोंका इलाज

यह बीमारी बहुत खराब है। जहां तक हो शर्द चीज न खावे। इसकी दो किस्में हैं एक वह है जो जिल्दके ऊपर हो, दूसरी वह है जो जिल्दके भीतर यानी मांसके अन्दर घुसे रहते हैं। इलाज जल्दी करे। गोली-अंजीर की छाल ४ तोले, शीतरज २ तोले गन्धक २ तोले, जवाहड १ तोला, धनियां १ तोला पीसकर गायके बच्चे के पेशाबमें मिलाकर जोश दे जब गाढ़ा हो जावे तब जंगली बेरके बराबर गोलियां बनावे और एक महीना या बीस दिनतक बराबर १ गोली सबेरे १ शाम खावे। गोली-गेरू, गन्धक, बावची बराबरकी बारीक पीसके अदरखके पानीमें रीठेके बराबर गोलियां बनावे और एक गोली कूटके आधपाव पानीमें रातके वक्त भिगो दे सबेरे पानी निथारके पी जावे और फोक उसका बदन पर मलके धूपमें बैठ जावे और खटाई या बादी चीज न खावे।

अथ घूसका तेल

दागोंपर मालिश करना मुफीद है। तिला-मालकांगनी गायके पेशाबमें २१ दिन भिगोके तेल निकालकर मालिश करे। तिला-कलौंजी सिरकेमें पीसकर सफेद दागपर लगावे गोली-अजमोद,बावची पँवाडके

बीज कमलगट्टा बराबर लेकर गुड़में गोली बनावे। खुराक ४ मासे रोज खावे।

अथ बाँझ स्त्रीका बयान

यह बीमारी औरतोंको होती है और अकसर मर्दोंको भी होती है और जैसे बाजा पेड़ वगैरह फलके रह जाता है और पहचान यह है कि सात २ दाने बाकलेके या गेहूँके बर्त्तनमें रखके पेशाब करे। जिसके दाने फूट निकले उसकी तरफ बीमारीका ख्याल मत करो।

अथ दूसरी पहचान

दो प्यालोंमें पानी भरके मर्द और औरत उसमें अपनी २ धातु डाले जिसकी धातु पानीके नीचे बैठ जावे तब मालूम करो कि उसके यह बीमारी नहीं है।

अथ तीसरी पहचान

दो पेड़ कद्दु या काहूके हों और जुदा २ मर्द औरत उन पेड़ोंके जड़में पेशाब किया करें जिसके पेशाबसे पेड़ सूख जावे तो मालूम करो कि उसको यह बीमारी है मगर औरतोंका इलाज हो सकता है जो नारायण कृपा करें।

दवा १.

हाथी दांतका बुरादा कूट छानकर उसके बराबर मिश्री मिलाकर रख छोड़े औरत रजस्वला हो उसके

तीसरे दिन ९ मासे रोज ७ दिनतक खावे फिर मर्दके साथ सत्संग करे ।

दवा २.

२ तोले कायफलको कूट कपड़छान करके उसीके बराबर मिश्री मिलाके ९ मासे ऊपरकी तरकीबसे खावे ऊपरसे दूध चावल खावे तब पुरुषकी संगत करे ।

दवा ३.

असगन्ध ९ तोले लेकर कूट कपड़ छानकर स्त्री रजस्वलाके पीछे स्नान कर साफ हो तब १ तोला पहले दिन खावे दूसरे दिन २ तोला और ऊपरसे दूध चावल खावे, तब पुरुषके साथमें स्त्री रमण करे ।

दवा ४.

हाथीका पेशाब सत्संगसे पहिले उस वक्त औरत को पिलाना बहुत मुफीद है ।

दवा ५.

समुद्रफल थोड़े दहीके साथ औरत निगल जावे । बहुत मुफीद है ।

दवा ६.

बाजकी बीट अगर औरत खावे तो मुफीद है ।

अथ इलाज उस वक्तका जब औरत गर्भसे हो

औरतके वास्ते चौथे महीनेसे पहले और सातवें महीने

तक पीछे जुलाबका देना और फस्दका खुलवाना नुकसान देता है और दो महीने बाद मर्दसे संगत न करे और खाना भी पेट भरके न खावे। अगर औरतको कोई बीमारी दर्दशिरे या मितलीकी न हो और उसको अपने दाहिने तर्फ बोझ मालूम हो और दाहिनी छाती बड़ी हो और छातियोंपर सुरखी हो तो उस औरतके लड़का जरूर पैदा होगा और जिसकी भूख कमती होगी और उसका शिर भारी होगा और मुँहपर जरदी और रूखापन होगा और सुस्ती होगी और नींद आवे और चलते वक्त पहिले दाहिना पैर उठावे और दाहिना हाथ टेकके उठे तो उसके लड़की पैदा होगी, बल्कि हकीमोंने लिखा है कि, औरत गर्भवाली अपनी हथेलीपर जूं रखके उसपर अपना दूध दुहे, अगर जूं उस दूधमें रेंगे तो लड़का होनेकी निशानी है और जूं मर जावे तो लड़की होगी औ यह भी कहते हैं कि चुकंदरके सूखे पत्ते मलके औरतकी नाकमें मूके अगर छींक आवे तो लड़की होगी और जो न आवे तो लड़का जनेगी।

गर्भको न गिरने देने वाली दवा

बड़ी इलायचीके दाने२ मासे कन्दमें मिलाकर रोज खावे

तदबीर १.

कुसुम्भमें रंगे हुए लाल कपड़ेके १ तागेसे करञ-बाको बांधकर नव महीने कमरमें बांधे, गर्भ न गिरे

तदबीर २.

कहरुवा भी कमरमें बांधना मुफीद है जो सूत की कुवारी लड़कीने काता हो औरतके शिरसे तालूसे पैरके नाखून तक नापकर उसे २१ तार बनावे और काले धतूरेकीजड़ लेके उसके ७टुकड़े करके उस तागेमें जुदी १बांध दे फिर औरतकी कमरमें बांधे, गर्भ न गिरे।

तदबीर ३.

जमुर्रदकी अँगूठी बनावे, हाथमें पहने, औरतके वास्ते नुकसानमन्द है।

अथ बीमारी खून हैजेका इलाज

अगर खून हैजेका वक्तसे आगे पीछे जावे तो खराब है बल्कि औरतको कमजोरी बहुत होती है और इसबीमारीमें छातियोंके नीचे सींगी लगाना बहुत मुफीद है।

दवा १.

खून हैजेका बन्द करे। बैंगनकी कोंपल पानीमें घोटकर पानी मुफीद है।

दवा २.

चनेको जलाकर तज और लोध बराबर मिलावे सबके बराबर शक्कर मिलाकर एक हथेली भरके सबेरे वक्त फांके, खूनको बन्द करे।

दवा ३.

६ मासे मालतीके फूल और ६ मासे शक्कर मिलाके फांके।

दवा ४.

६ मासे गेरू और ६ मासे सेलखड़ी पीसकर पानीके साथ फांके, मुफीद है।

दवा ५.

लाखका दाना बराबरकी शक्कर मिलाके एक हथेली भरके फांके।

दवा ६.

सात हरसिंगारकी कोंपल और ७ काली मिर्च पानीमें पीसकर पिलावे।

दवा ७.

सुपारी पाक इस बीमारीको मुफीद है

अथ इलाज बन्द होजाने खून हैजेका

अगर औरतके तमाम बदनमें खून कमती मालूम हो और इसी बायससे वह खून बन्द हो गया हो तो कुछ अन्देशेका मुकाम नहीं है और अगर किसी और सबबसे बंद हो गया हो तो इलाज करना जरूरी है।

दवा १.

कपासके पत्ते और फूल आध पाव एक सेर पानीमें

जोशदे, जब तीन पाव पानी जावे तब ४ तोले गुड़ मिलाकर छानके पिलादे खून हैजेका जारी हो जावे

दवा २.

नीमकी छाल २ तोले, सोंठ ४ मासे कूट छानकर गुड़ २ तोले सबको पावभर पानीमें जोश दे फिर छानकर पिलादे, बहुत मुफीद है ।

दवा ३.

काले तिल और गोखरू दोनोंको पानीमें भिगो दे सबेरेके वक्त शीरा निकालकर २ तोले शक्कर मिलाकर पिला दे ।

सफूफ ४.

खूनको जारी करे—मूलीके बीज, गाजरके बीज, मेथीके बीज सबको कूट छानके एक हथेली भरके गरम पानीके साथ फांके, मुफीद है ।

जवारिश कलौंजी ५.

इस बीमारी और पेटके दर्दके लिये मुफीद है और तरकीब इसकी इस किताबके पहले भागमें लिखी है ।

लेप ६.

नलीके दर्दके वास्ते मुफीद है। कालाजीरा २ तोले, एरण्डीका गूदा आध पाव सोंठ १ तोला सबको जोश देके बारीक पीसकर पेटपर लेप कर देवे, इस बीमारीके वास्ते बहुत मुफीद होगा ।

दवा ७.

मजीठ पीसकर खावे, खून हैजेका बन्द हो जावे ।

बत्ती ८.

गुड़ थोड़े घीमें मिलाकर बर्तनमें रखकर आगपर रख दे, जब बत्ती बनानेके काबिल हो जावे तब थोड़ा बिरोजा सूखा मिलाकर बत्ती बनाकर पेटके अन्दर पहुँचावे तो खून हैजेका अच्छी तौरसे जारी होगा ।

अथ वरम छाती याने स्तनका इलाज

अगर दमवी हो तो फस्द खुलवाना मुफीद है या जोंक लगाना ।

दवा १.

नीम और बकायनके पत्तोंसे सेंकना और बांधना मुफीद है ।

दवा २.

गुले अब्बासीकी पत्ती और मकोयकी पत्ती पीसकर गरम करके लगाना वरमको मुफीद है ।

दवा ३.

नागरमोथा और मेथी भेड़के दूधमें पीसकर लगावे ।

दवा ४.

काहू सिरकेमें पीसकर लगावे दवा—इसबगोल सिरकेमें पीसकर लगाना या टकोरे देना फायदेमन्द है ।

अथ स्त्रीके दूध बढ़ जानेका इलाज

सात बार दूधमें मीठा मिला कर औरतको पिलावे।

दवा १.

जीरा सफेद, और सांठीके चावल दूधमें पकावे और थोड़े दिनतक खिलावे।

दवा २.

जीरा सफेद, नानख्वाह, नमक संग बराबर पीसकर दहीमें मिलाकर खिलावे।

दवा ३.

अजमोद, अनीसूं, बोजीदां तुख्म सोया पीसकर मिलाकर जितना मुनासिब ही देवे।

गर्भ गिरानेकी दवा

इंद्रायण निचोड़के उसमें रुई भिगोकर रखना मुफीद है।

दवा १.

कड़वी तोरी बीज समेत पीसके लेप करे।

दवा २.

साबुन कड़वे तेलमें मिलाकर रुई भिगोकर पेटके मुँहमें रख दे।

जुशांदा ३.

पेटमें मरा बालक आसानीसे निकल आवे-बथुवेके

बीज डेढ़ तोले आधसेर पानीमें जोश दे जब आधा पानी हो जावे तब छानकर पिला दे ।

जुशांदा ४.

नाल, झिल्ली औरं लड़केको पेटसे निकाले-सहिजनेके पेड़की छाल गुड़ दोनोंको जोशदेके पिलावे, मुफीद है।

दवा ५.

मुनगुना जो गेहूँमें होता है और एलुवा बराबर काम में लावे ।

तिला ६.

ऊँटकटारकी जड़ पानीमें पीसकर औरतके पेटपर लेप करे ।

दवा ७.

गुडहलके फूल पानीमें पीसकर नाभिपर लेप करे ।

दवा ८.

मरे हुए बालकको पेटसे निकाले और गर्भको गिरादे, घोड़ेकी लीद अपने आगे जलावे और उसका धुआं लेवे।

दवा ९.

अनारके छिलकेका धुआं पहली तरकीबसे लेवे ।

दवा १०.

हलदी १ तोला, मेथी ८ मासे, फिटकरी १ तोला, तूतिया ७ मासे, भड़भूँजेके छप्परका धुआं ७ मासे सब

दवाको कूट छानकर पानीमें मिलाकर सुखावे और चिकना और नरम करनेवाली चीजें लगावे, बाद उसके सबेरे सांझ वह दवा रख दे और गर्भ गिरजानेके बाद घीमें १ कपड़ा तर करके उसी जगह औरतको रखना चाहिये कि दर्द जाता रहे और गर्भ गिरनेके पीछे यह दवा भी दिलावे। गोखरू ३ मासे, सौंफ १ तोला, खरबूजके बीज १ तोला पानीमें जोश देकर मिश्री मिलाकर पिलावे और खानेको कुछ न दे और पानीकी जगह कपासकी कली और बांसकी गिरह ताजी जोश देके पिलावे।

परसूतका इलाज

यह बीमारी अक्सर बालक पैदा होनेके पीछे औरतोंको हो जाती है जिस वक्त बालक पैदा हो उसी वक्तसे खाने और पानीका ख्याल रक्खे और इसकी दो किस्में हैं, एक शर्द दूसरी गरम जैसा मुनासिब हो वैसा इलाज करे।

दवा १.

लोहबानका सत १ मासे और मुश्क २रत्ती आठ दिन तक खिलावे।

दवा २.

एक हिस्सा नागकेर, कालीमिर्च दो हिस्से बारीक

पीसकर अदरखके रसमें जंगली बेरेके समान गोलियां बनावे और ४ गोली दोनों वक्त में खिलावे ।

दवा ३.

अजमोद, दालचीनी और लोहबान इन तीनोंको बराबर तोलकर बारीक पीस ले फिर उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर जिस कदर मुनासिब हो, खिलावे

दवा ४.

पीपल २ मासे, सोंठ २ मासे और धतूरेके बीज १ मासा इन्हें कूट छानकर एक रत्तीकी गोली बनावे और जिस कदर मुनासिब हो दे।

दवा ५.

चुकन्दर, नरक, जदवार सब दो २ मासे पीसकर शहदमें मिलाकर जिस कदर मुनासिब हो दे ।

बच्चा पैदा होनेके समयका इलाज

प्रसूत समयमें होशियार दाईको औरतके पास रखना जरूरी है और खुशबूदार चीज उस मकानमें न जाने दे। बच्चेके पैदा होनेमें तकलीफ बहुत हो तो छिल्के अमलतासके १ तोला पानीमें जोश देके थोड़ी शक्कर मिलाके पिलावे ।

दवा १.

घोड़के पांवकी सुमकी धूनी देना या घोड़की लीद

और कबूतरकी बीट पानीमें घोलकर औरतको पिलाना मुफीद है।

दवा २.

सांपकी केंचलीकी धूनी मरे लड़केको पेटसे उसी वक्त निकाले और गाजरके बीजोंकी धूनी मुफीद है।

दवा ३.

गुलेबाबुना ९ मासे थोड़े पानीमें जोश देकर शहद मिलाकर पिलावे।

दवा ४.

अगर हालत गर्भमें खून हैजेका हो जावे तो गूलरकी छाल कूटकर पानीमें जोश देके पिलावे।

अमल ५.

मकनातीस बायें हाथमें लेना मुफीद है।

अमल ६.

दर्दके वक्त करंजबा चमड़ेमें रखकर बांई पिंडलीपर बांधे, लड़का उसी वक्त पैदा हो।

कुव्वतबाहका इलाज

जिस वक्त कोई बीमारी आदमीको हो जाती है। यानी दिल, दिमाग, जिगर पेट और गुरदाकी उसी वक्त ताकत बाहकी कमी हो जाती है, इस जगह थोड़ीसी दवा लिखते हैं।

माजूम १.

बिनौलेकी गिरी, कडकी गिरी, खरबूजेकी गिरी, चिरौंजी, तिल, खसखस, सेंबलका मूसला, मूसली सफेद, सतावर असगन्ध, सिंघाड़ेका आटा, इमलीके बीज, केवडेके बीज एक २ तोला और प्याजके बीज, शलगमके बीज, बहुफली, तालमखाना, समुद्रशोष ये दवा ९-९ मासे लेवे। खोलजान, चुनिया, गोंद, नागरमोथा, जत, काचके बीज, गोखरू, इन्द्रयव, बबूलकी फली, कमलगट्टेकी गिरी, बीजबन्द, और मोचरस, ये सब दवा छः २ मासे इस्पन्द गुजराती उटंगनके बीज, अकरकरा, सोंठ, पीपल, अजवायन (खुरासानी) ये सब तीन २ मासे पहले इस्पन्द, और तालमखानेको भून ले फिर सब दवाको बारीक कूट छानकर तीन गुने कन्द या खांड सफेदमें किवाम करे। ऊपरमें एक २ तोले बादामकी गिरी, पिस्ता, चिलगोजा, अखरोटकी गिरी, खोपरा, कतरके डाल दे, भंग दो तोले मिलावे, खुराक १ तोला रोज गायके दूधमें छुहारा जोश करके ऊपरसे पिया करे।

माजूमकिशमिश २.

कुव्वतवाहके लिये बहुत मुफीद है और माजूम मालकांगनी भी बहुत ताकत देती है।

माजूमप्याज ३.

यह माजूम घरमें बनायी जाती है। तरकीब यह है कि एक सेर प्याजका रस और एक सेर शहदको आगपर रख दे जब किवाम हो जावे तब तोदरी सफेद और सुर्ख सालममिश्री, भेमन सफेद और सुर्ख सोंट, पियाजके बीज, मूलीके बीज गन्दना शलगमके बीज, तालमखाना मुसली सफेद और काली सब दवा पांच २ तोले कूट छानके उस किवाममें मिला दे खुराक एक तोला रोज।

माजूमपेठा ४.

बहुत मुफीद है और धातुको गाढ़ा करता है। खरबूजके बीज, मुसली-सफेद और पेठा सब दश २ तोले घीकुवाँरके पट्ठे दो, कवाबचीनी ६ मासे सब बारीक पीसकर आधासेर कन्दमें किवाम पकावे, खुराक १ तोला रोज।

सफूफ १.

कड २ तोले, काले तिल ७ तोले, खसखस ९ तोले बिनौलेकी गिरी ४ तोले, इन्द्रयव ४ तोले कूट छानकर सबके बराबर मिश्री मिलाके चूरण बनावे, खुराक १ तोला गायके दूधके साथ।

सफूफ २.

पांवसेर पीपलको आधसेर दूधमें जोश दे जब दूध,

बाकी न रहे तब पीपलको सुखाके पीस ले, खुराक मिश्री मिलाके ६ मासे रोज ।

सफूफ ३.

बाहको कुव्वत दे, मनीको पैदा करे । सेमलका मुसल बारीक पीसके बराबरकी खांड मिलाके १ तोले गायके दूधके साथ खावे ।

सफूफ ४.

सिरसके बीज और पलासके बीज बराबर कूट छान के मिश्री मिलाके दूधके साथ खावे ।

सफूफ ५.

चिनिया गोंद और बहुफली बराबर पीसके १ तोले गायके दूधके साथ चालीस दिन खावे; दूधके साथ बहुत मुफीद है ।

गोली ६.

अजवायन ५ मासे, कद्दूके बीज ५ मासे इस-बन्द ९ मासे, भंग ८ मासे, भूने चने ७ मासे, अफीम ३ मासे, जाफरान ४ रत्ती, इलायची दाने १ मासा, पोस्त दोमासे सबको कूट छानकर जिसमें पोस्त भिगोया हो उसी पानीमें जंगली बरके बराबर गोलियां बनावे फिर सुखा ले । खुराक १ गोली रोज अगर मुनासिब हो तो २ गोली देवे ।

शकरकंदका हलुवा ७.

धातुको पैदा करता है। तरकीब–पहले शकरकंदीका बनावे छायामें सुखादे फिर कूटकर छान ले और घी, खांड मिलाकर हलुवा पकावे।

अंडेका हलुवा ८.

मुर्गेका अंडा, १ बताशे ३, घी ३ तोले चमचेमें पकावे।

चमेलीका तेल ९.

यह तेल बाहको ताकत देता है।

गुलशब्बूका तेल १०.

बाहको ताकत देता है। इसके फूलोंको तेलमें मिलावे जब फूल कुम्हिलावें तब वे फूल निकालके और फूल बदल दें। तीन बार बदले फिर साफ करके थोड़ा अकरकरा मिलावे और मालिश करके पान बांध दे।

ऊंटकटोरका तेल ११.

सुस्तीके वास्ते मुफीद है। इसका १ पेड़ जड़ पत्ते समेत लावे फिर बकरीके दूधमें भिगोके पातालयन्त्रके तरीकेसे तेल निकाले।

गुरदे और मसानेका इलाज

ये दोनों बीमारी दर्दसे मालुम होती हैं। रग और पथरी गुरदेमें सुर्ख रंगकी होती हैं। और मसानेमें सफेद रंगकी।

शर्बत १.

अंगूरके पत्तोंका शर्बत गुरदेकी पथरीको मुफीद है। हंसराज ७तोले, गोखरू १० तोले, खरबूजेके बीज ५ तोले, सौंफ ३ तोले मुनक्का १५ तोले, नरम पत्ते अंगूरके ४० तोले, एक रात दिन पानीमें भिगो दे फिर जोश देके तीन गुणी शक्करमें किवाम पकावे।

सफूफ २.

संगमसानेको मुफीद है गुलदाउदीकी पत्ती सुखाके कूटछानके शक्कर मिलाके फांके।

दवा ३.

जवाखार २ मासे, सुहागा २ मासे, गोखरूके शीरे के साथ पिलावे।

दवा ४.

करंजवेकी कोंपल सुखा जलाके उसकी राख ६ मासे गोखरूके शीरेके साथ पिलावे।

दवा ५.

तिलकी लकड़ी जलाके ६ मासे राख २ तोले शहदमें मिलाके खिलावे

दवा ६.

१ जंगली कबूतरको थोड़े दिन अलसी खिलावे फिर

६ मासे उसकी बीट और ६ मासे शक्कर मिलाकर पानीके साथ फांके।

दवा ७.

संगमसाने और गुरदेको मुफीद है। करंजवेकी गिरी कूट छानकर १ मासे और तीन मासे शहदमें खावे और एक मासा रोज ११ दिनतक बढ़ाया करे फिर एक मासा रोज कमती करे मुफीद है।

जवारिश कलौंजी ८.

दर्दगुरदेको मुफीद है।

दवा ९.

पत्थरफोडी एक पेड़ होता है उसके पत्ते तीन मासे कूट छानकर शक्कर मिलाके फांके।

दवा १०.

संगगुरदेको मुफीद है और पेशाब जारी करता है। झाऊके फूल दो तोले दो पहर पानीमें भिगो दे फिर उसका पानी छानके उसके ख्यारेन गोखरू सब छः २ मासे भंग २ मासे पीसके मिलावे और थोड़ी शक्कर डालके पिलावे।

दवा ११.

७ तोले मूलीके पत्तोंका रस निकालके तीन मासे

अजमोदा फांककर उसी रसके साथ निगले, बहुत मुफीद है या जैसी ताकत हो।

अथ इलाज हलक याने नरखरेका

इस बीमारीकी दो किस्में हैं एक सांसका रुकना और दूसरी खाना या पानी मुश्किलसे हलकके नीचे उतरे। इसका बहुत जल्दी इलाज करे।

शर्बत शहतूत १.

नरखरेके बरम, गलेके बरम, कव्वेके बरम और जबानको बहुत मुफीद है। तरकीब–काले शहतूतका रस निकालके बराबरकी कन्द मिलाके किवाम पकावे।

गरगरा २.

गलेके बरमको मुफीद है। मको सूखी और नीमके पत्ते और थोड़ा शहद मिलाके पानीमें जोश दे, जब आधा पानी जल जावे तब ठंठा करके कुल्ला करे।

दवा ३.

शहतूतका रस, धनियां, मसूर और मकोके पत्तोंका रस निकालके सबको इसी रसमें भिगो दे फिर पानी छानके कुछ गरम करके गरारे करे; वरम गरम तथा मर्द और दर्दको मुफीद है।

दवा ४.

धनियां और मिश्री चबाना गलेके दर्दको मुफीद है।

लेप ५.

गलेके वरमको मुफीद है। मको, कालीजीरी कालीमिर्च, खरियामिट्टी सब बराबर ले' पानीमें पीसकर गले पर लेप करे।

लेप ६.

सूखा करेला पानीमें पीसके या सिरकेमें घिसकर लगावे, मुफीद है।

दवा ७.

मुरगेकी बीट सिरकेमें मिलाके हलक पर लगावे, वरमको मुफीद है।

लेप ८.

तांबेके बीज, गेरू, लालचन्दन, कालाजीरा सिरसकी छाल, काली मिरच, मसूर, कालीजीरी करेला सूखा, सोएके बीज, सब दवा बराबरलेकेसिरकेमें पीसकेगरम करके लगावे, गलेके वरम और दर्दको मुफीद होगा।

दवा ९.

लड़कोंका कव्वा लटक आवे तो मुलतानी मिट्टी सिरकेमें मिलाके ऊपर रख दे; उसीवक्त आराम होगा।

दवा १०.

चूल्हेकी मिट्टी कालीऔर लाल मिर्च एक २ पीसके मिट्टीमें मिलाके कव्वा उठावे या लहसनकी पोटी

सींकमें लगाके मुँहपर पानीका छींटा देके कव्वा उठावे ।

अथ निस्यान यानी भूलका इलाज

यह बीमारी बुढ़ापेमें बलगमकी कसरतसे हो जाती है । अगर जवानीमें हो तो मालूम करना चाहिये कि इसको कोई बीमारी दिमागकी है ।

माजूम भिलावा १.

निस्यान और शर्द बीमारी दिमागको मुफीद है । बड़ी हड़का बक्कल, बहेडेका बक्कल, आमला, बालछड़ तेज, तेजपात, नागरमोथा, हरएक पांच २ मिस्काल, काली मिर्च, नरकचूर आधा २ मिस्काल, भिलावेका तेल दो मिस्काल, शहद १०२ एकसौ दो मिस्काल, कूट छानके किवाम करे और मिस्काल, तोलेमें तीन मासे पौने दो रती होत्ती है ।

सफूफ २.

मुफीद निस्यान है—कन्दर, सोंठ नागरमोथा सब दवा बराबर तौलके और कूट छानके मुआफिक मिजाजके सात दाने मुनक्काका शीरा निकालके उसके साथ ८ दिनतक फांके ।

माजूम वज ३.

निस्यानको बहुत मुफीद है। पावसेर कन्द या सफेद खांडका किवाम करके उसमें १ तोला वज मिला दे और

खुराक १ तोला रोज खाया करे। तांबेके बर्तनमें उसके नीचे कोयलेकी आग करे फिर थैलीपर एक भारी पत्थर रख दे, रोगन निकल आवेगा। तरकीब—खानेकी यह है कि इस रोगनको पानकर लगाकर १ मासा पारा उसपर रखकर खूब मले फिर पारेको ऊपरसे साफकर और पानको खावे।

इलाज सकताका

इस बीमारीमें आदमी हिल झूल नहीं सकता और मुरदासा मालूम होता है। अगर खूनका गलबा हो तो सरारू फस्द खुलवावे और जो बलगमका बहुत जोर हो तो वैसा इलाज करे और कै करना अच्छा है और हाथ पांवका मलना और बांधना और शिरपर यानी तालूपर नश्तर देकर पारा मलना मुफीद है,इस बीमारीमें सांसका चलना न मालूम हो तो इलाज न करे और जो सांस चलना मालूम हो तो कुछ इलाज हो सकता है, और पहचान यह है कि रोगीकी आंखमें देखनेवालेका अक्स यानी छाया मालूम होगा और मुरदेकी आंखमें नहीं मालूम होता है।

दवा १.

एलवा बेख चुकन्दरके पानीमें मिलाकर छानकर दो चार बूंद नाकमें डाले।

दवा २.

शिरको मुँडवाकर पछने लगाकर आदमीके पेशाबमें बच्छनाग पीसकर उसपर मले बहुत जल्दी होशमें आवेगा ।

अथ जिनूका इलाज

जो दीवाना बहुत हो उसको जिनू कहते हैं ।

दवा १.

गुलेसेवती, गुलेसुर्ख, गुलेनीलोफर गुलेबनफ्शा अस्तखद्दूस, गावजुबां जुशांदा या खिशांदां करके मीठा मिलाकर पिलावे। जुशांदा रातको गरम पानीमें भिगोते हैं, खिशांदेकी दवा सबेरेको जोश देते हैं । दवा एक ही है लेकिन फायदा जुदा २ है ।

दवा २.

कद्दूके बीज बकरीके दूधके साथ खिलावे ।

अथमालीखोलिया यानी दीवानगीका इलाज

इसका जल्दी इलाज करना चाहिये, पहले फस्दका खुलवाना जरूरी है, मरीजको खुश करना, अच्छी जगह पर बैठाना, गिजा अच्छी खिलाना और बहुत सुलाना बहुत अच्छा है और जुलाब देना मुफीद है और जो बात मरीजको पसंद हो उसमें मशगूल रखना चाहिये किसी वक्त अकेला न छोड़े ।

दवा ३.

आंबरेशमखाम, संदलसफेद, आमलातुख्म, खयारेनतुख्म कासनी, बादरञ्जबोया, काजुबां धनिया, कद्दूकी गिरी, काहू, खुरफा, पालक, गुलाब, चांदीके वर्क, संगयशब, जहरमोहरा, इन चीजोंमेंसे जो मुनासिब देखे वह देवे और पानी बुझा हुआ पिलावे।

दवा ४.

बकरीका दूध खूबकलाके साथ पिलावे और मिराक भी एक किस्म इस बीमारीसे है बल्कि खट्टी डकार और दर्द भी होता है। किसी हकीम कामिलसे इलाज करावे।

अथ जलंधरका इलाज.

इसकी ३ किस्मे हैं-पहली लहमी, दूसरी जकी, तीसरी तबली, मालूम हो कि लहमीमें तमाम बदनपर वरम हो जाता है। बायस उसका जोफ जिगर है और जकीमेंपेट बढ़ जाता है और जिल्द भारी हो आती है और तबलीमें पेट बढ़ जाता है और नाक निकल आती है अगर पेट पर हाथ मारो तो तबले की आवाज आती है। सबसे खराब लहमी है। इलाज इसका यूनानी किताबोंमें लिखा है कि पानी न दे बल्कि पानीकी जगह अर्क सौंफ या अर्कमको पिलावे अगर पानी दे तो जोश करके थोड़ा

२ पिलावे और मुञ्जिश मुसहिल देना बहुत मुफीद है और बीमारको गरम रगोंमें गर्दनके नीचे तक दबाना मुफीद है और सूर्यकी तरफ पीठ करके धूपमें बैठना अच्छा है ।

शर्बत रेबंद १.

तबलीके वास्ते मुफीद है । रेबंद ५ दिरम, तुख्मकासनी ७ दिरम, बेखकासनी १० दिरम, सौंफ २ दिरम, मगसूल २ दिरम पावसेर कंदमें किवाम पकावे । खुराक २ तोले रोज ।

जुशांदा २.

लहमीके वास्ते मुफीद है लेकिन बगैर हरारतके हो अजवायन, सौंफ जोश करके पिलावे ।

गोली ३.

हरे पत्ते मदारके पावसेर, हलदी १ तोला दोनोंको पीसके उड़दके समान गोली बनावे और ४ गोली रोज ताजे पानीके साथ खावे, और १ गोली रोज बढ़ावे सात दिनतक, बहुत मुफीद है ।

गोली ४.

एलबा ४ दिरम, बक्कल बड़ी हड १ दिरम, अजवायन १ दिरम, काली मिर्च १ दिरम, कूट छानके चनेके बराबर गोली बनावे, खुराक ३ दिरम रोज और १ दिरम ३ मासेका होता है ।

दवा ५.

सिरसकी छाल पानीमें जोश देके पीना मुफीद है।

दवा ६.

हुक्केका पानी जो दो तीन दिनका हो, पीना मुफीद है।

दवा ७.

गायका गोबर, नमक मिलाके लगाना मुफीद है।

दवा ८.

गोबर जलाके उसकी राख साढ़े तीन मिस्काल रोज खावे।

दवा ९.

इंद्रायनकी जड़ पानीमें जोश देकर पीना मुफीद है।

दवा १०.

ऊँटका पेशाब पीना मुफीद है सबेरेके वक्त ७ तोले ऊँटके पेशाबमें ३ मासे बड़ी हड़का बक्कल मिलाके पिलावे।

दवा ११.

ऊँटनीका दूध भी इस बीमारीमें बहुत फायदा करता है।

दवा १२.

मूलीके पत्तोंका पानी बीमारको पिलावे तो मुफीद है।

दवा १३.

लाल बकरीका पेशाब ६ तोले उसमें २० मासे बालछड़ मिलाकर पिलावे।

माजूम जाफरान १४.

जलंधर और सख्ती और दर्द जिगर तबलीको मुफीद है।

तरकीब

जाफरान, कुस्त, असारों बालछड़, तुख्म, करफस अनीसूं,गुलाबके फूल, तुख्मकासनी ये सब दवा दो २ तोले, मरमकी रेवंद १ तोला पीसछानके तीन गुणे शहदमें किवाम पकाके तीन मासेसे बीस मासेतक सौंफके अर्कके साथ खिलावे।

गोली १५.

गन्धक, बहेडा, पारा हड आंवला, सज्जी काला नमक, लाहौरी नमक, सांभर नमक, सोंठ, काली मिर्च और सुहागा ये सब दवा बराबर ले और जमा-लगोटा दो हिस्से पीसकर २१ दफे नींबूके रसमें पीसके सुखावे लेकिन सुहागेको भून ले फिर काली मिर्चके समान गोलियां बनाके एक गोली रोज ऊँट-नीके दूधके साथ खावे।

सफूफ १६.

जलंधर लहमी और तबलीको मुफीद है। सोंठ, नागरमोथा, जीरा सफेद, शीतरज कंटाई,हल्दी, गज-पीपल सब बराबर तौलके कूट छानके चूर्ण बनाके खुराक जैसी ताकत हो।

सफूफ १७.

जालंधर तबलीके वास्ते मुफीद है। तुख्म, करेफस, विरंजकाबली, शीतरज, कालीमिर्च पीपल, पिपलामूल सौंफ काला नमक ये सब दो २ और पांच बड़ी हड़का बक्कल, सोंठ पीसकूट छानके खुराक ३ तोलेसे २ तक सौंफके अर्कके साथ।

अथ कुलंजका इलाज

इस बीमारीमें रीह और पाखानेका आना मुश्किल, है और दर्दके साथ होता है अगर कुलंजरीहसे हो तो सेंक करे।

गोली

फिटकरी, अजवायन, पीपलामूल, कालीमिर्च, गिरी करंजवा, बायबिडंग, एलवा, काला नमक सब बराबर तोल ले फिर कूट छानके अदरखके रसमें ४ मासेकी गोलियां बनावे और १ गोली दर्दके वक्त खिलावे।

दवा १.

बायगोलेको मुफीद है। समुद्रफलकी गिरी, कफेदरिया लाहौरी नमक, काला नमक, सज्जी सफेद, जवाखार, सुहागा, पीपल, सोंठ, बड़ी हींग, हड़का बक्कल ये सब दवा एक २ तोले अमलबेत ४ तोले कूट छानके गोली बनावे, खुराक १० मासेतक।

दवा २.

कुलंजके दर्दको मुफीद है—एलवा, सुहागा, नमक लाहौरी, जवाखार और सज्जी घीकुआरके लुवाबमें बेरके समान गोली बनावे, खुराक २ गोलीसे ४ तक ।

दवा ३.

दो मासे मीठा तेल शक्कर मिलाके पीना मुफीद है बकरीकी मेंगनी लड़केके पेशाबमें जोश देके कपड़ेपर लगाके तिला करे ।

अथ पेटके कीड़ोंका इलाज

ये कीड़े आंतोंमें पैदा होते हैं, एक दो दिन दूध पीके ये गोली खावे—सोनामक्खी ५ तोले, गुलकंद ५तोले दोनों हडका बक्कल दो तोले, सोंठ और मुनक्का एक२ तोले शहदमें मिलाके गोली बनावे, खुराक १तोला रोज ।

दवा १.

अजमोद, बिरंग, काबुली, नमक लाहौरी, जवाखार हडका बक्कल, पीपल सोंठ ये सब दवा बराबरले और हींग भूनके एक दवासे आधी ले फिर कूट छानके खुराक ६ मासे निराहार खावे, पेटके कीड़े मर जावें ।

दवा २.

कमीला हींग, पोदीना, बायबिडंग, नमक लाहौरी बड़ी हड़का बक्कल ये सब दवा बराबर ले कूट छान कर

जंगली बेरके समान गोलियां बनावे। खुराक ९ मासे रोज निराहार पानीके साथ खावे. बहुत मुफीद होगी।

अथ कांच निकल आने का इलाज

यह बीमारी अक्सर बच्चोंको वाद दस्तोंके हो जाती है।

दवा १.

पुरानी चलनीका चमड़ा जलाके उसकी राख लगावे।

दवा २.

पहले घी लगावे फिर लसोढ़े जलाकर उसकी राख लगावे।

दवा ३.

अपने पेशाबसे आबदस्त लेना फायदा करता है।

दवा ४.

आमकी पत्ती और छाल,जामनकी पत्तीऔर छाल कूट जोश करे फिर पानी छानके आबदस्त करावे।

दवा ५.

बकरीका सुम जला दे माजू,अनारके फूल,अनारके छिलके, फिटकरी भूनके बराबर कूट छानके छिड़के।

अथ पेचिशका इलाज

यह बीमारी नाफ टल जानेकी है।

दवा १.

पेचिश खून और बलगमके इस हालको मुफीद है

२० मासे मड़ोडफली पानीमें भिगोके हाथसे मलके साफ करके पिलावे।

दवा २.

सांकरकी फली पकाकर चांवलके साथ खावे।

दवा ३.

फालसेकी जड़ कूटके रातको पानीमें भिगो दे, सबेरे उसका लुआब निकालके १ तोला ईसबगोल फांकके पीजावे।

जवारिश ४.

मड़ोड और बवासीरके वास्ते मुफीद है। काली जीरी ४ तोले, हड़ ४ तोले हालों १ तोला इनको घीमें भूनके पीसले और खांडके किवाममें मिलाके ऊपरसे ६ मासे मस्तगी मिला दे, खुराक २ तोले रोज।

सफूफ १.

पेचिशके वास्ते मुफीद है। गोंदकीकर ईसबगोल, तुख्मरीहां, निशास्ता सब बराबर तोले लेके पीसके खुराक २ तोलेसे ४ तक।

सफूफ २.

खूनके वास्ते मुफीद है। बेलगिरी १ तोला कुराकी छाल २ तोले, सौंफ १ तोला छोटी हड़ १ तोला, ईसबगोल ६ मासे, मिश्री ३ मासे। पहले तीन तोले हड़को

घीमें भून ले फिर इसबगोलको छोड़के और दवाको कूट छानके मिश्री और ईसबगोल मिलावे फिर ७ मासेसे १ तोला तक खावे ।

दवा ३.

छोटी हड़ और सौंफदोनोंको घीमें भूनके पीस ले और मिश्री मिला १ तोलाके रोज खावे ।

अथ दमेका इलाज

वह बीमारी बुढ़ापेमें बलगमके जोरसे हो जाती है, मगर इसके इलाजसे आदमी गाफिल न रहे ।

गोली १.

हल्दी १ तोला, राई १ तोला, लालसज्जी १ तोला, गुड़ ४ तोले कूटछानके बेरके बराबर गोली बनावे, १ सबेरे १ सांझको खावे मुफीद है ।

गोली २.

मदारकी कली जो खिली न हो दो हिस्से, लाहौरी नमक एक हिस्से पीसकर झडबेरी बेरके बराबर गोली बनावे, खुराक १ गोली रोज ।

गोली ३.

कालीमिर्च २५, मदारका पत्ता १ पीसकर काली मिर्चके बराबर गोली बनाकर ७ गोली रोज खावे ।

गोली ४.

सज्जी सफेद, एलुवा, कालीमिर्च, हल्दी कूट छानकर गोली बनावे, खुराक १ गोली ।

दवा १.

मदारके पत्ते जो पेड़से होकर गिर पड़े हों ले आवे सवापाव तौल ले और चूना एक तोला, नमक सांभर एक १ तोला पीसकर उन पत्तोंपर लगाकर सुखाले फिर मिट्टीके बर्तनमें रखकर उपलेकी आगमें एक पहरतक जलावे जब राख हो जाय तब १ रत्ती रोज पानमें खावे और दही, दूध, खटाई, लाल मिर्च न खावे ।

दवा २.

जाड़ेके दिनोंमें मदारकी कोंपल पानमें रखकर तीन दिनतक १ कोपल खावे. चौथे दिनसे आधी कोंपल चालीस दिनतक बढ़ाता जावे, जल्दी आराम होगा ।

दवा ३.

तम्बाकूका गुल आगमें जलाकर जब सफेद हो जावे तब दो रत्ती पानमें रखके खाया करे, खटाई और बादी चीज न खावे ।

दवा ४.

बहुतसा तम्बाकूका गुल आगमें जलाकर एक बर्तनमें पानी भरकर उसमें घोल दे और एक रातदिन

रहने दे फिर साफीमें छानकर पानी बर्तनमें करके आगपर जोश दे जब वह नमकसा हो जावे तब २ रत्ती लेके पानमें खाया करे, बहुत मुफीद है।

दवा ५.

फीटकरीको भूनकर और मिश्री बराबर लेकर पीस ले, खुराक एक मासेसे ६ मासे तक खावे तथा मकड़ीका जाला साफ करके गुड़में लपेटकर खावे, कै होती है लेकिन मुफीद है।

दवा ६.

गन्धक ७ मासे मिश्री ७ तोले शहदमें मिलाके २ मासे पानपर मलकर खावे।

दवा ७.

बारहसिंगेका सींग आगमें जलाकर उसकी राख पहले दिन २ चावल फिर जियादा कर दे, गरम बहुत होता और बीस मन कोयलेकी आगमें जलेगा अगर गरमी बहुत करे तो न खावे।

दवा ८.

मदारकी छाल ३ तोले, छाल सहिंजना ३ तोले, जवाखार १ तोला, पीपल ३ तोले, तूतिया ३ मासे पहले नीलेथोथेको भून ले फिर सबको बारीक पीसके १ मासा सबेरे १ मासा सांझको खानेके पीछे खावे और परहेज करे।

दवा ९.

लाहौरी नमक पहले दिन २ मासे पीसके सोते वक्त खावे फिर आधमासे रोज बढ़ाते जावे ६ मासे तक, इसपर पानी न पीवे, अगर प्यास मालूम हो तो गरम पानी पीवे।

शर्बत तम्बाकू १०.

इसके लिये मुफीद है। तरकीब—पावसेर तंबाकूका अर्क और पावसेर गुड़का किवाम करके खुराक १ दामसे २ तक।

चटनी ११.

खांसी और दमेके वास्ते मुफीद है। अलसी और ईसबन्द दो तोले पीसके ४ तोले शहदमें मिलाके १ तोला खावे।

अथ इलाज पसली जो लड़कोंको बीमारी हो जाती है

इसमें तप और खांसी और पसलीका दबना जरूर है और दो किस्में हैं एकमें तप होती है और दस्त हो जाते हैं मुनासिब है कि अमलतास, उन्नाब 'मुनक्का, बनफ्शा, जोश देके पिलावे। दूसरा बलगमके साथ—इसमें तप और साँसका करार नहीं होता बल्कि खौफका मुकाम है।

गोली १.

एक करंजबेकी गिरी और नीला थोथा एक रत्ती पीसकर सरसोंके बराबर गोलियाँ बनाके एक गोली बालकको खिलावे मुफीद है।

अथ हैजेकी दूसरी दवा

छोटी इलायचीके छिलके २ तोले लेके १ सेर गुलाबपानीमें जोश दे जब आधा रह जाय तब कपड़ेसे छानके पीवे तो उलटी, जुलाब बन्द हो और थोड़ी अफीम डालकर पिलावे तो कलेजेकी जलन दूर हो।

तीसरी दवा

पेठेके फूल ६ मासे पानीमें पीसके पीवे तो हैजा दूर हो जावे।

चौथी दवा

लालमिर्चका बीज १ मासा, मोम अच्छा २ मासे एकमें मिलाकर खावे शरीरकी गरमी, पेटकी जलन दूर हो।

पांचवीं दवा

नींबूका रस ३ तोले, अफीम आधा मासा, चीनी २ तोले १ पाव पानीमें शर्बत बनाके पीवे तो कलेजेकी जलन व उलटी बन्द हो।

अथ बावले कुत्तेके काटनेका बयान

जिस मनुष्यको बावला कुत्ता काटे उस मनुष्यके

थोड़ी देर पीछे तमाम शरीरमें विष फैल जाता है और उसके जीनेकी उम्मेद नहीं रहती है और इस मरीजकी दवा करनेमें देर न करे, बहुत जल्दी तदबीर करे और उस घावका खून निकालके लहसुन सिरकेमें पीसकर लेप करे और जो पानीमें डरे, और देव बरसतेमें गर्जना सुनकर डरे तो वह मनुष्य अवश्य मरे।

दवा

लसोढ़ेके पत्ते १ तोला, कालीमिर्च १ मासा, आधपाव पानीमें पीसके पिलावे ९ दिन तथा १९ दिन इसी विधि प्रमाण।

दूसरी दवा

जीरा १ मासा, मिर्च १ मासा, आधपाव पानी में १० दिन पीवे।

लेप

जिस जगह कुत्ता काटे उस जगह पर पियाजका रस शहदमें मिलाकर लेप करे तो घाव जल्दी अच्छा हो।

दूसरा लेप

कुचला आदमीके पेशाबमें पीसके लगावे और कुचला शराबमें पीस गरम करके लेप करे तो आराम हो।

अथ खानेकी दवा

शुद्ध कुचला, शुद्ध तेलिया, चौकिया सोहागा शुद्ध ये

तीनों दवा बराबर लेवे, खरल करके रत्तीभर खानेको देवे तो परमेश्वरकी कृपासे २१ दिनमें सब जहर कुत्तेका दूर हो।

अथ शिरके गञ्जका इलाज

पैपायश इस बीमारीकी सौदावी है और अक्सर लड़कपनके जमानेमें रतूबत गालिब होता है। जोंकें लगाना मुफीद है और जिसके मां बापको यह बीमारी होगी तो शायद उसके बच्चेको भी हो जावे।

दवा १.

आंवला जलाके पोस्त खशखशमें दो कमीला, तूतिया, सुहागा, भड़भुञ्जेके छप्परका धुआं भट्टीकी राख सबको कूट छानकर सरसोंके तेलमें लगावे।

तिला २.

गधेकी लीदका तेल गंजको मुफीद है।

दवा ३.

राई आधी भूनके और आधी कच्ची पीसके तेलमें मिलाके लगावे।

दवा ४.

मेहँदीकी पत्ती ४ तोले, बावची, मुरदासींग, कमीला, कत्था, सुहागा, हरएक दो २ तोले और तूतिया ३ मासे कूट छानकर तेलसे मिलाकर लगावे।

तिला ५.

पोस्त, हल्लेह काबली, कत्था, जीरा, कायफल हरएक १ दाम, तूतिया आधा दाम, कूट छानकर लगावे ।

दवा ६.

कबीला, कत्था, गेरू शोरा, तूतिया, एक २ तोले, मुरदारसींग, काली मिर्च दो दो तोले मेहंदीकी पत्ती एक तोले सरसोंके तेलमें गरम करके लगावें ।

दवा ७.

अरंडीकी कोंपल कूटके उसमें थोड़ा तेल मिलाकर लगावे ।

दवा ८.

पुराने जूतेका तला जलाकर थोड़ा तेल मिलाकर लगावे बहुत मुफीद है ।

गोली ९.

एलुवा और जमालगोटा बराबर लेके लोहेके वर्तनमें बछियाके पेशाबमें पीसकर मूँगके बराबर गोली बनावे और जैसी ताकत हो देवे

गोली १०.

कबीला ८ मासे, हींग १ मासा कूट छानकर दहीके पानीमें काली मिर्चके बराबर गोली बनावै दूध पीनेवाले बालकको १ गोली देवे या जैसी ताकत हो वैसी देवे।

अथ जोड़ोंके दर्दका इलाज

इस बीमारीमें फस्दका खुलवाना और कै कराना और मुंजिस और मुसहिलका पिलाना मुफीद है।

जुशांदा

दर्द कमरको मुफीद है। अंजीरकी छाल, सोंठ, धनियां सब बराबर ले और कूटके रातको पानीमें भिगो दे, सबेरे जोश देके थोड़ा पानी रह जावे तब पिला देवे

हलुवा २.

कमरके दर्दको मुफीद है। सोंठ; अरंडी छीलके गिरी निकालके फिर दोनों चीजें २ तोले लेके पीसले। पहले पावसेर घीमें गिरीको भून ले आधासेर दूधमें मिलाके जोश दे, दूधका मावा भुन जावे तब खांड डालकर हलुवा पकावे। खुराक जैसी ताकत हो वैसी देवे

गोली ३.

तमाम बदनके दर्दके वास्ते जिसको हडफूटन कहते हैं मुफीद है। दोनों हडका बक्कल, काली मिर्च, सोंठ, करंजवाकी गिरी; काली जीरी सब एक २ तोला, मुनक्का ९ तोले कूट छानकर गोली बनाके खुराक ३ तोले रोज देवे।

दवा ४.

बलगम और बायके दर्दको मुफीद है। मालकांगनी पहले दिन १ दाना निगले, इसी तरहसे सौ दिनतक

१ दाना बढ़ाता जावे और गरम जियादह करनेसे दिलमें गरमी मालूम हो तो उसी दिनसे बढ़ावे नहीं, बल्कि कमती कर दे ।

दवा ५.

करेलेकी लकड़ी जलाके २ मासे थोड़े घीके साथ खावे।

दवा ६.

बायके दर्दको मुफीद है एक मासे खासनके बीज खावे

दवा ७.

शोरा कलमी २ मासे, कतीरा ६ मासे, २१ मासे शहदमें मिलाके तीन दिनतक खावे और २ मासे मीठे तेलमें मिलाकर कमरपर लेप करे, दर्दको फायदा करे ।

दवा ८.

शक्कर और खोपरा दर्द कमरको मुफीद है ।

दवा ९.

महुवाका तेल कोल्हूमें निकलवावे और रंग उसका घीके मानिन्द होता है । कमरके दर्दको बहुत मुफीद है ।

अथ सब तरहके जख्म याने घावका इलाज

जिसमें पीब निकले उनको जख्म कहते हैं और चालीस दिन बाद नासूर हो जाता है ।

दवा १.

सिरसकी छाल सुखाके पीसके छिड़के ।

दवा २.

मुर्गीका पर जलाके घावपर छिड़के ।

दवा ३.

गधेका मांस जलाके घावपर लगावे ।

दवा ४.

कछुवेका शिर जलाके उसकी राख घी लगाके छिड़के।

दवा ५.

साबुन और गेरूको पीसके लगावे ।

दवा ६.

हलदी पीसके छिड़के ।

दवा ७.

फिटकरी भूनके पीसके लगावे और गंदेमांसको दूर करे।

दवा ८.

कमल और बड़ के पत्ते जलाकर राख जलमें मिलाके लगावे ।

दवा ९.

गुड़ जख्मपर बाँधनेसे बहुत जल्दी मवादको निकालता है ।

रोगन १०.

घावको भरलावे। सम्भालू, फरांश, चँबेली, धतूरा इनके पत्ते एक२दिरम और मीठा तेल आधासेर पहले पत्तोंको पीसके कडाहीमें तेल डालके पत्तोंकी टिकिया डाल दे, जब जल जावे तब तेलको कपड़ेसे छानके बोतलमें भर ले काममें लावे।

रोगन ११.

घावको भरनेके वास्ते मुफीद है। नीमके पत्ते १० तोले, कनेर २० तोले, वकायन ८ तोले सबको पीसकर टिकिया बनावे और आधासेर मीठा तेल तथा १४ तोले मोम कडाहीमें डालके जोश दे फिर उन टिकियों को डालकर जलावे और छानके बोतलमें भर ले, यह रोगन कानके दर्दको मुफीद है।

रोगनकमीला १२.

घावको जल्दी भरता है और थोड़े दिनमें अच्छा करता है। १० तोले कमीला ३ दफे पीस (फटके) १ तोले कड़के (कडवे) तेलमें मिलाके कपड़ेमें छान रुईका फोया तर करके घाव पै रख दे।

अथ रोगन मिलावाँ

कई किस्मके घावको अच्छा करे। १० तोले तिलके तेलमें मिलावे, जलाके छानके उस ३ तोले सेलखड़ी

पीसके मिला दे, जब घाव पै लगावे तो मुरगीके परसे।

अथ कुचलेका तेल

नासूर और शिरके गंज तथा अकोतको मुफीद है।

अथ सबतरहके मरहमकी तरकीब और फ़ायदा

मरहम कोंच १.

जख्मको जल्दी भरता है। पावसेर मीठे तेलको लोहेके बर्तनमें गरम करके उतार ले, फिर कोंचगिरी पीसके मिलावे और नीमके नरम पत्ते पीसके टिकिया बनाके तेलमें जलावे, पीछेसे ७ तोले मोम डालके आग से उतारके छान ले।

मरहम २.

यह मरहम पानीसे बनता है पानी घावपर नुकसान नहीं करता बल्कि नासूरको भरता है। गूगर २० मासे, पारा २० मासे, रसोत ३ तोले ४ मासे, पहले गूगर और रसोतको पानीमें पीस ले फिर पारा मिलाकर एक खरलमें पीसे और काममें लावे।

मरहम ३.

यह भी पानीसे बनता है। घाव और नासूरके वास्ते मुफीद है। राल, १० तोले, घी १० तोले और कत्था-फिटकरी, नीलाथोथा, हर एक १९ मासे रालको पीसके

घीमें मिलाकर थोड़ा पानी डालके २ घड़ी तक हाथोंसे मलके फिर और दवा पीसके मिलावे और काममें लावे।

मरहम ४.

राल ३॥ मासे, कोंच ६॥ मासे, शिगरफ १ मासा, मुरदारसिंग १ मासा और सरसोंका तेल ३॥ तोले पहले सब दवा जुदी २ बारीक कूट छान ले फिर कौंचके तेलमें जलावे फिर नीमके पत्तोंकी टिकिया जलावे और छानके बाकी चीजोंको डालके हल करे और काममें लावे।

मरहम ५.

बिवांईके वास्ते मुफीद है। राल १ तोला, घी १ तोला, मोम ३ मासे, घीको गरम करके मोमको मिलावे फिर राल डालके मिलावे और पांव धोके लगावे।

मरहम ६.

किम्बुख्त (एक चपड़ा है), सुपारी, हडकी गुठली इनको जला ले और मदारकी कोंपल भी जलावे। मुरदारसिंग और कत्था पीस ले तौलमें सब एक २ तोले और ४ तोले घी गरम करके मिलावे, सब तरहके घावको मुफाद है।

मरहम ७.

राल ६ मासे, हिरमजी मिट्टी ६ मासे, नीलथोथा २ रत्ती पीसकर मीठे तेलमें मिलाकर लगावे।

मरहम ८.

सब तरहके घावको बल्कि आतशकके वास्ते भी मुफीद है। मोम १ तोला, राल १ तोला, कत्था १ तोला पहले मोमको पिघलावे फिर राल पीसके मिलावे फिर तीन जोश देके कत्था डालके मिलावे और ऊपरसे ४ मासे काफूर पीसकर मिलावे, बहुत ही मुफीद है।

मरहम ९.

राल २ तोले, मोम १ तोला, रोगन ४ तोले ये चीजें डालके उसे पकावे मुफीद है।

अथ उबकाईका आना और जी मिचलानेका इलाज

उबकाई कहते हैं कि कै के वास्ते हरकत हो मगर कोई चीज न निकले, और कै उसको कहते है कि कुछ चीज खराब मुँहसे बाहर निकले; लेकिन मिचलीका होना जरूर है तब बादमें कै होगी।

दवा १.

थोड़ी गेरू आगमें गरम करके दो तीन बार पानी में बुझाके पिलावे।

गोली मिचलीके वास्ते २.

कपूरकचरी पीसके मूँगके समान गोली बनावे और तीन चार गोली खिलावे, मुफीद है ।

दवा ३.

रीठेकी गिरी चार घड़ी पानीमें भिगो दे फिर चाबे।

गोली ४.

झडबेरीकी गुठलीकी गिरी २ तोले, तुलसीकी पत्ती २ तोले, मिश्री २ तोले, कालीमिर्च १ तोला कूट छानके पानीमें बेरके समान गोली बनावे; और १ गोली खिलावे मिचलीको मुफीद है ।

दवा ५.

उस कै के वास्ते कि जो शराबके सबबसे हो बहुत मुफीद है । सांठीके चावल पानीमें भिगोके थोड़ा गुड़ मिलाकर पिलावे अगर मीठा न डाले तो बहुत जल्दी फायदा करे ।

जवारिश इलायची

कै को रोकती है और हाजिम है ।

शर्बत अनार

कै को बंद करती है ।

अथ हैजेका इलाज

जब गिजा पेटमें खराब हो जावे तो उसको कै और

दस्तसे निकाले और प्यास या मिजाजपर गरमी या हरी कै हो तब गरम दवा न दे और गुलाब या अर्कमको या अर्कसौंफ बजाय पानीके देवे।

अथ गोली

मदारकी जड़ दो तोले अदरखका अर्क २ तोले पीसके मिर्चके समान गोली बनाके १ गोली खिलावे बहुत मुफीद है।

अथ दवा हैजेकी बीमारीको

नरकचूरको लेकर पानीमें मसलकर थोड़ा पिलावे तो उलटी और दस्त बंद हो, छातीका उलझना दूर हो कलेजेकी गरमी शांत हो और नासूरको भी भर लाता है।

अथ मरहम असली

यह मरहम सब किस्मके घावको मुफीद होगा।

अथ तरकीब

मोम २ तोले, राल ४ तोले सिंदूर ६ मासे कौंचके बीज ६ मासे, तेल अलसीका १० तोले पहले तेलको आगपर रख दे फिर मोमको डाल दे फिर सिंदूर और राल पीसकर मिलावे और कौंचके बीज भी मिलाकर इतनी आंच दे कि तेल दश तोलेका पांच छः तोले बाकी रह जावे फिर काममें लावे। यह मरहम घोड़की पीठके वास्ते बहुत फायदा देता है अगर कारबोलिक तेल (जोअंगरेजी दवा फरोंशोंकी दूकानसे मिलती है)

पहले घावपर चुपड़कर फिर इस मरहमका फोया लगाया जावे तो बहुत जल्दी आराम करेगा, लेकिन दिनमें एक दफे या दो दफे नीमके पानीसे जख्मको धोया करे पीछे इसे लगावे ।

अथ कुश्ता बारहसिंहेका

यह कुश्ता दमें-श्वासके लिये मुफीद देखनेमें आया है।

तरकीब

सींग बारहसींगेका ५० तोले, दूध आकका २० तोले पट्टा घीकुवाँरका ५० तोले, पहले इन तीनों चीजोंको एक मिट्टीकी हांडीमें भरके आठ दिन तक रख छोड़े लेकिन सींगके छोटे छोटे टुकड़े कराले फिर प्रथमकी हिकमत करके लोहेकी पेंचकी भट्टीमें रखवा दे जिसमें लोहा गलाया जाता है। जबतक २० मन कोयलाकी आगमें न रक्खा जावे तबतक कामका नहीं है फिर आगसे निकालके देखे जब खीलकी तरह खिल जावे तो मलाईके साथ एक चावल रोज खावे। अगर गरमी मालूम हो तो लुआब बिहीदाना और गाजुवां रातको पानीमें भिगो दे सबेरे मिश्री मिलाकर पिया करे।

कुश्ता सोनेका

ताकतके वास्ते मुफीद है।

कुश्ता चांदीका

श्वासकी बीमारीको बहुत मुफीद है।

कुश्ता रांगका

यह भी कुव्वतबाहके वास्ते मुफीद है। अगर तरकीबसे दिया जावे तो जुजाम और गठियाको भी फायदा देगा।

कुश्ता पारेका

यह कुश्ता खाम न हो और किसी हकीम कामिलकी तरकीबसे खाया जावे तो बहुत बीमारियोंके लिये मुफीद होगा।

अथ मिर्गीका इलाज

यह बीमारी भी बहुत खराब है और इस बीमारीवालेकी कोई चीज जूठी खानी न चाहिये, और पानीके देखनेसे इस बीमारीका दौरा बहुत जल्दी होता है।

दवा १.

घूसका दिल (कलेजा) निकालकर और सात टुकड़े करके एक टुकड़ा आगपर भूनके रविवारके दिन खिलावे, इसी तरहसे सात रविवार तक करे, फायदा हो।

दवा २.

गिलहरीका मांस आगपर भूनके खिलावे।

दवा ३.

पिलास पापड़ा पानीमें पीसके नाकमें टपकावे, उसी दम बीमार होशमें आजावेगा।

दवा ४.

जदवार जिसको निरबिसी कहते हैं ४ रत्ती औरतके दूधमें पीसके बालकको दे,बहुत जल्दी आराम होगा ।

दवा ५.

नेवलेका मांस भूनके खिलावे, मुफीद है ।

अथ जुजामका इलाज

यह बीमारी सौदवी है और अपनी जगह कर लेती है तो मुश्किलसे आराम होती है । अव्वलमें फस्त और मुसहिल लेना जरूरी है बल्कि हर महीनेमें जुलाब देना चाहिये और गम, रंज और जागनेसे बचावे अगर खुश्की जियादह हो तो जो चीजें रतूबत असलीको तहलील करें उनसे परहेज करे और इस बीमारीके वास्ते दूध बकरीका बहुत मुफीद है ।

दवा

हरतालका कुश्ता बहुत मुफीद है । आधा रत्ती पान में रखके खावे,पचास दिनमें अपना फायदा दिखावे ।

तरकीब

१ दाम हरताल अण्डेकी सफेदीमें मिलाके गोली बनाके मट्टीके सकोरेमें रख दे फिर १ सकोरेमें बन्द करके कपड़ौती करके सुखावे फिर ४ पहर आगमें रख दे कुश्ता हो जावेगा ।

सफूफ

जुकामको मुफीदहै फूल, पत्तियां, फल, जड़, और छाल पुराने नीमकी हरएक आध आध सेर कालीमिर्च पोस्त; हल्लेह, जर्द, बहेड़ा, आंवला, बावची हरएक पावसेर कूटछानकर सफूफ बनावे, खुराक ८ मासेसे १६ मासे तक मँजीठकेजुशांदेकेसाथ चार महीने तक खावे;गोस्त और नमक तथा गरम चीजोंसे परहेज करे।

दवा

बबूलकी छाल दो दाम कूटके पानीमें भिगोदे सबेरे मल छानकर पिला दे।

दवा

नीमके पेड़का मद जो निकलता है बदन पर उसका मालिश करना मुफीद है।

दवा

नीमके फूलोंका अर्क इसके वास्ते मुफीद है।

दवा

मेंहदीकी पत्ती ४० दिन पानीमें भिगोके मीठा मिलाकर पिलावे मुफीद है।

दवा

सिरसकी पत्ती १ दाम, कालीमिर्च२मासे हर रोज पानीमें पीसके ४ दिन तक पिलावे।

अथ शीशमका शर्बत इस बीमारी के वास्ते मुफीद है । तरकीब-

यह है कि, इसकी लकड़ीका बुरादा पावसेर, तीन सेर दरियाके पानीमें आठ पहर भिगो दे फिर जोश दे जब आधा पानी जल जावे तब और नरम आग करे फिर जब पावसेर पानी रह जावे तब तीन पाव खांड डालके किवाम पकावे और खुराक सबेरे सांझमें ६ तोले चालीस दिनतक पिलावे, मुफीद होगा ।

अथ तरकीब बाल बढ़ानेकी

बालकी पैदायश खूनसे है । जब आदमीके बदन में खून कमती होता है तब बाल भी नहीं निकलते हैं ।

दवा १.

हाथीदांतका बुरादा जलाके राख कर ले फिर बकरीके दूधमें मिला मले, बाल जमें सही ।

दवा २.

काला दाना पानीमें पीसके लगावे ।

दवा ३.

नींबूका रस और आंवला पानीमें पीसके मले, सबेरे के वक्त तिलीका तेल मलके पानीसे धो डाले ।

अथ नुस्खे खिजाबके

बुढ़ापेमें जो बाल सफेद हो जाते हैं इन दवाइयोंके लगानेसे काले बाल हो जावेंगे मगर कयाम कम है।

दवा १

चूना, मुलतानी, मुरदारसींग बराबर लेके पानीमें पीसके बालोंपर लगावे फिर अञ्जीरके पत्ते उसके ऊपर बांधे, घंटाके बाद खोल डाले और पानीसे धोवे फिर तिलीका तेल मले।

दवा २.

लुहारकी भट्टीकी राख और साबुन दोनोंको पानीमें शीशेके दस्तेसे ४ घड़ी हलकर खिजाब करे।

दवा ३.

माजू ऐसे भूने हुए कि करीब जलनेके हो जावें और ३ तोले सगरासिख, २ मासे नौसादर तीनोंको कूटछान-कर लोहेके वर्तनमें पत्थरके दस्तेसे खूब हल करे फिर बालोंपर मले बाद ४ घड़ीके धोवे।

इति श्रीमुंशी भगवानप्रसादका शिष्य भगत भगवानदास विरचित वैद्यक रसराजमहोदधि दूसरे भाग का चौथा खंड समाप्त ॥ ४ ॥

अथ नवदुग्गर्गचूर्ण

अनारदाना ऽ।, जीरा स्याह १५ मासे, जीरा सफेद ३० मासे, सोंठ १५ मासे, तंतरीक १५ मासे, हड़का बकला १५ मासे, छोटी हड़ १५ मासे निसोत १५ मासे लाहोरी नोन ३ मासे इन सब औषधियोंको कूट पीस कपड़छानकर चूर्ण बनावे फिर नित्य भोजनके पश्चात् तीन मासे खाय तो मन्दाग्नि जाय और भूख बढ़े ।

अथ दूसरा चूर्ण

पोस्त, हड़ सोंठ इन सबको बराबर ले फिर सौंफ और हड़को खाली घृतमें भूनले और फिर उन दोनोंको भी मिला दे। पैसाभर नित्य पांच दिनतक ठंढे पानीसे खावे तो आंव, लोहू और मरोडा सब दूर हों।

अथ बाईका चूर्ण

सोंठ, पीपल, सनाय, हड, बहेडा, आँवला, चीता, सेंधानमक, सांभरनमक, खारीनमक, काली मिर्च, निसोत, पोदीना, सौंफ अनारदाना हींग १ मासा, अजवायन, अजमोद, मेथी, तोलिया सुहागा, हींगको छोड़ और सब दवाइयां :छः २ मासे ले फिर सबको कूट पीस नीबू और अदरखके रसमें गोली बनाके एक तथा दो नित्य खावे तो वायुके सब विकारोंको दूर करे।

पाचन चूर्ण

हड़, आंवले चीता, पीपल, सेंधानोन इन पांचों औषधियोंको बराबर ले फिर कूट पीस चूर्ण बनावे, फंकी गरम पानीसे करे तो सब उदर-विकारोंको दूर करे और पाचन करे, भूख बढ़ावे।

वायुनाशक चूर्ण

सोंठ२मासे,सुहागा तेलिया २मासे, पीपल२ मासे, कालीमिर्च २ मासे, हड़ ६ मासे, पांचों नोंन ५ तोले और अजवायन ६मासे इन सब औषधियोंको कूट पीस सहँजनेके रसमें गोली बांधे फिर एक तथा दो नित्य खावे तो चौंसठ तरहके वायुको दूर करे।

अथ अग्निदीपक चूर्ण

पारा १ टंक,सुहागा २ टंक, गन्धक १टंक, मीठातेलिया ३ टंक, शंख ४ टंक,कौड़ी जर्द जली हुई ४ टंक, सोंठ १ टंक काली मिर्च १ टंक नींबूके रसमें सात पुट देकर मूँग बराबर गोली बांधे फिर नित्य खावे तो अजीर्ण, मन्दाग्निको दूर करे, क्षुधाको बढ़ावे और अर्द्धांगशूल विसूचिका इन सब रोगोंको दूर करे।

अथ नागरादि चूर्ण

सोंठ, मोथा, अजवायन, जावित्री, तज, पत्रज, श्वेतजीरा, काला जीरा, पीपल, काली मिर्च, जायफल,

आंवला, चीता और लौंग इन सब औषधियोंको बराबर ले कूट पीस छान चूर्ण बना नित्य खावे तो अनेक गुण करे।

अथ अमृत चूर्ण

हड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, लौंग, जावित्री, बायबिडंग, जायफल, सफेद जीरा, धनियाँ अजवायन, अनारदाना और पांचों नोन इन सब औषधियोंको बराबर ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर नित्य खावे तो बहुत गुण करे।

अथ ज्वरका चूर्ण

आंवला, चीता, हड़, पीपल और सेंधानमक इन सबको बराबर ले कूट पीस छान चूर्ण बना गरम-पानीसे फांका करे तो सब ज्वरोंको दूर करे।

आमवात और शूलका चूर्ण

सोंठ, हड़, बायबिडंग, सेंधानमक और पीपल इन सबको कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर टंक प्रमाण खावे तो तीन दिनमें आमवात जावे।

अथ हिंग्वाष्टक चूर्ण

हींग १ तोला, अजमोद ३ तोले, जीरा ३ तोले, सोंठ तीन तोले, कालीमिर्च ३ तोले, पीपल ३ तोले, सेंधानोंन १ तोला और सांभरनमक १ तोला इन सब औषधियोंको कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर भोजनके

ग्रासमें घृत और चावलके साथ खावे तो शूल, अर्धाङ्ग और अजीर्ण सब रोगोंको दूर करे और भूख बहुत लगावे।

अथ वायुका चूर्ण

सोंठ, मिर्च, पीपल, हड़, सहँजनेके बीज और लौंग इन सब औषधियोंको एकत्र कर सहँजनेके रसमें बेर प्रमाण गोली बांधे, फिर नित्य खावे तो चौसठ वायु और बहत्तर शूलोंको दूर करे।

अथ वायुका दूसरा चूर्ण

पीपल, सौंफ, लौंग, लौटक, सज्जी, सैन्धानोन इन सब औषधियोंको तोले तोले भर लेकर कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर नित्य खावे तो वायुको दूर करे।

अथ वायुका तीसरा चूर्ण

लौंग, इलायची, तज; पत्रज, तगर, कंकोल, काला अगर, नागकेसर, जायफल, सोंठ, जावित्री, सफेद जीरा; स्याह जीरा, सौंफ, पीपल, मिर्च, पुष्करमूल, नरकचूर, हड़, बहेड़ा, आंवला, चीता, तालीस, देवदारु, धनियां, अजवायन, मुलैठी, वंशलोचन, अजमोद, काकडाशिंगी पीपलामूल, भूनी हींग; मोथा, अतीस और शतावरी इन सब औषधियोंको तोला तोला भर लेकर पीस छान चूर्ण बनावे और उसमें बराबरकी मिश्री मिलावे, फिर

प्रातःसमय नित्य खाय तो वायुको दूर करे तथा और भी अनेक गुणोंको करता है।

अथ सुदर्शन चूर्ण.

हड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, हल्दी, दारुहल्दी, गिलोय, कूट, मोथा, जवासा, काकडाशृंगी, कटहरीकी जड़, पीपरामूल, कचूर, बच, पुष्करमूल, मुलहठी, कुडाकी छाल, सौंफ, कमलगट्टा, इन्द्रयव, देवदारु, मँजीठ, पद्माख, खस, तज, गोखरू, सालममिश्री, अजवायन, अतीस, बेलगिरी, पत्रज और चीता, इन सब औषधियोंको तोला तोला भर ले पीस कूट चूर्ण बनावे फिर गरम जलसे फंकी करे तो सर्वज्वरोंको दूर करे तथा इससे सन्निपात, अजीर्ण, शूल और विसूचिका भी जाय।

अथ लवंगादि चूर्ण

लौंग, अगर, कपूर, कमलगट्टा, सफेद चन्दन, स्याह जीरा, सफेद जीरा, खस, इलायची, मोथा, जटामांसी, तगर, वंसलोचन, पीपल, कंकोल, काली मिर्च, जायफल, तज और नागकेशर इन सब औषधियोंको तोला तोला भर ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे और आधी मिश्री मिलावे फिर ३ मासे नित्य फंकी करे तो इतने रोग जायँ—मन्दाग्नि १, त्रयोदशवायु २, पित्त—कफ ३,

कंठ रोग ४, कास ५, श्वास ६, अतीसार ७, गुल्म ८, प्रमेह ९ और संग्रहणी १० ।

अथ भास्कर चूर्ण.

पीपल, पीपरामूल, सांभरनोन, काला नोन, सफेद जीरा, स्याह जीरा, वायबिडंग, पत्रज, तालीस, चव्य, कालीमिर्च, सौंफ, तज, इलायची और अनारदाना इन सब औषधियोंको ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर नित्य खावे तो उदरके सब विकारोंको दूर करे और गरम जलसे फांके तो अजीर्ण सन्निपात जाय।

अथ चन्दनादि चूर्ण.

चन्दन, लौंग, कपूर अगर, कमलगट्टा, सफेद जीरा, स्याह जीरा, अनारदाना और काला नमक इन सब औषधियोंको २ तोले भर ले कूट पीस, छान चूर्ण बनावे फिर नित्य खाय तो उदरके सर्व विकारोंको दूर करे।

अथ गंगाधर चूर्ण.

मोथा सोंठ, इंद्रयव, धवईके फूल, लोध, मोचरस, पेठेके बीज, राल लजालूकी जड़, अतीस, पोस्त इन सब औषधियोंको तोला २ भर ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे, फिर चावलके धोवनके साथ फंकी करे तो पेटके रोग, अतीसार और संग्रहणी दूर हो ।

अथ नागकेशरादि चूर्ण.

नागकेसर, चन्दन, लोध, खस, बेलगिरी, मोथा,

इन्द्रयव, सोंठ, अतीस, धायके फूल, सौंफ तीन वर्षकी आंबकी पुरानी गुठली, जामुनकी गुठली, सोचरनोन, कमलगट्टा, मंजीठ, छोटी इलायची, अनारदाना और तज इन सब औषधियोंको तोला तोला भर ले कूट पीस छान चूर्ण करके मिश्री मिलावे फिर चावलके धोवनसे फांके तो संग्रहणी, अर्श बवासीर, अतीसार ये सब रोग नष्ट हों ।

दूसरा चूर्ण.

चीता, हड़, बहेड़ा, आंवला, बायबिडंग और पोलादसार इन सब औषधियोंको तोला तोला भर ले कूट पीस छान चूर्ण करे, फिर ३ मासे शहदमें ३ मासे चूर्ण मिलावे तब खावे तो भगन्दर, बवासीर मन्दाग्नि, अरुचि और अनेक रोगोंको दूर करे ।

अथ पुरुषत्ववर्धक चूर्ण.

अकर करहा, सोंठ ककोल केसर, पीपल, जायफल, लौंग, चन्दन और अफीम मासेभर या ६रत्ती और इन सब औषधियोंको तोले तोले भर ले चूर्ण कर शहदसे संध्यासमय खावे और रात्रिको स्त्रीसेवन करे तो अतिपुष्ट बंधेज हो ।

अथ कर्पूरादि चूर्ण.

कपूर, तज, कंकोल, जावित्री, लौंग नागकेसर, सोंठ, कालीमिर्च और पीपल इन सब औषधियोंको तोला भर

ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे, मिश्री बराबरकी मिलावे फिर तोलाभर नित्य खावे तो श्वास, काश, गुल्म छर्दि इन सब रोगोंको नष्ट करे।

अथ तालीसादि चूर्ण.

तालीस, सोंठ, पीपल, कालीमिर्च, वंशलोचन, छोटी इलायची, तज और खस इन सब औषधियोंको तोला तोला भर कूट पीस छानकर चूर्ण बनावे, बराबरकी मिश्री मिलावे फिर जलसे फांके तो कास, श्वास, तप, संग्रहणी और अतिसार इतने रोगोंको नष्ट करे।

अथ अजवायनादि चूर्ण.

अजवायन, तन्तरीक, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, अमलबेत, अनारदाना, सोंचरनोन, जीरा और बायविडंग इन सब औषधियोंको तोला तोला भरले कूट पीस छानचूर्ण बनावे फिर ३ मासे नित्य खावे तो इतने रोग जायँ—जिह्वारोग, हृदयका रोग, पार्श्व रोग पसलीका फूल कुष्ठ, कास, श्वास, संग्रहणी, रक्तविकार।

अथ बायखाण्डव चूर्ण.

धमासा, जवाखार, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, पेठेके बीज, हड़, बहेड़ा, आंवला, और लोध इन सब औषधियोंको तोले २ भर ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे शहदसे खावे तो कण्ठके सब रोग नष्ट होते हैं।

अथ इलायचीका चूर्ण.

इलायची, लौंग, नागकेशर, झड़बेरीकी मींगी, धानकी खील, तज, नागरमोथा, चंदन, पीपल, भूनी हींग, गेरू, हड; नारियलके जटाओंकी राख और तुलसीपत्र इन सब औषधियोंको एक एक तोला पीस कूट छान चूर्ण बनावे और शहदसे चाटें तो त्रिदोषकी छर्दिको नष्ट करे।

अथ सरस्वती-चूर्ण.

कूट, अजमोद, असगन्ध, सफेद जीरा, स्याह जीरा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च और हल्दी इन सबको एक एक तोला ले कूट पीस छान चूर्ण बना शहदमें चटावे तो बुद्धि निर्मल हो, विद्या आवे।

अथ सिद्धार्थ-चूर्ण.

सफेद सरसों, बच, भूनी हींग, करंजके बीज, देवदारु, मंजीठ, हड, बहेड़ा, आंवला, सफेद चमेलीकी छाल मालकांगनी, तज, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, हींग, सिरसकी छाल, हल्दी दारुहल्दी इन सब औषधियोंको एक एक तोला ले कूट पीस छानकर चूर्ण बना गौके मूत्रसे खावे तो सन्निपात और ज्वर नष्ट होते हैं।

अथ पेटके दुःखका चूर्ण.

पटोल, हल्दी, बायबिडंग, हड़, बहेड़ा, आंवला कमलगट्टा, नीलकी जड़, निसोत इन सब औषधियोंको

एक एक तोला ले कूट पीस छान चूर्ण बनाय दूधसे फांके तो पेटका दुःख दूर हो ।

अथ निंबादि चूर्ण

नींबकी कोंपल, हल्दी, नींबकी छाल, नींबके फूल, नीमकी जड़, नीमके फल,हड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, भारंगी, गोखरू, पुष्कर-मूल, चीता बिडंग, विदारीकन्द, सारकुश्ता, गिलोयका सत, हल्दी, दारुहल्दी, बावची, कूट और इंद्रयव इन सबको तोला तोलाभर ले एकत्रकर विजय सारकी ७ पुट दे और फिर भँगराके रसकी ७ पुट दे फिर खावे तो रक्तपित्त, रक्तवायु, भगंदर, नाड़ी-व्रण, मुखके रोग, दुःख तथा और भी अनेक रोगोंको दूर करे ।

अथ श्रृङ्ग्यादिक चूर्ण

काकडाशृंगी १ तोला, निसगन्ध १तोला, त्रिफला ३तोला, खरेटीकी जड़ १ तोला, भारङ्गी १ तोला, पुष्करमूल १ तोला और नोन ५ तोले इन सबको एकत्रकर कूट पीस छान चूर्ण बनाय गरम जलसे फंकी करे तो इतने रोग जायँ—हड़फूटन, पीनस, नजला, वायु और शरीरके दुःखको दूर करे ।

अथ पथरी मूत्रकृच्छ्रका चूर्ण

बड़की जटा, पीपलकी जटा, खस, चीता, पुराने

आंबकी गुठली, जामुनकी गुठली, चिरौंजी, आलूबुखार धौका गोंद, महुआ, लोध बरनेकी छाल, नींबकी कोंपल पवांडकी जड़, हड़, इन्द्रयव, भिलावां इन सबको एकत्र कर, छान चूर्ण बनावे और शहदके साथ खावे तो मूत्रकृच्छ्र और पथरी जाय।

अग्निमुख चूर्ण

चीता, पाठा लोटक, सज्जी, जवाखार, करंजके बीज, समुद्रफेन, इलायची, पद्माख, भारंगी, बिडंग, पुष्करमूल नरकचूर, दारुहल्दी, निसोत, मोथा, वच, इन्द्रयव हाऊबेर, अनारदाना, त्रिकुटा, भिलावां, अजमोद, अजवायन देवदारु, अतीस, हड़, तिलका, खार सहिंजनेका खार, बावचीका खार, ढाकका खार और कीटी कुश्ता इन सब औषधियोंको तोला-तोलाभर ले एकत्र कर अदरखके रसमें १२ पहर खरल करे फिर दूधके साथ फांके तो गुदाके रोग जायँ। भोजन दूध भात करे।

भगंदरविजय चूर्ण

त्रिकुटा, बच, हींग, पाढ़ा, जवाखार, सज्जी, हल्दी, हड़, चिरायता, इन्द्रयव, चीत, गजपीपल, नमक, पीपरामूल बिडंग, अजमोद, त्रिफला, सफेद जीरा, और स्याह जीरा इन सब औषधियोंको एक एक तोला ले एकत्र कर कूट पीस छानचूर्ण करके, फिर ताते पानीकेसाथ खावेतो वायु, शोध, अर्श, भगंदर, हृदयशूल, पार्श्वशूल अरुचि प्लीहा

प्रमेह, कमलवायु, पांडुरोग, आमवात, संग्रहणी, प्रसूति इन सब रोगोंको दूर करे ।

अथ अतीसारका चूर्ण.

समुद्रशोष, मायी, राल, माजू, पत्रज, जायफल, छोटी इलायची, सेलखडी और बेलगिरी इन सब औषधियोंको तोला तोला भर ले एकत्र कर कूटपीस छान चूर्ण बनावे फिर पानीसे फंकी करे अतीसार जाय ।

अथ संग्रहणी और अतीसारका चूर्ण.

काली मिर्च, पीपल, तमालपत्र, पीपलामूल, इलायची, दालचीनी, जायफल, नेत्रवाला, वंशलोचन और चन्दन इन सबको एकत्र कर तोले भर कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर २ मासे नित्य फंकी करे तो संग्रहणी, पुराना ज्वर, अतीसार सब दूर हो ।

अथ वायुशूलका चूर्ण.

बड़ी हड़का बल्कल, सोंठ, सनाय, गुजराती निसोत, पुराना सौंफ और स्याह नमक इन सब औषधियोंको पैसा पैसा भर ले एकत्र कर कूट पीस छान चूर्ण कर ताते पानीसे फंकी करे तो तत्काल वायुगोला जाय । पथ्य–मूंगकी दाल, भात अथवा रोटी या खिचड़ी खाय; और चीजोंसे परहेज करे ।

अथ कालचूर्णकी विधि

सोंठ १ । पीपल १ । काली मिर्च १ । सफेद जीरा

१। स्याह जीरा १। हींग १। सैंधा नमक १। सांभर-नमक १। कच नमक १। अमचूर सेर भर और चूक ऽ। भर सबको एकत्र कर चूर्ण बना खावे तो पाचन-शक्तिको उत्पन्न करे।

अथ शीतज्वरका चूर्ण.

पीपल, सोंठ, गिलोय, पीपलामूल इनका चूर्ण कर जलसे फंकी करे तो शीतज्वर दूर हो।

अथ तालीसादि चूर्ण.

तालीस, तज पत्रज, इलायची, नागकेशर, सोंठ मिर्च पीपल, पीपरामूल, सारिवाके बीज, त्रिफला, जायफल, जावित्री, पुष्करमूल, चीतेकी छाल, दोनों अजवायन, असगंध, नागरमोथा, वंशलोचन, दोनों जीरे, कलौंजी, धनियां, काकडाशृङ्गी, सार और बंग ये सब औषधि दो दो टंक ले एकत्र कर कूट पीस छानऽ।।। कच्ची खांड मिला बासनमें धर रक्खे फिर टका भर मात्रा खाय तो ज्वर जाय, पित्त पच जाय, भूख लगे, खांसी जाय, बल बढ़े और पुष्टता हो।

अथ तुम्बुरुआदि चूर्ण.

तुम्बरु, सोंचर नमक, सारिवा, अजमोद, जवाखार, पीपल, मिर्च, बच इन सब औषधियोंको तीन तीन टंक ले एकत्र कर पीस कूट कपड़छान कर चूर्ण बनावे, फिर

अधेला भर गरम पानीके साथ खावे तो सात प्रकार के ज्वर दूर हों ।

अथ गुडूच्यादि चूर्ण.

गिलोय, तेजबल, अतीस, मोथा, पीपल, और काकडाशृंगी इनका बराबर चूर्ण कर मट्ठाके साथ दे तो ज्वर, खांसी, अतीसार ये सब रोग जायँ ।

अथ तालीसादि चूर्ण.

तालीस, ब्रह्मदंडी, मोचरस, सोंठ, वंशलोचन, गजपीपल, इलायची और तज ये सब औषध टका टका भर ले चूर्ण कर टका भर खांड मिला अधेला भर खावे तो ज्वर, खांसी, मस्तकशूल, अजीर्ण ये सब रोग जायँ ।

अथ अतीसारपर चूर्ण.

अतीस, गजपीपल, कुड़ाकी छाल, जायफल, इलायची, मोचरस, बेलगिरी, धायके फूल, नागरमोथा, काकड़ाशृंगी और सुगंधवाला ये सब औषध दो दो टंक ले कपड़छान कर पैसे भर शहदके साथ खावे तो अतीसार दूर हो और शूल जाय, रक्त बंद हो ।

अथ तेरहों सन्निपातोंपर सिद्धार्थ चूर्ण.

सरसों, बच, कूटक पीपल, मिर्च, सोंठ, कुटकी, कागफल-चीतेकी छाल, बायबिडंग, मँजीठ जीरा कलौंजी, अजवायन, अजमोद, भारंगी, पाढ़ा, हींग, जायफल,

पीपरामूल इन सब औषधियोंको पांच पांच टंक ले कूट छान कर गोमूत्रसे मर्दन करे १३ प्रकारके सन्निपात, शीत, उचाट वायु शर्दी, पसेब, ये सब दूर हों।

अथ अमातीसारपर चूर्ण.

सेंधानोन, कालानोन, हींग, बच, हड, अतीस इनका चूर्ण बराबर ले फिर अधेलाभर गरमपानीके साथ खावे तो अतीसार अच्छा हो।

द्वितीय चूर्ण.

नागकेशर, तवाखीर, रक्तचन्दन ये बराबर ले चूर्ण कर शीतल जलके साथ खावे तो अतीसार जाय।

अथ हिंग्वाष्टक चूर्ण सर्वरोगोंपर

हींग, दोनों जीरा, कालीमिर्च, सोंठ, पीपल, सेंधानमक, गजपीपल और अजमोद ये सब दवा बराबर ले अदरखके रसमें गोली बांधे अथवा अदरखके रसमें चूर्ण खावे तो सर्व रोग जायँ।

अथ दूसरा हिंग्वाष्टक चूर्ण.

हींग, सोंठ, मिर्च, पीपल, पीपलामूल, त्रिफला अजवायन अजमोद, खुरासानी अजवायन, कायफल, बच, चीतेकी छाल, बायबिडंग, रेणुका पत्रज, पुष्करमूल, गजपीपल, सेंधानोन, सांबरनोन, सज्जी जवाखार, अकरकरहा और सुहागा भून ये सब बराबर पैसा पैसा भर लेकर कपड़छान कर चूककी ३ पुट दे मिट्टीके कोरे

पात्रमें धरे और ३ टंक खावे तो ७ प्रकारके शूल और वायुगोला हिचकी, पेटका भारीपन, खांसी, कफ ये सब जायँ ।

अथ द्वितीय तालीसादि चूर्ण सर्व रोगोंपर.

तालीस, लौंग पत्रज, पीपल, पुष्करमूल, बायविडंग, जायफल, जावित्री, खैरसार, भारंगी, बच दोनों जीरा, कायफर, कुचिला, गजपीपल, कलौंजी, असगन्ध, मिर्च अकरकरहा, अजवायन, अजमोद, खुरासानी, भूनी-फिटकरी सोंठ, चिरायता, हींग कूट, त्रिफला, कुटकी, काराश्रृङ्गी, हड छोटी और बड़ी बंग, अभ्रक-सार, सेंधानोंन ये सब औषध पैसा पैसाभर ले कपड़छान कर १ सेर दूधमें औटावे जब दूध १ सेर शेष रहे तब-सब दूधमें औषध मिला दो दो पैसा भरकी गोली प्रातः काल खावे तो बल बढ़े पुष्टता हो, पुरुषशक्ति अधिक हो परन्तु खटाईका परहेज करे ।

अथ मिरचादि चूर्ण सर्व प्रमेहपर.

मिर्च, कंकोल, लौंग, रक्तचन्दन, कमलगट्टा, कलौंजी, अगर, नागकेशर, पीपल, सोंठ, सोंचर, सुगंधवाला, चीनिया कपूर, जायफल, वंशलोचन, छिकराकी छाल, तज, पत्रज, केलाकी जड़, कौंचके बीज, असगन्ध, मोचरस, नागरमोथा, सिंघाड़ा उर्दकी दाल धुली गंगेरन, अञ्जीर, दोनों मुसली, निर्गुण्डी मुण्डी और भांगरा

ये सब औषध दो दो टंक ले अभ्रक १० टंक, सार १० टंक, बंग १० टंक सब औषध कपड़छान कर कच्ची खांड १ सेर मिलाके रख छोड़ फिर पांच टंक प्रातः-काल और संध्या समय खावे तो सब प्रमेह दूर हो, मूत्रका प्रवाह थमे,दाह जाय, पुष्टता हो, खांसी, शूल और वात जाय, स्त्री खावे तो पीड़ा दूर हो। यह चूर्ण राजाओंके योग्य है।

अथ पुष्टिकरण चूर्ण.

मुलहठी, विदारीकंद, तज लौंग, गोखरू गिलोय सफेद मूसरी इन सब औषधियोंको बराबर ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर धेला भर नित्य आध सेर दूधके साथ खावे तो पुरुष सदा बली रहे।

अथ मधुयष्टीचूर्णविधि.

मुलहठी,गिलोय, त्रिफला, विदारीकंद, दोनों मूसली नागकेशर और शतावरी ये सब औषध बराबर ले कपड़छान कर चूर्ण बनावे घृत और शहद मिला ४ मासे२८ दिनतक नित्य खावे तो वृद्ध पुरुष भी७स्त्रीसे भोग करे।

अथ प्रमेहनाशक चूर्ण.

शंखाहुली,इलायची,शिलाजीत ये दोनों बराबर ले और तवाखीर, कच्ची खांड ये दोनों दूनी ले फिर सबको एकत्रकर कूट पीस छान चूर्ण कर धेला भर नित्य शीतल जलके साथ फांके तो प्रमेह दूर हो।

अथ खाण्डादि चूर्ण.

खांड ऽ॥, मिर्च लौंग, दाख, बादाम, चिरौंजी, तज, पत्रज, इलायची, रक्तचन्दन, पीपल, दोनों जीरा, सोंठ, धनियां पीपरामूल, कौंचके बीज, मोथा, वंशलोचन, कमलगट्टा, तवाखीर, दोनों मुसली और शतावर ये सब औषध, पैसा पैसा भर फिर कूट पीस कपड़छान कर, २५ दिन तक नित्य खावे तो सर्व प्रमेह नष्ट हो धातु बढ़े और पुष्टता हो।

अथ असगन्धादि चूर्ण.

असगन्ध, विधारा, स्याह मूसली, सफेद मूसली, तालमखाना, बिदारीकन्द, बीजबन्द, सेमरका मूसला और बड़ी गोखरू ये सब औषध टका टका भर कूट पीस कपड़छान कर चूर्ण बनावे, फिर उसमें बंग १० टंक, अभ्रक १० टंक, सार १० टंक, खांड ऽ३, शहद ऽ१, गौका घी ऽ१, गौका दूध ऽ५, ये सब औषध कपड़छान कर दूधमें खोवा करे, जब दो सेर शेष रहे तब उतार औषध मिला दो पैसा भरकी गोली प्रभात समय बांधे फिर एक गोली प्रभात समय खावे तो धातुकी पुष्टता हो देहमें बल बढ़े वात दूर हो।

अथ प्रसूतिका चूर्ण.

देवदारु, अजमोद, बायबिडंग सोंठ, चित्रक, मिर्च सैंधानोन कालानोन, सौंफ, हल्दी ये सब औषध पैसा

पैसा भरले ६ पैसा पुराने गुड़में अधेला भरकी गोली बांधे और दोनों समय खावे तो प्रसूति जाय।

अथ श्वेतकुष्ठका चूर्ण.

कठूमरि वा कठी अंजीरका बकला ऽ १ भर, बकुची ऽ। भर इन औषधियोंको एकत्रकर चूर्ण करे फिर पैसा पैसा भर नित्य दोनों समय पानीके साथ खावे तो श्वेत कुष्ठ जाय।

अथ लाही चूर्ण.

त्रिजातकव्योषवरारसेन्द्रगन्धाजमोदा मिसिवेल्लरात्रयः
बिल्वानलाजाजिलवंगधान्यगजोपकुल्यामधुकंवदंति १
कुबेरहिंग्वाह्वयमोचसाराःक्षारौजया सर्वं चतुर्थभागः।
इदंहि चूर्णं विनिहन्ति तूर्णं प्रसूतिकासंग्रहणीविकारम् २
समस्तरोगांतकमग्निकर्तृभ्राजिष्णुनाकारिसुतक्र पीतम्।
इमं प्रयोगं बहुधानुभूतं चकार धात्री किल कापि लाही ३

अर्थ–त्रिजात अर्थात् तज, पत्रज, इलायची, व्योष अर्थात् सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला अर्थात् हड़ बहेड़ा आँवला, पारा, गन्धक, अजमोद, सौंफ बायबिडंग, हल्दी, बेलगिरी, चीतेकी छाल, जीरा लौंग, धनियां, गजपीपल, मुलहठी, पांचों नोन अर्थात् सेंधा १ काला २ बिड ३ सामुद्र ४ गर ५, कंजाकी मींगीं, हींग, मोचरस, सज्जी, जवाखार और सब औषधियोंसे चौथाई भंग इन सब औषधियोंको कूट चूर्ण बनावे और रोगीको मट्ठाके

साथ दे तो शीघ्रही संग्रहणी रोग दूर हो और सब रोगोंका नाश तथा अग्निका और कांतिका बढ़ानेवाला है। यह प्रयोग बहुत अनुभूत है और इसको लाही नाम किसी धायने बनाया है।

अथ अमलबेत लवणभास्कर चूर्ण.

संचलनोन १ पैसा भर, समुद्रनोन १ पैसा भर, सांभर नोन १ पैसाभर, सेंधानोन १ पैसा भर, पीपल २ पैसाभर, पीपलामूल२ पैसाभर स्याहजीरा १ पैसाभर पत्रज २ पैसाभर ले नागकेशर २ पैसा भर, तालीस २ पैसाभर कालीमिर्च १ पैसाभर, जीरा सफेद १ पैसा भर, सोंठ १ पैसाभर, अनार दाना १ पैसा भर इलायची २ पैसाभर लौंग १ पैसाभर, दालचीनी८मासे, जवाखार २ पैसाभर, खुरासानी अजवायन२ पैसा भर, कलौंजी २ पैसाभर, त्रिफला ३ पैसा भर मूलीके बीज १ पैसा भर, अमलबेतकी गिरीको काढ ले फिर उसमें और सब दवाइयोंको कूट पीस भरे उसको रीता न रक्खे। जबही रीता हो उसमें निचोड़ता जाय और प्रातः घाम और रात्रिको छायामें सुखावे फिर ३ मासे नित्य खावे तो उदरविकार सब दूर हों, भूख बहुत लगे, अन्न पचे।

अथ संचल क्रिया

सञ्चल ऽ।भर, सेंधा ऽ।भर, जंगरानोन ऽ१ सेर सांभर ऽ। भर, आंवला ऽ१ सेर पीस पान और गोमूत्रके साथ

हांडीमें भरे, चूल्हे पर चढ़ावे, नीचे अग्नि दे, शीतल हो तब हांडी फोर फेंके फिर उसे नित्य खावे तो रोग सत्य ही जाय ।

अथ बाईशूलका चूर्ण.

त्रिकुटा, अजमोद, सेंधा, स्याहजीरा, सफेद जीरा, हींग इन सबको एकत्र कर पीस कूट चूर्ण बनावे और हींगको भूनकर मिलावे फिर ४ मासे नित्य दोनों समय भोजनके पहले ग्रासमें घृतके साथ खावे तो वायुशूल जाय ।

अथ समुद्र चूर्ण.

सेंधानोन, सोंचरनोन, समुद्रनोन, खारीनोन, अजमोद, जवाखार, बायबिडंग, हड़, पुष्करमूल, पीपल, सोंठ, अजवायन और निसोत इन सब औषधियोंको बराबर लेकर पीस कूट छान चूर्ण बनावे फिर एक टंक गरम पानीके साथ ले तो गुल्म, क्षयीकी आंटी, पवनबद्ध बाई इन सबको दूर करे और भूख बहुत लगावे ।

अथ पाचक चूर्ण.

त्रिफला, त्रिकटु, बायबिडंग, लौंग, तज, पीपल, सुहागा, शुभ्र फूल, सेंधानोन, तीनों शोरा, चित्रक इन सबको समान पीस कूट छान चूर्ण बनावे फिर दो मासे नित्य खाय तो हाजमा बहुत करे और भूख बहुत लगे ।

अथ चित्रादि चूर्ण.

खुरासानी अजवाइन, हड़, बिहारी सोंठ, सतुआ, लौंग पीपल, मधु, बहेड़ा, आंवला, मिर्च, सोंचर, सेंधा और जवाखार इन सबको नींबूके रसमें तीन पुट दे फिर छाया में सुखावे बेर प्रमाण गोली बांध खावे तो बहुत गुण करै।

प्लीहाका चूर्ण.

सेंधा, सोंचर, जवाखार, हींग, हड़, पीपल, अजमोदा, बायबिडंग और सज्जी इन सबको एक एक टंक ले एकत्र कर चूर्ण बनावे फिर ७मासे नित्य पांच पैसाभर गौके घृतके साथ मिलाकर खावे तो प्लीहा रोग जाय।

अथ अग्निकर चूर्ण.

मीठा चूक ४ पैसा भर, मिश्री पावभर, लौंग ४ पैसा भर, पीपल १ पैसा भर, काली मिर्च १ पैसा भर और बड़ी इलायची एक पैसा भर सबको पीस चूकमें मिलावे फिर इसे करवेमें मले और ६भर खुराक खावे तो गरमी, चिनग, ज्वर व सर्दीका नाश हो और भूख बहुत लगे।

अथ अफरेका चूर्ण.

सोंठका सत १ पैसा भर, पीपल १ पैसा भर, अजमोद ३ टंक, अजवायन १ टंक, सेंधा २ टंक और हड़ १४ सबको जुदा जुदा पिसा रक्खे फिर प्रातः समय ताजे पानीसे पहले हड़ और सेंधा मिलाकर खावे पीछे

सबको मिलाके खावे जो माफकत आवे तो और अधिक खावे और संध्यासमय खिचड़ी खावे तो अफरा जाय।

अथ हड़क्रिया

हींग २ टंक,सञ्चल २० टंक, सेंधानमक १६ टंक, साँभर १२ टंक, चारोंको पानीमें मिला, पहले तैयार कर फिर त्रिकुटा पानीमें डाल उसका मुँह बांध चार दिनतक धूपमें सुखावे फिर पावभर आंवला डाले फिर तीसरे दिन चूक डाले चूक न मिले तो नीबूका रस डाले फिर सबको हड़ों समेत बांध ले फिर हड़ोंको जितने पानीमें डूब जायँ छोड़ दे तो हड़ बने।

अथ अपूर्व चूर्ण.

त्रिफला, त्रिकुटा, हींग, सुहागा, सेंधा, सोंचर, लौंग और चीता इन सबको बराबर ले हींग और सुहागेको भून ले फिर सबको एकत्र कर सहँजनके रसमें गोली बांधे, चने प्रमाण जब चाहे खावे तो क्षुधाको बढ़ावे और अन्नको पचावे।

अथ ज्वरपर पीपलचूर्ण.

पीपलाको कूट पीसकर शहदके साथ चाटे तो ज्वर, कास, श्वास, हिचकी, कण्ठरुज, पिलही आदि सकल रोगोंका नाश करे।

अथ प्रमेहपर त्रिफला चूर्ण.

हड़ १ भाग, बहेड़ा २ भाग, आमले २ भाग इन सबको कूट पीस चूर्ण बनावे और खावे तो प्रमेह, शोथ, विषमज्वर आदिको नष्ट करे, दीपन है और कफ पित्त नाशक है, कुष्ठहरण रसायन है, वही त्रिफला शहद घृत युक्त खानेसे नेत्ररोग नष्ट होते हैं।

अथ त्रिकुटा चूर्ण.

पीपल, मिर्च, सोंठ, इसे त्र्यूषण और त्रिकुटा कहते हैं इसका चूर्ण दीपन है। कफ, कुष्ठ और पीनस सबका नाश करता है, आम अरुचि, प्रमेह, गुल्म और कण्ठरोग इनको भी दूर करता है।

अथ कफादिपर पञ्चकोल चूर्ण.

पीपल, चाव, सोंठ, पीपलामूल, चीता इसे पञ्चकोल कहते हैं। इसका चूर्ण बनाकर खानेसे पाचन होता है और आनाह, पिलही, गुल्म, शूल, कफ, उदररोग, सबका नाश करता है।

अथ त्रिगन्ध चूर्ण.

पत्रज, तज, इलायची इसको त्रिगन्ध कहते हैं। इसका चूर्ण रूखा और उष्ण है। यह चूर्ण कुछ पित्तकारक है और कांति, रुचिकर्त्ता, तीक्ष्ण है तथा विष और कफका नाश करता है

अथ जीवनी चूर्ण.

काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, जीवन्ती, दूधिया, तलाकी छीमी-जिसकी तरकारी होती है, मुलैठी, मूँगफली, उर्द-फली इनका चूर्ण स्थितिकारक है। भारी दुग्धवर्द्धक, धातुपोषक तथा धातुशोधक है। स्निग्ध ठण्ढी,तृष्णा,रक्त-पित्त क्षय, शोथ, ज्वर, दाह, वायु इन सबको हरता है।

अथ बद्धमूत्रपर लवणपंचक चूर्ण.

सेंधानोन, कालानोन, बिडनोन, खारीनोन, गडनोन सांभरनोन, ये पांच क्रमसे जानो, इनमें सेंधा मुख्य है, जहां किसी नोनका नाम न लिखा हो वहां सेंधा-नमक लेना चाहिये। इनके चूर्णका पाक मधुर है, मलमूत्रको पकाके गिराता है। चिकना, वशकर्त्ता, बल-हर्त्ता, धातुको गर्म-कर्त्ता, दीपन,तीक्ष्ण, पित्तको बढ़ाता है और गुल्मादिको हरता है। जो दो खार हैं सज्जीखार और जवाखार वे दोनों अग्निको समान रूपसे दीप्यमान करते हैं।

अथ वृद्धसुदर्शन चूर्ण.

त्रिफला, हल्दी, दोनों भटकटैया, कचूर, त्रिकुटा, पीपलामूल, मूरी, गुर्च जवासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, मोथा, त्रायमाण, नेत्रवाला नींबकी छाल, पुष्करमूल, मुरैठी, कुरेया, अजवायन, इंद्रयव, भारंगी सहँजनेका

बिया, भूनी फिटकरी, बच, तज, पद्माख, खस, श्वेत चन्दन, अतीस, बरियारा, बनउर्दी, बनमूंग, बायबिडंग, तगर, चीता, देवदारु, चाब, पटोल, जीवन्ती और ऋषभक इन दोनोंके अभावमें बिलाई-कन्द लेना लौंग, वंशलोचन, कमलपत्र, काकोलीके अभावमें मुलैठी लेना, तेजपात, जावित्री तालीसपत्र इन सब औषधियोंको समान ले, चूर्ण करे फिर उसमें सब चूर्णके आधा चिरायता डाले। इस वृद्ध सुदर्शन चूर्णके खानेसे त्रिदोष और सर्वज्वर नष्ट होते हैं और ऐकाहिक, द्वंद्वज, त्रिदोष मानस आदि सर्वज्वरोंको दूर करता है। शीतज्वर, जूड़ी, अँतरिया, तृतीयक, चातुर्थिक, मोह, तन्द्रा, भ्रम, तृषा, कास, पांडु, हृदय-रोग, रीढ़पीड़ा, कटि, पांव जांघ, पसली इन अंगोंकी पीड़ाको नष्ट करता है और जैसे सुदर्शन चक्र दैत्योंको नष्ट करता है उसी प्रकारसे यह वृद्ध सुदर्शन चूर्ण भी सर्वज्वरोंको नष्ट करता है।

अथ कास-श्वास-ज्वरपर त्रिफलादि चूर्ण.

त्रिफला और पीपल दोनोंको कूटपीस चूर्ण बनावे-तब शहदके साथ चाटे तो कास-श्वास ज्वरको नष्ट करे और अग्निको प्रबल करे।

अथ कफज्वरपर कायफलादि चूर्ण.

कायफल, मोथा, कुटकी, कचूर, काकरा शृंगी, पुष्करमूल, इन्द्रायन इनको इकट्ठे कर कूट पीस छान चूर्ण

बनावे फिर शहद और अदरखके रसके साथ चाटे तो ज्वर हरे, कण्ड शुद्ध हो कास, श्वास, अरुचि,ताप, शूल, छर्दि, क्षय इन सबोंको दूर करे ।

बालकोंकी खांसी और ज्वरपर काकराश्रृङ्गी आदिचूर्ण.

काकराशृंङ्गी अतीस, पीपल इन सबोंको कूट पीस छान मधुसे चटावे तो बालककी खांसी, ज्वर, छर्दि दूर हो ।

अथ आमातिसारपर शुंठ्यादि चूर्ण

सोंठ, अतीस, हींग, मोथा, कुरैया,और चीता इन सब दवाओंको ले इकट्ठाकर कूट पीस छान चूर्ण बना उष्ण पानीके साथ खानेसे आमातिसार दूर हो ।

अथ आमवातपर हरीतक्यादि चूर्ण.

हरीतकी, सेंधा नोन, काला नोन, बच, हींग इन सब औषधियोंको ले इकट्ठाकर कूट पीस छान चूर्णकर ठंढे जलके साथ पिये तो आमवातातिसार जाय । चूर्ण ग्राही है और प्रबल अग्निको दीपन करता है ।

अथ सर्वातिसारपर लघुगंगाधर चूर्ण.

मोथा, इन्द्रयव, बेल, लोध, मोचरस, धौफूल इन सब औषधियोंको कूट पीस छान चूर्ण कर मट्ठामें गुड़ डालकर ले तो सब अतीसार, प्रवाहिकाको बन्द करे । यह लघुगंगाधर चूर्ण परम ग्राही है ।

अतीसारपर अन्य वृद्धगंगाधर चूर्ण.

मोथा, सोंठ, करैया, धौफूल, सुगन्धवाला, बेल, मोचरस, पाढा, इन्द्रयव मधुकटैया, आमकी बिजली, अतीस और लजालू इन सब औषधियोंको इकट्ठा कर कूट पीस छान चूर्ण बना शहद और चावलके धोवन संयुक्त ले तो प्रवाहिका, सब प्रकारका अतीसार, ग्रहणी जल्दी आराम हो, यह वृद्धगंगाधर चूर्ण सरित्प्रवाहको रोक सकता है और मट्ठा, मिर्च, चूर्ण चीता, काला नोन संगके पानीसे ग्रहणीका नाश हो। उदररोग, प्लीहा, मन्दाग्नि, गुल्म और अंश इन सब बीमारियोंको दूर करता है।

अथ संग्रहणीपर कपित्थाष्टक चूर्ण.

पक्का कैथा ८ भाग, खांड ६ भाग, अनार, इमली, बेल, धौफूल, अजमोद, पीपल इन सब औषधियोंको तीन २ भाग ले मिर्च, श्वेत जीरा, धनियां पीपलामूल सुगन्धवाला, अजवाइन, तज, पत्रज, इलायची, नागकेशर, चिता और सोंठ इन सबको एक एक भाग ले फिर सबको कूट पीस छान महीन चूर्ण बनावे। इस कपित्थाष्टक चूर्णके खानेसे गलेके रोग, अतीसार क्षय, गुल्म, संग्रहणी आदि ये सब रोग दूर हों।

अनार ८रु० भर, शक्कर ३२ रु० भर तज, पत्रज, इलायची तीनों मिलाकर ४ रु० भर, त्रिकुटा १२ रु० भर इन सब औषधियोंको ले एकत्र कर कूट पीस छान चूर्ण करे। इसके खानेसे रोचन, दीपन, कण्ठ शुद्ध और ज्वर नष्ट होता है और यह चूर्ण ग्राही है।

अतीसारपर वृद्ध दाड़िमाष्टक चूर्ण.

अनार ८ पल, पीपल, पीपलामूल, अजवायन, धनियां, श्वेत जीरा और सोंठ ये सब पल पल भर ले. वंशलोचन दश मासे, पत्रज, एला-नागकेशर इनको पांच पांच मासे ले यह दाड़िमाष्टक चूर्ण अतीसार, गुल्म, संग्रहणी, जलाग्रह, मन्दाग्नि, और पीनस इन सब रोगोंका नाश करता है।

अथ सुकुमार लवंगादि चूर्ण.

लौंग, शुद्ध कपूर, इलायची, नागकेशर, जायफल, खस, सोंठ, कृष्ण जीरा कृष्ण अगर, वंशलोचन, जटामांसी, नीलकमल, पीपल, चन्दन, तग, सुगंधवाला, और कंकोल इन सब औषधियोंको कूट पीस छान चूर्ण की आधी मिश्री मिलावे तब यह चूर्ण तैयार हो। फिर इसके खानेसे रोचक और तृप्ति होती है धातुको पुष्ट करता है, त्रिदोषको हरता है और बलप्रद है। कंठ,

हृदय, कास, हिचकी, पीनस, क्षय, तमक, श्वास, अतीसार, उरक्षत, प्रमेह अरुचि, गुल्म और संग्रहणी इन सबको दूर करता है ।

अथ जातीफलादि चूर्ण.

जायफल, लौंग, इलायची, तज, पत्रज, नागकेशर, कपूर चन्दन, तिल, वंशलोचन, तगर आंवला, तालीसपत्र, मिर्च और सबके समान मोथा लेना । फिर इन सब औषधियोंको इकट्ठा कर कूट छान चूर्ण कर उसमें चूर्णके समान खांड मिलावे फिर कर्ष प्रमाण खावे तो इसके प्रभावसे संग्रहणी, कास, अरुचि, क्षय, वात, कफ, नाक टपकना ये सब रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ।

अथ अरुचिपर महाखांडव चूर्ण.

मिर्च, नागकेसर, तालीसपत्र, पांचों नोन इन सबको समान भाग लेना और ग्रंथि, चित्रक तज, पीपल, अमलतास तथा जीरा ये सब दो दो भाग ले, धनियां-अमलबेत, सोंठ, बड़ी इलायची, बेर अजमोद, मोथा इनको तीन भाग ले इन सब औषधियोंका चौथाई अनार ले और आधी मिश्री मिलाकर खावे तो रोचन, दीपन कर हृदयको बलप्रद है । अतीसार, हृदयरोग, कण्ठजलन, मुखरोग, शीतरस पेट फूलना अर्श, गुल्म, कृमि, छर्दि और पंचविध सब श्वासोंका नाश करता है ।

अथ उदररोगपर नारायणचूर्ण.

चीता, त्रिफला, सोंठ,पीपल, मिर्च, हड़, बेर,बच, अजवाइन मेथी, सौंफ, असगन्ध, अजमोद, कपूर, धनियां, बायबिडंग, काला जीरा, पुष्करमूल, दोनों खार, पांचों नमक इन सबको समान ले और इंद्रायण दो भाग ले, निसोत तीन भाग ले,जमालगोटा तीन भागले पीतपुष्प,सेहुँड़मूल चार भाग ले फिर इन सबको एकत्र कर कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर कठिन कोढ़ रोगको प्रथम पाचन स्वदन कर यह चूर्ण रेचनार्थ देवे तो हृदय-रोग,पांडुरोग,कास-श्वास,भगंदर,मन्दाग्नि,ज्वर कुष्ठ, संग्रहणी, कण्ठरूज इन सब रोगोंको नष्ट करता है।

इसका अनुपान.

पेट फूले तो मट्ठा संग गुल्ममें बेरक्काथसंग, मल फाड़नेमें दही वा जलके संग अजीर्णमें उष्णोदक, पेट-रोगमें आमलासंग, कंठोदरादिकमें उष्ट्रीदुग्ध अथवा गोतक्रमें वातरोगमें सुरामण्डमें दे। अर्शमें अनाररसके साथ दे, दोनों विषोंमें घीके साथ दे। यह नारायण चूर्ण दैत्यरूपी दुष्ट रोगोंको हरनेवाला है।

अजीर्णपर चूर्ण.

हाऊबेर, त्रिफला, त्रायमाण, पीपल, चूक, निसोत पीतपुष्प,सेंहुड़की जड़,कुटकी,वच,नीलकी पत्ती सेवन, काला नमक इन औषधियोंको लेकर कूट पीस छान चूर्ण

बनावे फिर इसको उष्णोदक अथवा गोमूत्र, अनारका रस, त्रिफलाका रस वा मांसरस आदि किसीके साथ रोगोंको जैसा उचित समझे दे तो अजीर्ण, प्लीहा गुल्म शोथ, अर्श, विषमाग्नि, हलीमक, कमल, पाण्डु, कुष्ठ, पेट-फूलना, उदररोगादि सब रोगोंको दूर करता है।

अथ शूलादिपर पंचसम चूर्ण.

सोंठ, हड़ पीपल, निशोथ, और काला नमक इन सब औषधियोंको सम भाग लेकर कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर खावे तो बड़ा शूल-पेट फूलना, जठरसंबंधी अर्श, आमवात इन सबको दूर करे।

अथ नाराच चूर्ण.

पीपल १० मासे, निशोथ, ४ रुपया भर, खाण्ड पल भर इन सबको एकत्रकर चूर्ण बनावे, फिर कर्ष प्रमाण शहदके साथ खावे तो पेट फूलना, जाय, गोटे उदर, कफ पित्त आदि सबका नाश करे।

अथ प्लीहादिपर लवणत्रितयादि चूर्ण.

तीनों लवण, दोनों खार सौंफ, सोवाबीज, अजमोद, ममरी, हाऊबेर दोनों जीरा, मिर्च, पीपरामूल, पीपल, हुरहुरा, कचूर, मंगरैल सोंठ, चीता, चाब, विडंग, अमलबेत, अनार, इमलीकीछाल, निशोत, जमालगोटा, सतावरी, इंदोरन, भारंगी, देवदारु, अजवाइन, धनियां तुंबुरु, पुष्करमूल, बेर, हड़, ये सब समान ले कूट पीस छान

चूर्ण बनावे फिर अदरख और बिजोरेके रसमें भावना दे फिर इसको घी अथवा पुराना मद्य अथवा ऊष्णोदकके साथ अथवा बेरके क्वाथ या मट्ठा, उष्ट्रीपय या दहीके तोड़के साथ ले तो यकृत्, प्लीहा, कटिशूल, गुदा, कोख और हृदय रोग, अर्श, मन्दाग्नि, मलस्तंभ, गुल्म, प्लीहा, उदररोग, हिचकी, पेट फूलना, श्वास, कास इन सबको दूर करता है। अथवा वैद्य इनका घी बनाकर दे तो भी ये सब उदर रोग जायँ।

अथ शूलपर तुंबुरु आदि चूर्ण.

तुंबुरु, तीनों लवण, अजवायन, पुष्करमूल जवाखार, हड़, हींग, बिडंग इन सब द्रव्योंको बराबर ले और निशोथ तीन भाग ले फिर कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर उष्णोदक अथवा यवक्वाथके साथ पिये तो सब शूल, गुल्म पेट फूलना ये सब रोग दूर हों।

अथ मंदाग्निपर चित्रकादि चूर्ण.

चिता, सोंठ, हींग, पीपल, पीपरामूल, चाब, अजमोद, मिर्च इन सबको कर्ष भर ले और दोनों खार, सेंधा, काला, पांगा, कटीली, सांभर, इनको कोल कोल भर ले फिर सबका चूर्णकर बिजौरेके रसमें बांध धूपमें सुखा ले यह चूर्ण गुल्म, ग्रहणी, आम रोगको हरे, अग्निको दीपन करे, रुचिको बढ़ावे और कफको नष्ट करे।

अथ मंदाग्निपर अग्निदीपन चूर्ण.

सेंधानमक, पीपरामूल, पीपल, चाव, चीता, सोंठ, हड़ क्रमसे बढ़ा कूट पीस छान चूर्ण करे जैसे सेंधा १ मासा तो पीपरामूल २ मासे फिर इसी प्रकारसे बढ़ाते जावे। इसके खानेसे सकल मंदाग्नि नष्ट हो जाती है।

अथ वातादिपर अजमोद चूर्ण.

अजमोद, बिडंग, सेंधानमक, देवदारु, चीता, पीपरामूल, सौंफ, पीपल, मिर्च इन सब द्रव्योंको कर्ष, कर्ष, ले और हड़ पांच कर्ष, विधारा दश कर्ष, सोंठ एक कर्ष ले इन सब औषधियोंको कूट पीस छान चूर्ण करे फिर गुड़ मिश्रित कर उष्णोदकसे पिये अच्छी तरहसे खावे तो सूजन दूर हो। आमवात, गांठपीड़ा, गृध्रसी वायु कटिपीड़ा पीठ–गुदा–जांघ–पीड़ा तूनी वायु, प्रतूनी वायु, विश्वाची, कफरोग, वायुरोग ये सब नष्ट हों।

अथ शूलादिपर हिंग्वादि चूर्ण.

हींग, पाठा, हड़, धनियां, अनार, चीता, कचूर, अजमोद, त्रिकुटा, हाऊबेर, अम्लवेत, मरी, इमलीकी छाल, जीरा, पुष्करमल, बच, चाब, दोनों खार, पांचों नमक इन सब औषधियोंको ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर भोजनादि अथवा पुरानी भंगमें खावे तो वात–कफका गुल्म, कोष्ठबद्ध, अष्ठीलिका, हृदय पेडू,

पसुरी, गुदा, योनि आदिके सर्व शूलोंको नष्ट करे और मूत्रकृच्छ्र, पेट फूलना, पांडु, अरुचि, हिचकी यकृत, प्लीहा, श्वास, गलारोग, ग्रहणी, अर्श इन रोगोंको भी यह चूर्ण नाशे और बिजौरेके रसकी सात भावना दे गोली बांधके खावे इससे बात, कफरोग नष्ट हो ।

अथ अरुचिपर अजवाइन खांड चूर्ण.

अजवाइन अनार, सोंठ, इमलीकी छाल, अमलबेत इन सबको चार चार शाण ले और मिर्च ढाई शाण, पीपल दशशाण, तज, कालानमक, धनियां, जीरा, ये सब दो दो शाण ले और शर्करा ६४ शाण इन सबोंको कूट पीस छान चूर्ण बनावे । इस चूर्णमें जो शाण कहा है वह शाण४मासे का होता है और इस चूर्णके खानेसे पांडु, हृदयरोग, ग्रहणी, छर्दी, शोष, अतीसार, प्लीहा, पेटफूलना, कोष्ठा, अरुचि, शूल, मन्दाग्नि अर्श, जीभ-रोग, गलरोग ये सब नष्ट होते हैं ।

अथ अरुचिपर तालीसादि चूर्ण.

तालीस, मिर्च, सोंठ पीपल वंशलोचन इन औषधि-योंको क्रमसे १कर्ष२कर्ष३कर्ष४कर्ष५कर्ष और इलायची तज ये आधा आधा कर्ष ले, खांड़ ३२ कर्ष, ले फिर इनका चूर्ण बना खावे तो पाचन और रोचन करे और कासा श्वास, ज्वर, छर्दी, अतीसार शोष पेट फूलना, प्लीहा, ग्रहणी, पांडु इन सबको नष्ट करे ।

अथ कास-क्षयरोग-पित्तादिपर सितोपलादि चूर्ण.

मिश्री १६ कर्ष वंशलोचन ८ कर्ष पीपल ४ कर्ष, छोटी इलायची २ कर्ष, और तज १ कर्ष इनका चूर्ण कर सहत और घी मिलाके चाटे तो श्वास, कास, क्षय, हाथ पांवका तपना, मन्दाग्नि, जीभ, सूखना, पँसुरी-पीड़ा, अरुचि, ज्वर, रक्त-पित्त, इन सब रोगोंका नाश करे।

अथ ग्रहणी गुल्मपर लवणभास्कर चूर्ण.

पांगा नमक ८ रु० भर, काला नमक ५ रु० भर बिड़, सेंधा, पीपल, पीपलामूल, काला जीरा, पत्रज नागकेशर, तालीस, अमलबेत इन सबोंको दो दो कर्ष ले और मिर्च, जीरा, सोंठ, कर्ष कर्ष भर ले अनार कर्ष इलायची और तज पांच मासे इन सबोंको एकत्र कर कूट पीस चूर्ण बनावे फिर इसकी एक शाण मात्रा मद्य, मट्ठा अथवा दही के तोड़ के साथ दे तो वात, कफ, गुल्म, प्लीहा, पेट-रोग, छर्दि, अर्श, ग्रहणी, कुष्ठ, कोष्ठबद्ध, भगंदर, सूजनशूल, श्वास, कास, आम-दोष, हृदयरोग, मन्दाग्नि आदि सब रोगोंको दूर करता है और दीपन, पाचन भी है। इस चूर्णको श्रीभास्करने प्रथम सब लोगोंके हित कहा है।

अथ वात-पित्त-कफ छर्दिपर एलादि चूर्ण.

इलायची-प्रियुंगु, मोथा, बेरकी मींगी, पीपल श्वेत चन्दन, लावा, लवंग, और नागकेशर, इन सबको एकत्र कर कूट पीस छान चूर्ण कर फिर इसमें शहद और मिश्री मिलाके चाटे तो वातपित्तकफजन्य छर्दिका नाश करे ।

अथ कुष्ठपर निंबचूर्ण.

निंबके पञ्चांगका चूर्ण सूक्ष्म पीसकर १५ पल लोहा-भस्म हड़, चाब, बडनींब, चीता, भिलावां बिडंग, खांड, आंवला, हल्दी मिर्च, सोंठ, बाकुची, अमलतास, गोखरू इन सब औषधियोंको पल पलभर लेकर कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर उसे भांगरेके रसमें भावना दे फिर खैरे और आसनका सेर भर पानीमें गाढ़ा कर अष्टमांस रहने दे, फिर उसमें उसकी भावनादे फिर सुखाके चूर्ण रख छोड़े पश्चात् इसे एक कर्ष प्रमाण खैर आसन के क्वाथ अथवा दूध अथवा घी के साथ एक मास पर्यन्त ले तो सब प्रकारके कोढ़ोंका नाश करे । यह रसायन है और सब प्रकारके रोगोंका नाश करता है ।

अथ पुष्टताकारक शतावरि-चूर्ण.

शतावरि, गोखरू, किमाचके बीज, गुलशकरी, बरियारा, तालमखाना इन सब औषधियोंको बराबर

कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर गोदुग्धमें नित्य पिये तो इसके प्रभावसे स्त्रीसे तृप्ति कभी न हो और जो स्त्रीप्रसंग न करे तो बली हो, वर्ण श्वेत हो ।

अथ पुष्टतापर अश्वगंधादि चूर्ण.

नागौरी असगन्ध ४० तोले, बिधारा ४० तोला भर ले दोनोंका चूर्ण कर घृतके बर्त्तनमें रक्खे फिर १० मासे दुग्धमें पिये तो स्त्रीसे कभी तृप्ति न हो ।

अथ धातुवृद्धि पर नवायसादि चूर्ण.

चीता, त्रिफला, मोथा, बिडंग त्रिकूटी इन सबोंको समान ले और घृतके साथ चाटे, अथवा गोमूत्र या मट्ठाके साथ पिये तो पांडु, हृदयरोग, भगंदर, सूंजन, कोढ़, उदररोग, अर्श, मन्दाग्नि, अरुचि और कृमि आदि रोगोंका नाश करे ।

अथ स्तम्भनपर अकरकरादि चूर्ण.

अकरकरा, सोंठ, कंकोल, मिर्च केसर, पीपर जायफल, लौंग श्वेत चन्दन इनको कर्ष कर्ष भर ले फिर कूट पीसकर पलभर अफीम दे, कपड़छान कर ले और सबके बराबर खांड मिलावे फिर मासे भर शहदसे चाटे तो वीर्यस्तम्भन करे, पुरुष स्त्री दोनोंको

सुख देता है, कामीपुरुष इस चूर्णको रात्रि समय सेवन करे ।

अथ पुष्टताकारक शतावरि-चूर्ण.

चिरायता, कुटकी, मोथा, इन्द्रयव, सोंठ, मिर्च, पीपल इनको समान भाग ले और इन्द्रयवके वृक्षकी छाल सोलहवां भाग ले और चीतके छाल दो भाग ले फिर कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर इस चूर्णकी फंकी, उससे दूना पुराना गुड़ पानीमें मिलाकर करे तो पांडुरोग, ज्वर अतीसार, अरुचि, कामला, ग्रहणी, वायुगोला और प्रमेह ये सब रोग नष्ट हों और रोगी सुखी हो ।

अथ अन्य चूर्ण.

सज्जी, जवाखार, खारीनमक, काला नमक सैंधानमक, सोंठ, मिर्च पीपल, चाब अजमोद, चीता, पीपरामूल, हींग, जीरा और सौंफ इन सबको समान भाग ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे । फिर इसको गरम पानीके साथ अथवा झड़बेरीकी बेरोंके औटे जलके साथ अथवा मट्ठेके साथ पीवे तो हृद्रोग क्षुधा की मन्दता, वायुगोला, अर्श, संग्रहणी आदि सब रोग दूर हों ।

अथ अन्य चूर्ण.

सज्जी जवाखार पीपलामूल, पीपल चाब,

चीता, सोंठ, मिर्च, सैंधानमक, सांभरनमक, खारीनमक, समुद्रनमक, हींग और अजवाइन इन सबको समान ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे, फिर रसमें अमरवेत अथवा बिजौरा नींबू अथवा पानी आमला इन तीनोंमे से किसी एकके रसकी भावना देके बना रखे। यह चूर्ण अति-दीपन पाचन है और कफ, बादी, संग्रहणी और अर्श रोग आदि इन सबोंको नष्ट करता है ।

अथ अन्य चूर्ण.

चीता, बच, बेल गिरी, सोंठ, इन सबोंको एकत्र कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर इस चूर्णको तक्रके साथ लेनेसे दुष्ट संग्रहणी दूर हो जाती है ।

अथ अन्य चूर्ण.

काला नमक, चीता, मिर्च इनके चूर्ण तक्रके साथ पानीसे संग्रहणी उदररोग, वायुरोग अर्श क्षुधाकी मन्दता और प्लीहा यह सब रोग नष्ट हों ।

अथ चिंतामणि चूर्ण.

जैतके बीज, बरियारेकी जड़, पद्माख काहू, देव-दारु त्रिफला, सोंठ, मिर्च, पीपल, बिडंग इन सबों को समान ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे फिर इस चूर्ण को विषम मधु घृतके साथ खाया करे तो श्वासरोग और कासरोग दोनों दूर हों ।

अथ अन्य चूर्ण.

पीपल, पीपरामूल, बहेड़ेका बक्कल और सोंठ इनके चूर्णको माक्षिकके साथ चाटनेसे खांसीका रोग शान्त हो जाय ।

अथ अन्य चूर्ण.

सोंठ, मिर्च पीपल इन्हें समभाग लेकर चूर्णकर चूर्णके समान गुड़ और दुगुना घी मिलाके चाटनेसे श्वास रोग बहुत शीघ्र नष्ट होता है ।

अथ अन्य चूर्ण.

त्रिफला, गिलोय, चीता रायसन, बायबिडंग, सोंठ मिर्च और पीपल इन दशों द्रव्योंको बराबर ले कूट पीस छान चूर्ण बनावे । जितना चूर्ण हो उसमें उसी हिसाबसे शक्कर घोलकर उसका सेवन करे तो खांसी रोग जाय ।

अथ लोलिंबराजकथित चूर्ण.

सोंठके पांच भाग, पीपलके चार भाग, अजमोदके तीन भाग, अजवाइनके दो भाग, नमकका एक भाग इन पन्द्रह भागोंके तुल्य हड़ लेकर कूट पीस छान चूर्ण बना खावे तो पेटकी गुड़गुड़ाहट तथा पेटका शूल, आमके रोग, वायुगोला और मलके रोगोंको हरे ।

अथ अमलबेत चूर्ण.

संचल नमक १ पैसा भर, सेंधानमक १ पैसा भर,

समुद्रनमक १ पैसा भर, पीपल पैसा भर, पीपरमूल २ पैसा भर, स्याह जीरा २ पैसा भर, पत्रज २ पैसा भर, नागकेशर २ पैसा भर तिल २ पैसा भर मिर्च १ पैसा भर, सफेद २ पैसा भर, सोंठ १ पैसा भर अनारदाना १ पैसा भर, इलायची २ पैसा भर, लौंग १ पैसा भर, दालचीनी २ पैसा भर, जवाखार २ पैसा भर, खुरासानी अजवाइन २ पैसा भर, कलौंजी २ पैसा भर, त्रिफला ३ पैसा भर, मूलीके बीज १ पैसा भर, अमलबेतकी गिरी काढ़ ले इन सब औषधियोंको कूट पीस गिरीमें भर फिर जितना खाली होता जाय उसमें नींबू निचोड़ता जाय, कभी खाली न होने देवे और प्रातःघाममें और रात्रिको छायामें सुखाके ३ मासे खावे तो सर्व उदरविकार जायँ और भूख लगे तथा हजम बहुत करे।

अथ सञ्चल क्रिया.

सञ्चल ऽ। भर, सेंधा ऽ। भर, जंगरानमक ऽ१ सेर सांभर ऽ। भर, आमला ऽ१ सेर पीस छान गोमूत्रमें सान हांड़ीमें भरके चूल्हेपर चढ़ावे, नीचे आंच दे जब पक जावे तब उतार लेय शीतल हो तब हांड़ी फेंक दे और दवा खावे तो रोग अवश्य जाय।

अथ समपाचक चूर्ण.

धनिया ८ तोले, जीरा २ तोले, इलायची १ तोला पांचों नमक २ तोले, पांचों खार २ तोले सबको कूट कप-

ड़छान करके नींबू और चूकका पुट दे फिर ६ मासे खावे यह शीतल चूर्ण है, पाचक है, रुचिको करता, भूखको लगाता, वायुके वेगको दूर करता है।

अथ वायुहरण चूर्ण.

सोंठ ८ तोले लेकर चूर्ण कर अदरखके रसमें दो पुट देके दहीके दो पुट दे फिर हींग भूनी १ तोला कालानोन २ तोले पांचों खार ३ तोले सबको कूट कपड़छान कर बल देखके खावे यह चूर्ण वायुको तुरन्त निकाले और भूखको लगावे।

अथ काबुली चूर्ण.

काबुली हड़ २ तोले, सनायपत्ती २ तोले, कालानोन २ तोले, लेकर कूट कपड़छान करके १ तोला शामको गरम पानीके साथमें खावे। यह चूर्ण पेटको साफ करता है, भूँखको लगाता है, अजीर्ण को दूर करता है, बुद्धिको बढ़ाता और बलको करता है।

१–अर्क हर्रेका–हर्रोका अर्क पीनेसे शूल, मूत्रकृच्छ्र, कामला, अफरा, फेफरा इनको दूर करता है और बुद्धिको निर्मल करता है और आंखोंको गुण करता है, बल्कि सब रोगोंको फायदा करता है।

२–अर्क बहेड़ाका–बहेड़ का अर्क पीनेसे तृषा, शर्दी, कफ, खांसी इनको दूर करता है और आंखोंको गुण करता है और मातदिल है, दुबलेपनको दूर करता है।

३-अर्क आंवलेका-आंवलेका अर्क पीनेसे सन्निपात रक्तपित्त और प्रमेह तथा तीनों दोषोंको दूर करता है। शरीरको सुधारता है, बिगड़े खूनको दूर करता है।

४-अर्क सोंठका-सोंठका अर्क पीनेसे मलको बांधता है वात और आमवातको दूर करता है और शूल, श्वास,कफ इनको नष्ट करता है, संग्रहणीमें गुण करता है।

५-अर्क अदरखका-अदरखका अर्क पीनेसे ज्वर और दाहको हरे, अरुचि और अग्निको पैदा करे, वातको दूर करे मनको प्रसन्न करे।

६-अर्क पीपलीका-पीपलीका अर्क पीनेसे श्वास, खांसीको दूर करता है आमवात बवासीर, ज्वर, शूल, इनको दूर करता है और वातवाले रोग को बहुत फायदा करता है और मलको बांधता है।

७-अर्क मिर्चका-मिर्चका अर्क पीनेसे श्वास, कृमिको दूर करता है मिरचका अर्क सब रोगोंको गुण करता है। और इस अर्कमें कोई अवगुण नहीं है।

८-अर्क पीपलामूलका-पीपलामूलका अर्क पीनेसे तिल्ली, गुल्मरोग, वातरोग इनको दूर करता है।

९-अर्क चाबका-चाबका अर्क पीनेसे अत्यन्त रुचिको बढ़ावे और विशेषकर बवासीरको दूर करे।

१०-अर्क गजपीपलका-गजपीपलका अर्क पीनेसे वायु और कफ तथा मन्दाग्निको दूर करता है।

११-अर्क चित्रक-चित्रकका अर्क जठराग्निको बढ़ाता औरखांसी संग्रहणी, कफ, शोष, इनको, नाशताहै।

१२-अर्क अजवाइनका-अजवाइनका अर्क पीनेसे शुक्र और बलको बढ़ाता है, पाचक है, दीपन है, रुचिको उपजाता है।

१३-अर्क अजमोदका-अजमोदका अर्क पीनेसे वात और कफको हरता है और बस्तीको शुद्ध करता है।

१४-अर्क जीराका-जीराका अर्क ग्राही है और गर्भाशयको शुद्ध करता है।

१५-अर्क कृष्णजीरेका-काले जीराका अर्क पीनेसे नेत्रोंमें गुण करता है और गुल्म, छर्दि, अतीसार इनको नाशता है।

१६-अर्क कारवी-कलौंजी जीरा का अर्क बलको करता है और ज्वरको हरता है पाचन है, दस्तावर है।

१७-अर्क धान्य-धनियांका अर्क दाह, तृषा, छर्दि श्वास, सन्निपात इनको हरता है।

१८-अर्कसौंफका दूसरा-दूसरी सौंफका अर्क ज्वर, वायु, कफ व्रण, शूल, नेत्ररोग इनको नष्ट करता है।

१९-अर्क बड़ीसौंफका-बड़ीसौंफका अर्क मंदाग्नि, योनिशूल और कृमिरोगको हरता है।

२०-अर्क लालमिर्चका-लाल मिरचोंका अर्क कफ, अपस्मार, भूतबाधा, सन्निपात इन सबको नाशता है।

२१-अर्क मेथीका-मेथीका अर्क कफ, वात, ज्वर, आम इन सबको नाशता है।

२२-अर्क चंद्रसूर-बनमेथीको चंद्रसूर कहतेहैं।इसका अर्क हिचकी,रक्तवातको हरताहै औरपुष्टताको करताहै।

२३-अर्क हींगका-हींगका अर्क पाचन है, रुचिको उपजाता है और कृमि, शूल, पेटरोगको नाशता है।

२४-अर्क बच-बचका अर्क पाचन है,अग्नि और छर्दिको उपजाता है और बिबंध, आध्मान, शूल इन सबको नाशता है।

२५-अर्क पारसीक बच-पारसीक बचका अर्क भूतोन्मादको हरता है और बलको करता है।

२६-अर्क कुलिंजन-कुलिंजन अर्क स्वरको पैदा करता है, कंठ, हृदय और मुखको शुद्ध करता है।

२७-अर्क कूट-कूटका अर्क विशेष कर कफकी खांसीको हरता है।

२८-अर्क चोपचीनीका-चोपचीनीका अर्क शूल और फिरंगोपदंशको हरता है।

२९-अर्क शेरणी-हाऊबेरका अर्क तिल्ली और विषसे उत्पन्न भयंकर मोहको हरता है।

३०-अर्क बड़ी शेरणीका-बड़ी हाऊबेरका अर्क वायु, बवासीर,संग्रहणी, गुल्म और शूलको हरता है।

३१-अर्क बायबिडंग-बायबिडंगका अर्क पेट रोग, कफ, कृमि, वायु और विबन्धको हरता है।

३२-अर्क तुंबुरू-तुंबुरूका अर्क भारीपना, श्वास, तिल्ली, गुल्म, कृमि इन सबको हरता है।

३३-अर्क वंशलोचन-वंशलोचनका अर्क तृषा, क्षय, श्वास और ज्वरको हरता है।

३४-समुद्रफेन-समुद्र झागका अर्क ठण्ढा है, रोचन है और खांसीको हरता है।

३५-अर्क जीवक-जीवकका अर्क वीर्य, कफ, बल, इनको करता है और समशीतल है, ठण्डा है।

३६-अर्क ऋषभक-ऋषभकका अर्क पित्त, दाह, रक्त, खांसी, वायु और क्षयको हरता है।

३७-अर्क मेदा-मेदाका अर्क स्तनोंमें दूध और शरीरमें बल तथा कफको बढ़ाता है।

३८-अर्क महामेदा-महामेदाका अर्क ठण्ढा है, रक्त, वात और ज्वरको हरता है।

३९-अर्क काकोली-काकोलीका अर्क धातुको बढ़ाता है, शीतल है, पित्त और शीतज्वरको हरता है।

४०-अर्क क्षीरकाकोली-क्षीरकाकोलीका अर्क पुष्टता को बढ़ाता है, दाह और वायुको हरता है।

४१-अर्क ऋद्धि-ऋद्धिका अर्क बलको बढ़ाता है और त्रिदोष रक्त-पित्त इनको हरता है।

४२-अर्क वृद्धि-वृद्धिका अर्क ठण्ढा है, गर्भका नाशक, क्षत, कास और क्षयको हरता है।

४३-अर्क मुलहठी-मुलहठीका अर्क केश और स्वरको बढ़ाता है और पित्त, वायु, क्षय इनको हरता है।

४४-अर्क जलमधुयष्टीका-जलमधुयष्टीका अर्क विष, छर्दि, तृषा, ग्लानि क्षय इनको हरता है।

४५-अर्क कपिलाका-कपिला अर्क दस्तावर है और प्रमेहको हरता है।

४६-अर्क अमलतास-अमलतासका अर्क पित्त, अम्लवात, उदावर्त्त, शूल, प्रमेह, खांसी, कृमि, कुष्ठ इनको हरता है।

४७-अर्क चिरायता-चिरायताका अर्क तृषा, कुष्ठ, ज्वर, व्रण, कृमि इनको हरता है।

४८-अर्क इन्द्रयव-इन्द्रयवका अर्क पित्तरक्त, कृमि विसर्प, कुष्ठ इनको हरता है।

४९-अर्क मदनफल-मैनफलके अर्कसे वमन करनेसे चातुर्थिकज्वरका नाश होता है।

५०-अर्क रास्ना-रास्नाका अर्क वायु, रक्त, वात, शूल, उदररोग इन सबको हरता है।

५१-अर्कनागदमनी-नागदमनीका अर्क सांप, मकड़ी मूसा इनके विषोंके विकारको हरता है।

५२-अर्क काकमाची-काकमाचीका अर्क पित्त-रक्त पक्वातिसार इनको हरता है हलका है।

५३-अर्कतेजस्विनी-तेजोवन्तीका अर्कश्वास,कास

और कफको हरता है और जठराग्निको बढ़ाता है।

५४–अर्क मालकांगनी–मालकांगनीका अर्क छर्दि, बुद्धि, स्मृति, जठराग्नि इन सबको बढ़ाता है।

५५–अर्क पुष्करमूल–पुष्करमूलका अर्क अरुचि, श्वास विशेषकर पसली शूल इनको हरता है।

५६–अर्क स्वर्णक्षीरी–चोखका अर्कछर्दि और दस्तोंको उपजाता और खाजको हरता है।

५७–अर्क काकड़ाशिंगी–काकड़ाशिंगीका अर्क ऊर्ध्ववात, हिचकी, तृषा, क्षय, इतको हरता है।

५८–अर्क कायफल–कायफलका अर्कश्वास, खांसी प्रमेह बवासीर, अरुचि इन सबको दूर करता है।

५९–अर्क भारंगी–भारंगीका अर्क कफ, श्वास, पीनस, ज्वर, वायु इनको हरता है।

६०–अर्क पाषाण भेद–पाषाणभेदका अर्क योनि-रोग, मूत्रकृच्छ्र पथरी गुल्म इनको हरता है।

६१–अर्क धवके फूलका–धवके फूलोंका अर्क तृषा, अतिसार, विष, कृमि, विसर्प इन सबको हरता है।

६२–अर्क मंजिष्ठा–मँजीठका अर्क विष, कफ, रक्तातिसार, कुष्ठ इन सबको हरता है।

६३–अर्क कुसुंभा–कुसुंभाका अर्क वर्णको बढ़ाता रक्तपित्त और कफको हरता है।

६४–अर्क लाखका–लाखका अर्क कृमि, विसर्प-व्रण, छातीका फटना, कुष्ठ इनको हरता है।

६५-अर्क हल्दी-हल्दीका अर्क प्रमेह, सोजा, त्वक्‌दोष, व्रण, पांडु इनको हरता है।

६६-अर्क रानहल्दी-रानहल्दी-का अर्क कुष्ठ, वात, रक्त इनको हरता है।

६७-अर्क कपूरहल्दी-कपूरहल्दीका अर्क सब तरहकी खाजको हरता है।

६८-अर्क दारुहल्दी-दारुहल्दीका अर्क विशेषकर लेपनेसे नेत्र और कानके रोगोंको हरता है।

६९-अर्क रसोत-रसोतका-अर्क नेत्रविकार और व्रण-दोषको हरता है।

७०-अर्क बावची-बावचीका-अर्क कृमि,विष्टंभ, पांडु, सोजा, कफ इन सबको हरता है।

७१-अर्क पुआड-पुआडका अर्क कंडु, दाव विष, वायु इनको हरता है।

७२-अर्क अतीस-अतीसका अर्क अग्निको बढ़ाता है और कफ पित्त, अतीसार इनको हरता है।

७३-अर्क लोध-लोधका अर्क ठण्ढा है, ग्राही है, नेत्रोंको हितकारी है, कफ और पित्तको हरता है।

७४-अर्क बृहत्पत्री-बृहत्पत्रीका अर्क नेत्रोंको हित है और ज्वर, अतिसार, सोजा, इनको हरता है।

७५-अर्क भिलावां-भिलावांका अर्क ज्वर, उदररोग कृमि, व्रण इन सबको हरता है।

७६–अर्क गिलोय–गिलोयका अर्क दीपन है और श्वास, खांसी, पांडु ज्वर इन सबको हरता है ।

७७–अर्क पानबेलका–नागरपानका बेलका अर्क मुखकी दुर्गन्धि मैल, वायु, श्रम इन सबको हरता है।

७८–अर्क बेलका–बेलपत्रका अर्क कफको हरता है, बलको करता है, हलका है, गरम है, पाचन है।

७९–अर्क शिबना-गम्भारीका अर्कभ्रांति, तृषा, शूल, बवासीर, विष दाह इन सबको हरता है ।

८०– अर्क पाडली-पाडलका अर्क छर्दि, सोजा, रक्त, तृषा दाह अरुचि इनको हरता है ।

८१–अर्क अरनी–सोजा, कृमि, पांडु, कफ, इनको हरता है ।

८२–अर्क स्योनाक–स्योनाकका अर्क गुल्म बवा-सीर कृमिदाह इनको हरता व रुचिऔरअग्निको बढ़ाताहै।

८३–अर्क शालपर्णी-शालपर्णीका अर्क क्षत, कृमि, ज्वर, छर्दि, अतिसार इनको हरता है ।

८४–अर्क पृष्ठपर्णी-पृष्ठपर्णीका अर्क ज्वर, श्वास, रक्तातिसार और दाह इनको हरता है ।

८५–अर्क बड़ी कटेली-बड़ी कटेलीका अर्क ज्वर, वैरस्य, मैल, अरुचि और शूल इन सबको हरता है ।

८६–अर्क कटेली-कटेलीका अर्क गर्भको देता पाचन, कफ और खांसीको हरता है ।

८७-अर्क गोखरू-गोखरूका अर्क पथरी, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, हृद्रोग और वायु इनको हरता है।

८८-अर्क जीवंती-जीवंतीका अर्क अतिसार और नेत्ररोग तथा सन्निपात इनको हरता है।

८९-अर्क मुद्गपर्णी-मूँगपर्णीका अर्क सोज, दाह, संग्रहणी, बवासीर, अतिसार इन सबको हरता है।

९०-अर्क माषपर्णी-माषपर्णीका अर्क वीर्यको बढ़ाता है और पित्तज्वर रक्तविकार इनको हरता है।

९१-अर्क श्वेतअरण्ड-सफेद अरंडाका अर्क शूल, मस्तकपीड़ा, उदररोग इनको हरता है।

९२-अर्क लाल अरंड-लाल अरंडका अर्क, श्वास खांसी, कुष्ठ, आमवात इनको हरता है।

९३-अर्क मंदार-वात, कुष्ठ, कंडू, व्रण, विषको हरता है।

९४-अर्क आक-आकका अर्क तिल्ली, गुल्म, बवासीर, कफ, उदररोग, कृमि इनको हरता है।

९५-अर्क थोहर-थोहरके अर्कको शरीरपर लेपनेसे व्रण, सोजा, उदर, इनको हरता है।

९६-अर्क सातला-कफ पित्त, उदावर्त्त, सोजाको हरता है।

९७-अर्क सांगली-फलहारीका अर्क लेपनेसे सोजा, बवासीर, व्रणरोग ये सब दूर होते हैं।

९८--अर्क किनेर--नेत्र सूजन, कुष्ठ, व्रण, इनको हरता है।

९९--अर्क चण्डालकन्दा-चण्डालकन्दाका अर्क विषको हरता है तथा लेप करने व भक्षणमें श्रेष्ठ है।

१००-अर्कधतूरा-लेपनसे कृमि और विषको हरताहै।

१०१--अर्क बांसा-बांसाका अर्क ज्वर, छर्दि, प्रमेह, कुष्ठ, क्षय, खांसी इनको हरता है।

१०२-अर्कपर्पट-पित्तपापड़ाका अर्क रक्तपित्त, भ्रम, तृषा, कफज्वर इनको हरता है।

१०३-अर्क नींब-नींबका अर्क श्रम, तृषा, खांसी, ज्वर, अरुचि, छर्दि इन सबको हरता है।

१०४-अर्क बकायन-बकायनका अर्क गुल्म और मूषाका विष इन दोनोंको हरता है।

१०५-अर्क पारिभद्र-पारिभद्रका अर्क वायु, कफ, सोजा, स्वेदरोग और कृमि इनको हरता है।

१०६-अर्क कांचनवृक्ष-कचनारका अर्क गंड-माला गुदभ्रंश, व्रण इनको हरता है।

१०७-अर्क बिदारा-बिदारका अर्क रक्तपित्त, प्रदर, क्षय, खांसी इनको हरता है।

१०८-अर्क कटुसहिंजना-कटुसहिंजनेका अर्क रुचि और वीर्यको बढ़ाता है, ग्राही तथा दीपन है।

१०९-अर्क मीठा सहिंजना-मीठे सहिंजनेका अर्क विद्रधि, सोजा, कृमि इनको हरता है।

११०-अर्क श्वेत सहिंजना-विषको हरता है नेत्रको हित है और इसके नस्यसे, मस्तकशूल दूर होता है।

१११-अर्क गोकर्णी-गोकर्णीका अर्क कर्णशूल, सोजा, व्रण, विष इनको हरता है।

११२-अर्क निर्गुंडी-निर्गुंडीका अर्क कृमि, व्रण, कुष्ठ, अरुचिको हरता है और हलका है।

११३-अर्क कालीनिर्गुंडी-कालीनिर्गुंडीका अर्क शूल सोजा, आमवात, इनको हरता है।

११४-अर्क कुडा-कुडेका अर्क दीपन है, और कफ, तृषा आमवात, कुष्ठ इनको हरता है।

११५-अर्क करंज-करंजुआका अर्क कफ, गुल्म, बवासीर, व्रण, कृमि, इनको हरता है।

११६-अर्क चिकना-चिकना करंजुआका अर्क भेदी है वात, बवासीर, कृमि, कुष्ठ इनको हरता है।

११७-अर्क करंजी-करंजीका अर्क छर्दि, वायु बवासीर, कुष्ठ प्रमेह इन सबको हरता है।

११८-अर्क गुंजामूल-चिरमिटीकी जड़का अर्क केशोंको बढ़ाता है और वात, पित्त, कफको हरता है।

११९–अर्क गुञ्जा–चिरमिटीका अर्क श्वास, मुख, शोष, भ्रम, ज्वर इन सबको हरता है ।

१२०–अर्क कौंच स्त्रीसंगमेंहित है,वीर्यको बढ़ाता है।

१२१–अर्क वेतस–वेतस अर्क दाह, सोजा, बवासीर, योनिशूल, व्रण, इनको हरता है ।

१२२–अर्क जलवेतस–जलवेतसका अर्क ग्राही है । शीत और वायुको बढ़ाता है ।

१२३–अर्कहिज्वल–परेलाका अर्क स्थावर, जंगम विषको हरता है ।

१२४–अर्क अंकोल–अंकोलका अर्क शूल, आम, सोजा, विष, अंगपीड़ा इन सबको हरता है ।

१२५–अर्क खरैंटी--खरैंटीका अर्क ग्राही है और वातरक्त, रक्तपित्त, क्षत इनको हरता है ।

१२६–अर्क गंगेरन-मूर्छा तथा मोहको हरता है।

१२७–अर्क लक्ष्मण–लक्ष्मणके अर्कको सेवनेसे बंध्या स्त्री भी पुत्रको उपजाती है ।

१२८–अर्कस्वर्णवल्ली-सोनाबेलिका अर्क मस्तकशूल और सन्निपातको हरता है और स्तनोंमें दूधको बढ़ाता है।

१२९–अर्क कपासी-कपासकी बोड़ीका अर्क कानमें चुपड़नेसे कानके रोगोंको हरता है ।

१३०–अर्कवंश–वंशका अर्क कफ, पित्त, कुष्ठ रक्त दोष, व्रण, शोष इन सबको हरता है ।

१३१--अर्क नल--नलका अर्क बस्ति पीड़ा, दाह, पित्त, विसर्प इन सबको हरता है।

१३२--अर्क पांडी--पांडीका अर्क ज्वर, छर्दि कुष्ठ, अतीसार, हृदयको हरता है।

१३३--अर्क श्वेत निसोत--सफेद निशोतका अर्क तिल्ली, गुल्म, व्रण, विष इनको हरता है।

१३४--अर्क शरपुंखा--शरपुंखाका अर्क तिल्ली, गुल्म, व्रण, विष इन सबको हरता है।

१३५--अर्क धमासा--धमासाका अर्क मद, भ्रांति, रक्त पित्त, कुष्ठ, खांसी इनको हरता है।

१३६--अर्क मुण्डी--मुण्डीका अर्क बलको ज्यादा बढ़ाता और तिल्ली, मोह, बातरोग इनको हरता है।

१३७--अर्क अपामार्ग--ऊंगाका अर्क छर्दि, कफ, मेदरोग, वायुरोग इन सबको हरता है।

१३८--अर्करक्त (लाल) ऊंगा--धातुओंका स्तंभन करता है।

१३९--अर्क कोकिलाक्ष-सेवनेमें सोजाको हरता है।

१४०--अर्क अस्थिसंहारिका-टूटे हाडोंको जोड़ता है।

१४१--अर्क गुआरपट्ठा-गुआरपट्ठाका अर्क ग्रंथि अग्निदग्ध, फुन्सी इनको अच्छा करता है।

१४२--अर्क श्वेतपुनर्नवा-श्वेत सांठीका अर्क सब प्रकारके नेत्ररोगोंको हरता है ।

१४३--अर्क रक्तपुनर्नवा--लाल सांठीका अर्क ग्राही है पित्त और रक्तदोषको हरता है ।

१४४--अर्क चांदबेल-चांदबेलका अर्कवातको हरता है, वीर्यको बढ़ाता है टूटेको जोड़ता है, दस्तावर है ।

१४५-अर्कसारिवा-मंदाग्निऔर खांसीको हरता है।

१४६--अर्क भंगरा-भंगराका अर्क केशोंको हित है। रुचिको उपजाता है और शिरकी पीड़ाको हरता है ।

१४७--अर्क शाणपुष्पी-शाणपुष्पी बेलका अर्क पित्त और कफको हरता है ।

१४८--अर्क बनाफशा--बनाफशाका अर्क शूल, विष बिलेपी और ज्वरको हरता है ।

१४९--अर्क मूर्वा--मूर्वाका अर्क प्रमेह, हृद्रोग, खाज, कुष्ठ, ज्वर इन सबको हरता है ।

१५०--अर्क काकमाची--काकमाचीका अर्क नेत्रोंको हित है, छर्दि और हृद्रोगको हरता है ।

१५१--अर्क मकोय--मकोयका अर्क बाणीको शुद्ध करता है और सोजा, बवासीर, श्वेतकुष्ठ इनको हरता है ।

१५२–अर्क काकजंघा–काकजंघाका अर्क ज्वर, खाज, कृमि और विषको हरता है

१५३–अर्क नागिनी–नागिनीका अर्क शूल, योनिदोष, कृमि इनको हरता है।

१५४– अर्क मेढासिंगी–मेढासिंगीका अर्क श्वास, खांसी, व्रण, कफ नेत्रशूल इनको हरता है।

१५५–अर्क हंसपदी–हंसपदीका अर्क लूता भूत-बाधा, रक्तदोष, व्रण विष, इनको हरता है।

१५६–अर्क सोमवल्ली–सोमवल्लीका अर्क सन्निपात को हरता है, दूधको बढ़ाता है और रसायन है।

१५७–अर्क आकाशबेल–आकाशबेलका अर्क ठंढा है और पित्त, कफ आम इनको हरता है।

१५८–अर्क पातालगारुडी–पातालगारुडीका अर्क स्त्री संगमें हित है और वात रोगको नाशता है।

१५९–अर्कवृन्दा–विषराक्षसबाधा,व्रणको हरता है।

१६०–अर्क श्वेत आजबलाका-सफेद आजबलाका अर्क गरम है, योनिरोग मूत्ररोगको हरता है।

१६१–अर्क हिंगुपत्री–हिंगुपत्रीका अर्क विबंध, बवासीर, कफ, गुल्म वायु इनको हरता है।

१६२–अर्क वंशपत्री-वंशपत्री अर्क पाचन है गरम है, हृदय और बस्तिके विकारोंको हरता है।

१६३-अर्क मत्स्याक्षी-मीनाक्षीका अर्क ग्राही शीतल है और कुष्ठ, पित्त, कफ इनको हरता है।

१६४-अर्क सर्पाक्षी-सर्पाक्षीका अर्क व्रणको भरता तथा सांप और बिच्छू आदिकोंके विषको हरता है।

१६५-अर्क शंखपुष्पी-शंखपुष्पीका अर्क विषको हरता है और कांति,स्मृति, बल इनको हरता है।

१६६-अर्क पुष्पी-अर्कपुष्पीका अर्क कृमि, कफ, प्रमेह, पित्तविकार इन सबको हरता है ।

१६७-अर्क उन्मादपंचक-धतूरा, सोमबेल, भंग, जावित्री, खसखस, इनके बराबर अजवायन, दूध मिलाके अर्कको काढ़ो इस अर्कको पानेवाला पुरुष पचास उन्मत्तोंके समान उन्मत्त हुआ १०० स्त्रीसे भोग करे।

१६८-अर्क त्रिसुगंध-दालचीनी, इलायची, और तमालपत्र इनका अर्क मुखकी दुर्गंधिको दूर करे और मैलका छेदन करे।

१६९-अर्क चतुर्जात-नागकेशर, इलायची, दालचीनी, तमालपत्र इनका अर्क वर्णको शुद्ध करता है, अग्निको बढ़ाता और विषको हरता है।

१७०-अर्क त्रिफलाका-हर्रे, बहेडा, आंवला इनका अर्क प्रमेह, कुष्ठ, विषमज्वर तथा पित्तको हरता है।

१७१-अर्क त्रिकुटा-सोंठ, मिर्च, पीपल इनको त्रिकुटा कहते हैं। इसका अर्क गुल्म, कफ, मोटापना, मेदरोग, श्लीपद तथा पीनसको हरता है।

१७२-अर्क पंचकोलका-पीपली, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ इनको पञ्चकोल कहते हैं। इसका अर्क गुल्म, तिल्ली, अफरा और उदररोगको हरता है।

१७३-अर्क देवीज्वरहर-चंदन, वासा, नागरमोथा, गिलोय, दाख इनका अर्क शीतल है और शीतलासे उपजे ज्वरको नाशता है।

१७४-अर्क गर्भकरण-असगन्धके अर्कमें दूध और घी मिला रजस्वलाके पीछे चौथे दिन स्नान करके जो स्त्री प्रभातमें पीवे तो वह अवश्य गर्भ धारण करे।

इति श्री मुंशी भगवानप्रसाद शिष्य भगत भगवानदास
विरचित वैद्यक रसराजमहोदधि भाषाका दूसरे
भागका पांचवां खण्ड समाप्त ।। ५ ।।

समाप्तोऽयं ग्रन्थः

हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान :

खेमराज श्रीकृष्णदास
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,
७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर,
मुबई - ४०० ००४.
दूरभाष फैक्स-०२२-२३८५७४५६.

खेमराज श्रीकृष्णदास
६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट,
पुणे - ४११ ०१३.
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५,

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,
लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग,
जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक,
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१
दूरभाष - ०२५१-२२०९०६१.

खेमराज श्रीकृष्णदास
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१.
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८

Printers & Publishers :
Khemraj Shrikrishnadass Prop: Shri Venkateshwar Press, Khemraj Shrikrishnadass Marg, 7th Khetwadi, Mumbai - 400 004.

Web Site : http://www.Khe-shri.com
Email : khemraj@vsnl.com

Printed by Sanjay Bajaj For M/s.Khemraj Shrikrishnadass Proprietors Shri Venkateshwar Press, Mumbai-400 004, at their Shri Venkateshwar Press, 66 Hadapsar Industrial Estate, Pune 411 013

वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा

तीसरा भाग ३

मुन्शी भगवानप्रसाद के शिष्य भगतभगवानदास वल्द
सुबराज मुराई गाँव चकवढ़वल (जिला जौनपुर)
निवासी द्वारा निर्मित

खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन बम्बई

संस्करण : मार्च २०१९, संवत् २०७५

मूल्य : १५० रुपये मात्र ।

मुद्रक एवं प्रकाशक:
खेमराज श्रीकृष्णदास,™
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,
मुंबई - ४०० ००४.

© सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

Printers & Publishers :
Khemraj Shrikrishnadass,
Prop: Shri Venkateshwar Press,
Khemraj Shrikrishnadass Marg, 7th Khetwadi, .
Mumbai - 400 004.

Web Site : http://www.Khe-shri.com
Email : khemraj@vsnl.com

Printed by Sanjay Bajaj For M/s. Khemraj Shrikrishnadass
Proprietors Shri Venkateshwar Press, Mumbai - 400 004,
at their Shri Venkateshwar Press, 66 Hadapsar Industrial
Estate, Pune 411 013.


अथ सब किस्म के धातु का भस्म रस है.

अथ हाडकी संख्या और चित्र.

शरीरमें ३०० हाडको जुदाजुदा भागमें लिखते हैं आदि भागमें १२० हाडहैं, मध्य भागमें ११७ हाडहैं. अन्तभागमें ६३ हाडहैं. सो सब अंगमें अलग २ लिखतेहैं देखा

अन्तभागमें ६३ हाडहै. ग्रीवामें ९ हाड हैं. कंठकी नाडीमें ४ हाडहैं ठोढोमें २ हाडहैं. दांतमें ३२ हाडहैं नाकमें ३ हाड हैं तालुमें १ हाड है कपोलमें २ हाड हैं. कानमें२हाडहैं शिरमें ६ हाड हैं. कनपटिओंमें२ हाड है इसीसे सब हाड जानो



मध्यभागमें ११७हाड हैं.सो कटिमें ९ हाड हैं.लिंगगुदानितंब इन्होंमें ४ हाडहैं त्रिकमें १ हाड है. ऐसे मिलके ९ हाड हैं. गलेमें ३० हाड हैं. छातीमें ८ हाड हैं. अक्षसंज्ञक २ हाडहैं. एक पसुलीमें ३६ हाडहैं. दूसरीपसुलीमें ३६ हाड हैं. ऐसे सब मिलके ११७ हाड हैं.

आदिभागमें १२० हाडहैं. सो पैरोंके एक एक अंगुलीमें तीनतीन हाडहैं. ऐसे सब दोनों पैरोंमें १५ हाडहैं तलओंमें १० हाड हैं. पर्शिनमें १हाड है. जंघोंमें २ हाडहैं. गोडोंमें १हाडहै.ऊरुओंमें १ हाडहै. दोनों हाथमें६०हाड हैं.ऐसे सबमिलके९० हाडहैं. दोनों पैरोंमें३०हाड हैं. सब १२० हाडहैं. यही जानो.

अथ सातसौ नाडी संख्या और चित्र.

शरीरमें ७०० नाडी हैं और शरीरमें तीन भाग हैं. आदिभाग मध्यभाग अन्त भाग. सो आदि भागमें २००नाडी. मध्यभागमें ३३६ नाडी. अन्तभागम १६४नाडी हैं. सो अलग अलग अंगमें लिखतहैं. देखो चित्रको.

अन्तभागमें १६४ नाडी है सो जानो. वात बाहिनी ४१ नाडीहै. पित्त वाहिनी ४१ नाडीहै. कफवाहिनी ४१ नाडी हैं. रक्तवाहिनी ४१ नाडी है.

बीज मंत्र.
राम रामेति
रामेति रमेरामे
मनोरमे



मध्यभागमें ३३६ नाडी है सो जानो. वात वाहिनी ३४ नाडीहैं पित्त वाहिनी ३४ नाडी हैं. कफ वाहिनी ३४ नाडीहैं रक्तवाहिनी ३४ नाडी हैं

आदिभागमें १००नाडी हैं सो जानो बातवाहिनी २५ नाडी हैं. पित्तवाहिनी २५ नाडीहैं. कफवाहिनी २५ नाडी हैं. रक्तवाहिनी २५ नाडी हैं.

मध्यभागमें दो हाथ है सो एक एक हाथमे सौ सौ नाडी है सो जानो बातबाहिनी ५० नाडी हैं. पित्तबा. ५०ना. है. कफ वा. ५०ना. है रक्तवा. ५० नाडीहै

आदिभागमें १०० ना.है.वा. वा२५ ना.है.पि.वा. २५ ना.है.कफवा. २५ ना. है.रक्तवा. २५

अथ देवता नाडीका स्वरूप चित्र.

ब्रह्मा लोक	विष्णु लोक	रुद्रलोक

वातनाडीका देवता ब्रह्मा	पितनाडीका देवता वीष्णु	कफनाडीका देवता रुद्र
वातनाडी सतो गुण.	पित्तनाडी रजो गुण.	कफनाडी तमोगुण

अथ धातु भस्म भट्टी स्थान.

पहिले नवविधिसे पूजा करावे तब पांच देवताको नमस्कार कारि भट्ठीमें दवा रखे तब नीचेका दोहा पढै तब पांच बार नीचेका मंत्र पढै तब अग्नि भट्ठीमें छोडे.

दोहा.

सिद्धिविनायक सिद्धिकरो, सिद्धिरूप भगवान
हनुमानकाली कालभैरव, सदा करो कल्यान
मंत्र—ॐह्रीं श्रीं घ्रीं गुरूकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र
ईश्वरो वाचा ऊंऊकार स्वाहा भगतभगवानदास



भूमिका

सब वैद्य हकीम सुजन जनोंको विदित हो कि, अब इस संसारमें नाना-प्रकारके वैद्यक ग्रंथ छपे हैं देववाणीमें देश परदेशमें विराजमान हैं किस्मकिस्मके सब दवा तरकीब लिखे हैं लेकिन संस्कृतमें शब्द हैं तो कुछ मालूम नहीं होताहै, विना वैद्यक पढे अब वैद्य होना चाहता है दाम देकर वैद्यक लेकर रख देता है, दवा देने लगा खासा वैद्य बन गया। बिना दश पन्द्रह वर्ष गुरुके पास पढे कुछ वैद्यक विद्या समझमें नहीं आतीहै। वैद्यक विद्या कठिन है तिसको देखकर मुन्शी भगवान प्रसादका शिष्य भगत भगवानदासको बहुत पंडित वैद्यलोग हकीमजन और छापेखानेके मालिक सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासने भी लिखा कि "रसराजमहोदधि" वैद्यक भाषाका तीसरा भाग बनै तब भगत-जी सब देव मनायके और मुन्शी भगवानप्रसाद, पंडित कामताप्रसाद, पंडित इन्द्रदत्त, पंडित भगवानदत्त, पडित रामअवतार इन सबकी कृपादृष्टिसे और सिद्धि रूपको नमस्कार करिके सहज हिन्दी भाषामें नवीनरीतिसे अनेक प्रका-रके धातु शोधन मारण शुद्धकरण गुण अनुपान सर्व रोगोंपर नाना प्रकारके उपाय रोगनाशन सरल क्रिया विधिपूर्वक वैद्यक मतानुसार रचित किया गया। ऐसी भस्मक्रिया सहज विधि दूसरे वैद्यक ग्रंथमें मिलना कठिन है सो परउप-कारी समझके मुन्शी भगवानप्रसादका शिष्य भगत भगवानदास वल्द शुबराज मुराई चकबढवलनिवासी जिले जौनपुरने विरचित किया। जो शब्द भूल चूक होय शुद्ध करलेवें। मिती भादों सुदी पंचमी वार रविवार संवत् १९५९ तारीख ७ सितम्बर सन १९०२ ईसवी ॥

आपका कृपाभिलाषी—
भगत भगवानदास.

॥ श्रीः ॥

अथ वैद्यक रसराजमहोदधि भाषाकी अनुक्रमणिका ।

भाग तीसरा.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
वन्दना दोहा	१	चांदीभस्म खानेका गुण....	१४
वैद्यके हेतु शिक्षा	३	चांदीभस्म खानेका अनुपान	१५
शरीरकी भूतसंख्या	४	तांमा शोधन विधि	१७
शरीरके हाडकी संख्या चित्र	५	तांमा मारण विधि	"
नाडीका स्वरूप भेद	"	तांमाभस्म शोधनविधि	"
मुख्य शिराभेद नाडीवर्णन	६	तांमाभस्म खानेका गुण....	१८
सब रोगका दान उपदान	७	तांमाभस्म खानेका अनुपान	"
रोगीके हितकी शिक्षा	"	रांग शोधन विधि	२०
दूत लक्षण	८	बंगनामरांगामारणविधि	"
रोगीकी परीक्षा ...	"	बंगशोधन विधि	"
रोगीके पथ्य	९	बंगभस्म खानेका गुण	२१
सोना आदिक धातुप्रकार....	"	बंगभस्म खानेका अनुपान....	"
प्रथम सोना शोधन विधि	"	शीशा शोधन विधि	२४
सोना मारण विधि	"	शीशा मारण विधि	"
सोना भस्म शुद्धकरण	१०	शीशाभस्म शोधन विधि....	"
सोना भस्म खानेका गुण....	"	शीशा भस्म खानेका गुण	२५
सोना भस्म खानेका अनुपान	११	शीशा भस्म खानेका अनुपान	"
चांदी शोधन विधि	१३	लोहाशोधनविधि	२६
चांदी मारण विधि	१४	लोहामारणविधि	"
चांदी भस्म शोधन विधि....	"	लोहाभस्म शोधन विधि....	"
		लोहाभस्म खानेका गुण	२७

विषय.	पृष्ठ.
लोहाभस्म खानेका अनुपान	२७
जस्ताशोधन विधि	२९
जस्ता मारण विधि	,,
जस्ताभस्म शोधन विधि....	३०
जस्ताभस्म खानेका गुण....	,,
जस्ता भस्म खानेका अनुपान	,,
अभ्रक शोधन	३१
अभ्रक सहस्रपुट भस्मविधि	,,
अभ्रक सहस्रपुट भस्मखानेका गुण	३२
अभ्रकभस्म सहस्रपुट का अनुपान....	३३
हरतार मारण	३७
गन्धक शोधन विधि	,,
सिंदूर शोधन विधि	३८
फिटकिरी शोधन	,,
मूंगामारण विधि	,,
मोती मारण विधि	३९
चौकिया सोहागा शोधन विधि	,,
हगुरशोधन मारण विधि....	,,
सर्वरसभस्म अनुपान वर्णन	४०
अभ्रक दशपुटी भस्म विधि	,,
धूर्तसे बचनेकी शिक्षा	४१
विद्यावानके हितकी बात....	४२
गराशोधन विधि	,,

विषय.	पृष्ठ
सर्ववातव्याधिपर तेल	४३
वातपर दूसरातेल	४४
तीसरातेल वात दर्दपर....	४५
सर्व ज्वरपर चूर्ण	,,
ज्वरपर अर्क....	४६
भांटाके बीजका तेल	,,
मूलीके बीजकातेल	,,
पंचधान्य चूर्ण	४७
पंचधान्य मिसरी चूर्ण	,,
दूसरा चूर्ण....	४८
पुष्टिकरण दवा	,,
इन्द्रीका लेप	,,
इन्द्रीका दूसरा लेप	४९
इच्छाभेदी जुलाब	,,
दस्त बन्द करनेकी गोली	,,
लक्ष्मी विलास रस	५०
वायुके सब प्रकारकी दवा	५१
पेटदर्दपर चूर्ण	,,
अजीर्णपर चूर्ण	,,
श्रममूर्छाकी दवा (१)....	५२
श्रममूर्छाकी दवा (२)....	,,
श्रममूर्छाकी दवा (३)....	,,
खाँसीश्वासकी दवा	,,
खजुरीरोगकी दवा	,,
हरतालगुटिकारस	५३
हरतालरस गुटिका	५४

विषय.	पृष्ठ.
प्रसूत ज्वरकी दवा	५५
सन्निपातमें निद्रानाशकी दवा	,,
सन्निपातज्वरकी दवा	,,
शीतज्वरकी दवा	५६
शरीरपुष्टिकारक दवा	५७
चौथियाज्वरका टोटका	,,
चौथियाज्वरका दूसरा उपाय	५८
चौथियाज्वरकी दवा (१)	,,
चौथियाज्वरकी दवा (२)	,,
सर्व ज्वरको शर्बत	५९
शर्बत सर्वरोगपर	,,
शर्बत पित्तज्वरका	६०
शर्बत प्रसूतज्वरका	,,
बालकके ज्वरका शर्बत	६१
पानका शर्बत	,,
शर्बत हैजाकी बीमारीका....	६२
शर्बत प्रमेहका	,,
प्रमेहका दूसरा शर्बत	६३
शर्बत अंवराका अतीसारपर	,,
उदररोगकी विधि	,,
मुंजीसकी विधि	६४
बडी मुंजीस....	,,
चूर्ण सर्वरोगपर	६५
नाकसे खून गिरनेकी दवा	,,
मुखसे खून गिरनेकी दवा	,,
दूसरी दवा....	६६
ज्वर उपवासपर गोली	६६
बालकके पलईकी दवा	,,
दूसरी बालकके पलईकी दवा	६७
बालकके पलईके लेप	,,
बालकके माटीखानेकी दवा	,,
बालकका जुलाब	,,
सर्व वातपर लेप	६८
लेपकी विधि	,,
गार्भिणीकी दवा	६९
दूसरी गर्भिणीकी दवा	,,
गर्भिणीको पथ्य	,,
अन्तराज्वराकी दवा (१)	,,
अन्तराज्वरकी दवा (२)	७०
शूलपर लेप....	,,
शबत गुरूचीका	,,
शर्बत आलूका	७१
शर्बत कासनीका	,,
शर्बत गुलाबके फूलका	,,
शर्बत कातका	७२
शर्बत गाजवांका	,,
शर्बत ब्रह्मडंडीका	७३
शर्बत उसवामगरवीका	,,
शर्बत उन्नाबका	७४
शर्बत शित्रलिंगीका	,,

विषय.	पृष्ठ
वीर्य्यस्तंभन....	७५
दूसरा प्रयोग	,,
मदनकामदेवरस	७६
स्तंभन चूर्ण....	७७
वीर्यकरन नपुंसकको	,,
अमर अमृतरस	७८
दादकी दवा....	७९
सेहूँकी दवा	८०
राजाअमीरकी दवा	,,
भैंसवा दादकी दवा	,,
योगराजगुग्गुल	८१
दूसरा योगराजगुग्गुल	८२
तीसरा योगराजगुग्गुल	,,
किशोरगुग्गुल	८४
गुग्गुलवटी	,,
त्रिकटुवटी	८५
फलत्रयवटी....	,,
दमाकी दवा....	,,
श्वासकुठाररस	,,
दमाकी दवा....	८६
श्वास दमापर दवा	,,
त्रिफलायोग....	८७
मृतसञ्जीवनीरस	,,
प्रभागुटी	,,
गन्धक रसायन	८९
दूसरा गन्धकरसायन	९०
वातादिसर्वरोगपर रस	,,
इन्द्रीजुलाब....	९१
दूसरा इन्द्री जुलाब	,,
मोहनभोग	९२
शरीररत्न	,
उदररोगपर चूर्ण	९३
पिल्हीपर दवा	,,
आमवातपर बाण	,,
सब ज्वरकी जडी	९४
तिलक योग	,,
शरीरदाह प्यासकी दवा....	,,
सर्ववातपर तेल	९५
स्तंभनकी दवा	,,
दूसरी स्तंभनकी दवा	,,
स्तंभनकी तीसरी दवा	९६
लेप इन्द्रीका	,,
स्त्रीके फूल आनेकी दवा....	,,
दूसरी दवा	,,
स्त्री बांझकी दवा	,,
स्त्रीके फूल करन दवा	९७
स्त्री गर्भ करन दवा	,,
गर्भरहनेकी दवा	,,
गर्भरहनेकी दूसरी दवा	९८
पुनः दवा	,,

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
स्त्री पुरुष बांझ विचार	९८	छोटा मंजन	१०७
बालकके खांसी श्वासकी दवा	९९	सर्वज्वरपर दवा	,,
दूसरी दवा बालककी	,,	पुनःसर्वज्वरपर गोली	,,
बालकके अतीसारकी दवा	,,	ज्वरपर बूटी	१०८
पुनःबालकके अतीसारकी दवा	,,	ऊरुस्तंभरोगकी दवा	,,
बालकके ज्वरकी दवा	१००	दूसरी दवा ऊरुस्तंभकी	,,
ज्वर अतीसारकी दवा	,,	आमवातरोगकी दवा	१०९
अतीसार सन्निपातकी दवा	,,	आमवातकी दूसरी दवा	,,
आम अतीसारकी दवा	१०१	गलतकोढकी दवा	,,
अतीसारकी दवा सबपर....	,,	सफेद कोढकी दवा	,,
सब अतीसारकी दवा	,,	पुनः दवा	११०
पेट फूलनेपर दवा	१०२	पुनः दवा	,,
सब रोगोंपर चूर्ण	,,	क्षयीरोगकी दवा ...	,,
तेरह सन्निपातोंपर दवा....	,,	पुष्टिकरण दवा	१११
कासकर्तरी गोली	१०३	कानकी पीडाकी दवा	,,
हुचकीकी दवा	,,	कानमें पीवबहनेकी दवा ...	,,
कृमिरोगकी दवा	,,	आंखकी दवा	११२
शिरके कृमिकी दवा	१०४	नास लेनेकी दवा	,,
विजय भैरवरस	,,	सबलवायुपर खानेकी दवा	,,
वायु रोगकी दवा	,,	शिरलेपकी दवा	,,
चिन्तामणिरस	१०५	प्रमेह रोगकी दवा ..	,,
विषमज्वरकी दवा	,,	सुजाककी दवा	११३
प्रदररोगकी दवा (१)....	१०६	खाँसीकी दवा	,,
प्रदररोगकी दवा(२)....	,,	पुष्टिकरण दवा ...	,,
दन्तका मंजन	,,	शरीरपुष्टि करनेका वर्णन....	११४

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
शिरपर लेप करनेकी दवा	११४	पुनः दवा	१२३
शिरपीडाकी मालिस	११५	प्रदर रोगकी दवा	,,
उदर रोगकी दवा	,,	रोगीके शुद्ध करनेका बयान	,,
सर्वव्याधिपर तेल	,,	वमन करनेकी दवा	,,
वातपर दवा....	११६	जुलाबकी दवा	१२४
नामर्दीकी दवा	,,	दूसरा जुलाब ...	,,
पुनः दवा	,,	तीसरा जुलाब	,,
पुनः दवा	११७	संग्रहणीकी दवा	,,
पुनः दवा	,,	पुनि	,,
पुनः दवा	,,	पुनि	१२६
पुनः दवा	११८	पुनि	,,
पुनः दवा	,,	कोढकी दवा	,,
पुनः दवा	,,	पुनि	,,
पुनः दवा	११९	पुनि	१२७
पुनः दवा	,,	पुनि	,,
मूत्ररोगकी दवा	,,	पुनि	,,
मूत्र रोगकी पुनः दवा	१२०	उदररोगकी दवा	,,
मूत्र रोगकी पुनः दवा	,,	पुनि	,,
बहुत मूत्र होय उसकी दवा	,,	मूत्ररोगकी दवा	१२८
प्रमेह रोगकी दवा	,,	पुनि	,,
उपदंशरोगकी दवा	१२१	अरसरोगकी दवा	,,
उपदंशकी पुनःदवा	,,	पुनि दवा	,,
पुनः दवा	१२२	पुनि दवा	,,
पुनः दवा	,,	प्रमेहरोगकी दवा (१)....	१२९
छर्दीकी दवा	,,	प्रमेहरोगकी दवा (२)	,,

विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ.
पुनि दवा	१२९	पुनः दवा	१३४
पुनि दवा	,,	दांतरोगकी दवा	,,
पुनि दवा	,,	पुनः दवा	,,
पुनि दवा	,,	कमलरोगकी दवा	,,
पुनि दवा	१३०	पुनः दवा	,,
पुनि दवा	,,	पुनः दवा	,,
अर्शरोगकी दवा	,,	तापतिल्लीका दवा	१३५
अतिसारपर लेप	,,	सब्बलवायुकी दवा	,,
पुनः दवा	,,	नहरुवाकी दवा	,,
पुनः दवा अर्शरोगकी	,,	शिररोगकी दवा	,,
अर्शरोगकी दवा	१३१	पुनः दवा	,,
अजीर्ण रोगकी दवा	,,	पुनः दवा	,,
पुनः दवा	,,	पुनः दवा	१३६
पुनः दवा	,,	आंखकी दवा	,,
आंखकी दवा	१३२	पुनः दवा	१३७
पुनः दवा	,,	मृगीरोगकी दवा	,,
कानरोगकी दवा	,,	पुनः दवा	१३८
पुनः दवा	,,	तृषारोगकी दवा	,,
पुनः दवा	,,	पुनः दवा	,,
पुनः दवा	१३३	शूलरोगकी दवा	,,
नाकरोगकी दवा	,,	उन्मादरोगपर दवा	१३९
पुनः दवा	,,	पुनः दवा	,,
पुनः दवा	,,	पुनः दवा	,,
मुखरोगकी दवा	,,	सुन्नवायुकी दवा....	१४०
पुनः दवा	,,	दादकी दवा	,,

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
पुनः दवा	१४०	वातज्वर लक्षण	१४३
बणघावपर मलहम	,,	पित्तज्वर लक्षण	,,
कोढपर दवा	१४१	कफज्वर लक्षण	१४४
पुनि दवा	,,	वातज्वरकी दवा	,,
कण्ठरोगकी दवा	,,	पित्तज्वरकी दवा	१४५
चंटीरोगकी दवा	,,	कफज्वरकी दवा ..	,,
कण्ठरोगकी दवा	१४२	मलज्वरकी दवा	१४६
मुखझांईकी दवा	,,	अजीर्णज्वरकी दवा	,,
नामर्दीकी दवा	,,	सर्वज्वरकी दवा	,,
विवायरोगकी दवा	१४२	यंत्र वीसा अष्टदलकमल ...	१४७
खांसीकी दवा	१४३		

इत्यनुक्रमणिका समाप्ता ।

॥ श्रीः ॥

अथ वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा ।

तीसरा भाग ।

बन्दना-दोहा ।

बन्दौं चरण गणेशके ॥ शब्द कठिन विकराल ॥
दीजे बुधि विद्या कछुक ॥ जानिक आपन बाल ॥
जगदम्बा परमातमा ॥ तुम हौ दीनानाथ ॥
सरस्वती हियमें बसो ॥ सब विधि नावों माथ ॥
सिद्धिसुरूप दयालु प्रभु ॥ वैद्यक पर मन लाग ॥
सब मिलिके रक्षा करहु ॥ बने तीसरो भाग ॥
रसराज महोदधि ग्रंथ यह ॥ यक मैं करहुँ प्रकाश ॥
नहिं पिंगल नहिं कोष कछु ॥ रामनाम कर आश ॥
शीलवान अरु भाग्यवान् ॥ भगवान् प्रसाद है नाम ॥
वैद्यनाथ बुधिवान अति ॥ तिनको सदा प्रनाम ॥

सबही देव मनायके ॥ परमारथ कार्य विचार ॥
शोधन मारण धातु सब ॥ वैद्यकके अनुसार ॥
सबकर आज्ञा पायके ॥ वैद्यक लिखौं अपार ॥
धातू भस्म रसायनी ॥ गुण बल अपरम्पार ॥
भारतवासी दुःखिया ॥ नानाविधिके रोग ॥
तिनके नाशन वासते ॥ वैद्यक बना सँयोग ॥
विधिपूर्वक बनवै कोई ॥ गुरुक्रिया मतानुसार ॥
एक भस्म अनुपानसे ॥ नाशैं रोग हजार ॥
परआजा हमारो जीत है ॥ आजा चुरामणि जान ॥
भक्त शिवराज कर पुत्रमैं ॥ भगवानदास सो मान ॥
ठाठर गोदामके पासही ॥ चकबढ़वल है स्थान ॥
जिला जौनपुर जानहू ॥ जानत सकल जहान ॥
सजननको परनाम करि ॥ विनय करौं कर जोरि ॥
भूले शब्द सुधारियो ॥ हास्य न करियो मोरि ॥
भादों मास पुनीत है ॥ सुदि पंचमी रविवार ॥
संवत उन्निससौ उन्सठ ॥ योग लग्न अनुहार ॥
उनइस सौ दुइसन ईसवी ॥ सितम्बर तारीख सात ॥
शुभग ग्रंथ पूरण भयउ ॥ दियों सेठके हात ॥
गंगाविष्णु खेमराजजी ॥ पिता श्रीकिसनदास ॥

मारवाड निज देश है ॥ कीन्ह बम्बई वास ॥
तिनकर यन्त्रालय शुभग ॥ श्रीवेंकटेश्वर नाम ॥
बहुप्रकारके ग्रन्थ छपैं ॥ नानाविधिके काम ॥

इति ।

अथ वैद्यके हेतु शिक्षा ।

पहिले जो वैद्यक विद्या सीखना होय तो अपने देशकी भाषा पढ़ै तब देवनागरी आदि अच्छी तरह पढ़ै तब पीछेसे कोष शास्त्र और निघंटु शास्त्र चार पांच पढ़ै तब वैद्यक शास्त्र पढ़ै वागभट्ट निघण्टुरत्नाकर चरक सुश्रुत पढ़ै पन्द्रह वर्ष गुरुके पास रहकर सब वैद्यकी क्रिया सीखै अर्क रसायन धातु-शोधन मारण चूर्ण गोली मोदक अवलेह हलुवा कषाय काढा सर्बत चासनी पाक कल्क तेल लेप चीर फार मलहम इन सबको गुरुके सामने अच्छी तरहसे देखै, और करै सब किसमकी वनस्पती बूँटी जडी पहचानै और थोरा ज्योतिष पढ़ै तब ठीक होताहै। सम्पूर्ण वैद्यक क्रिया मालूम होय तब वैद्यजन रोगीके रोगका निदान लक्षण नाडी चेष्टा इत्यादिको देख रोग निश्चय करै तब दवा रोगीको देवै तब रोग-दोष छूटता है इति.

अथ शरीरकी भूत संख्या ।

शरीरमें सब २४ तत्त्व हैं सो सब अंगमें अलग २ भी हैं शरीरमें सब २०० संधि हैं सो सब अंगमें अलग २ भी हैं शरीरमें १०७ मर्म हैं सो सब अंगमें अलग २ भी हैं शरीरमें ५०० पेशी हैं सो सब अंगमें अलग २ भी हैं शरीरमें ३०० हाड हैं सो सब अंगमें अलग २ भी हैं शरीरमें ७०० नाडी हैं सो सब अंगमें अलग २ भी हैं शरीरमें सब९०० नसें हैं सो सब अंगमें अलग२ भी हैं शरीरके रोमकी संख्या गिनने लिखने योग्य नहीं है। ऊपर जो भूतसंख्या लिखी है उसीसे सब शरीर रचित है उसीमेंसे कोई एक बिगडती है या चोट लगती है तो यह शरीरमें जो जीव है उसको दुःख तुर्त होता है और जैसे जहाज खीलासे लोहासे बन्धी रह-ती है तैसे यह शरीर हाड नसआदिसे बंधा है। जैसे मकान सब सामानसे रचित है तैसे यह शरीर रचित है जैसे मकानको मनुष्य छोडके कहीं चला जाता है वह मकान गिर जाता है तैसे यह शरीरमेंसे जीव छोड़के निकल जाता है पीछेसे सुन्दर शरीर बिगड़ जारि गलि जाता है। सो भाई लोग। परलोकका खियाल करो पर-मार्थ करो सच्चा बोलो झूठको छोडो बुरे कामको त्याग करो चार दिनोंकी यह जिन्दगी है यह तन

पीछेकी छपी जानो परमेश्वरको जपो सब काम उनके अधीन हैं वही एक बुन्द पानीसे इस शरीरको रचते हैं उनको ख्याल करो.

अथ शरीरके हाडकी संख्या चित्र।

सब शरीरमें ३६० हाड हैं और ऐसे वेदवादी कहते हैं, कि शल्य तन्त्रमें सब हाड ३०० कहते हैं सो यही ३०० हाडको अलग २ भी लिखते हैं सो यह शरीरमें तीन भाग हैं आदि भाग मध्य भाग अन्त भाग। आदि भागमें १२० हाड हैं, मध्यभागमें ११७ हाड हैं, अन्त भागमें ६३ हाड हैं और सब शरीरमें अलग अलग भी हाड हैं सो चित्रके मोकाबिले दिखाये जायंगे। सब अंग अंग पर अंक रक्खा रहेगा.

अथ नाडीका स्वरूप भेद।

इस शरीरमें ७०० नाड़ी हैं सो शरीरका दुःख सुख उन्हीं नाडियोंके आधीन है। सातसौ नाडियोंकी जड नाभि है। नाभिसे नाड़ी मस्तक और पांवतक दोनों हाथ बलकिन सब शरीरमें फैली रहती हैं सो नाडी सब शरीरमें रस पहुँचाती हैं शरीरको तृप्त करतीहैं। जैसे फूल अन्न बगीचा आदिको बहती हुई जलकी नाली तृप्त करतीहै सींचतीहै तैसे सातसौ नाड़ी शरीरको भाषण नींद जागना शरीरको सुख देती हैं,

मनुष्यका प्राणजीव नाभि है। देखो एक बुन्द कोई अच्छी वस्तु शीतल वोलाके शरीक होय खाय लेय उसी दम आंख कान नाक हाथ पाँव तक तृप्त कर देतीहै। नाभिपर परतै जो गरम वा कडुवा खाय लेवै तो आँख कान नाक पावमेंसे अग्नि निकलने लगती है ऐसा जानो.

अथ मुख्य शिराभेद नाडीका वर्णन।

पहिले जड़ चार नाडी हैं-वात नाडी पित्त नाडी कफ नाडी रक्त नाडी। तब वातवाहिनी १० नाडी हैं पित्तवाहिनी १० नाडी हैं कफवाहिनी १० नाडी हैं रक्तवाहिनी १० नाडी हैं। सो वातवाहिनी नाडी वात स्थानमें जाके १७५ होजाय हैं और पित्तवाहिनी नाडी पित्त स्थानमें जाके १७५ हो जाय हैं और कफ-वाहिनी नाडी कफ स्थानमें जाके १७५ होजाय हैं और रक्तवाहिनी नाडी रक्त स्थानमें जाके १७५ हो जाय हैं। ऐसे सब मिलकर ७०० नाडी। जैसे मस्तक शिर कांधेके ऊपर १६४ नाडी हैं अन्त भाग है और कांधेके नीचे जांघतक दोनों हाथ लेके ३३६ नाडी हैं मध्य भाग है और जांघके नीचे दोनों पाँवमें २०० नाडी आदि भाग है.

अथ सब रोगका दान उपदान ।

पहिले सब रोगका कर्मविपाक करावै रोगीके रोग दोषको निश्चय करै तब उसका दान उपदान करावै । विना दान पूजा पाठ किये रोगीका जन्मपाप नहीं छूटताहै महादेवका महारुद्रका जप मृत्युंजय और परमेश्वरका सहस्र नामका पाठ करावै ब्रह्माके स्तोत्रका पाठ करवावै ब्राह्मणको भोजन देवै दीन मनुष्यको अन्न देवै और गोदान करवावै दुर्गाकी पूजा करवावै तब रोगीको दवा देवै, दवा गुण करै.

अथ रोगीके हितकी शिक्षा ।

अच्छा वैद्य वैद्यकशास्त्र पढा हुआ होय तब द्रव्य होय तब अच्छा दवा लेवै तब अच्छा रोगी विश्वासी दवाका निश्चय करनेवाला पथ्य करनेवाला रोगी होय तो रोग छूटता है। रोगी निरोग होयके चंगा होताहै वैद्यको द्रव्य और यश मिलता है । जो रोगी दवा नहीं करता है तो रोग साध्य होताहै जो साध्य दवा नहीं करताहै तो महासाध्य होता है जो महासाध्य दवा नहीं करता है तो असाध्य होता है जो असाध्य दवा नहीं करता है तो महा असाध्य होताहै जो महाअसाध्य दवा नहीं करताहै तो मृत्यु होती है । निश्चय करके रोगका मालिक वैद्य है उमरका मालिक

वैद्य नहीं है। रोगका दवा उपाय नाना प्रकारका है मृत्यु कालका दवा नहीं है। जबतक श्वास शरीरमें आता रहे तबतक हजारों तरकीब करे रोगीको त्याग नहीं करे। दवासे रोगीके रोगको नाशै. विना दवा रोगीका रोग नहीं छूटताहै। रोगीकी दवा करै पापके वास्ते दान पुण्य करै पूर्व जन्मके पापसे भी रोग होताहै उसके वास्ते मृत्युंजय जप करवावै.

अथ दूत लक्षण।

रोगीके जातिका होय सफेद कपड़ा पहने होय लंगड़ा काना न होय दूतके कहे अक्षरको गिनि तीनको गुणाकर आठका भाग देवै सम बचै तो मृत्यु होय विषम बचै तो आरोग्य होय.

अथ रोगीकी परीक्षा।

रोगीकी चेष्टा देखकर नाडी देखकर पूंछकर परीक्षा करै। बिना रोगीका रोग निश्चय किये दवा नहीं गुण करती है। पहिले अच्छी तरहसे रोग चीनके दवा करै। गरम शरद कमती ज्यादा बालकका मोताद तरुणका मोताद वृद्धका मोताद अनुपान समझके दवा देवै। रोगीका सुपारस न करै रोगीके सुपारससे वैद्यक और वैद्यकी प्रशंसा जाती रहती है.

अथ रोगीके पथ्य।

रोगीको चाहिये कि पथ्यसे रहै वैद्यके कहे प्रमाण दवा व पथ्य करै और कच्चा पानी न पीवै। साधारण ज्वरमें अधचुरा पानी पीवै। धुनि ज्वरमें अढाईभाग सेरभरमें जलजाय तो पीवै। सन्निपात ज्वरमें चतुर्थ पानी जलजाय तो पीवै, तो रोग छूटजाय.

अथ सोना आदिक धातुप्रकार।

सोना चान्दी तांबा रांगा शीशा लोहा जस्ता यह सात धातु हैं सो इन्हीके जुदा २ शोधन मारण गुण अनुपान इत्यादि लिखते हैं.

अथ प्रथम सोनाशोधन विधि।

जंबीरी निम्बूके रसमें कांजीमें सेन्धानोनमें तेलमें गोमूत्रमें छांछमें गायके दूधमें त्रिफलामें इन सबमें सोनाका पतला पात करिकै अग्निमें लाल करके सात सात वार बुझावै तब शुद्ध होय। इसी विधि प्रमाणसे सातों धातु शुद्ध करै तब मारण करै दोष रहित हो.

अथ सोनामारण विधि।

शुद्ध सोना २ तोले पारा ६ मासे आँवरासार गन्धक ६ मासे दोनोंको एकमें मिलायके खरल करै जब कजली होय जाय तब स्वर्णक्षीरीके दूधमें मिला-

यके सोनाके पातपर रखके गोला बनायके कोविदारके छालकी लुगदी बनाय उसीके बीचमें सोनेका गोला धरके कपडमिट्टी कर गजपुट आँच बीनुवा गोबरीकी सात देवै। इसी विधिप्रमाण तब कपोतके रंग बहुत उत्तम भस्म होय.

अथ सोना भस्म शुद्ध करण।

गुंजाके पत्तीके रसमें सातवार भिगोय सुखाय तब कपडमिट्टी करके गजपुट आंच देवै फिर कोविदारके पत्ताके रसमें सातवार भिगोय सुखाय कपडमिट्टी करके गजपुट आंच देवै फिर निंबूके रसमें सातवार भिगोय सुखाय कपडमिट्टी करके गजपुट आंच देवै फिर कुमारीके रसमें सात वार भिगोय सुखाय कपडमिट्टी कर गजपुट आंच देवै फिर भृंगराजके रसमें सातवार भिगोय सुखाय कपडमिट्टी करके गजपुट आंच देवै तब शुद्ध भस्म अमृतके तुल्य होय। अनुपानके साथ सर्वरोगको नाश करै.

अथ सोना भस्म खानेका गुण।

सोनाका भस्म १ रत्तीसे २ रत्ती तक देवै निर्बल पुरुष स्त्री रोगीका रोगबल विचारिके देवै तो दिव्य शरीरको करै और क्षयरोग श्वास खाँसी प्रमेह संग्रहणी अतिसार कुष्ठ नया ज्वर विषमज्वर उन्माद रक्तविका-

रको नाशै नवा रक्तको बढावै नपुंसकताको दूर करै जवान अवस्थाको स्थिर रखै कांतिको बढावै बल वीर्य रुचिको करै बुद्धिको वाणीको शुद्ध करै आयुको बढाय निर्बलताको हरै शरीरको दृढ करै काम करनेमें शक्ति देवै त्रिदोषको नाशै अपस्मार शूल ज्वरको हरै। मनोहर है शीतल है पवित्र है जैसा सोनाका नाम है, वैसा गुण देवै है.

अथ सोना भस्म खानेका अनुपान।

सोनाका भस्म त्रिकुटाके चूर्ण घृत मिलाय खानेसे क्षयी मन्दाग्नि श्वास खांसी अरुचि इन्होंको नाशै बल और धातुको बढावै पांडुरोग संग्रहणीको हरै सर्पका विष तुरंत नाशै और मच्छके पित्तके संग सोना भस्म खानेसे दाहको जल्द नाशै और भृंगराजके रसके संग सोनाभस्म खानेसे वीर्य बढै और गायके दूधके संग सोनाभस्म खानेसे बल धातु बढै सांठीके रसके संग सोनाभस्म खानेसे नेत्ररोग दूर होय घृतके संग सोनाभस्म खानेसे बुढापा नाशै बचके चूर्णके संग सोनाभस्म खानेसे स्मृति बढै केसरसंग सोनाभस्म खानेसे कांति बढै पीपली चूर्ण दूध संग सोनाभस्म खानेसे क्षयीरोग सात प्रकारका दूर होय और सोंठ लोंग मिरच इन्होंके संग सोनाभस्म खानेसे सन्निपातज्वर

और उन्मादरोग दूर होय और आँवलाके चूर्ण शहदके संग सोनाभस्म खानेसे प्राण कैसाही संकटमें रहै तौ बचै, बचके चूर्ण गायके दूध संग सोनाभस्म खानेसे कुछ दिन बुद्धि बढे. बचके चूर्ण संग सोनाभस्म शहद मिलाय खानेसे अपस्माररोग उन्माद रोग दूर होय, कमलकेसर संग सोना भस्म खानेसे शरीर पुष्ट होय कांति बढै। शंखपुष्पीके रससंग सोना भस्म खानेसे उमर आयु बढै बिलारीकन्दके संग सोना भस्म खानेसे पुत्र उपजै आदी पीपली रससंग सोनाभस्म खानेसे तेरह प्रकारका सन्निपातज्वर दूर होय त्रिफलाचूर्ण संग सोनाभस्म खानेसे आँव दस्त चार प्रकार संग्रहणी नाश होवै नागकेसरका चूर्ण गोदनदूधीके रससंग सोनाभस्म खानेसे खूनी बवारीरको हरै हल्दी पीपली चूर्ण शहद मिलाय सोनाभस्म खानेसे खांसीरोग श्वासरोग दूर होय बडी इलायची पीपरी संग सोनाभस्म खानेसे शहद मिलाय ऊपरसे गायका दूध पीपली नपुंसकता दूर होय नैनु घृत संग सोनाभस्म खानेसे शरीरका दाह पित्तरोग जावै मिश्री घृतसंग सोनाभस्म खानेसे सब किसमका शिरोरोग दूर होवे राल बड़ी इलायची मिसरी कपूर चूर्णसंग सोनाभस्म खानेसे पेशाबके

रस्तासे खून गिरना चिल्क बन्द होय मूत्रकृच्छ्र मूत्राघात नाश होवै पेडुकी पीडा दूर होय डमरका छाल और मिरचके रस संग सो.. भस्म खानेसे स्त्रीका गर्भस्थान शुद्ध होय और दाह प्रदर नाश होय काकमाच्छीके अर्क संग सोनाभस्म खानेसे स्त्रीका १४ प्रकारका प्रदर हरै गर्भ रहै रजोधर्म शुद्ध होय चौताईके जडके अर्कमें शहद मिलाय सोना रस छोड पीनेसे स्त्रीके प्रदररोग नदीके समान बहता बन्द होय सब किसमकी वेदना दूर होय सोना भस्म जिस रोगपर दिया जायगा अनुपानके साथ तो स्त्री पुरुष बालक जवान वृद्ध सबहीको गुण देवेगा। शरीर पवित्र होजायगा जैसा सोनाका कीमत और नाम है वैसा गुण सोनाके भस्ममें है खानेसे सब पाप छूटि जाता है। सोनाका जारन बडे कठिनसे होता है जसपर महादेव कृपा करते हैं वही पुरुष बनाता है.

अथ चांदीशोधन विधि।

चांदीका पतला पात बनायके अग्निमें लाल करिके अगस्तके रसमें इमलीके रसमें भंगराके रसमें काला धतूरके रसमें निंबूके रसमें बनगोभीके रसमें बनकपासके रसमें इन सबोंमें सात सात वार बुझावै तब शुद्ध होय.

अथ चांदीमारण विधि।

शुद्ध चांदी लेकर सफेद कण्टकारिके जड पत्ताको कूटिके लुगदी बनायके उसमें शुद्ध चांदी रखके कपडमिट्टी करिके बिनुवा गोबरीका गजपुट सात आंच देवै तब भस्म होय.

अथ चांदी भस्म शुद्ध करनेकी विधि।

निंबूके रसकी पांच भावना देवै तब कपड़मिट्टी करके एक गजपुट आँच देवै फिर गोदनदूधीके रसकी पांच भावना देवै तब कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर केलाके पानीकी पांच भावना देवै तब कपडमिट्टी करके गजपुट आंच देवै फिर तितलीके रसकी पांच भावना देवै तब कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर मेहदीके रसकी पांच भावना देवै तब कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर घीकुमारके रसकी पांच भावना देवै कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै तब अति उत्तम भस्म होय इस भस्ममें कोई दोष नहीं है.

अथ चांदीभस्म खानेका गुण।

चांदीभस्म कसेला है और मीठा है मन्दाग्निको दीपन करै है वीर्य उमर बुद्धि बलको बढ़ावै है और पांडुरोग क्षयीरोगको नशावै है कांतिको बढ़ावै है शरी-

रको पुष्ट करै है मनुष्यको रोगरूपी समुद्रसे पार करै है क्षुधाको लगावै है विषको तुर्त नाशै निर्बलताको दूर करै वात पित्त कफको हरै प्रमेहरोग तापतिल्ली खाँसी यकृत मदात्यय अपस्मार शूल नवा ज्वर विषमज्वर इन्ही सबोंको नाशै शरीरको नीरोग करै है.

अथ चान्दी भस्म खानेका अनुपान।

चान्दी भस्म आधीरत्तीसे १ रत्तीतक अथवा२ रत्ती तक देवै मिसरीके संग चान्दी भस्म खानेसे शरीरका दाह जावै त्रिफलाके चूर्णके संग चान्दी भस्म खानेसे वातपित्त रोग जावै त्रिकूटाके चूर्णके संग चान्दीभस्म खानेसे क्षयी पांडुरोग पेटरोग बवासीर रोग श्वास खांसी तिमिररोग पित्तरोग इन्हीं सबोंको दूर करै इलायची तमालपत्र दालचीनी इन्होंके चूर्णके संग चान्दी-भस्म खानेसे सब किसमके प्रमेह रोगको नाशै पिपली चूर्ण शहद संग चान्दी भस्म खानेसे नवाज्वर पुराणा ज्वर विषमज्वर एकज्वर पित्तज्वर तीसराज्वर इन्होंको नाशै है, पिपली इलायचीका चूर्ण संग चान्दी भस्म खानेसे उसके ऊपरसे अर्क धनिया पीनेसे सर्व प्रकारका ज्वर दूर होय नाताकत शरीरको ताकत देवै नवा खूनको पैदा करै शरीरको लाल करदेवै बच चूर्ण संग चांदीभस्म खानेसे ऊपरसे गायका दूध पीवै तो बुद्धि

बढ़े बातरोगको तुरत नाशै शूल हरै वच ब्रह्मडंडीका चूर्ण घी संग चान्दीभस्म खानेसे उन्मादरोग अपस्मार रोगको दूर करै असगन्धके जड संग चान्दीभस्म बच्चा-वाली गायके दूधमें पीसके खानेसे स्त्री बांझ होय तो पुत्र होय बांझपना दूर होय जो कुछ दिन सेवै तब पान बीडाके संग चान्दीभस्म खानेसे शरीर पुष्टि होय मि-सरी और दूधके खोवा संग चांदी भस्म खानेसे शरी-रमें धातु बढायके नाताकतको हरै बलको करै है मातु-लिंगीके बीजको बच्चावाली गायके दूधके संग पीसके चान्दीभस्म खानेसे स्त्रीका बांझपना दूर होय पुत्र होय सही आंवला पीपरी चूर्ण शहद संग चान्दी भस्म खा-नेसे पांच प्रकारका हुचकी रोग दूर होय शिवलिंगीके बीज संग चान्दी भस्म खानेसे स्त्रीके पुत्र होय बरबट तापतिल्ली पुराना ज्वर दूर होय दमा खांसी गोला सब रोगोंको दूर करै सही बबुल छाल कटहल छाल महुआ छाल पानीमें पीस चान्दीरस छोड़के पीवै तो बीस प्रकारके प्रमेहरोग दूर होयँ अनुपान बदलता जातै सब रोगको नाशै रोगीका बल रोग विचारके देवै बालक जवान वृद्धको समुझिके देवै तो सब रोगको शरीरमें हलने देवै नहीं सदा शरीरपुष्टि बनी रहै निर्बल कभी होवै नहीं.

अथ तामाशोधन विधि ।

अच्छा तामाका पतला पत्र बनायके अग्निमें लाल करिके छांछमें थोहरके दूधमें आकके दूधमें निमकके पानीमें निम्बूके रसमें गोमूत्रमें गायके दूधमें इन सबोंमें सात सात बार बुझावै तब सब दोष तामाका दूर होय तब शुद्ध होयके तामाकी गरमी नाश होय.

अथ तामामारण विधि ।

शुद्ध तामा १२ तोले गौरीबीज २ तोले चौकिया सोहागा १ तोला इन सबको खरलमें छोड़ ऊखका शिरका डालिके खरल करै तब गोला बनायके तिनपतियाकी पत्ती लेकर लुगुदी बनाय इसीमें तामाका गोला रखके कपड़मिट्टी करके दस गजपुट आँच इसीविधि प्रमाण देवै तब मोरके पंखके रंग भस्म होय.

अथ तामाभस्मशुद्धकरण विधि ।

जिमीकन्दके रसमें सात भावना देवै तब कपड़मिट्टी करके १ गजपुट आंच देवै फिर ऊखके रसकी सात भावना देवै तब कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर शहदमें खरल करके तब कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर घीमें खरल करके

तब कपडमिट्टी करके एक गज पुट आंच देवै फिर गायके दूधमें खरल करके तब कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर कुमारीके रसकी सात भावना देवै और कपड़मिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै तब अति उत्तम अमृतके तुल्य भस्म होय. सब रोगोंको अनुपानके साथ नाश करै। इस रसमें कुछ दोष नहीं है.

अथ तामाभस्म खानेका गुण।

तामाभस्म खानेसे अठारह प्रकारके कुष्ट रोगको तिल्लीको ज्वर पुराना वायु कफ रोग श्वास खांसी दमा तन्द्रा शूलरोग उदररोग कृमिरोग छर्दिरोग पांडुरोग अतिसार रोग बवासीर रोग गुल्मरोग क्षय भ्रम मस्तकरोग प्रमेहरोग हुचकीरोग इत्यादि सबरोगोंको नाशै जठराग्निको बढाय क्षुधाको लगावै रुचिको करै रक्तवात हरै दस्तावर है बलदायक है वलीपलितको नाशै अनुपानके साथ सब रोगोंको दूर करै.

अथ तामाभस्म खानेका अनुपान।

मिसरी२तोले खोवा५तोले इलायची छोटी दो मासे तामाभस्म १ रत्ती संग खायके दो महीना ऊपरसे गायका दूध पीवै तो महाबल होय शरीरपुष्टि होय नामरदपना दूर होय धातु शरीरसे कमती होवै नहीं

कोई दुःख देहमें आवे नहीं गूलरके फल चूर्ण-संग तामाभस्म खानेसे बीस प्रकारका प्रमेह रोग दूर होय। अनार फलके दाना संग तामा भस्म खानेसे कलेजाका दाह और पीड़ा दूर होय भूख लगे। बड़ी इलायची मिसरी संग तामा भस्म खानेसे बात पित्त कफको नाशै धातुपुष्टि होय आदिरस हरैं छोटी सेन्धा-नोन संग तामाभस्म खानेसे अजीर्ण रोग कभी होवै नहीं। बतासाके संग तामाभस्म खानेसे पित्तज्वर जावै। पीपली चूर्ण संग तामाभस्म खानेसे वातज्वर कफ-ज्वर जावै आदी मिरच संग तामा भस्म खानेसे सन्नि-पात ज्वर तेरह प्रकारका दूर होय। कच्चा बेल भूँजके उसके रस संग तामाभस्म खानेसे अतीसार आँवद-दस्त अच्छा होय सोंठचूर्ण घी संग खानेसे संग्रहणी रोग दूर होय. बनगोभी मिरच संग तामाभस्म खा-नेसे वादी खूनी बवासीर रोग दूर होय। आंवलाचूर्ण तथा पीपलीचूर्ण संग तामाभस्म खानेसे आँवदस्त बन्द होय पांच प्रकारका हुचकीरोग श्वासरोग दूर होय। नि-म्बूके रस बीज संग तामाभस्म खानेसे हुचकी९ प्रका-रकी दूर होय। रोगका लक्षण निदान परीक्षा अच्छी तरह करके रोगीका रोग निश्चय करके गरम शरद दवाका मोताद अनुपान विचारके सर्व रोगपर तामा-

भस्म देवै जैसा रोग हो वैसा अनुपानसे देवै तो सर्व रोगोंको नाशै है.

अथ रांगाशोधन विधि ।

अच्छा रांगा खुरासानी लेवै अग्निमें गलायके त्रिफलाके काढामें तेलमें कांजीमें माठामें गोमूत्रमें आकके दूधमें इन सबोंमें सात सात बार बुझावै तब शुद्ध होय । सब दोष रांगाका शांत होय.

अथ बंगनाम रांगा मारण विधि ।

बबूलके कोयलाकी भट्टी बनाय अग्नि छोड उसीके ऊपर तांबा रख देवै जब तांबा लाल होय तब उसी पर रांगा छोड देवै रांगा गलि जाय तब ऊपरसे हलदी पीपर धनियाँका चूर्ण छोडता जाय कलछुलीसे चलाता जावै ऊपरसे हारिप्रियाका रसभी छोडता जावै इसी विधि प्रमाण एक घण्टामें बहुत उत्तम भस्म होय, इसीको बंगरस कहते हैं.

अथ बंग शुद्धकरण विधि ।

तीनपतियाके रसमें मेहदीकी पत्तीके रसमें बरके बरोंहके रसमें निम्बूके रसमें कुमारपाठाके रसमें छोटी गोदनदुद्धीके रसमें एक एक वस्तुके रसमें सात सात

भावना देवै और एक एक गज पुट आंच जुदा जुदा देवै, तब उत्तम बंग भस्म लोक प्रसिद्ध होय.

अथ बङ्ग भस्म खानेका गुण।

खांसी श्वास पीनस गुल्म उदर वायु इत्यादि सबको नाशै दीपन है रुचि और बलवीर्य और बुद्धिको बढावै भूखको लगावै कांतिको बढावै ठंढा सुन्दरताको बढावै बुड्ढेको जवान करै नपुंसकताको हरै धातुको स्थिर करै क्षयी प्रमेह सब रोगको नाशै। इस रसके सेवन करनेसे स्वप्नमें भी वीर्यक्षय न होय.

अथ बंगभस्म खानेका अनुपान।

कपूर शुद्ध किया तिसके संग बंग भस्म खानेसे मुखकी दुर्गंधि जावै दूधके खोवा संग बंगभस्म खानेसे शरीरमें धातु बढायके शरीरको पुष्ट करै, लौंग पीपरी इलायची चूर्ण संग बंगभस्म खानेसे नामर्दी जावै और शरीर जो गरम रहे तिसको नाशै। जायफलके संग बंग भस्म खानेसे शरीरकी कांति बढै धातुपुष्टि होय, तुलसी पत्ताके संग बंगभस्म खानेसे प्रमेह रोग जावै, घृतके संग बंग भस्म खानेसे पांडुरोग जावै, भूञा सोहागाके संग बंग भस्म खानेसे गुल्म रोग

जावै हल्दी चूर्ण शहद संग बंग भस्म खानेसे रक्तपित्त रोग जावै पिपली चूर्ण शहद संग बंग भस्म खानेसे पुराना ज्वर, देहका दाह दूर होय शरीरमें बल बढै। मिसरीके संग बंग भस्म खानेसे पित्तज्वर पित्तरोग जाय। नागबेलके रस संग बंग भस्म खानेसे अंगबन्धनरोग जावै पिपली चूर्ण संग बंग भस्म खानेसे मंदाग्नि जावै हल्दी आधी कच्ची आधी भूँजी हुई-का चूर्ण शहद संग बंग भस्म खानेसे ऊर्ध्व श्वास रोग जावै चमेलीके रससंग बंग भस्म खानेसे शरीरकी दुःगंधि जावै। निम्बूके रससंग बंगभस्म खानेसे शरीरका दाह मिटै कस्तूरीके संग बंग भस्म खानेसे वीर्यका स्तम्भन होय खैर चूर्ण संग बंग भस्म खानेसे चर्मरोग जावै। सुपारी चूर्ण संग बंग भस्म खानेसे अजीर्ण रोग जावै नैनुघी संग बंग भस्म खानेसे पुराना हाड नवीन होय शरीरकी गरमी मिटै दूध मिश्रीसंग बंगभस्म खानेसे धातु बढै बलवीर्य बढै प्रसन्नता उपजै। भांगके चूर्ण दूध और शहदसंग बंगभस्म खानेसे वीर्यस्तंभन होय लहशुन घीमें भूँजिके उसके संग बंगभस्म खानेसे वायुकी पीड़ा देहका जकडना दूर होय समुद्रफलके चूर्ण संग बंग भस्म खानेसे तथा निर्गुण्डीके रससंग बंगभस्म खानेसे कुष्ठ ऐसे जावैं जैसे सिंहके शब्दसे मृग भगिजावैं

ऊंगाकी जडके चूर्णसंग बंगभस्म खानेसे नपुंसकताको नाशै लौंग समुद्रफलचूर्ण नागर पानके रसमें शहद बंगभस्म मिलाय इंद्रियपर लेप करनेसे इन्द्री बढै कठिन भी होय। गोलोचन लौंग संग बंगभस्म तिलक करनेसे जगत् मोहै। अरंडी जडके संग बंगभस्मका शिर पर लेप करनेसे शिरकी पीडा नाश होय काकमाँचीके रससंग बंगभस्म खानेसे पेटमेंका वायु शिर पीडा कडक पेशाब होना इन्होंको नाशै। नागकेशर मिसरी गायके दूधसंग बंगभस्म खानेसे स्त्रीका सोमरोग प्रदर रोगको दूर करै। गोखरू चूर्ण मिसरी संग बंगभस्म खानेसे धातुका गिरना बन्द होय प्रमेहरोग दूर होय। शुद्ध मुरदासींग शुद्ध गौरीबीज संग बंगभस्म खानेसे वा शरीरपर मालिसके करनेसे चर्मरोगसे हुवा दीनाईरोग जडसहित जावै गोरखमुंडीका रस गोखरूका रस चीनी मिलाय बंगभस्म छोडके सबेरेके बखतमें पीवै तो बीस प्रकारके प्रमेहरोगको नाशै। पुराणा घी पुराणा गुडसंग बंगभस्म खानेसे शिरकी पीडा सब प्रकारकी नाश होय। अफीम केसर बराबर लेवै इसमें बंगरस छोड छोटी मिरच बराबर गोली बनावै और एक गोली खावै ऊपरसे छांछ पीवै आंव दस्त बन्द होय तथा अतीसार खूनका गिरना दूर होय.

अथ शीशाशोधन विधि।

शीशाको अग्निपर गलायके अंकोलके रसमें त्रिफलाके काढामें गायके मूत्रमें कांजीमें आकके दूधमें कुमारीके रसमें इनके रसमें जुदा जुदा सात २ बार बुझावै सब गरमी और दोष दूर होयँ.

अथ शीशामारणविधि।

अग्निपर तांबा रख देय तब उसमें शीशा छोड देवै जब शीशा गलजाय तब ऊपरसे केवडा और तुलसीका चूर्ण छोडता जाकर कलछुलीसे चलाता जावै चूर्ण छोडता जावै तो एक घड़ीमें हल्दीके रंग भस्म होय.

अथ शीशाभस्मशोधन विधि।

निंबूके रसमें खरल करके कपडमिट्टी करके दो गजपुट आँच देवै फिर वनतुलसीके रसमें खरल करके कपडमिट्टी करके दो गज पुट आँच देवै फिर यसवन्तीके रसमें खरल करके कपडमिट्टी करके दो गजपुट आँच, भृंगराजके रसमें खरल करके कपड़मिट्टी करके दो गज पुट आँच देवै गोदन्दुद्धीके रसमें खरल करके कपडमिट्टी करके दो गज पुट आँच देवै फिर घीकुमारीके रसमें खरल करके कपडमिट्टी करके

दो गज पुट आंच देवै तो सिन्दूर रसके रंग शीशा भस्म होय.

अथ शीशा भस्म खानेका गुण।

शीशा भस्म खानेसे क्षयी वायु गुल्म पांडु भ्रम कृमि इन सबोंको नाशै कफ शूल प्रमेह खांसी श्वास संग्रहणी मन्दाग्नि इन्होंको दूर करै शीशाभस्म कुछ दिन सेवन करनेसे १०० हाथीके बलको देवै । बल वीर्य उमर शरीरको पुष्ट करै त्रिदोषको नाशै आमवातको दूर करै। अनुपानके साथ बल विचार रोगविचारके साथ खानेसे सब रोगोंको हरै.

अथ शीशाभस्म खानेका अनुपान ।

मिरचके चूर्ण बतासा संग शीशा भस्म खानेसे नवा ज्बर पुराना ज्वर विषम ज्वर त्रिदोष ज्वरको नाशै । खोवा मिसरी जायफल पिपली संग शीशा भस्म खानेसे शरीरकी पुष्टि करै। बल कमती होवै नहीं, दम फूलै नहीं, सोंठचूर्ण गुड शीशाभस्म खानेसे छर्दि और कमरकी पीडा शिरकी पीडाको नाशै । पिपली चूर्ण शहद संग शीशाभस्म खानेसे तिल्ली रोग यकृतरोगको नाशै । पिपली चूर्ण काकमांची रससंग शीशाभस्म खानेसे स्त्रीका प्रसूतज्वर प्रदा नदीके समान बहतेको नाशै।विषमज्वर वातज्वर देहका

सुजापनाको नाशै। शुंठ सोंचरनोन चूर्ण संग शीशा-भस्म खानेसे ऊपरसे मकोयका अर्क पीनेसे गुल्म-रोग आमवात रोग शूलरोगोंको दूर करै, सोंठ सौंफ चूर्ण संग शीशाभस्म खानेसे अजीर्ण सब प्रकारका जावै आँवदस्त बन्द होय । शीशाभस्म सबरोगोंपर देवै अनुपानसे.

अथ लोहाशोधन विधि ।

अच्छा पोलाद लोहाको रेतीसे रेतायके चूर्ण करि अग्निमें लाल करके त्रिफलाके काढामें निंबूके रसमें गायके गोमूत्रमें बथुवाके रसमें इमलीके रसमें छाछमें आकके दूधमें एक एक जिन्समें जुदा जुदा चार चार बार बुझावे तब लोहाके सब दोष दूर होयँ.

अथ लोहामारण विधि ।

शुद्ध लोहा ३१ तोला अनारके रसमें एक महीना रक्खे तब गौरीबीज ३ तोले पारा ३ तोले पारा गौरी-बीज एकमें खरल करके लोहाचूर्ण मिलाय गोल गोला बनाय कपडमिट्टी करके सात गजपुट आंच देवे इसीविधि प्रमाण । तब लोहाभस्म मोरपंखके रंग होय.

अथ लोहाभस्म शुद्धकरण विधि ।

निंबूके रसकी तीन भावना देवै। कपडमिट्टी करि

एक गजपुट आंच देवै फिर केलाके पत्तेके रसकी तीन भावना देवै कपडमिट्टी कारि एक गजपुट आंच देवै फिर बबूलकी छालके रसकी तीन भावना देवै कपडमिट्टी कर एक गजपुट आँच देवै फिर मेहदीके रसकी तीन भावना देवै कपडमिट्टी कर एक गजपुट आंच देवै फिर आकके दूधकी तीन भावना देवै कपडमिट्टी कर एक गजपुट आँच देवै घीकुमारके रसकी तीन भावना देवै कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै तब लोहाभस्म काजल सरीखा उत्तम बने.

अथ लोहाभस्मखानेका गुण।

लोहाभस्म खानेसे बल वीर्य उमरको करै है सब रोगोंको हरै है कामदेवको बढ़ावै है शरीरपुष्टिके वास्ते लोहाभस्म उत्तम है लोहाभस्मके समान उत्तम रसायन नहीं है।क्षीणपना खांसी श्वास कफविकार भ्रम बवासीर गुल्मशूल ८० प्रकारके और वात ८० प्रकारके नाशै। पीनसरोग पांडुरोग प्रमेहरोग सब प्रकारके नाशै अरुचि छर्दि इन सब रोगोंको दूर करे शरीरकी पुष्टि करै है।

अथ लोहाभस्मखानेका अनुपान।

त्रिफलाचूर्णसंग लोहाभस्म खानेसे वलीपलित जावै पिपली चूर्ण शहदसंग लोहाभस्म खानेसे शरीर पुष्टबनै कफ रोग दूर होय मिसरीसंग लोहाभस्म खानेसे रक्त-

पित्त जावै साठीकी जड गायके दूधमें पीस लोहाभस्म छोड पीनेसे बल बढावे शरीरकी पुष्टि करै सांठीरस संग लोहाभस्म खानेसे पांडुरोगको नाशै हरी पिपली चूर्ण शहदसंग लोहाभस्म खानेसे प्रमेहरोगको दूर करै है। शिलाजीतसंग लोहाभस्म खानेसे मूत्रकृच्छ्र रोग मूत्राघात दूर होय। बांसा रसके संग लोहाभस्म खानेसे ५ प्रकारकी खांसीको नाशै दाख पिपलीचूर्ण शहदसंग लोहाभस्म खानेसे मन्दाग्निको नाशै नागर-पानके संग लोहाभस्म खानेसे वीर्य और कांति बढै शरीरकी पुष्टि करै त्रिफला शहद संग लोहाभस्म खानेसे शरीर नीरोग करै कोई रोग शरीरमें आवै नहीं छोटी हरैं मिसरी संग लोहाभस्म खानेसे लोहाके सरीखे शरीरको करै बल धातु कमती होवै नहीं हिंगु घीसंग लोहाभस्म खानेसे अस्सी प्रकारके शूल वातको नाशै। पिपली सहद संग लोहाभस्म खानेसे जीर्णज्वर जावै लहशुन घी संग लोहाभस्म खानेसे श्वासरोग जावै सोंठ पिपली मिरच चूर्ण शहद संग लोहाभस्म खानेसे शरीरका शीतरोग छर्दिरोग जावै पान मिरच संग लोहाभस्म खानेसे प्रमेहरोग दूर करै त्रिफला चूर्ण और मिसरीसंग लोहाभस्म खानेसे सन्निपात शिररोग जावै नवों इन्द्रियोंमें ताकत देवै आदीरस घी

शहदसंग लोहाभस्म खानेसे वातज्वर जावै आदी-रस मिरच संग लोहाभस्म खानेसे सन्निपात ज्वर जावै आदी रस संग लौंग चूर्ण शहत संग लोहा भस्म खानेसे पित्तज्वर जावै लोहाभस्म खानेसे कफज्वर जावै आदी पिपरी पीस रस निकालि लोहारस छोड पीवै तो तेरह प्रकारका सन्निपातज्वर जावै निर्गुंडीके रस सोंठ चूर्ण संग लोहाभस्म खानेसे ८० प्रकारके वात-रोगोंको नाशै मिसरीसंग लोहाभस्म खानेसे ४० प्रकारका पित्तरोग जावै पिपली संग लोहाभस्म खा-नेसे २० प्रकारका कफरोग जावै इलायची दालचीनी तमालपत्र इन्होंके चूर्णसंग लोहाभस्म खानेसे संधि-रोग जावै सातसौ नसमें बल देवै । त्रिफलाचूर्ण संग लोहाभस्म खानेसे बीसप्रकारका प्रमेहरोग जावै मिरच चूर्ण घी तुलसीकी पत्ती संग लोहाभस्म खानेसे वात-रोग शरीरमें आवै नहीं.

अथ जस्ताशोधन विधि ।

पहिले जस्ताको अग्निपर गलायके गायके दूधमें २१ बार बुझावै फिर इसीविधि प्रमाण त्रिफलाके रसमें २१ बार बुझावै फिर आकके दूधमें तीनबार बुझावै तब शुद्ध जस्ता मारण योग्य होय.

अथ जस्ता मारण विधि ।

जस्ताको तवापर छोड तवा अग्निपर रखदेवै जब

जस्ता पिघल जाय तो बथुवाका रस छोडता जावै नींबके सोंटासे घोटता जावै तेज अग्नि देवै तो आधा घंटामें सफेद भस्म होय.

अथ जस्ताभस्म शुद्धकरण विधि।

त्रिफलाके रसमें भंगराके रसमें घीकुमारके रसमें इन्होंके रसमें अलग अलग बत्तीस बत्तीस भावना दे तब जुदा जुदा एक गजपुट तेज अग्नि देवै तब पंचामृतकी एक भावना देवै तब एक गजपुट आंच देवै उत्तम भस्म होय.

अथ जस्ताभस्म खानेका गुण।

जस्ताका भस्म खट्टा है कडुवाहै ठंढा है कफ पित्तको हरै है एक रत्तीसे दो रत्तीतक देवे तो सर्व रोगको दूर कर शरीरकी पुष्टि करैहै नेत्ररोग प्रमेह पांडु श्वास ज्वर इत्यादि रोगोंको नाशै है.

अथ जस्ताभस्म खानेका अनुपान।

गायके पुराणे घी संग जस्ताभस्म खानेसे नेत्ररोगको नाशै पानके संग जस्ता भस्म खानेसे प्रमेहरोग को दूर करै है अरनीके संग जस्ता भस्म खानेसे मन्दाग्निको नाशै है इलायची दालचीनी तमालपत्र इन्हीके चूर्ण संग जस्ता भस्म खानेसे त्रिदोषको नाशै

पिपरी चूर्ण शहद संग जस्ता भस्म खानेसे विषम-ज्वर तपत ज्वरको नाशै है जायफल जावित्री इला-यची मिसरी गायका दूध संग जस्ता भस्म खानेसे नपुंसकपना दूर होय शरीरपुष्टि होय बल न घटै जस्ताभस्म अनुपान बदलता जावै तो सर्वरोगोंको नाशै है.

अथ अभ्रक शोधन।

वज्राभ्रकको अग्निमें तपाय गौके दूधमें त्रिफला-में कांजीमें गोमूत्रमें निंबूके रसमें चौलाईके रसमें इन्हों सबोंमें अलग अलग सात सात बार बुझावै शुद्ध होय.

अथ अभ्रक सहस्रपुट भस्म विधि।

शुद्ध अभ्रकको मिश्री गौका दूध सांठी चावल सब बराबर मिलायके पकावै जब खीरके मिसाल होय जाय तो एक गज पुट आँच तेज देवै फिर चौकिया सोहागा निंबूरसमें खरल करके कपडमिट्टी करके एक गज पुट आंच तेज देवै फिर घी शहदमें खरल करके कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच तेज देवै. अब वनस्पतीका ६४ जिनसका पुट लिखते हैं-पाठा-हर्रा-बहेरा-आंवला-गोमूत्र-वाला-कुम्भी-तालीसपत्र-ताड-मूल-बांसा-असगंध-अगस्त-भंगरा-केला-मिरच-

अनार-मकोय-शंखपुष्पी-सहँजना-नागबेल-सांठी-आकदूध-बड़दूध-थोहरदूध-कुमार पट्ठा-अरंड-कुटकी-नागरमोथा-गिलोय-भांग-गोखुरू-कटेली-बडीकटेली-शालपर्णी-पृष्ठपर्णी- शिरसमसफेद-ऊँगा-बडका अंकुर-बकराका रक्त-बेलफल-अरनी-चीता-भिलावाँ-मँजीठ-सूर्यमुखी-गड़ूँभा-भारंगी-देवडागरी-केसू-शिवलिंगी-करूपखर-मूषाकर्णी-धमासा-कनेर-अजमान- चन्दन- जमालगोटा-शतावरी-करूतोरई-धतूरा-लोध-देवदारु-कसीबदा इन सबोंमें अलग अलग खरल करके सोलह सोलह गज पुट आँच बबूरके कोयलोंकी देवे तब अभ्रक भस्म चन्द्रिकारहित लाल रंग इन्द्रगोप तुल्य होय। यह मृत्युलोकमें दुर्लभ है.

अभ्रक सहस्रपुट भस्म खानेका गुण।

अभ्रक सहस्र पुट खानेका गुण-त्रिदोषको नाशता है नपुंसकको पुरुष करता है, युवावस्थाको स्थापन करता है इस भस्मके समान पुष्ट करनेमें कोई भी भस्म पृथ्वीमें नहीं है। शरीरको दृढ करै है बल वीर्य और उमरको बढावै है बुड्ढाको जवान करै है सिंह सरिस पराक्रमी पुत्रको उपजावै है और निरन्तर सेवन करनेसे मृत्युको नाशै है। अनेक स्त्रियोंको सुख

देवै है बल वीर्य कमती होवे नहीं सन्निपातरोगी असाध्य जिसके जीनेकी कुछभी आशा न रही होय तो वह रोगी इस भस्मका प्रयोग होनेसे एक बार अवश्यही बोल उठैगा, जो बोल बन्द होगया होय तो बोलैगा जो कुछ पूछना होय तो वह रोगीसे पूँछलेवे लेन देन धरा हुआ रुपैया जमीनमें हो सो सब बताय सकैगा वह रोगी भी परमेश्वरकी कृपासे जी जावैगा यह भस्म खानेसे शरीर नीरोग होयके हमेशा सुखसे रहै है. गुण लिखने योग्य नहीं हैं.

अथ अभ्रकभस्म सहस्रपुटका अनुपान ।

अभ्रक भस्म सहस्रपुटका पिपली शहद संग कुछ दिन खानेसे तो बीस प्रकारका प्रमेह रोग अच्छा होय श्वास खाँसी कुष्ठ वायु शरीरका पित्त कफ क्षयकी खाँसी संग्रहणी इत्यादि सभी रोगोंको नाशै है चान्दी वर्क संग अभ्रक भस्म खानेसे शरीरमें धातुको बढावै है लौंग चूर्ण शहद संग अभ्रक भस्म खानेसे उमर और वीर्यको बढावै है गोदुग्ध मिसरी सङ्ग अभ्रक भस्म खानेसे पित्तरोगको नाशै शरीरको पुष्ट करै बल वीर्य कमती होवै नहीं. त्रिकुटाके चूर्ण घृत सङ्ग अभ्रक भस्म खानेसे क्षय पांडु अरुचि दुर्धर्ष खांसी मन्दाग्नि पेटशूल शोष बुढापा मृत्यु इन सबोंको

नाशै है निरन्तर अभ्रक भस्म घी सङ्ग खानेसे कुछ दिन सेवन करनेसे रक्तविकार क्षय पांच प्रकारके श्वासको नाशै और महाव्याधिको दूर करै आदी पीपलीके रस सङ्ग अभ्रक भस्म खानेसे तेरह प्रकारके सन्निपात ज्वरको नाशै पथ्यसे पीपली शहद सङ्ग अभ्रक भस्म खानेसे महेश्वर ज्वरको नाशै है पिपली इलायची बड़ी शहद सङ्ग अभ्रक भस्म खानेसे विषमज्वर हाडोंमें का पुराना ज्वरको नाशै है दाहज्वर तपतज्वरको भी नाशै है पिपली मिसरी सङ्ग अभ्रक भस्म खानेसे वातज्वरको दूर करै मातुलिंगी बीज केशर सेन्धानोंन मिरच इन्होंके चूर्ण संग अभ्रक भस्म खानेसे वात रोग कफ रोग मुखशोष रोग जड़पना अरुचि इन्होंको नाशै है धनियां छोटी इलायची मिसरी संग अभ्रक भस्म खानेसे पित्तज्वरको दूर करै है आदी मिरच शहद संग अभ्रक भस्म खानेसे कफज्वर दूर होय तुलसीके रस पिपली चूर्ण संग अभ्रक भस्म खानेसे सर्वज्वरको नाशै त्रिफला चूर्ण गायके दूधसंग अभ्रक भस्म खानेसे चातुर्थिक ज्वरको नाशै ताम्बूलसंग अभ्रक भस्म खानेसे चातुर्थिक ज्वरको दूर करै गदहपुर्नाके जड़ पिपरी सोंठ संग अभ्रक भस्म खानेसे सर्व ज्वरको आठ प्रकारके उदर रोगको

दूर करै है राल मिसरी संग अभ्रक भस्म खानेसे अती सारको नाशै है वटके प्ररोह संग अभ्रक भस्म खानेसे अतीसारको नाशै है बकरीका दूध चुरावा हुआ शीतल होने पर शहद संग अभ्रक भस्म खानेसे रक्तातीसार-को नाशै है। अनारका दाना शहद संग अभ्रक भस्म खानेसे सब प्रकारका अतीसार जावै है सोंठ घी संग अभ्रक भस्म खानेसे आम अतीसार जावै वात दूर होय पेसाब अलग होय रोग दूर होयके शरीर सुधारि जावै। गण्डा पीरोजाका सत छोटी इलायची मिसरी इन्हों-को तीन तीन तोले लेवै, शुद्ध कपूर ६ मासे एकमें चूर्ण करि ६ मासे अभ्रक भस्म दो रत्ती मिलायके खानेसे सुजाक मूत्राघात मूत्रकृच्छ्र पेसाबके रस्तासे खून गि-रना बन्द होय कडक पेसाब होना अच्छा होय बड़ी गोदनदूधी बडी इलायची मिरच पानी संग पीस अ-भ्रक भस्म छोडके पीनेसे खूनी बवासीर दस्तका होना कलेजाकी गरमी दूर होय पीपल वृक्षकी छाल मिरच पानी संग अभ्रक भस्म खानेसे कलेजाका जलना तृषा दूर होय पेसाब जलन अच्छा होय भांग चूर्ण घी संग अभ्रक भस्म खानेसे बीछीका विष और कोई विषधर जनावरका विष होय सो भी दूर होय अमावस्या व ग्रहण

लगा होय तो बचको लायके चूर्ण करि गायके दूध संग अभ्रक भस्म खानेसे उन्मादरोग अपस्माररोग वातकी वेदना दूर होय पुराना घी संग अभ्रक भस्म खानेसे शिरकी पीड़ा उदरकी पीड़ा नेत्रकी पीड़ा दूर होय आदी रस पीपरी चूर्ण शहद संग अभ्रक भस्म खानेसे श्वास खाँसी दूर होय लड़कनका पलई मारना बन्द होय कंटकारीकी जड मिरच संग अभ्रक भस्म खानेसे उपदंश रोग दूर होय इस दवापर नोंन नहीं खाय पथ्य-से रहै चौलाईकी जड़ पीपल वृक्षकी छाल पुराने चांव-लके पानीसे पीसके शहद संग अभ्रक भस्म खानेसे स्त्रीका रजोधर्म नदी समान बहता बन्द होय सब किसमका प्रदर रोग सब प्रकारका सोम रोग दूर होय अभ्रक भस्म एक किसमका अमृत है कि जो कोई पथ्यसे खाय कुछ दिन तो शरीरमें एक दुःख नियरे आवै नहीं शरीर निर्बल होवै नहीं सदा पुष्टि बनी रहै रोगीका रोग और बल और बालक और जवान वृद्ध स्त्री पुरुष सबको अच्छी तरह विचारके देवै और गरम शरद ऋतु देखके अनुपानसे देवै तो सर्व रोगको नाश करै है जैसे एक थालीभर पानीमें एक बुन्द तेल फइल जाता है वैसे तिल्ली भर दवा शरीरमें फैल जाती है.

अथ हरतार मारण विधि।

पीला हरतार सोनहरी ५ तोले लेकर शुद्ध करकै खरलमें रखकर दस दिन खरल करै तब सनके पत्ताके रसमें दसदिन खरल करै तब गायके दूधमें खरल करै तब आकके पत्ताके रसमें दस दिन खरल करै मुरईके जडपत्ताके रसमें दसदिन खरल करै तब नागफनीके रसमें दसदिन खरल करै तब भृङ्गराजके रसमें दसदिन खरल करै तब गोला बनायके मुरई पलासकी राखी और नोना माटी मिलायके हण्डीमें भरे बीच हण्डीमें हरतालका गोला धरै तब हण्डी चूल्हेपर रखके सात दिन बहुत मन्दमन्द आंच देवै शीतल भये निकाले अग्नि पर रखकर परीक्षा करै जो धुवां न देवै तो शुद्ध भस्म जानो जो धुवां देवै तो हण्डीमें भरकर विधिपूर्वक फिर आंच देवै तब भस्म होय रक्तपित्त रोगको बहुत गुण देवै। अनुपानसे सर्व-रोगोंको नाशैहै खुराक एक चावल भर पथ्यसे खावै.

अथ गन्धकशोधन विधि।

अच्छा आंवलासार गन्धकको घीमें पिघिलायके गायके दूधमें कपडामें छोडे६बार तब भृङ्गराजके रसमें घीमें गन्धक पिघिलायके चार बार छोडे तब आकके दूधमें एकदिन खरल करके तब घीमें पिघलाय दूधमें

छोडै तब घीकुमारीके रसमें पांच दिन खरल करै तो गन्धकका सब दोष मिटै अनुपानसे सब रोगपर देवै रोगको हरै शरीरको नीरोग करै है ॥

अथ सिन्दूरशोधन विधि।

सिन्दूर अच्छा लेकर नींबूरसमें दसदिन खरल करै पुराना चावलके धोवनमें दो दिन खरल करै तब गाय के दूधमें दो दिन खरल करै तब शुद्ध होय दवाके काममें लावै.

अथ फिटकिरीशोधन।

फिटकिरीको नींबूरस और पानीमें घोलिके अग्नि पर चुरावै जब गाढा होयजाय गोला बनायके सुखाय-के दो घरी आंच देय उत्तम भस्म होजाय तो दवाके काममें लेवै.

अथ मूँगामारण विधि।

शुद्ध मूँगा लेकर बिछिया बूँटीके रसमें दो गजपुट में फूंके तो भस्म होय तब गोदनदूधीके रसकी पांच भावना देवै तब घीकुमारीके रसकी पांच भावना देवै, तब एक गजपुट आंच देवै बहुत उत्तम भस्म होय सर्व रोगको अनुपानसे नाशै इस भस्ममें कुछ दोष नहीं है.

अथ मोतीमारण विधि ।

शुद्ध मोती पक्का लेकर पताल नीमकी पत्तीकी लुगदीमें रख कर फूक देवै एक गजपुट आंचसे भस्म होय तब नींबूरसमें खरल करै थोडी आंच देवै तब घीकुमारके रसमें खरल करके एक गजपुट आंच देवै तो शुद्ध भस्म होय सब रोग पर अनुपानसे देवै तो रोग नाशै.

अथ चौकिया सोहागाशोधन विधि।

चौकिया सोहागाको नींबूके रसमें खरल करके तब निर्धूम अग्निपर रखके फुलाय लेवै तब गायके दूधमें खरल करै तब शुद्ध होय सब काममें लेवै.

अथ इंगुर शोधन मारण विधि।

इंगुर अच्छा रूसी लेकर गायके दूधमें एक महीना खरल करै तब गायके दहीमें एक महीना खरल करै तब गायके घीमें एक महीना खरल करै तब घीकु-मारीके रसमें एक महीना खरल करै तब आकके दूधमें एक महीना खरल करै तब मेहदीका पत्ता हिंगु एकमें मिलायके लुगदी बनायके उसमें इंगुर रख कपड-मिट्टी तान मुलतानी मिट्टीकी देवै तब बालुकायंत्रमें चार दिन रात आंच देवै तो बहुत उत्तम भस्म गुलाब-के फूलके सरीखा रंग होय सब रोगपर अनुपानसे

देवै रोगको नाशै कांतिको बढाय शरीरको पुष्ट करै.

अथ सर्वरसभस्म अनुपानवर्णन ।

जैसे एक थालीमें पानी भरदेवो ऊपरसे एक बुन्द तेल छोड देवो तब थलियाभरमें फैल जाता है उसी सरीखा रस वा भस्म कोई होय अनुपानसे खातेही शरीरभरमें फैल जाता है बिना अनुपानके रस भस्म माटीका खाना समझो.

अथ अभ्रकदसपुटीभस्म विधि ।

शुद्ध अभ्रक २० तोले लेकर कलमी सोरा ५ तोले चौकिया सोहागा ५ तोले गायका दूध १ सेरमें इन सबोंको खरल करके गोला बनाय कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै तब फिर कलमी सोरा ४ तोले चौकिया सोहागा २ तोले मिसरी १ पाव दूधमें खरल करके कपड़मिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर शहद ५ तोले घी गायका ५ तोलेमें खरल करके कपडमिट्टी बनाय एक गजपुट आंच देवै फिर सांठीका चावल १ पाव कलमी सोरा चौकिया सोहागा मिसरी पांच पांच तोलेमें खरल करके एक गजपुट आंच देवै फिर गायके दूधमें खरल करके एक गजपुट आंच देवै फिर भृंगराजके रसकी दश भावना देवै कपड़मिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै

फिर सहँजनके रसकी दस भावना देवै कपड़ मिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर नींबूके रसकी दस भावना देवै कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर मुरईके रसकी दस भावना देवै कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर घीकुमारीके रसकी दस भावना देवै कपडमिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै फिर बनगोभीके रसकी दस भावना देवै कपड़मिट्टी करके एक गजपुट आंच देवै तब अति सुन्दर भस्म होय चन्द्ररहित होय यह भस्म सर्व रोग-पर देवै अनुपानके साथ सर्व रोगको नाश करै है इस भस्मके बराबर दूसरा रस दवा नहीं यह भस्म शरीर-की रक्षा करतीहै यह एक भस्म अनुपानसे वैद्यको यश मान द्रव्य मिलातीहै.

अथ धूर्तसे बचनेकी शिक्षा।

अबके पहरेमें बहुत मनुष्य वैद्यक मँगायके घरमैं रखदेते हैं वैद्यक देखके दवा करने लगे वैद्यककी क्रिया एक नहीं जानते हैं रोगीको दवा देनेलगे दवा लगी तो ठीक नहीं रोगी जीतै चाहे मरै वैद्यके बाप-का क्या जाताहै वह तो अपना काम करके जो मिला सो लेकर चम्पत होगया रोगीको दवा नुकसान करै चाहे गुण करै पैसासे काम इनसे बचो.

अथ विद्यावानके हितकी बात।

अच्छा वैद्य गुणवान् चतुर शास्त्र पढाहुआकी दवा करे मूर्खकी दवा न खाना चाहिये अब अनेक वैद्य बन गये हैं विना वैद्यक पढे सीखे दुनियामें फिरते हैं झूठ बात बनाय बुझाय समुझाय मीठी बात कह अच्छेभोले मनुष्यके मुहपैं मारिके रुपैया लेकर चल देतेहैं कहते हैं कि हमारे पास सब किसमका भस्म है सोना चांदी तांबा बंग शीसा जस्ता लोहा अभ्रक मालती वसंती चंद्रोदय है जो आपके मन होय सो लेवो यह नहीं कोई जानता है कि ईंट कोइला गेरू सेतखरी बूकके नकली रस बनाया है धूर्तबाजी करके कमाते हैं तो भाई लोग पंखनसे बचो। इसी धूर्त पंखनसे वैद्यकका गुण जातारहा अच्छा वैद्यको बुलायके दवा बनवावे पथ्य-से खाय तो जरूर रोग दूर होय समुझके दवा करै वैद्यक शास्त्र कठिन है सहज नहीं है अब तो जित-ना रोगी हैं उतना वैद्य हैं बिना मेहनतका अब वैद्य हैं.

अथ पाराशोधनविधि।

पांच देवताकी पूजा करके तब पारा लेवै तब शीशी-में पाराको छोड़के तब काकमाचीके रसमें दस दिन झक-झोरै तब पुरइनके पत्ता जडके रसमें दस दिन झकझोरै

तब सेन्धानोनमें दस दिन झकझोरै तब नौसादरमें दस दिन झकझोरै तब शिवलिंगीके रसमें खरल करै तब हरदी आकके रसमें खरल करै तब तलावहिङ्गुगूलरके दूधमें खरल करके गोली बनायके तब फिर मेहदीका पत्ता बडका बरोह पीस हिंगु मिलाय लुगदी बनाय उसीमें पाराका गोला रख मुलतानी मट्टीका बाहर कपडमिट्टीकरके बालुकायन्त्रमें पांच रात दिन आंच देवै तो भस्म बहुत उत्तम होय सब मनोरथको देवे रोगी खावै रोग छूटै अमर होय ऐसा भस्म देवताको दुर्लभ है जो बनावे तो सर्वसिद्धि होय दुनियामें यश मिलै यह लोक परलोक दोनों बनैं अनुपानसे सब रोगोंको नाशै सही.

अथ सर्ववातव्याधिपर तेल ।

अच्छी सुरती गंगापारी १० तोले सोंठ १० तोले पिपली ५ तोले भांग ५ तोले हिंगु १ तोले अफीम १ तोले भेलावाँ १ तोले कुचिला १ तोले मिरच १ तोले कड़वा तेल १ सेर तिल्लीका तेल १ सेर इन सबोंको एकमें मिलायके अग्निपर रखके मन्द मन्द चुरावै जब सब दवा जल जाय तो उतारके रख देवे जब शीतल होय तब छानके तेल शीशीमें रख देवै जिस पुरुषके वातका दर्द होय उसके शरीरमें थोरा थोरा

मालिस करै तो वातरोग नाश होय जाय कमरके दर्द छातीका दर्द पसुलीका दर्द दोनों हाथका दर्द दोनों जांघ व गोड़का दर्द कुबडापना पंगुलापना देहका सूजा हुवा सब दूर होय शीतके सन्निपात-वाले रोगीके देहमें मालिश करै तो सन्निपात ज्वर दूर होय और वह तेल वातवाला रोगी और कफ-रोगीको बहुत गुण देवैगा पित्तरोगवालेको कमती गुण देवैगा और इस तेलको बहुत कमती मालिस करै जैसा रोग होय और रोगीका बल विचारके मालिस करै और शीतकाल गरमकाल विचार रक्खे.

अथ दूसरा तेल वातपर ।

धतूरेका बीज आधासेर मालकांगुन आधासेर जैपाल आधा पाव इन्द्रायनका बीज आधासेर करुई लौकीका बीज आधासेर निंबोलीका बीज आधासेर बकायनका बीज आधासेर सिरसमका बीज आधा-सेर इन सबको एक यन्त्रमें रख कपड़मिट्टी करके पताली यन्त्रसे तेल निकाल लेवै यह तेल अतिगुण-कारी है वातका दर्द तुर्त निकालै घाव किसी तरहका होय तिसको दूर करै घावमें जो कृमि पड़ा होय तो दूर होय इस तेलको शरीरपर मालिस करै तो पामा-रोग चर्मरोगको दूर करै थोरा थोरा मालिस करै.

अथ तीसरा तेल वात दर्दपर ।

मन्दारकी जड़ कनइलकी जड़ बछनागकी जड़ अरूसकी जड़ केशुकी जड़ भटकटैयाकी जड़ कारिआरीकी जड़ लेहशुनकी जड़ जमालगोटाकी जड़ यह सब दवा एक एक छटांक लेवै करू तेल १। सेरमें चुरावे जब सब दवा जल जाय तो तेल छानके धर देवै जहांपर बातका दर्द होय मालिस करै तो दूर होय ऊपरसे अवटा हुआ दूध पीवै रोज दो महीना तक कोई रसायन भस्म भी खावै तो कोई तरहका नामर्दपना न रहै पथ्यसे रहै.

अथ सर्व ज्वरपर चूर्ण ।

गिलोय पिपली चिरायता धनियां मिरच सोंठ पांचों खार पांचों नमक इन सबको कूटि कपडछान कारिके तब पारा गन्धक औरासार दोनोंको एकमें खरल कारि कजली बनाय सब दवाको एकमें मिलायके निंबूके रसमें खरल करै तब तुलसीके पत्ताके रसमें खरल करै तब सहींजनके छालके रसमें खरल करै तब आदीके रसमें खरल करै तब कपूर मिलायके गोली बनावै रोगीका बल विचारके देवै पथ्यसे रोगी खावे तो सब किस्मका ज्वर नाश होय भूख लगै रोग दूर होय.

अथ ज्वरपर अर्क ।

चिरायता १ भाग धनियां २ भाग पिपली आधा भाग इनका अर्क निकालके बल रोग देखके गरम शरद विचारके देवे तो सर्व ज्वरको नाश करे बलकिन सन्निपात ज्वरको दूर करै तपतज्वर विषमज्वरको नाशै जैसे बलती अग्निको पानी तैसे तपत ज्वरको यह अर्क है ।

अथ भांटाके बीजका तेल ।

पका भांटा जो खेतमें पेडमें लगाहुआ पियर भया हुआ उसका बीज ५ तोले कण्टकारीका बीज ५ तोले पिपली ५ तोले सूखा केंचुवा ५ तोले गुंजाका बीज ५ तोले बीरबहूटी ५ तोले तिल्लीका तेलमें खरल करै२०तोलेमें इन सब दवाओंको यन्त्रमें भरिके पताली यन्त्रसे तेल निकालिके नामर्द पुरुषके इन्द्रीपर मालिस करै तो हथरसका विकार और कमजोर शिथिलता सब दूर होय फिर हथरस न करै इसके करनेसे नस मारी जाती है इस तेलको मले और पुष्टाईकी दवा खावे और पथ्यसे रहै दो महीनातक तब नामर्दी दूर होय.

अथ मूलीके बीजका तेल ।

मूलीका बीज अकरकरा पिपली लौंग जायपत्री

जायफल यह सब दो दो तोले लेवै जमालगोटा शुद्ध १ तोले लेवै इनको मीठा तेलमें चुरावै जब सब दवा जल जाय तो छानके शीशीमें रख देवै, तो थोरा थोरा नामर्द आदमीके इन्द्रीपर मालिस करै ऊपरसे बंगला पान बांधै २१ दिन तक इसी विधिपरमाने करनेसे इन्द्री शिथिल भई होय नस मारी होय कडी न होय तो पूरी तौरसे खड़ी होने लगै नामर्दपना दूर होय धातुपुष्टिकी दवा खावै.

अथ पंचधान्यचूर्ण।

धनियां ११तोले मिरच ५ तोले पांचों नोंन ३ तोले पांचोंखार ३ तोले हिंगु भुंजी हुई ६ मासे इन सबको कूटि कपडछान करके ४ मासे खावै ऊपरसे एक घोंट पानी पीवै तो अजीर्ण रोग मन्दाग्निको दूर करै रुचिको लगावै गरमको बुझावै भूखको लगावै जीर्ण ज्वर और विषम ज्वरको नाशै और मनको प्रसन्न करै.

अथ पंचधान्यमिसरीचूर्ण।

धनियां७तोले राल ५ तोले इलायची ३ तोले कपूर शुद्ध १ तोले मिसरी १२ तोले सबको कूटि कपडछान करके ४ मासे खावै तो हैजाकी बीमारीको वमनको बन्द करै छातीके रोगको दस्तको बन्द करै दाहको बुझावै

भूखको लगावै चित्तको प्रसन्न करै पथरीरोग मूर्च्छा रोग और जो पेसाबके रास्ते खून गिरता होय तो दूर हो पेसाब कडक होना दूर होय.

अथ दूसरा चूर्ण।

मुलहटी ४ तोले इलायची ४ तोले पीपली ४ तो मिसरी ४ तोले बडी इलायची ४ तोले जायफल४तोले इनको कूटि कपड छानकर ४ मासे शहदके साथ खावै साम सबेरेको तो शरीरको पुष्ट करै कामदेवको ताकत देवै निर्बल मनुष्यको सुधारै भूखको लगावै रुचिको करावै.

अथ पुष्टिकरण दवा-चौपाई।

सोंठ पीपरी मुरली आन ॥ मुसरी साम मुलहटी जा-न ॥ सबही समान पीसिके राखी ॥ दवा समान मिस-री कह भाखी॥ आधासेर दूध अवटाई ॥ दवा रुपया भरि लेहु मिलाई ॥ निशीसमै सोवतकै खाई ॥ धातुपुष्टि बलकी अधिकाई ॥ भूख लगायके मदन जगावै ॥ नर जो कुछ दिन पथ्यसे खावै ॥ बाढै काम हारु नहिं आवै ॥ तरून त्रिया अच्छे सुख पावै.

अथ इन्द्रीका लेप-चौपाई।

अकरकरा सोंठ लोंग मिलाई ॥ तिनको कुटिके

चूर्ण बनाई॥ शहद मिलायके लेप बनावै।निशा समै इन्द्रीमें लावै॥ कठिन होय नामरदी जावै॥ एकइस दिन ध्यानसे लावै.

अथ इन्द्रीका दूसरा लेप-दोहा।

भांग मदार अकरकरा,रस जु धतूरे पाय॥मिलाय लेप करे इन्द्रिपर, कठिन रु दृढ होय जाय॥

अथ इच्छाभेदी जुलाब।

जमालगोटा शुद्ध ४ तोले मिरच १ तोला चौफीया शुद्ध पारा १ तोला गन्धक आंवरासार १ तोला सोंठ इन सबको खरलमें खरल करै गायके दूधमें १ दिन खरल करै इमलीके रसमें एक दिन खरल करै निंबूके रसमें एक दिन खरल करै अदरखके रसमें एक दिन खरल करै तब छोटे मटरकी बराबर गोली बनायके बल विचारके मिसरीके साथ खावै तो बहुत अच्छा जुलाब होय। पथ्य खिचरी घी खावै.

अथ दस्त बन्द करनेकी गोली।

सोंठ भांग बेलका गुझा बबूरकी गोंद जायफल मिरच सब दवा एक एक तोले, अफीम ६ मासे सब कूटि खरलसे खरल करै चना बराबर गोली बनावै जो सफेद आँव पड़ता हो तो तक्र वा पानीके साथ खावै

जो लाल आँव पड़ता होय तो चावलके धोवनमें शहद मिलायके खावै जो पीला नीला आँव पड़ता होय तो अनारदानाके साथ खावै सब प्रकारका अतिसार जावै.

अथ लक्ष्मीविलास रस।

अभ्रक रस बंग रस लोहा रस रूपा रस एक तोले करायल लौंग मिरच खस चन्दन दोनों कंकोल मिरच कमलगट्टा नागकेशर पीपरी मुसली दोनों निरगुंडी सोंठ सोंचर सुगंधवाला कपूर जायफल तवाखीर शीतलचीनी छेकुरकी छाल तज (तेजपात) गुजराती इलायची गोरखमुंडी भांग मोचरस बडी इलायची असगन्ध केरकन्द केवांचबीज नागकेशर नागरमोथा सिंगाडा उरदकी धोई दाल गुरसकरी स्याहजीरा सफेदजीरा सेमरकी छाल शतावरी इन सब दवाओंको कूटि कपडछान करिके इससे दूनी मिसरी मिलायके खावे तो वात संग्रहणी प्रमेह इनको नाशै धातु बढै शरीर पुष्ट होय नपुंसकपना छूटै पथ्यसे खावै ऊपरसे दूध अवटा पीवै तो निर्बल शरीरको बली करै शरीरमें हार कभी नहीं आवे और जो खावै सो बराबर हजम होता जावै.

अथ वायुके सब प्रकारकी दवा ।

करीसाव कमलगट्टा वंशलोचन कचूर तालीस चितावर सोनामाखी शुद्ध जायफल मोचरस यह सब दवा समभाग लेकर कूटि कपडछान करि चूर्ण करि चूर्णके बराबर मोचरस लेवै एकमें सब दवा मिलाय दूनी चीनी मिलायके अधेला भरि चूर्ण शाम वा सबेरेको खावै तो अजीर्ण पेटका मिटै अग्नि-वृद्धि होय सब प्रकारका वायु दूर होय पित्त चालीस दूर होयँ कफ बीस दूर होयँ हृद्रोगको छर्दिको संग्र-हणीको अतीसारको क्षयीको कासश्वासको उदररोग-को मूत्रकृच्छ्रको गलरोगको बांझ रोग सन्निपातको विस्फोटकको भगंदर रोगको कानके रोगोंको इत्यादि सबको दूर करै । यह चूर्ण कुंकुमादि है.

अथ पेटदर्दपर चूर्ण ।

काबुली हरड ५ तोले निसवत ५ तोले चूर्ण करि मिसरी संग खाय पेट पीडा दूर होय.

अथ अजीर्णपर चूर्ण ।

सोंठि शुद्ध गन्धक सेन्धानोन सब समभाग लेकर कूटि कपडछान करि निंबूके रसमें खरल करि एक एक टंकके प्रमाण गोली बनायके खाय तो अजीर्ण रोग जाय भूखको लगावै सही.

अथ भ्रममूर्च्छाकी दवा।

त्रिफलाको कूटि कपडछान करिके चूर्ण बनायके बल विचार देखिके शहदके साथ शामको खानेको देवै और सबेरेको अद्रखके रसमें गुड मिलायके पीवै तो भ्रम मूर्च्छा जावै.

अथ भ्रममूर्च्छाकी दवा।

इलायची त्रिफला धूप बराबर लेकर कूटि कपड-छान करि चूर्ण बनायके शहत मिलायके खावै ऊप-रसे पुराने चावलका धोवन पीवै वा गायका दूध पीवै तो भ्रम मूर्च्छाको दूर करै.

अथ भ्रममूर्च्छाकी दवा।

मुलहटी सोंठ इलायची समभाग लेकर कूटि कप-डछान करिकै शहदके साथ खावै तो भ्रम मूर्च्छा दूर होय.

अथ खांसी श्वासकी दवा।

अदरख पिपरी भटकटैयाकी जड इन दवाओंको स-मभाग लेकर कूटि कपडछान करिके शहदके साथ खावै तो खांसी श्वास ज्वरको नाशै शाम सबेरेको खावै

अथ खुजली रोगकी दवा।

जमालगोटा ४ तोले आंवलासार

तोले नीलाथोथा ४ तोले इन दवाओंको कूटि पीसि पिसान सरीखा करिके तामेके बासनमें रखके १२ तोले नैनू घी मिलाय और ऊपरकी दवा मिलाय फिर उसमें पानी छोड आठ दस आना पैसा छोडके खूब मसलै एकसौ पानीसे धोवे रगड़े तब रख देवै शामको खजुरीरोगीके शरीरपर मलै काछ शिर छोडके मलै और अग्नि बालिकै तापै खूब मलै जबतक पसीना निकल आवै दो घण्टातक।लेकिन यह दवा शिरके ऊपर न लगने पावै काछमें न लगावै बचायके दवा लगावै। राततक दूसरे दिन कुछ न खाय न नहाय शामको भैंसका गोबर लेकर सब शरीरपर मलै गरम पानीसे स्नान करिकै शरीर साफ कपडासे पोंछके ऊपरसे कडु-वा तेल लगाय देवे पहिले दिन दहीभात खावे पथ्यसे रहै तो असाध्य खजुरी जो सब शरीरमें सरिगई हो तो एक दिनमें अच्छी होय सुवर्ण सरीखा शरीर बनै इस दवाकी बराबर दूसरी दवा नहीं।पामा गजकर्ण सेहुँया सब नाश होयँ सही.

अथ हरतालगुटिका रस।

हरतालरस शोधा गन्धक शोधा पारा शोधा इंगुर शोधा सुहागा सोंठ मिरच पीपल यह दवा बराबर लेवै गन्धक पारेकी कजली कर सब दवा एकमें मिलायके

अदरखके रसमें खरल करै सात पुट अदरखके रसके देवै और मूँग प्रमाण गोली बांध एक गोली प्रभात खाय तो सब प्रकारके वात जायँ प्रसूत रोग मन्दाग्निरोग संग्रहणी शीतज्वर इन सबको नाशै। जब यह गोली खाने लगै तो पथ्यसे खावे.

अथ हरतालरस गुटिका।

पारा गन्धक आंवरासार हरताल इन तीनोंको शुद्ध करलेवै तब घीकुमारके रसमें खरल करै सात-दिन तब निम्बूके रसमें सात दिन खरल करै सनके रसमें सात दिन खरल करै पलाशके रसमें पांचदिन खरल करै तब सीसीमें भर कपडमिट्टी कर सुखावै तब बालुकायन्त्रमें एक दिन आंच तेज देवै. निकालके अजवाइन सोंठ पिपरी मिरच गुरुच नागकेशर बडी इलायची सब दवाओंको कूट कपडछान करके ऊपरकी दवायें मिलायके निर्गुंडीके रसमें एक दिन खरल करै एक दिन काली मकोयके रसमें खरल करै बबूरके छालके काढ़ेमें एक दिन खरल करै तब रोगका बल उमिर देखके खावै ऊपरसे आदीका रस पीवै तब अच्छा पक्का पानका बीड़ा खावै पथ्यसे रहै तो वात रोग सब प्रकारका नाश होय अरुचि मन्दाग्नि सबको नाशै अजीर्णको दूर करै विषमज्वर शीतज्वर

भी जावे उदररोगको हरै मन प्रसन्न करै कामको बढावे भूखको लगावे धातुको शुद्ध करै शरीरमें हरारत न आने देवे पथ्यसे खावै.

अथ प्रसूतज्वरकी दवा।

इंगुर शुद्ध बच्छनाग शुद्ध मिरच पीपरी सोहागा सब दवाओंको अदरखके रसमें एक दिन खरल करै फिर बंगला पानके रसमें खरल कर एक दिन तब अदरखके रसकी सात भावना देकर तब खरल कर १ रत्ती भरकी गोली बनाय एक गोली खिलावे ऊपरसे आदीका रस देवै तो सन्निपातज्वरको नाशै है शीत वात प्रमेह शूल प्रसूतिज्वर विषमज्वर सबको नाशै यह आनन्दका देनेवाला रस है.

अथ सन्निपातमें निद्रानाशकी दवा।

मकरीके घरकी मिट्टीको बुक पिसान बनायके कडवे तेलमें मिलायके और इसीमें मकरीका जाला भी समभाग मिलायके बत्ती बालै इसीके धुवाँका काजल पारै आँखोंमें अंजन करै तो सन्निपातज्वर छूटै नींद बहुत लगै यह योग्य है.

अथ सन्निपातज्वरकी दवा।

ब्राह्मी त्रिकुटा बंगरस केसर चिरायता तज अकर-

करा सोंचरनोन जीरा सब दवा बराबर लेकर चूर्ण बनाय सब दवासे दूनी दाख मिलायके घोटै खूब तब दो टंक खाय तो सन्निपात दूर होय धूनिज्वरवाला पथ्यसे रहै.

अथ शीतज्वरकी दवा।

हरताल शुद्ध २५ टंक कलीका चूना २५ टंक नीला थोथा २५ टंक इन दवाओंको घीकुमारके रसमें खरल करै दस दिन तब गोली बनायके सुखाय कपड मिट्टी करि तब फिर सुखायके एक गजपुट आंच देवै शीतल भयेपर निकाल एक रत्ती कचूरमें खाय तो शीतका ज्वर जाय जो केवल विषमज्वर होय तो चीनीके साथ खावै और पानके रसके साथ खावै तो खाँसी ज्वरको दूर करै पथ्य दूध मांसका करै और खट्टा विकार छांडै.

अथ पुष्टिकारक दवा।

पारा एक भाग सोंठि ४ भाग पीपली ४ भाग बंग २ भाग सबके बराबर शतावरी ले तज (तेजपात) नागकेसर इलायची जायफल त्रिकुटा लौंग जायपत्री इन सब दवाओंको दो दो भाग लेवै दवाके बराबर मिसरी मिलायके तब घी शहत मिलायके दोदो रुपैया भरिकी गोली बांधि खाय तो नपुंसकपना मिटै ऊपरसे दूधको

पीवै तो वृद्ध पुरुष भी तरुण होय शरीरपुष्टि होय भूख लागै.

अथ शरीर पुष्टिकारक दवा ।

पारा भाग २५ गन्धक भाग २५ इन दोनों दवाओंको खरल कर तब कनेरके रसमें तीन दिन खरल करै और कमलके बेलमें खरल करै तीन दिन तक तब बालुकायंत्रमें एक पहर पकावै तेज अग्निसे और फिर लाल अगस्तिके पातसे एक पहर खरल करै तब बालुकायंत्रमें एक आंच देवै तब अगस्तिकी छालमेंसे रस निकालके उसमें खरल करै तब दो रत्ती वा चार रत्ती भर इस दवाको मिसरीके साथ खाय ऊपरसे दूध पीवै तो सौ स्त्रियोंसे रति करनेपर बल न घटै.

अथ चौथियाज्वरका टोटका ।

जिस पुरुष वा स्त्रीको चौथिया आवता हो वह रविवारके दिन घरसे निकलै जहांपर हाड़ मिलै कोई जन्तुका उसीपर पांच फूल लौंग धरिके हाथसे नोंन लेकर पांच फेरी परिक्रमा करके तब उस हाडके ऊपर पेशाब कर नोंन रख देवै ऊपरसे थूकि देवै तब अपने घरको चला आवै फिर पीछे नहीं ताकै यह

विधि प्रमाण जो टोटका करै तो ईश्वरकी कृपासे फिर चौथिया ज्वर नहीं आवै यह उपाय निष्फल नहीं जाताहै.

अथ चौथियाज्वरका दूसरा उपाय।

शनीचरके दिन शामको काला धत्तूराको नेवता देआवै इस विधिसे गुड़ घी पानी साफ आगि लेकर उसीसे धतूरेकी पूजा करके यह कहै कि हे महाराज ! हम कल तुमको लेचलेंगे हमारे मुदईको दूर करना। फिर पीछे न ताकै अपने घरको आवै फिर रविवारके प्रातःकालको जायकर उसी धतूरेकी एक छोटीसी डाली तोडके अपने भुजापर बाँधै घरको आवै तो परमेश्वरकी कृपासे फिर चौथिया ज्वर न आवै.

अथ चौथियाज्वरकी दवा।

सफेद फूलका गदहपुरनाकी जड़ ९ मासे पांच मिरच गायके दूधमें पीस पीवै तो सब प्रकारका चौथिया ज्वर जावे.

और चौथियाज्वरकी दवा।

काकजंघाकी जड पत्ता ९ माशे पिपरी दो पानीमें पीस शहत छोड़के पीवै तो यह दवा चौथिया ज्वरको नाश करै.

अथ सर्व ज्वरको शर्बत।

गुरच धनियां पीपरी सोंठि चिरायता पांचोंको सात सात तोले लेकर कूटिके चारसेर पानीमें काढ़ा करै जब दो सेर शेष रहै तो उतारिके छान लेवै तब तीन पाव मिसरी छोड़के ऊपरके काढामें मिलायके चूले पर कराही रखि उसीमें सब दवा छोड़के अग्नि जलावे जब शर्बतकी चासनी होय तो उतारके रखदेवै पीपरीके चूर्णके साथ थोडा थोडा रोग दोष बल विचारके खावै तो सर्व ज्वरको नाशै भूखको लगावे बलकिन सब रोगको हरै यह शर्बत तर है कलेजेकी गरमीको नाशै है न गरम है न शरद है.

अथ शर्बत सर्व रोगपर।

चन्दन दोनों इलायची गुरूची उसबा पिपरी धनियां मुलहठी इन सबको आठ आठ तोले लेकर १०सेर पानीमें काढा करै जब तीन सेर पानी शेष रहै तब डेढ़सेर मिसरी छोडके चुरावै कड़ाहीमें छोडके मन्द मन्द आंच देवै तब शर्बतकी चासनी करि रखि देवै इस शर्बतको पिपरीके चूर्ण करिके उसके साथ खाय तो वातज्वर पित्तज्वर कफज्वरको नाशै और यह बलको करै शरीरको दृढ करै आम अरुचिको हरै

धातुको बढायके शरीरकी पुष्टि करै हुचकीरोगको दूर करै दिल मचलानेको गुण करै यह शर्बत कठिन दिलको नरम करै भूखको लगावै है.

अथ शर्बत पित्तज्वरका ।

अनारका रस एक पाव चन्दनका चूर्ण ५ तोले मुलहटीका चूर्ण १० तोले केसर २ तोले गुजराती इलायची २ तोले इन सब दवाओंकी सवासेर मिसरीमें चासनी करै जब शर्बतकी चासनी होजाय तो शीशी-में रख देवे रोज एक तोले सबेरे खावै तो पित्तज्वर-को दूर करै शरीरको खुश करै बलवीर्यको बढाके शरी-रकी पुष्टि करै दिल दिमागको तर करै यह शर्बत बहुत गुणकारी है सर्वरोगपर देवै.

अथ शर्बत प्रसूतज्वरका ।

सोंठ एक पाव पिपरी एक पाव चन्दन दोनों ७ तोले कालीमकोय ७ तोले गुरूची ७ तोले चिरायता ७ तोले इन सब दवाओंका ५ सेर पानीमें काढा करे जब अढाईसेर बाकी रहे तब काढा छानके डेढसेर मिसरी छोडके शर्बतकी चासनी बनाय लेवै शीशीमें रख देवै एक तोला यह प्रसूतवाली स्त्री खाय पथ्यसे रहै व

खट्टा मिठ्ठा तीता सब छोड देवे तो प्रसूतज्वर बलकिन स्त्रीका सब रोगको गुण देवै कमरका दर्द पेटका दर्द शूल गर्भ स्थानको भी शुद्ध करै भूखको लगावै.

अथ बालकके ज्वरके शर्बत।

काकड़ासींगी ४ तोले पीपरी ४ तोले गुरूची ४ तोले वंशलोचन ४ तोले सेंधानोंन २ तोले इन सब दवाओंका डेढसेर पानीमें काढ़ा करै जब आधा जल जाय आधा रहै तब छान लेवै तीन पाव मिसरी घी ५ तोले सहत ५ तोले इन सब दवाओंको एकत्र करि कडाहीमें छोडके तब मधुरी आंचसे शर्बत तैयार करै जब चासनी होयजाय तो शर्बत सीसीमें रखदेवै बल विचारके बालकको देवै तो बालकके सर्वरोगोंको नाशै बालकको भूख लागै अच्छी तरहसे रहै यह दवा छः महीनासे १० वर्षके बालकको देवै बलकिन रूषको भी देवै सबको गुण देवै.

अथ पानका शर्बत।

अच्छा बंगलापानका रस आधासेर आदीका रस आधासेर अनारका रस आधासेर पिपरी ७ तोले मिरच ५ तोले सब दवाओंको एकमें मिलायके शर्बत-के विधि प्रमाणे चासनी करि लेवे तब सीसीमें रखके रोज एक तोला सांझ सबेरेको खाय तो खांसी श्वास

ज्वर सब प्रकारके नाशैं यह बालक स्त्री पुरुष सबको रोगमात्रमें देवै तो सबको गुण करै मन्दाग्निको निकालै भूखको लगावै पथ्यसे खावै.

शर्बत हैजाकी बीमारीका ।

धूप ७ तोले इलायची २ तोले मुलहठी ५ तोले कापूर १ तोले अफीम ६ मासे जहरमोहरा खटाई एक जातका पत्थर है हरारंग होता है वह दो तोले इन सब दवाओंको डेढसेर चीनीके शर्बतकी विधिसे शर्बत बनाय लेवै जब शर्बतकी चासनी होयजाय तो सीसीमें रखदेवै हैजावाले रोगीको देवै तो तुरंत उलटी दस्त दोनों बन्द होयँ गरमी कलेजेकी नाश होय पियास बन्द होय कलेजेका छातीका धड़कना बन्द होय.

अथ शर्बत प्रमेहका ।

महुवाकी छाल बबूरकी छाल पीपरकी छाल कटहलकी छाल चन्दन गुरूची यह दवा नौ नौ तोले लेकर ८ सेर पानीमें सब दवाओंको कूटिके शामको भिगोवै सबेरे काढा करै जब २ सेर शेष रहै तब सवा सेर मिसरी छोडके शर्बतकी विधि प्रमाने शर्बत बनायके सीसीमें रख देवै सवा तोले यह शर्बत खावै तो प्रमेह रोगको नाशै गरमको तर करै शरीरको दृढ करै यह शर्बत पित्तवालेको बहुत गुण देवै है.

अथ प्रमेहका दूसरा शर्बत।

गोखुरू आधा सेर गुरूची आधासेर चन्दन सफेद आठ तोले इन सब दवाओंको कूटिके ७ सेर पानीमें काढा करै जब अढाई सेर पानी बाकी रहै तो छानके डेढसेर कन्द छोडके शर्बतके विधि प्रमाणे शर्बत चासनी करिके विधिसे १ तोले खावै यह शर्बत प्रमेह रोगको नाशके धातुको बढायके शरीरको दृढ करै पथ्यसे रहै खट्टा तीता मीठा न खाय.

अथ शर्बत आंवलाका अतीसारपर।

आंवला२९नग अच्छा लेकर और आंवलोंके बराबर बेलका गुझा लेवे सोंठ आठ तोले लेवे चूर्ण करि सब दवाओंको तीन सेर पानीमें औटावै जब डेढसेर पानी शेष रहै तब सवासेर मिसरी मिलायके शर्बतकी चासनी शर्बतके विधि प्रमाणे करै जब शर्बत तैयार होय तब सीसीमें रखदेवे यह शर्बत अतीसारवालेको देवै एक तोले सबेरे एक तोले शामको तो संग्रहणी रोग अतीसारको चावलके धोवनके साथ खानेको देवे तो नाश करैहै यह शर्बत रक्तका गिरना आमका गिरना बन्द करै.

अथ उदररोगकी विधि।

वाले रोगीको पहिले दिन ९ तोले घी

पिलावै इसी विधि प्रमाणे पांच दिन देवे तब रोगीका रोग दोष बल देखिके तब पांच दिन रेंडीका तेल पिलावै तब पांच दिन मुंजीस पिलावै मुंजीस जिस विधि प्रमाणे लिखा होय उस विधिसे तब रोगीका बल देखि जुलाब देवे उदररोग आठ प्रकारका है जिस प्रकारका रोग होय उस प्रकारकी दवा करना तब रोग जल्दसे नाश होता है.

अथ मुंजीसकी विधि ।

सौंफ २ तोले सनायपत्ती २ तोले गुलाबका फूल मकोय काली एक तोले हर्रे छोटी १ तोले अमलतास १ तोले मिसरी ३ तोले इन सबका सवासेर पानीमें काढा करै जब आधासेर रहै तब छानके पीवै रोग नरम होय इसी विधि प्रमाणसे पांच दिन पीवै तो पेटका मल साफ होय जाय.

अथ बडी मुंजीस ।

उन्नाब ६ मासे हंसपदी ७ मासे मुलहटी ७ मासे गुलाब फूल ७ मासे मुनक्का ७ मासे अमलतास ७ मासे अंजीर ७ मासे सौंफ ७ मासे सनायपत्ती १ तोला कासनी ७ मासे मिसरी २ तोले इन दवाओंको थ डी दरकचायके डेढ सेर पानीमें शामको भिगोय

देवै सबेरेको अग्निपर चुरावै जब अढाई छटांक रहिजाय तब पीवै यह मुंजीस उदररोगको दूर करै. शरीरके नस नसको नरम करै पेशाब दस्तके रस्ताको शुद्ध करै.

अथ चूर्ण सर्वरोगपर ।

पांचों खार ५ तोले पांचों नोंन ५ तोले धनियां ५ तोले मिरच ५ तोले सोंठि ५ तोले हिंगु भूँजी हुई १ तोला निसोत ५ तोले इन दवाओंको कूटि कपड-छान करिके निंबूकी चार भावना देवे तब सहींजनेके रसकी चार भावना देवे अदरखके रसकी चार भावना देवै चूर्ण तैयार करै यह चूर्ण अरुचिको दूर करै अजीर्ण मन्दाग्निको नाशै भूखको लगावै वायु बता-सको दूर करै.

अथ नाकसे खून गिरनेकी दवा ।

धनियां आंवला बराबर पीस छान शहत छोडके पीवै शामको सबेरेको गरम वस्तुसे पथ्य रखे और आंवलाको घृतमें भूंजके पानीसे सिलपर पीसै तब दो दफे शिरपर लेप करै तो जल्द गुण करै.

मुखसे खून गिरनेकी दवा ।

धनियां ४ मासे पुदीना २ मासे मुलहटी १ मासे

इलायची २ रत्ती मिसरी ३ तोले अफीम एक सरसों भरि इन सब दवाओंको पानीसे पीसके पीवै तो मुखसे खूनका गिरना एकदम बन्द होय कलेजेकी गरमी शान्त होय.

दूसरी दवा ।

नीमकी ढेपी सात पुदीना धनियां पांच पांच मासे लेकर पीस सेन्धानोंन शहत छोडके पीवै तो उलटी बन्द हो पेटका गरमपना दूर होय.

अथ ज्वर उपवासपर गोला ।

हर पीपरी काला नोंन हींग धनियां आदी मुर्रा सेन्धानोंन अजवाइन यह सब दवा एक एक मासे लेकर एक पात्रमें रखके पोटरी बनावै तब पोतनी माटीको सानिके उस पोटरीपर लेप करे गोलाके समान करके अग्निमें छोडै जब पक्क होजाय निकालके सिलपर बूकके रोगीको खिलावै दो दिनतक जूस देवै तो अजीर्ण नहीं होय भूख लगै अन्न पचै.

अथ बालकके पलईकी दवा ।

आदी पीपरी पीसके छानके गरम करिके बालकको पिलावै एक सुतुही पानीमें पीसै और बालकको शीतसे बचायरखै.

दूसरी बालकके पलईकी दवा।

पक्के नागरपान ३ मासे, पीपली २ मासे, पानी एक घूंट भरिमें पीसे छाने तब गरम करिके बालकको पिलावै तो बालकका पलई रोग दूर होय ज्वरभी होय तो उसको भी दूर करे.

अथ बालकके पलईका लेप।

धतूरेके पत्तोंका रस सोंठका चूर्ण अफीम एकमें मिलायके अग्निपर गरम करके जहांपर पलई मारती होय वहांपर लेप करे और बालूकी पोटरी बनायके गरम पोटरी करके बालकको खूब सेकै जिसमें शीत शरीरमेंसे दूर होय सांसका खींचना बन्द हो सही.

अथ बालकके माटी खानेकी दवा।

जो बालक माटी खाता होय उस बालकको रेंडी-का तेल बारंबार पिलावे रोज जिससे जो माटी बाल-कने खायी होय तो सब दस्तके रास्तेसे गिर पडे फिर नीमका तेल हींग पिलानेसे बालकके पेटसे सब कृमि गिरपडें.

अथ बालकके जुलाब।

निसोत १ तोले रेंडीके बीज १ तोले पीस पानीमें रेंडीतेल मिलायके हलुवा बनावै तब बालकके पेडूपर लेप करै तो बालकको जुलाब होय.

अथ सर्व वातपर तेल।

नीम बकायन मेवँड़ी अरूसा धतूर मनार सेहुँड कनयल सुरती इन सबको आधासेर लेकर एक मन पानीमें काढ़ा करै जब आधा रहि जाय तो काढा छान लेवै तब करू तेल अढाई सेर लेवे तिल्लीका तेल अढाई सेर छेरीका दूध अढ़ाई सेर सोंठ १ तोले पिपली१तोले मिरच १ तोले अजवाइन १ तोले लहसुन १ तोले भांग १ तोले हींग ५ तोले अफीम ५ तोले लेला ५ तोले इन सब दवाओंको कूटिके काढामें छोडै और सब तेल छोडै मन्द मन्द अग्निसे आँच देवै जब सब दवा जल जायँ तब उतारिके तेल छानके रखि देवै जहांपर दर्द होय वहांपर मालिस करै तो परमेश्वरकी कृपासे सर्व दर्द नाश होजायँ पंगुलपना कुबड़पना तेरह प्रकार सन्निपातज्वरवालेके शरीरपर मलाजाय तो तेरह प्रकारके सन्निपातको नाश करै है यह तेल वातव्याधिको हरै है कोई दर्द होय तो इस तेलसे दूर होय.

अथ लेपकी विधि।

लेप तीन प्रकारका है, एक सूखा दूसरा जो पानीसे पीसा जाय तीसरा जो दूध तेल घी कांजीसे पीसिके लेप करै तो यह तीन लेप हैं और यह लेपकी विधि वैद्यक शास्त्रकी नहीं है.

अथ गर्भिणीकी दवा।

महुआ चन्दन बाला सारिवा मुलहटी पदमाख इन्होंका काढा करि मिसरी शहद मिलायके पीवै तो गर्भिणीका ज्वर शांत होयजाय.

अथ दूसरी गर्भिणीकी दवा।

चन्दन सारिवा लोध मुनक्का दाख इन्होंके काढेमें खांड मिलाय पीनेसे गर्भिणीका ज्वर दूर होय.

अथ गर्भिणीको पथ्य।

गर्भिणीको चाहिये कि गरम वस्तुसे पथ्य रक्खै बहुत अलाबला न खाय विकार वस्तुके खानेसे वात पित्त कफ कोप करिके गर्भको नुकसान पहुंचाता है इससे बचीरहै हमलतक.

अथ अंतराज्वरकी दवा।

अंतराज्वरवालेको मुंजीस पिलायके तीन दिन· तक तब जुलाब देवै दो दिन जिस्में ज्वरकी गर्मी करेजे परकी ज्वरकी रेखा दस्तके रस्तासे निकल जाय तब मसीका जड पत्ता समेत १॥ तोले पीपरी एक पानीमें पीसिके पीवै सबेरे शामको, विषमज्वर अंतराज्वर नाश होय पथ्यसे रहै.

अथ अंतराज्वरकी दवा।

जुलाब देकर रोगीको साफ करै तब गुरूची चिरायता पीपरीका अर्क ४ तोले निकालके ३ तोले मिसरी छोडके पीवै तो अंतरा सर्व ज्वरको दूर करै.

अथ शूलपर लेप।

जहांपर दर्द होय वहांपर यह लेप करै तो तुरंत गुण देवै एरंडकी जड़ सोंठ सुरती अफीम धतूरका पत्ता यह दवा माफिक लेकर पानीमें पीसिके गरम करै तब जहांपर दर्द होय वहांपर लेप करै तो शूल दूर होय.

अथ शर्बत गुरूचीका।

हरी गिलोयका रस ६ तोले चन्दन १ तोले नीलोफरके फूल ४ तोले गुलाबके फूल २ तोले धनियां ४ तोले सफेद मिसरी ३२ तोले प्रथम सब दवाओंको थोड़ा कूटिके पौने दो सेर पानीमें शामको भिगोय देवै सबेरे चुरावै जब तीन पाव पानी शेष रहिजाय तब छानके मिसरी मिलायके शर्बतकी चासनी विधिसे शर्बतको बनाय लेवै तब सीसीमें रख देवै यह शर्बत विषमज्वर खांसीको सततज्वरको दूर करै मन प्रसन्न कर ग्लानिको नाशै.

अथ शर्बत आलूका।

कुलफाके बीज ककड़ीके बीज खीराके बीज काहूके बीज बिजौरेका छिलका यह सब एक एक तोले लेवै आलूबोखारा पचास लेवै इमली ४ तोले यह सब दवा सवासेर पानीमें औटावे जब तीन पाव पानी शेष रहे तब छान लेवै. तब अढाई पाव बूरा सफेद मिलायके चासनी करि लेवै तब सीसीमें रख देवै यह शर्बत रुधिर और पित्तज्वर और मलज्वरको दूर करै और मस्तककी पीडाको और हाथ पांवकी जलनको दूर करै और उलटीको गुण करै.

अथ शर्बत कासनीका।

कासनीकी जड़ पत्तोंका रस २० तोले लेकर और मिसरी सवासेरको एकमें मिलायके चासनी करै जब चासनी होने लगै तब चार तोले निंबूका रस छोडके शर्बत तैयार करै तब सीसीमें रख देवै। यह सब २ तोले खावै तो पित्तज्वरको दूर करै और दिलको कलेजेको उदरको ताकत देवै गांठोंको खोले और पेशाबको जारी करै.

अथ शर्बत गुलाबके फूलोंका।

गुलाबके फूल एक पाव सफेद चन्दनका चूर्ण एक

पाव मिरचका चूर्ण ४ तोले इन सबको तीन सेर पानीमें औटावे जब सवासेर पानी रहै तब सवा सेर मिसरी मिलायके शर्बतके विधि प्रमाण चासनी करिलेवे तब सीसीमें रख देवै. यह शर्बत पित्तको गरमीको शान्त करता है। यह शर्बत पियासको बुझाता है दिलको दिमागको बल देवै इस शर्बतमें सुगन्ध भरी है मात्रा २ तोलेकी.

अथ शर्बत वातका।

तुलसीकी पातीका रस आधासेर मिरचका चूर्ण १ पाव घी ७ तोले मिसरी डेढ सेर इन सबको शर्बतकी विधिप्रमाण शर्बत बनाय लेवे तब सीसीमें रख देवै। यह शर्बत वातरोगी प्रातःकालमें डेढ तोला पीवे तो वातरोग दूर होय भूखको लगावै शीतपनाको दूर करै मात्रा १ तोलेकी है.

अथ शर्बत गांजवाँका।

गांजवाँ एक पाव खांड एक सेर ले गांजवाँको तीन बार धोय साफ करै तब कपडाकी पोटरीमें बांधिके दो सेर पानीमें औटावै जब आधासेर पानी शेष रहै तब छानके उसमें खांड डालिके शर्बतकी विधिप्रमाण शर्बत तैयार करै तब सीसीमें रखदेवे मोताद

इस शर्बतकी १ तोलेसे चार तोले तक है जोखा भ्रमको दूर करता है मनको प्रसन्न करता है भूखको लगाता है अरुचिको खोता है.

अथ शर्बत ब्रह्मडण्डीका ।

ब्रह्मडण्डी आधा सेर बच एक पाव शंखाहोली आधासेर मिसरी डेढसेर घी १० तोले प्रथम ब्रह्मडण्डी बच शंखाहोलीको तीनसेर पानीमें अग्नि पर धुरावै जब एक सेर शेष रहै तब छानके कडाहीमें डारि मिसरी मिलाय घी छोड़िके शर्बतकी विधिप्रमाण शर्बतकी चासनी करि लेवे तब सीसीमें यह शर्बत रख देवे यह शर्बत उन्मादको अपस्मारको दूर करै हौलदिलको साफ करै विह्वल चित्तको ठिकाने करै कलेजेकी गरमीकी शांति करै भ्रमको नाश करै यह शर्बत बुद्धिका दाता है यह शर्बत १ तोला खावे रोज शाम सबेरे पथ्यसे अलाबला न खावे.

अथ शर्बत उसबा मगरबीका।

उसबा मगरबी डेढ पाव सौंफ सहत्रा चन्दन चूक यह सब दवा दस दस तोले लेकर तीन सेर पानीमें शामको भिगोय देवे थोरा दरकचायके सबेरे अग्निपर

रखिके चुरावे जब सवासेर पानी शेष रहे तो सवासेर सफेद कन्द मिलायके अग्निपर चुरावे जब शर्बतकी चासनी करि लेवै तब सीसीमें रख देवे यह शर्बत एक तोले वा दो तोले खावे शाम सबेरेको तो खूनके विकारको नाशै खराब खूनको दूर करै नवा खूनको पैदा करै अजीर्णको दूर करै भूखको लगावे यह शर्बत मुसफी खूब है.

अथ शर्बत उन्नाबका ।

उन्नाब अच्छा डेढ पाव लिसोड़ा आधासेर मुलहटी २ तोले गुलाबके फूल १० तोले सौंफ ४ तोले इन सबको थोरा दरकचायके डेढसेर पानीमें शामको भिगोय देवे सबेरे चुरावे जब तीन पाव बाकी रहिजाय तो छानके १ सेर सफेद कन्द मिलायके अग्निपर रखके चुरावे जब शर्बतकी चासनी होय तो शर्बतको सीसीमें रख देवै डेढ तोले खावै तो मादाको नरम करै अजीर्ण ज्वरको दूर करै बादीको तोरै दिलको खुश करै यह शर्बत कुछ दिन खावे तो उदररोग नहीं होय.

अथ शर्बत शिवलिंगीका ।

शिवलिंगीका फल अधपका एक सेर पिपरी डेढ

पाव मिसरी डेढसेर पहिले दवाको थोड़ा कूटिके तीन पाव पानीमें शामको भिगोय देवे और सबेरेको अग्निपर रखके चुरावै जब सवा सेर बाकी रहिजाय तो छानके मिसरी मिलायके शर्बतकी चासनी करै जब शर्बत तैयार होजाय तो सीसीमें रख देवै। यह शर्बत सर्व सिद्धिदायक है। दमा खांसी उदररोग आदि आठ प्रकारके रोगोंको दूर करै है पुराने ज्वरको दूर करै गर्भको देवे है.

अथ वीर्यस्तंभन।

जायफल अकरकरा लौंग सोंठि केसर पिपरी कस्तूरी भीमसेनी कपूर अभ्रक रस इन सबके बराबर अफीम लेवै और पीछे इन सबको कपड़छान करि मूंग बराबर गोली बांधै तब १ गोली वा दो गोली नित्य खाय ऊपरसे औटा दूध मिसरीके साथ पीवे तो वीर्य्य नहीं गिरै एक घड़ी बन्धेज होय स्त्री प्यार करै.

अथ दूसरा प्रयोग।

सिन्दूर रस १२ भाग बंग १२ भाग लोहारस १२ भाग अभ्रक १२ भाग ताम्रश्वर रस १२ भाग कपूर २५ भाग जायपत्री २५ भाग जायफल२५भाग लौंग २५ भाग सफेद चन्दन २५ भाग कस्तूरी १२ भाग

तज १२ भाग तेजपात १२ भाग इलायची छोटी १२ भाग नागकेसर १२ भाग इन सब दवाओंको कूटि कपड़छान करिके ४ मासे खाय ऊपरसे मिसरी दूध पीवै तो वीर्य बन्धै शरीर पुष्ट होय दस स्त्रियोंसे भोग करनेसे बल न घटै यह दवा नपुंसकपनाको दूर करै भूखको जगावै.

अथ मदनकामदेवरस ।

रूपरस १ तोला हीरा रस २ तोले सोना रस ३ तोले तामारस ४ तोले पारा शुद्ध ५ तोले गन्धक शुद्ध ६ तोले लोहासार ७ तोले इन सबको कुमारके रसमें घोटै तब सीसीमें भरि कपडमिट्टी करि एक हंडिया लेवै उसमें नोंन भरै बीचमें सीसी धरै ऊपरसे नोंन भरि बन्द करै चुलहापर हंडी धरि ४ पहर मन्द मन्द आँच देवै तब उतारिके मदारके दूधमें खरल करै तब असगन्धके रसकी तीन भावना देवै तब केवांचके फलके रसकी तीन भावना देवै दोनों मुसलीके रसकी तीन भावना देवै तब गोखरूके रसकी तीन भावना देवै तालमखानाके रसकी तीन भावना देवै शतावरीके रसकी तीन भावना देवै कमलके रसकी तीन भावना देवै कसेरूके रसकी तीन भावना देवै तब कस्तूरी त्रिकुटा कपूर शीतलचीनी छोटी इलायची लौंग इन सब

दवाओंको दो दो तोले लेकर कूटि कपड़छान करिके ऊपरके रसमें मिलायके एकरस करिके तब सब दवाओंके बराबर मिसरी मिलावै तब छः मासे खाय ऊपरसे दूध पीवै तो इस दवाको खानेवाला बहुत स्त्रीगमन करै बल न घटै कामको बढायके शरीरकी पुष्टि करै स्त्री प्यार करै भूंख लागै ग्लानि मिटै नपुंसकता दूर होय.

अथ स्तंभनचूर्ण।

लोहासार १० टंक सोंठ सालममिसरी १० टंक इन दवाओंका चूर्ण करिके रोज खाय ऊपरसे दूध मिसरी पीवै तो स्तंभन होय जरूरसे धातु बल वीर्य बढै पथ्यसे खावै.

अथ वीर्य्यकरन नपुंसकको।

जायफल जायपत्री चिरौंजी मुनक्का छोहारा बदाम कमलगट्टा सोंठ पीपरी मिरच लौंग असगन्ध मुसली दोनों तालमखाना शतावर केवाँचका बीज बीजबन्द इसबगोल नागकेसर यह सब दवा चार चार तोले लेवै कूटि कपडछान करिके घीमें भूंजै तब दूनी मिसरीकी चासनी बनावै जब शर्बतके मिसाल होजाय तब उतारिके सब दवा इसी चासनीमें मिलायके खावै डेढ़ तोलेसे दो तोले तक रोज शाम सबेरे ऊपरसे

दूध पीवै यह दवा तमाम बीमारियोंको रफा करे, बल वीर्यको बढायके शरीरको पत्थरके मिसाल करै नपुंसकपनाका नाश करै कड़क पेशाबको मूत्रकृच्छको मूत्राघात पथरीको वातव्याधिको नाशै बहुत स्त्रियोंका सुख देवै गर्भको देवै है जो पथ्यसे खावे तो स्त्री पुरुषकी बीमारीको नाशै है शरीरमें बल न घटै गरम सरदका खियाल रखै.

अथ अमर अमृतरस ।

पारा २० तोले लेकर पहिले काकमाचीके रसमें एक दिन घोटै सत्यानासीके रसमें १ दिन घोटै शिव लिंगीके रसमें एक दिन घोटै पानीकी काईके रसमें एकदिन घोटै कमलके रसमें एक दिन घोटै तीनपतिया जो पानीमें छाये रहती है उसके पत्तोंके रसमें एक दिन घोटै सनके रसमें एक दिन घोटै फिटकरीमें एकदिन खरलमें घोटै सेन्धानोनमें एकदिन खरल करै तब साफ गरमपानीसे धोयडारै तब शुद्ध आँवलासार गन्धक ५ तोले लेकर खरलमें पारा गन्धक छोडिके खरल करै जब पारा गन्धककी कजली होजाय तो निंबूका रस छोड़के पांच दिन खरल करै तब मदारके रसमें पाँच दिन खरल करै तब घीकुमारके रसमें पाँच दिन खरल करै तब हरदीके रसमें

पांच दिन खरल करै तब मेंहदीके रसमें पांच दिन खरल करै तब आतशीसीसीमें भरिके सीसीपर सात कपड़मिट्टी करिके सुखायके तब एक कड़ाहीमें बालू भरै तब उस बालूके बीचमें सीसी धरिके बालूसे सीसीके मोहरातक भरि देवै और सीसीका मुँह खुला रक्खै तब पांचदेवतोंका पूजन करिके कडाही भट्टीपर धरै तब अग्नि तीन दिनरात देवै तब उतारिके खरलमें डारिके खरल करै तब घीकुमारीके रसमें तीन दिन खरल करै और मदारके दूधमें तीन दिन खरल करै तब एक मट्टीके दीयामें दवा भरि ऊपरसे दुइ दियासे ढाँप देवै तब कपडमिट्टी सात करै धूपमें सुखायके एक गजपुट आंच देवै निकालके सीसीमें रख देवै पांच ब्राह्मणोंको भोजन देकर तब यह अमर अमृतरस तैयार होय इस रसको पीपरीके चूर्णसंग रत्ती वा दोरत्ती शहतसंग खाय तो अनेक स्त्रीयोंके मदको नाशै बल वीर्य न घटै इस रसका अनुपान बदलता जाय रोगीको पथ्यसे राखै तो शरीर भरके रोगको दूर करै फिर रोग नियरे न आवै शरीरपुष्टि हमेशा बनी रहै.

अथ दादकी दवा।

आँवलासार गन्धक सिन्दूर मुरदासिंग फिटकरी

मैनशिल इन दवाओंको कूटिके खूब बारीक पीसिके जहांपर दाद पामा गजकरन होय वहां करूतेलमें मिलायके लगावे ऐसा मलै कि जिसमें दवा शरीरमें समाय जाय यह दवा हजारों दफे अजमाइस किया है.

अथ सेहुआँकी दवा ।

केसर २ तोले मैनशिल२ तोले आँवलासार गन्धक ४ तोले चौकिया सोहागा ४ तोले मुरदासिंग ८तोले इन दवाओंको कूटि कपडछान करिके खरलमें खूब घोटै तब करूतेलमें मिलायके सेहुआँपर मले तो सेहुआँ गजकरन दाद सब दूर होयँ.

अथ राजा अमीरोंकी दवा ।

चौकिया सोहागा ३ तोले केसर ३ तोले सिंगरफ शुद्ध ३ तोले मैनशिल ३ तोले मुरदासिंग६ तोले इन दवाओंको कूटि पिसान करि खरलमें डारिके पांच दिन खरल करे तब थोरा थोरा तिलके तेलमें शरीरपर मलै तो सेहुंआ दाद मुहँपरकी झाईं यह सब दूर होयँ.

अथ भैसवा दादकी दवा ।

मिरच४ तोले गन्धक नीलाथोथा पारा फिटकरी

यह दो दो तोले ले कूटि निंबूके रसमें तीन दिन खरल करै तब दादपर लगावै तो दाद जडसे नाश होय जाय.

अथ योगराज गुग्गुल।

सोंठ ४ मासे पीपल ४ मासे चाव ४मासे पीपलामूल ४ मासे चीता ४ मासे भूंजी हींग ४ मासे अजमोदा ४ मासे सिरसम ४ मासे जीरा ४ मासे स्याह जीरा ४ मासे रेणुकबीज ४ मासे इन्द्रयव ४ मासे पाढ़ा ४ मासे वायविडंग ४ मासे गजपीपल ४ मासे कुटकी ४ मासे अतीस ४ मासे भारंगी ४ मासे बच ४ मासे मूर्वा ४ मासे इन सबको कूटि कपडछान करिके चूर्ण बनावे इन सबसे तिगुणा त्रिफला लेवै पीछे सब दवाके तुल्य शुद्ध गूगल लेवै और बंगभस्म ४ तोले चाँदी भस्म ४ तोले अभ्रक भस्म४ तोले लोहा भस्म ४ तोले शीशा भस्म ४ तोले मंडूर भस्म ४तोले सिन्दूर भस्म ४ तोले इन सबको मिलाय गुडके पाक सरीखा पकाय एक गोला बनाय घीसे चिकने बरतनमें रक्खै पीछे रोज ४ मासे खावै तो यह योगराजगूगुल त्रिदोषको हरै है और रसायन है और इसमें मैथुन वा खाने पीनेका त्याग नहीं है, यह सब वात-

रोगोंको वा कुष्ठको वा बवासीरको वा संग्रहणीको वा प्रमेहको वा वातरक्तको वा नाभिशूलको वा भगन्दरको वा उदावर्तको वा क्षयको वा गुल्मको वा अपस्मारको वा ऊरुग्रहको वा मन्दाग्निको वा श्वासको वा खांसीको वा अरुचिको वा वीर्यदोषको वा स्त्रीके रजोदोषको हरै है और पुरुष खाय तो वीर्य बंधि सन्तान पैदा करै और स्त्री खावे तो गर्भ रहै और इसको रास्नादि काढ़ाके संग खानेसे अनेक प्रकारके वायुरोग दूर होयँ और यह काकोल्यादि काढाके संग खानेसे पित्तको हरै है और अमलतासके काढाके संग खानेसे कफरोगको हरै है और दारुहल्दीके काढाके संग खानेसे प्रमेहको हरै है और गोमूत्रके संग खानेसे पांडुरोगको हरै है और शहतके संग खानेसे मेदोवृद्धिको हरै है और नींबकी छालके काढेके संग खानेसे कुष्ठको हरै है और गिलोयके काढेके संग खानेसे वातरक्तको हरै है और पीपलीके काढेके संग खानेसे शोथरोगको हरै है और शूलरोगको हरै है और पटोलके काढेके संग खानेसे मूषाके विषको हरै है और त्रिफलाके काढेके संग खानेसे नेत्ररोगको हरै है और सांठीके काढेके संग खानेसे सब तरहके पेटरोगोंको हरै है.

अथ दूसरा योगराज गुग्गुल ।

पीपली गजपीपली चीता वायविडंग इन्द्रयव धमासा कुटकी पिपलामूल भारंगी पाढ़ा अजवायन मूर्वा शुंठ हींग चवक यह सब दवा बराबर लेकर चूर्ण बनायके चूर्णके बराबर शुद्ध गुग्गुल चूर्णमें मिलायके शहतके संग १० मासे खावै तो यह योगराजगुग्गुल रक्तकी बवासीरको वातकी बवासीरको गुल्मको संग्रहणी पांडुको हरैहै अथवा रालके चूर्णको कडवे तेलमें मिलायके धूप देनेसे गुदाके रोगोंको हरैहै.

अथ तीसरा योगराज गुग्गुल ।

चीता पिपलामूल अजमोदा सौंफ वायविडंग अजवाइन जीरा देवदारु चाव इलायची सेंधानोंन कूट रास्ना गोखरू धनिया त्रिफला नागरमोथा शुंठ मिरच पीपल दालचीनी वाला जवाखार तालीसपत्र तमालपत्र यह दवा समभाग लेकर चूर्ण बनायके और चूर्णके बराबर शुद्ध गुग्गुल मिलायके घृतमें खरल करै तब मनोवांछित भोजन करै यह प्लीहाको गुल्मको उदररोग अफारा बवासीर इन सब रोगोंको नाशै है और अग्निको दीपन करै है और तेज बलको बढावै है यह आमवातको हरै है यह योगराजगुग्गुल घृतमें एक दिन खरल करै तब खाय.

अथ कैशोरगुग्गुल ।

नया भैंसागूगल ६४ तोला गिलोय ६४ तोला त्रिफला ६४ तोला इनको आधा मन पानीमें चुरावै जब आधा पानी रहिजाय तब छानलेवै तब फिर अग्निपर चुरावै जब गाढा होजाय तब उतारिके हरैं ८ तोला त्रिकुटा ६ तोला बायबिडंग २ तोला निसोत डेढ तोला जमालगोटाकी जड़ डेढ तोला गिलोय ४ तोला इनका चूर्ण बनाय घृत मिलायके रख देवे तब देवता और अतिथि आदिकी पूजा करि और अग्निबलाबल विचारिके रोगीको खानेको देवे यह गुग्गुल खानेसे वात रक्त दोषको वा त्रिदोषको दूर करै है खांसीको घावके दमाको श्वासको कुष्ठको गुल्मको सोजाको पेटके रोगोंको मेदरोगोंको पांडुरोग मन्दाग्निको दस्त बन्दको प्रमेहरोगको इन सबोंको हरै है यह सेवन करनेसे बूढापनको दूर करै है इस कैशोर गुग्गुलमें जैसा नाम वैसा गुण है.

अथ गुग्गुलवटी।

शुद्ध गूगल लहशुन निबोली हिंगु सोंठ इनको पानीमें खरल करि गोली बनायके पथ्यसे खावै तो यह बवासीर रोगको दूर करै है.

अथ त्रिकटुवटी।

सोंठ मिरच पीपल सोहागा इनको कूटि कपड-छान करिके नागरपानके रसमें खरल करै, तब मिरच बराबर गोली बांधै तब एक गोली खाय तो कफको हरै है.

अथ फलत्रयवटी।

हरैं बहेड़ा आंवला सूंठ देवदारु पीपली बच मिरच नागबला इनको कूटि कपडछान करिके धतूराके और भंगराके रसमें ३ दिनतक खरल करै तब गोली बनायके खावै तो श्वास कफके विकारको दूर करै है.

अथ दमाकी दवा।

थोहरके दूधमें गुड मिलायके ६ रत्ती खानेसे खांसी श्वासको नाशै क्षयीको हरै हृद्रोगको भी दूर करै.

अथ श्वासकुठार रस।

पारा शुद्ध गन्धक शुद्ध मीठा तेलिया सोहागा मैनशिल यह सब एक एक तोले मिरच ९ तोले पीपली एक तोले सोंठि १ तोला इन सब दवाओंको

लेकर पहिले पारा गन्धककी कजली करिके तब सब दवाओंको कूटि कपड़छान करिके एकमें मिलायके खानेसे यह श्वासकुठार रस सब प्रकारके श्वासको हरै है.

अथ दमाकी दवा।

कंटकारी अरूसा पीपरी सोंठि धवका फूल पोस्तका ठोढ बबूरकी छाल इन दवाओंको तीन तीन मासे लेकर थोरा दरकचायके तीन पाव पानीमें काढा करै जब डेढ छटांक शेष रहि जाय तब छानके शीतल करिके शहद छोड़के शाम सबेरे पीवै तो बालक स्त्री पुरुष सबकी श्वास खांसी ज्वरको नाशै है।इसको कुछ दिनतक पीवै और पथ्यसे रहै तो दमाको दूर करै है.

अथ श्वासदमापर दवा।

सोंठ पीपरी मिरच इन दवाओंको बराबर लेय कूटि कपड़ छान करिके बबूरके काढेमें दो दिन खरल करै तब भटकटैयाके काढामें दो दिन खरल करै तब धवके काढ़ामें दो दिन खरल करै तब सुखायके बराबर मिसरी मिलावै तब शहदके साथ खावै तो श्वास खांसीको नाशै है पित्तज्वरको दूर करै है.

अथ त्रिफलायोग ।

त्रिफला ८ तोले दालचीनी ८ तोले मुलहटी ८ तोले महुवाका फूल ८ तोले जायफल ८ तोले कमलगट्टाका गूंद ८ तोले सबको कूटि कपड़छान करिके सब दवाओंसे आधी मिसरी मिलायके घी शहत संग सांझ सबेरे खाय तो यह त्रिफलायोग सब रोग हरे है और पुष्टि करनेमें तो यह रस गोली चूर्ण पाक इत्यादि सबसे अव्वल है यह योग हजारोंमें आजमाया हुआ है.

अथ मृतसंजीवनी रस ।

सिंगरफ ३ भाग मीठातेलिया २ भाग सुहागाखार १ भाग जमालगोटा १ भाग इन्होंको अदरखके रसमें दो प्रहर खरल करे पीछे आकके दूधमें खरल करै पीछे शतावरीके रसमें खरल करै, दो रत्तीभर खानेसे वातरोग, ऊरुस्तंभ आमवात, संग्रहणी, बवासीर और आठ प्रकारके ज्वर रोगोंको यह रस ऐसे नाशै है जैसे सूर्य अंधेरेको नाशै है परंतु यह रस पथ्यसे खावै.

अथ प्रभागुटी ।

चीता४तोले हरड़ ४ तोले बहेडा ४ तोले आंवला ४ तोले नींब ४ तोले परवल ४ तोले मुलहटी४ तोले

दालचीनी ४ तोले नागकेशर ४ तोले अजवाइन ४ तोले अमलवेत ४ तोले चिरायता ४ तोले दारुहल्दी ४ तोले इलायची ४ तोले नागरमोथा ४ तोले पित्तपापडा ४ तोले रसोत ४ तोले कुटकी ४ तोले भारंगी ४ तोले चाव ४ तोले पदमाख ४ तोले खुरासानी अजवाइन ४ तोले पीपली ४ तोले मिरच४ तोले जमालगोटा ४ तोले कचूर ४ तोले सोंठ ४ तोले पोहकरमूल ४ तोले बायबिडंग ४ तोले पीपलामूल ४ तोले जीरा ४ तोले देवदारु ४ तोले तमालपत्र ४ तोले कूडाकी छाल ४ तोले रास्ना ४ तोले धमासा ४ तोले गिलोय ४ तोले निसोत ४ तोले कौंचके बीज४तोले तालीसपत्र ४ तोले सेंधानोंन ४ तोले मणियारीनोंन ४ तोले काला नोंन ४ तोले धनियां ४ तोले अजमोदा ४ तोले सौंफ ४ तोले सोनामाखी ४ तोले जायफल ४ तोले वंशलोचन ४ तोले असगन्ध ४ तोले अनारकी छाल ४ तोले कंकोल ४ तोले बाला ४ तोले जवाखार ४ तोले सज्जीखार ४ तोले शिलाजीत ३२ तोले गूग्गुल ८ तोले लोह भस्म ३२ तोले सोनामाखी भस्म ८ तोले इन सबोंको कूट कपडछान कारिके चूर्ण करै तब घीके चिकने बरतनमें रक्खै तब इस दवाको रोगीका बलाबल देख विचारके देवै तो

वातव्याधिको हरै है और ऊरुस्तम्भको अर्दितको गृध्रसी विद्रधि श्लीपदको गुल्मको पाण्डु हलीमक पांचप्रकारकी खांसीको मूत्रकृच्छ्रको गलरोगको अफाराको अश्मरीको अण्डवृद्धिको संग्रहणीको अपबाहुक अरुचिको पसली शूलको पेटरोग आठ प्रकारके भगन्दर रोगोंको हृदय रोगको शूलको ऊर्द्ध्व कंपको विषमज्वरको छातीके फटनेको मुखरोगको प्रमेह रोगको रक्तपित्तरोग कामला रोग वातोत्पन्न कफोत्पन्न द्वन्द्वज, इन सबको नाशै है इस दवाकी मौताद १६ मासे तक खावै इस दवाको महादेवजीने कहा है पथ्यसे खावै.

अथ गन्धकरसायन ।

शुद्ध गन्धक दालचीनी इलायची तमालपत्र नागकेशर गिलोय हरड बहेडा आंवला सोंठ भंगरा अदरख इन सबको काढामें आठ आठ भावना देवै पीछे बराबर मिसरी मिलायके रखे तब गन्धकरसायन तय्यार होय इसके १ तोले रोज सेवनसे वीर्य अग्नि पुष्टि देहमें दृढता इनको बढावै है और कुष्ठ, कण्डू, विषदोष, घोर अतीसार, संग्रहणी, वातरक्त,

शूल, जीर्णज्वर, सब प्रमेह, तीव्रवात, वातव्याधि, अण्डवृद्धि, सोमरोग आदि संपूर्ण रोगोंको नाशै है; आयु तथा बुद्धिको बढावे केशोंको काला करै पथ्यसे खावे तो देवोंकी समान कांतिको बढावे है.

अथ दूसरा गन्धकरसायन ।

गन्धक २० तोले लेकर कडाहीमें घी छोड़के गन्धकको छोडै पीछे अग्नि जलावे जब पिघलजाय तो भङ्गराके रसमें ६० बार बुझावे तब गायके दूधमें ३० बार बुझावे तब गन्धकके बराबर मिसरी मिलायके खावे तो सर्वरोगोंको नाशै कुष्ठको बे तकलीफ दूर करै यह एक किस्मका कल्प है खराब कायाको सुन्दर करै है इस दवापर चनेकी रोटी खाय नोंन छोड देवै बल्कि गायके दूधसे रोटी खाय.

अथ वातादि सर्वरोगपर रस ।

मीठा तेलिया ८ तोले सिंगरफ २ तोले मिरच ६ तोले इन दवाओंको खरलमें छोडके खरल करै निंबूके रसमें एक दिन खरल करै आदीके रसमें दो दिन खरल करै तब सुखायके बजरी बराबर गोली बनायके खानेसे दमा खांसी प्रमेह इत्यादि सब रोगोंको दूर करै पथ्यसे खावै खट्टा तीता मीठा छोडै.

अथ सर्वरोगोंपर चूर्ण।

अदरख ६४ तोले गुड ३२ तोले बिजौरा निंबूका रस १६ तोले इन्होंको मन्दाग्निसे पकावै पीछेसे दालचीनी १ तोले तमालपत्र १ तोले इलायची १ तोले शुण्ठी १ तोले मिरच १ तोले पीपल १ तोले त्रिफला ३ तोले धमासा १ तोले चीता १ तोले पिपलामूल १ तोले धनियां १ तोले जीरा १ तोले स्याह जीरा १ तोले इन सबको कूट कपडछान करके चूर्ण बनायके खानेसे अरुचि, क्षय, मन्दाग्नि, कामला, पांडु, सोजा, खांसी, श्वास, आध्मान, पेटरोग, गुल्म, प्लीहा, शूल इत्यादि रोगोंको हरै है पथ्यसे खावै सब रोग दूर होयँ।

अथ इन्द्रीजुलाब।

दालचीनी कबाबचीनी इलायची इनको ६ मासे लेवै शोरा जीरा १० मासे केसर २ मासे इनको चूर्ण करके खावै ऊपरसे गायका पावसेर दूध पीवै उसके ऊपर जितना पानी पीवै दूध मिलायके पीवै इन्द्रीजुलाब होय शरीरकी गरमी सब दूर होय पथ्यसे रहै गरम वस्तुको त्यागै.

दूसरा इन्द्रीजुलाब।

बीहीदाना ६ मासे फरीद बूंटी १ तोले इन्होंको

१ सेर पानीमें भिगोयदेवै शामको सबेरे मलके आधासेर गायका दूध मिलावै और ६ मासे कलमी सोरा मिलायके पीवै तो इन्द्रीजुलाब होय गरम वस्तुको त्याग देवै.

अथ मोहनभोग ।

मैदा अच्छा गेहूँका एक पाव मिसरी १ पाव घी एक पाव गायका दूध १ पाव पहिले मैदाको घीमें भूंजे तब एकपाव पानी और ऊपरसे दूध मिलायके मिसरी छोड़के चासनी करै जब सर्बतकी चासनी होयजाय तो आटा भुंजा हुआ मिलायके रखदेवे यह मोहनभोग बहुत गुणकारी है पुष्टिको करै है शरीरको सुन्दर करै है लेकिन थोडा गुरु है.

अथ शरीररत्न ।

सोंठि पीपली श्याममूसली सफेदमूसली गुरुचीका सत मुलहठी मुरुली इसबगोल तालमखाना बबूरका गोंद रोमीमस्तंगी बीजबन्द लौंग जायफल इन सबको कूटि कपडछान करिके सब दवा चारि चारि तोले लेवै केसर ४ तोले भांग १० तोले यहभी मिलायके सब दवाओंके बराबर मिसरी मिलायके १ तोले अवटादूध आधासेरमें मिलायके शामको सोवते

बखतमें खावै खट्टा मीठा तीता पथ्यसे खावै तो शरीरको पुष्टि करै बल वीर्यको बढावे शरीर लोहाके सरीखा होय कानको आँखको नाकको दांतको बलकिन सब शरीरको ताकत देवैहै जो कुछ दिन सेवै तो सुन्दर देह बनै है.

अथ उदररोगपर चूर्ण।

जवाखार सेन्धानोंन त्रिकुटा हींग इन्होंको चूर्ण करिके खाय तो उदरपीड़ा मिटिजाय.

अथ पिलहीपर दवा।

सरफोंकाकी जड ७ नग मिरिचि दोनोंको पानीमें पीसके दो महीना पीवै तो उदररोग आठ प्रकारका नाशै ज्वर जड़से दूर होय लेकिन पथ्यसे खावै तब अलाबला सबको त्याग देवे.

अथ आमवातपर बाण।

काबुली हरैं १ पाव निसोत १ पाव कौंलादाना १ पाव रेंडीका बीज १ पाव इन सबको कूटि कपडछान करि आधासेर रेंडीका तेल मिलायके रोगी बल दोष विचारके खावै ऊपरसे गरम पानी पीवै सबेरेको और शामको औटा दूध पीवै और शरीरपर कडवातेल

सेन्धानोंन जवाखार मिलायके मलै, गरमपानीसे स्नान करै बादी वस्तुका त्याग करै आमवात जाय.

अथ सब ज्वरकी जडी।

सोंठीकी जड सरफोकाकी जड़ काकजंघाकी जड़ डुगांकी जड़ पिपली सबको बराबर लेकर पानीसे पीसिके पीवै तो सब ज्वरको दूर करै है पथ्यसे खावै सब वस्तुका त्याग करै.

अथ तिलक योग।

ब्रह्मडंडीको शनिश्चरके दिन स्नान करिके दशांगका धूप देकर आवै रविवारको जडसे उपाडि लावै और बडका बरोंह लावै और केशर लेवै इन तीनोंको कूटि चूर्ण करिके धूप देकर रख देवै जब काम लगै तिलक करै तो जिस कामके वास्ते जावै सो काम सिद्ध होय सही.

अथ शरीरदाह प्यासकी दवा।

शीतलचीनी १ मासे इलायची १ मासे बडकी छाल २ मासे गूलरकी छाल २ मासे पानीमें पीसके मिसरी मिलायके पीवै तो दाह प्यास मिटै कलेजेकी गरमी दूर होय गरम वस्तु त्याग करै.

अथ सर्ववातपर तेल।

दूध १२८ तोले मीठा तेल ६४ तोले शतावरीका रस ६४ तोले बच कूट चन्दन देवदारु काबुली घटोली रास्ना मंजीठ इलायची रूदवन्ती शिलाजीत असगन्ध जटामांसी बलिया यह सब दवा दो दो तोले लेकर खरल करिके तेल दूधमें मिलायके कडाहीमें सब छोडके अग्निपर कडाही रखके चुरावे जब सब दवा जल जायँ तो तेल सिद्ध जानो यह तेल मालिशसे एकांगवात सर्वांगवातको टूटे हाडको टूटी संधिको कुब्जवातको पंगुलवातको इत्यादि सब वातको नाशैहै तृषाको दूर करे है.

अथ स्तंभनकी दवा।

खुरासानी बच असगन्ध अकरकरा जायपत्री जातीफल चीनियां कपूर चोखी बिजया रस सिंदूर इन दवाओंको डेढ़ डेढ़ टंक लेवे कूटि कपड छान करिके सब दवाओंके बराबर मिसरी मिलायके टंकप्रमाण गोली बांधे सांझको एक गोली खावे ऊपरसे मूली खावे स्तंभन हो वीर्य्य नहीं गिरे निंबूका रस खाय तो वीर्य्य गिरे.

अथ दूसरी स्तंभनकी दवा।

सोंठि शतावरी निर्गुंडी भांगरा मुंडी कूटि

कपडछान करिके शहतमें गोली खाय तो स्तंभन होय ।

अथ स्तंभनकी दवा ।

पारा गन्धक जायफल लौंग उटंगनके बीज आफू केसर मस्तंगी कपूर जायपत्री सब समभाग ले कूटि कपडछान करिके शहतके साथ खावे तो स्तंभन होय.

अथ लेप इंद्रीका ।

मधु हिंगु असल खरल करिके इन्द्रीपर लेप चिपकाये तो स्तंभन होय.

अथ स्त्रीके फूल आनेकी दवा ।

अच्छा श्याम तिल एक पाव लेवै एक सेर पानीमें काढा करिके पीवै तो स्त्री पुष्पवती होय.

अथ दूसरी दवा ।

मुण्डीकी पत्ती भंगरा गुरुच शतावरी एक २ तोले लेकर काढा करिके सबेरे पीवै तो स्त्रीके फूल आवें १४ दिन पीवै तो गर्भ रहै बालक होय.

अथ स्त्री बांझकी दवा ।

लक्ष्मणाकी जड गायके दूधमें पीसिके स्त्री रजस्वलाके पीछे पीवै तो गर्भ रहै बालक होय.

अथ स्त्रीके फूलकरन दवा ।

सोंठ मिरच पीपल ब्रह्मडंडी इनका चूर्ण बनाय ३ मासे खाय ऊपरसे तिलका काढा पीवै पुष्प होय.

अथ स्त्रीगर्भकरण दवा ।

शंखहोली मोरशिखा गजकेशर सब बराबर लेकर कूटि एक एक तोलेकी गोली बनावै ऋतु मज्जन स्नान करिकै एक गोली रोज खाय ऊपरसे गायका दूध पीवै और दूध चावलका भोजन करै पथ्यसे रहै तो बांझ स्त्रीको पुत्र होय सही.

अथ गर्भरहनेकी दवा ।

लाजवन्ती सिता लौंग इसबगोल माजूफल बंसलो-चन मोचरस यह दवा एक एक टंक ले सीप भस्म दो मासे खरहटी एक टंक खैर एक टंक सहँजन गोखुरू सोंठ अजवायन कमलगट्टा जातीफल यह सब दवा एक एक टंक गजकेसर दो टंक कायफल १ टंक सांच पथरी एक टंक उटंगन पांच टंक सब कूटि कपडछान बनायके गायके घृत शहत संग सबेरे खाय तो परमेश्वरकी कृपा होय तो बांझ

स्त्रीको गर्भ रहै पथ्य दूध भात भोजन करै और एक महीना सब वस्तुओंका त्याग करै.

अथ गर्भ रहनेकी दूसरी दवा।

निर्गुंडी २४ तोले जातीफल २ तोले लाजवन्ती १ तोला जायपत्री १ तोला इसबगोल १ तोला मगजी १ तोला शतावरी५ मासे शिलाजीत२तोले सब दवाओंको कूटि कपडछान करिके चूर्ण बनाय तब पांचसेर गायके दूधमें दवा मिलाय औटावै जब दवा सूख जाय चूर्णके सदृश तब दवासे दूनी मिसरी और १ सेर गायका घी४तोले बंगेश्वर मिलाय सब दवाओंको एक रस करिकै सोपारीके बराबर एक महीना वा दो महीना भरि खावै तो ईश्वरकी कृपासे स्त्रीको दस महीनामें बालक होय खट्टा मीठा तीता सबका पथ्य रखै.

अथ पुनः दवा।

गाजरके बीज २ तोले नागबेली १० तोले इन दवाओंको कूटि कपडछान करके गाय जो बछवा बिआनी होय उसका ऊपरसे दूध पीवै खट्टा वगैरहका त्याग करै तो स्त्रीके गर्भ रहै.

अथ स्त्रीपुरुष बांझ विचार।

एक एक बीताका खेत बनावै उसमें खादनावै

दोनों खेतमें जौ बोवे एक खेतमें स्त्रीसे पेशाब करावै एकमें पुरुष पेशाब करै जिस खेतका जौ जामै वोह निर्दोषी है जिस खेतका बीज न जामै उसे बांझ समझना चाहिये.

अथ बालकके खांसी श्वासकी दवा ।

काकडासींगी पीपर पुष्करमूल अतीस इनका चूरण करिके शहदके संग खाय तो बालकके खांसी और श्वासको दूर करै पथ्यसे देवै.

अथ दूसरी दवा बालककी ।

बंसलोचनका चूरण करिके शहदके साथ बालकको देवै तो बालककी खांसी दूर होय.

अथ बालकके अतीसारकी दवा ।

काकडासींगी पीपरि मोथा उशीरका चूरण करके शहदके संग खानेको देवै तो बालकका अतीसार दूर-होजावै और ज्वरका भी नाश होय.

पुनः बालकके अतीसारकी दवा ।

मोथा, सोंठि, अतीस, रूई, रेंडकी जड इनका काड़ा करि बालकको पिलावै तो बालकका अतीसार जाय.

अथ बालकके ज्वरकी दवा ।

कुटकी मिसरीका चूरण करिके शहदके संग बालकको देवै तो ज्वर नाश होजाय और मिसरी पीपरी सेन्धानोंनका चूरण करिके घीके संग देवै तो बालकको सब रोगोंमें गुण देवै.

अथ ज्वर अतीसारकी दवा ।

सोंठ, मिरच, पीपरि, इन्द्रयव, नींबकी छाल, चिरायता, धमिरा, चितावर, कद्दूकी पाती, दारुहलदी इन सब दवाओंको समभाग लेकर कूटकर कपडछान करिके चूरण बनाय सब दवाओंके बराबर कोरैयाका चूरण बनायके चावलके धोवनके साथ खानेको देवै तो अतीसार ज्वर नाश होय और चावलका धोवन मधुमें देवै तो अरुचि, कामलाको प्यासको वातसंग्रहणीको गुल्मको प्लीहाको, प्रमेहको, पाण्डुको, शोथ इत्यादि सबोंको दूर करै भूखको लगावै अजीर्णको हरै.

पुनः अतीसार सन्निपातकी दवा ।

पीपरि, पीपरामूल, चाव, चितावर, सोंठ, बरियारी, बेलका गूदा, गुर्च, गधा पुरैना, पाढ़ी, चिरैता, कोरैयाकी छाल, इन्द्रयव, सब दवाओंको कूट कपड-

छान करिके रोगीको तजबीज करके देवै तो सन्निपात अतीसारको नाशै शरीरको सुधारै.

अथ आम अतीसारकी दवा ।

धनियां, सोंठ, बेलका गूदा, नागरमोथा, सुगन्धबाला इन सब दवाओंको बराबर ले कूट कपडछान बनाय दो तोलेको डेढ पाव पानीमें क्वाथ बनायके पीवै तो आम अतीसारको नाशै.

अथ सब अतीसारकी दवा ।

जायफल, लौंग, धवके फूल, बेलका गूदा, नागरमोथा, सोंठि, मोचरस, इंगूर, अफीम सब दवा बराबर लेकर कूटि कपडछान बनायके पोस्ताके रसमें खरल करै तब मटर बराबर गोली बनायके छायामें सुखाके गायके दूधके साथ यह गोली खावै वा चावलके धोवनके साथ खावै तो सब प्रकारके अतीसारको नाशै यह गोली भूखको लगावै.

अथ सब अतीसारकी दवा ।

जायफल, छोहारा, अफीम, तीनोंको खरलमें खरल करै पानका रस छोड़के एक रत्ती प्रमाण गोली बनायके गायके दही वा चावलके धोवनके साथ खावै तो सब प्रकारका अतीसार रोग दूर होय.

अथ पेट फूलनेपर दवा।

बच, सोंठ, जीरा, मिरच, हींग, चितावर, तज यह सब दवा बराबर लेकर कूट कपड़छान करके घमिराके रसमें खरल करके चना बराबर गोली बनायके एक गोली खाय तो पेटका फूलना पेटका शूल दर्द वात सबको नाशै, अग्निमन्दता इत्यादि सबको हरै.

अथ सब रोगोंपर चूर्ण।

केसर, नागरमोथा, गुरसकरी, जटामांसी, कुटकी, पीपर, पीपरामूल, कस्तूरी, तज, तेजपात, बड़ी इलायची, नागकेसर, गोखरू, अकरकरा, अभ्रकरस, धनियां, अनार, मिरच, अजवाइन, तंतरीख, इँगुर, कपूर, तुवर, तगर, सुगन्धबाला, जावित्री, लजनी, पुष्करमूल इनका चूर्ण सब रोगोंको नाशै है.

अथ तेरह सन्निपातोंपर दवा।

चिरायता, भारंगी, नीमकी छाल, नागरमोथा, कायफल, बच, सोंठ, मिरच, पिपरी, बंसलोचन, इन्द्रायणकी जड, रासना, परवरकी पाती, देवदारु, दारुहल्दी, पाढा, सोना, ब्राह्मी, हल्दी, गुर्च, तिधारा, दातुन, अतीस, पुष्करमूल, त्रायमाण, भटकटैयाकी

जड छोटकी बडकी दोनों, इन्द्रयव, त्रिफला, कचूर, यह सब दवा बराबर लेकर चूरण कर रोगीका बल देख काढ़ा करके पिलावे तो तेरह प्रकारके सन्निपातोंको और शूल, श्वास, हुचकी, कास और गुदाके रोग इत्यादि सबको नाशै। गलरोगको दूर करै जैसे सिंह हाथीको मारताहै तैसे यह काढा सब रोगोंको मारता है.

अथ कासकर्तरी गोली।

बंग १ पीपरी २ हड़की छाल ३ बहेडाकी छाल ४ रूसके पाती ५ भारंगी ६ इन सबोंको बराबर भाग लेकर कूटि कपडछान करके बबूरके काढामें चूरणको दो भावना देवे तब शहद छोडके गोली जंगली बेर बराबर बनाय एक गोली खावे तो श्वास कास क्षयी इन सबोंको दूर करे.

अथ हुचकीकी दवा।

सोंठि पीपरिका चूरण करके शहदमें खावै तो हुचकी रोग दूर होय पथ्यसे रहे.

अथ कृमिरोगकी दवा।

नीमके पत्तोंका रस १० टंकमें सोंचरनोन १ टंक डारिके पीवे तो सब कृमि झरपरैं.

अथ शिरके कृमिकी दवा ।

अरहरकी दाल, घोडा बच दोनों पीसके शिरपर मलै तो शिरके कृमि दूर होयँ.

अथ विजयभैरव रस ।

हरैं ३ टंक, चीता ३ टंक, नागरमोथा २९ टंक, सम्भालू४ टंक, नागकेसर अढाई टंक, सोंठि १०टंक, मिरच १० टंक, पीपरी १० टंक, पीपरामूल १० टंक, पारा १० टंक, गन्धक १० टंक, सिंगिया १० टंक, पारा गन्धकको खरलमें छोड़के खरल करै तब सब दवा कूटि कपडछान करके मिलावै तब गुड पुराना दवाके बराबर छोडै तब सब दवाओंको घृतसे सानिके रख देवै तब शाम सबेरे दोनों बखत बल रोग विचारके दो महीना तक खावै तो कफरोग पित्त-रोग जाय और चार महीना खाय तो वातविकार जाय जो एक वर्ष खाय तो आयुर्बल बढै शरीर नीरोग होय.

अथ वायुरोगकी दवा

अफीम, कुचिला, मिर्च तीनों बराबर लेकर चूरण बनायके नागरपानके रसमें खरल कर एक रत्ती

प्रमाण गोली बनायके एक गोली खाय ऊपरसे पान-का रस पीवै और दो चार बीडा पान चाबे तो सब तरहकी बाई विषूचिका अरुचि मृगी यह सब जायँ दूध घी खाय ऊपरसे खट्टा मीठा तीताका पथ्य रखे.

अथ चिन्तामणि रस।

अजवाइन, जीरा, अजमोदा, काकडासींगी, असगन्ध यह सब दवा बराबर ले महीन बांटि १ माशे गरम पानीके साथ खाय तो सब तरहके वात जायँ श्वास कास जाय प्रलाप मन्दाग्नि तन्द्रा अरुचि जाय.

अथ विषमज्वरकी दवा।

पारा शोधा, गन्धक शोधा दोनोंकी कजली करके तब दवा छोडै दोनों दवाओंके बराबर हरताल छोडै तब इन सब दवाओंके बराबर रांगा गलायके छोडै तब मदारके दूधमें सात दिन खरल करै पीछे सुखायके कांचकी आतसी सीसीमें दवा भर कपड़मिट्टी कर सुखायके बालुकायन्त्रमें १२ पहर पकावै तेज आंच देवै तब निकालके १ रत्ती भरि आधे पानमें खाय तो सब प्रकारका वातरोग जाय। उन्माद क्षीणता मन्दाग्नि कोढ व्रण विषमज्वर इन सबोंको यह रस नाश कर देता है.

अथ नामर्दीका लेप ।

असगन्ध हरताल पारा यह तीनों दवा चारि चारि टंक लेवै मनशिल आठ टंक संभलखार सोहागा दो २ टंक लेवै सब दवाओंको चूरण करके गौका घी सब दवाओंके बराबर लेवै एकमें मिलायके इन्द्रीपर मर्दन करै सब दोष मिटैं नामर्दी जाय.

अथ प्रदररोगकी दवा ।

मुलहटी ३ तोले नागकेसर ५ तोले राल २ तोले मिसरी १० तोले गायके दूधके सङ्ग सात माशे खाय तो चौदह प्रकारका प्रदररोग सोमरोग इत्यादि सबको नाश करै पेशाबका चूना परना करक सब दूर होय.

अथ प्रदररोगकी दवा ।

काकमाची कृष्णाको रविवारको लेकर पांच मिरच मिलाय पीसके पीवै तो नारीके प्रदर सोमरोगको नाशै तथा गर्भस्थानको शुद्ध करै पेट पीड़ाको नाशै ज्वरको जड़से निकाले भूखको लगावै यह जडी बहुत गुणकारी है.

अथ दांतका मंजन ।

चौकिया सोहागा भूँजा हुआ १ तोला मस्तंगी रोमी १ तोला अकरकरा १ तोला सुपारी १ तोला

हरें ६ मासे बहेडा १ तोला खैर १ तोला फिटकरी १ तोला हीराकशीश चन्दन सफेद २ तोले कपूर ६ मासे इन दवाओंको कूट कपडछान करके जामुनके रसमें दो दिन खरल करे महुवाके रसमें दो दिन खरल करै बबूरके रसमें दो दिन खरल करे तब १ तोला मुरदारशिंग १ तोला तमाकूका कोइला दोनों बूकिके ऊपरके मंजनमें मिलाय दांतमें मजन करे तो दांतका हिलना दांतका पिराना दांतका पानी लगना मुखके सर्व रोगोंको नाश करे यह मंजन दांतको वज्र बनाय देवै फिर जन्मतक नहीं हिलैं कृमीको नाशै.

अथ छोटा मञ्जन।

अकरकरा, चूल्हेकी मिट्टी, फिटकिरी, हरें, मुरदारशिंग पीसके कपडछान करके मंजन करे यह भी दांतकी पीडाको हरे.

अथ सर्वज्वरपर दवा।

त्रिफला १२ मासे त्रिकुटा १२ मासे नीम४८मासे पांचों नोंन ४८ मासे अजवायन २० मासे सबको कूटि कपडछान करके बल विचारके गरम जलके साथ खावे तो सर्व ज्वरको नाशै।

अथ पुनः सर्वज्वरपर गोली।

हरताार, पारा, गन्धक, चौकिया सुहागा, नीलाथोथा

ये समभाग लेकर खरल करके मिरच बराबर गोली बनायके खावै तो तनसे ज्वर जावै खट्टा मीठा तीता-का पथ्य करै.

अथ ज्वरपर बूँटी ।

काकजंघा जडपत्ता समेत १ तोला और बारह गोल मिर्च ले पानीमें पीसके रोज सबेरे पीवै तो विषमज्वर जीर्णज्वरको नाशै.

अथ चौथिया ज्वरकी दवा ।

त्रिफला ७ मासे गायके दूधके सङ्ग पीसके नेमसे पीवै और सब वस्तुका परहेज रक्खे ऊपरसे ताम्बूल-पत्र एक महीना खावैं तो विषमज्वर जीर्णज्वर चौथिया जावै.

अथ ऊरुस्तम्भरोगकी दवा ।

पीपर, सोंठ, गूगल, शिलाजीत इन दवाओंको बल विचारके दशमूलके काढाके साथ पिलावे तो ऊरुस्त-म्भको नाशै.

अथ दूसरी दवा ऊरुस्तम्भकी ।

त्रिफला कुटकी चाव पिपलामूल इनका चूर्ण सम-भाग शहदके साथ खावै ऊरुस्तम्भ रोग दूर होय पथ्यसे खावै.

अथ आमवातरोगकी दवा।

गिलोयका रस एरंडकी छाल देवदारु अमलतास चित्रक इनका काढा करके दिनमें तीन बार पीवै तो आमवात रोग जावै खट्टा मीठा तीताका पथ्य करे.

अथ आमवातकी दूसरी दवा।

बाल हरैं ६ मासे गुड तीन तोले रेंडीका तेल पांच तोले मिलाके इतना एक मौताद है जो रोज खाय तो आमवात रोग जडसे जाय जो कुछ दिन सेवै तब भूख लागै शोथ दूर होय.

अथ गलित कोढकी दवा।

आमला २० टंक हरडेकी छाल २६ टंक बायबिडंग १६ टंक निसोत ४८टंक इन सब दवाओंको कूट कपडछान करिके दूना गुड मिलाय एक सुपारीके प्रमाण खावै ऊपरसे गरम पानी पीवै पथ्यसे रहै तो गलित कोढ़ दूर करै.

अथ सफेद कोढकी दवा।

टेशुबीज गुंजाके बीज नौसादर यह औषध चार चार मास लेवे अफीम १६ मासे लेकर कूटि पीसि

नीमके रसमें खरल करिके गोली बनाय रखै नीमके रसमें चटा पर लेप करै दूर होय.

पुनः दवा ।

आककी जड आंवलासार गन्धक हरताल कुटकी हलदी यह बराबर लेकर कूटि पीसके गोमूत्रमें लेप करै तो चटा नाश होय.

पुनः दवा ।

चित्रक हरड हलदी तीनों बराबर पीसि भृंगराजके रसमें मिलाय लेप करै पीछे ऊपरसे लिशोड़ाके पत्तेका भृंगराजके रसमें खरल करै तब उस लेपपर चौदह दिनतक बांधे तो चटा दूर होय.

अथ क्षयीरोगकी दवा ।

अगर लौंग कपूर कमलगट्टा चन्दन जीरा उशीर इलायची मोथा जटामांसी तगर वंशलोचन अरूवारो पीपल कंकोल जायफल तज नागकेसर मिसरी सब दवा दो दो तोले लेवै मिसरी दवासे आधी लेवै सब चूरण करके बल विचारके खावै तो क्षयरोग दूर होय तृषाको नाशै अरुचिको दूर करै कंठरोग हियरोग कास हिचकी पीनसरोग अतीसार संग्रहणी प्रमेह गुल्मरोग इत्यादि सब रोग दूर होयँ । यह दवा खाने-

वाला रोगी खट्टा तीता मीठा सबका त्याग करे तब रोग दूर होय नहीं तो दवा खानेसे कुछ नहीं जैसे पानी पीयेते हो तैसे दवा जानो पथ्यसे दवा है.

अथ पुष्टिकरन दवा ।

सोंठ तालमखाना इसबगोल स्याममूसली मुरली शतावरी पीपल समभाग लेकर कूटि कपडछान करके इन दवाओंके बराबर मिसरी मिलाय अवटा दूधमें छोडके खावे तो परमेश्वरकी कृपासे शरीरका बल कमती न होय प्रमेह खांसी श्वास दूर होय थकावट शरीरमें आवे नहीं पथ्यसे रहै.

अथ कानकी पीडाकी दवा ।

आकका पत्ता बनकपासका पत्ता और करिआरी तीनों बराबर पीसके पोटलीसे गरम करि रस निकालि कानमें छोडनेसे कानकी पीडाका कृमि नाश होय कानका शूल बन्द होय.

अथ कानमें पीब बहनेकी दवा ।

नीमकी पत्ती चिरायताकी पत्ती सहदेइयाकी पत्ती आककी पत्ती सेंधानोंन पानीमें पीसके रस निकालके कानमें छोडै तो कानका बहना बन्द हो पंडा सब दूर होयँ सही.

अथ आँखोंकी दवा।

घी रसौत सेन्धानोंन हीराकशीश शहद इन दवाओंको बराबर लेकर पीसि स्त्रीके दूधमें मिलायके आंखोंमें अंजन करै तो सबलवायु और आंखोंकी सब किसमकी पीडा दूर होय.

अथ नास लेनेकी दवा।

मिरच गुड सेन्धानोंन हींग केसर पानीमें पीसि नास लेनेसे सबलवायु दूर होय शिरपीडा आँखोंकी पीडा दूर होय.

अथ सबवायुपर खानेकी दवा।

मुलहटी ६ तोले पोस्ताका बीज ४ तोले जायफल २ तोले मिसरी १२ तोले सब मिलायके ३ मासे दवा एक तोला घृतमें मिलायके खावे तो सबल वायुरोग दूर होय शिर आंखोंकी पीडा नाशै.

अथ शिरलेपकी दवा।

नौसादर बूकि कच्चा नयनूमें मिलाय शिरपर मले तो शिरकी पीडा दूर होय.

अथ प्रमेहरोगकी दवा।

असगन्ध बरियारीकी जड़ मुरली मेंहदीकी पत्ती

मिर्च पानीमें पीसिके पीवै तो प्रमेहरोगका नाश होय पथ्यसे खावै गरमको त्यागै.

अथ सुजाककी दवा ।

गन्दा पीरोजाका सत ५ तोले धूप कच्ची शुद्ध ४ तोले इलायची २ तोले मुलहटी ५ तोले मिसरी १० तोले सब दवाओंको कूटि कपडछान कारिके ७ मासे खावै ऊपरसे शीतल पानी पीवै तो बीस प्रकारका प्रमेह रोग जावै सुजाक कड़क पेशाब होना बन्द होय पेशाबके रास्ते रक्त गिरना अच्छा होय.

अथ आंखोंकी दवा ।

सुरमा अच्छा २ तोले मोतीकी भस्म २ तोले कपूर ५ मासे फिटकरी १ तोला मिसरी २ तोले इन दवाओंको कूटि कपड़छान कारिके घीकुमारीके रसमें खरल करै ५ दिन, काकमाचीके रसमें खरल करै ५ दिन, नींबूके रसमें खरल करै ५ दिन, तब निंबूके रसमें पाँच महीना रखि खरल करै तो अंजन देवै आँखोंका सब रोग इस अंजनसे जाय.

अथ पुष्टिकरन दवा ।

स्याह मुसली सफेद मुसली मुरुली सोंठ लौंग पी-पारि मिरच जायफल जावित्री नागकेसर असगन्ध कम-

लगट्टा शतावरी लालचन्दन सफेद चंदन केसर सब दवाओंको पांच पांच तोले लेवै मिसरी पैंतालीस तोले लेवे सबको कूटि कपडछान करिके दो तोले खावै ऊपरसे अवटा दूध पीवै तो शरीर वज्रके समान हो शरीरका बल न घटै धातुकी कमी होवै नहीं.

अथ शरीरपुष्टि करनेका वर्णन ।

मनुष्यको चाहिये कि अपने शरीरको हररोज सेवा पीसाकसे पोसन करै तन्दुरुस्ती है तो सब है जो तन्दुरुस्त नहीं है तो दुनियामें सब है कौन कामका, तन बना रहता है तो धन शोभता है तन बना है तो विद्या शोभती है तनसे बल होता है बलसे बुद्धि होतीहै बुद्धिसे सारा कार होता है जब तन है बल है बुद्धि है तो उस पुरुषके क्या कमती है यही जानो तन्दुरुस्तीका उपाय करो.

अथ शिरपर लेपकी दवा ।

अरंड जड सोंठ अकास इन सबके बराबर बजरी सबको पीसके गायके दूधमें मिलायके शिरपर लेप करै या बिना ज्वरवालेके शिरपर लेप करै तो सब प्रकारका शिर रोग नाश होय.

अथ शिरपीडाकी मालिश।

तिल्लीका तेल ४४ तोले नींबू २४ का रस, गुजराती इलायची ४ तोले, कपुर १ तोला पोस्ताका तेल ४ तोले, नौसादर ३ तोले इन सब दवाओंको एक सीसीमें एक महीना रख देवे तब निकालके शिरपर मलै तो सबलवायु शिरपीडा दूर होय शिरकी गरमी-को नाशै शिरको तर करै.

अथ उदररोगकी दवा।

सनायपत्ती ७ तोले, बिसपैज २ तोले, सहत्रा ७ तोले, भांग ४ तोले, उसबा मगरबी ७ तोले, लाल चन्दन सफेद चन्दन ४ तोले, मिसरी १४ तोले सबको कूटि कपड छान करिके १ तोला शहदके साथ शामको खावै तो एक दस्त साफ होय पेटपीडा अच्छी होय भूख लगै.

अथ सर्वव्याधिपर तेल।

सोंठि५तोले, सुरती ५ तोले, पिपरी५ तोले, भांग ५ तोले, हिंगु २ तोले, अफीम १ तोला; मिरच ४ तोले, लहशुन ४ तोले, आंवलासार गन्धक १ तोला सब दवाओंको थोडा दरकचायके कड़वा तेल १ सेर और तिलोंका तेल १ सेर सबको कडाहीमें छोडके मन्द अग्निसे चुरावै जब सब दवा जलजायँ तो तेल छानके

रख देवै । इस तेलको छेलीके दूधमें मिलायके जहांपर दर्द होय मले बलकिन सब शरीरपर मालिश करे तो सब प्रकारके वातविकारोंको दूर करै सन्निपात-ज्वरको भी मालिश करनेसे गुण करै, और मालिश करे तो पोटलीमें बालू भरके अग्निपर तवा रखके सेंक देवै शीतसे बचारहे.

अथ वातपर दवा ।

मेवडीकी जड ३ मासे भर भरवाका बीज १ मासा नीमका बीज पानीमें पीसके पीवै पथ्यसे रहै नोंन न खाय तो सब वातरोग नाश होयँ.

अथ नामर्दीकी दवा ।

सोंठ, लौंग, अकरकरा, तीनों दवाओंको कूटि कपड-छान करिके शहद मिलायके इन्द्रीपर एक महीना लेप करै शामको ऊपरसे बंगला पान बांधे तो इन्द्री दृढ होय.

पुनः दवा ।

कपूर सुहागा पारा तीनों दवा बराबर लेकर खरल करिके गायके घृतमें मिलायके इन्द्रीपर पन्द्रह दिन मर्दन करै तो हतरस कर्मसे जो नस मारी गयी होय तो निश्चित मरद होय अजमायश की गई दवा है ॥

पुनः दवा।

सोंठ पीपल असगन्ध इलायची सफेद मूसली सब दवाओंको बराबर भाग लेकर कूटि कपड़छान करि सबके समान मिसरी मिलायके १तोले दवा आधासेर भैंसका अवटाहुवा दूधमें मिलायके शामको सोवते बखतमें एक महीना खावै तो सब प्रकारकी नामरदी दूर होय शरीरका धातु पुष्ट होय सही.

पुनः दवा।

मुलहटी ८ तोले, सोंठ ४ तोले, इलायची२ तोले, लौंग १ तोला, पीपरी ६ तोले यह दवा कूटि छानिके सबके समान मिसरी मिलायके ६ मासे यह दवा ३ तोले घीके संग सबेरे और शामको रोज खाय सोंठ मिसरी मिलायके दूध पीवै तो शरीरको पुष्ट करै नामरदी जाय स्त्री पियार करै.

पुनः दवा।

शुद्ध आंवलासार गन्धक ५ तोले, इलायची ५ तोले, मिसरी १४ तोले, पिपरी २ तोले, केसर २ तोले मिलायके खरल करिके ५ मासे गायके दूधमें मिलायके खावै तो नामरदी जाय सही.

पुनः दवा ।

आंवलासार गन्धक १० तोले, संखिया शुद्ध २ तोले, सींगिया २ तोले, पीपरी५ तोले, लौंग ५ तोले, मालकांगनी ५ तोले, तिली १० तोले, चौकिया सुहागा इन दवाओंको १२ तोले गायके घीमें खरल करिके पातालीयंत्रसे तेल निकालके इन्द्रीपर थोरा थोरा मालिश करै वो हाथरस नामरदीवालाको बहुत गुण करे टूटी नसको जोडे सब किसमकी नामरदी जाय शरीरका दोष मिटै.

पुनः दवा ।

भेडीका दूध चौकिया सोहागा आंवलासार गंधक सुवरका तेल अच्छी बारंडी यह इन्द्रीपर रोज एक महीना तक मालिश करै चार दिन तक मलै तब दो दिन बीचमें अंतर देवे सब प्रकारका नामरद मरद होय.

पुनः दवा ।

अतवारके रोज असगन्धको पीपल मिलाय पानीमें पीस गायका दूध मिसरी मिलायके उमर देखके रोज सबेरे पीवे परहेजसे रहै तो सब प्रकारकी नामरदी जाय.

पुनः दवा ।

तिलोंका तेल भेडीका दूध शरीरपर मलै तो नामरदी जाय दो महीना मरदन करै तो शरीरका खून बिगडा होय नस मारी होय तो दूर होय.

पुनः दवा ।

केवांचके बीज १ सेर, इमिलीके बीज १ सेर इन दोनोंको पानीमें भिगोय देवै तब छिलके दूर कर शिलपर पीसि सुखायके कूट कपडछान करके घी आधा सेरमें भूंजै तब दो सेर मिसरीकी चासनी करि उसीमें अगलकी दवा मिलाय मोदक तीन तीन तोलेका बनायके एक मोदक खावे ऊपरसे गायका अवटा दूध आधासेर रोज पीवे पथ्यसे खावे तो निर्बल शरीर पुष्ट होय शरीरसे बल न घटै धातुका विकार दूर होय नामरदी छूटै प्रमेह नाश होय खून शरीरमें बढै सही.

अथ मूत्ररोगकी दवा ।

त्रिफला सोंठि गोखुरू खरहँटीबीज इन दवाओंको एक एक तोले लेकर काढा करै रोज सबेरे पन्द्रह दिन पीवै तो मूत्रदोष मिटिजाय.

अथ मूत्ररोगकी पुनः दवा ।

सफेद राल ५ तोले, मुलहटी २ तोले इलायची छोटी १ तोला, कपूर शुद्ध २मासे मिसरी९तोले सब दवाओंको कूटि कपड छान करिके ६ मासे खावै ऊप-रसे शीतल जल पीवै गरम वस्तुका पथ्य करै तो पथरी मूत्रदोष कडक पेशाब होना इन्द्रीके रास्ते रक्त बहना मूत्राघात चिलिक होना सब अच्छे होयँ, यह दवा हजारों रोगियोंको देकर परीक्षा की है.

अथ मूत्ररोगकी पुनः दवा ।

महुवाकी छाल, बिहीदाना १ तोला, मिसरी ३तोले शामको पानीसे भिगोय देवै सबेरे शिलपर पीसि छानके पीवै तो मूत्र पथरी मूत्र कड़क होना अच्छा होय.

अथ बहुत मूत्र होय उसकी दवा ।

मिसरी ३ तोले, सोंठ ४ तोले, मिरच ३ तोले चूरण करिके ४ मासे घीके साथ खाय तो बहुत पेशाब होना बन्द होय.

अथ प्रमेह रोगकी दवा ।

बडकी छाल, महुवाकी छाल, गोखुरू, सफेद चन्दन, यह दवा छः छः मासे लेवै मिरच सात जलमें

पीसिके पीवै तो बीस प्रकारका प्रमेह रोग दूर होय पथ्यसे रहै.

अथ उपदंशरोगकी दवा।

सफेद कनइलकी जड २ मासे, भटकटैयाकी जड ४ मासे, मिरच पांच, पानीमें पीसिके पीवै खट्टा तीता मीठा न खाय नोंन छोड देवै चनाकी रोटी खाय तो उपदंशरोगी नीरोग होय.

अथ उपदंशकी पुनः दवा।

सत्यानाशीकी जड मिरच जलके साथ पीसि गायके दूध संग पीवै तो उपदंश रोग अच्छा होय पथ्यसे रहै चनाकी रोटी खाय। जातीफल २ टंक, गोखरू ३ टंक, मुसली दोनों ४ टंक, जायपत्री २ टंक, नागकेसर १टंक,तवाशीर १ टंक, मुण्डी ४ टंक, झाऊ ४ टंक इन दवाओंको कूटि कपड़छान करके खरलमें खरल करके एक टंककी गोली बनायके एक गोली शामको एक सबेरेको शहदसंग खाय तो अति बन्धेज होय नपुंसकता दूर होय शरीरमें धातु बढके पुष्टि होय बल कमती नहीं होय जिस स्त्रीके गर्भ न रहता होय तो उस पुरुषकी सोहबत करनेसे जरूरसे गर्भ रहै स्त्री पुरुषका दोष मिटै पथ्यसे खावै तब सही.

पुनः दवा ।

असगन्ध गोखरू शतावरी देवदारु सब दवाओंके बराबर मिसरी मिलाय कूटि कपड़छान करके स्त्री पुरुष दोनों जने पांच टंक नित्य खायँ ऊपरसे बच्छेवाली गायका दूध पीवै ऊपरसे गायका घी पीवै तो परमेश्वरकी कृपासे बांझ स्त्रीके गर्भ रहै.

पुनः दवा ।

सनके बीज अठारह,गायके दूधसंग पीसि पीवै तो स्त्रीको गर्भ रहै खट्टा तीता मीठाका परहेज रखै तब नहीं तो यह नहीं खाने योग्य है.

पुनः दवा ।

सहसमूली, त्रिजटा, स्याहजीरा, मोरसिखा, सब दवाओंको कूटि कपड़छान करिके गायके घृत और दूधसंग २१ दिन खाय तो ईश्वरकी कृपासे गर्भ रहै सही.

अथ कष्टी स्त्रीकी दवा ।

सरफोंकाकी जड लेकर स्त्रीकी कटिमें बांधै तो सुखसे बालक होय.

पुनः दवा।

बच, सेहुँडको बांटिके स्त्रीके नाभिपर लेप करे तो स्त्रीको बालक होय और मुंडीकी जड भी कटिपर बांधै तब सही.

अथ प्रदररोगकी दवा।

पुराने चावलोंके धोवनसे बरियाराकी जड पत्ता पीसि गायके दूध घी मिसरी मिलायके खावै तो जरूरसे प्रदररोग नाशै.

अथ रोगीके शुद्ध करनेका बयान।

पहिले रोगीको स्नेह नरम भोजन देवै दो दिन तब अवटा दूधमें मिसरी मिलायके प्यावै तीन दिन तक रोगीका रोग दोष देखि बल विचारके तब वमन करावै दो दिनतक फिर जुलाब देवै तीन दिनतक नरम जुलाब देवै जिसमें तीन दस्त व चार दस्त होयँ जो रोगीका मादा साफ होजाय तब दूसरी दवा रोगके माफिक देवै जो मादा साफ न भया होय तो फिर कडी जुलाब देवै तब रोगीका रोग छूटिके शरीर नीरोग होय.

अथ वमन करनेकी दवा।

शुद्ध फिटकिरी और शुद्ध माजूफल इन दोनों

दवाओंके बराबर मिसरी मिलायके रोगीका रोग बल विचारके खवावे तो उदर साफ होय। पुन नींबूके पात एकसौ परवरका पात दस दोनोंका काढा करके पीवै बहुत उत्तम वमन होय। पुनः शुद्ध नीलाथोथा नींबूके रसमें खरल करके अग्निमें जलाया हुवा और शुद्ध फिटकिरी और कसौंजीका पात तीनों दवाओंको सम-भाग लेकर मिसरी मिलायके खावे ऊपरसे गरम पानी पीवै तो बहुत बमन होय शरीरका सब विकार दूर होयँ सर्पका विष दूर होय कैसाभी सर्पने काटा होय इस दवाको कोई सर्पडंसवालेको पिलावे तो पर-मेश्वर चाहेंगे तो जहर पांच मिनटमें दूर होय दवा सैकड़ों दफे अजमाइस की हुई है.

अथ जुलाबकी दवा।

सनाय पत्ती २ तोले. सौंफ २ तोले, काबुली हरड़ २ तोले, निसोत १ तोला, अमलतास २ तोले, गुल-कन्द ३ तोले, गायका दूध एक सेर पहिले सनाय सौंफ हरड़ निसोत थोड़ा दरकचायके दूधमें छोड़के शामको रख देवै सबेरको अग्निपर रखके चुरावै जब डेढ पाव रहिजाय तो उतारके छान लेवै और जब सनाय सौंफ इत्यादि दूधमें भिगोवे तब उसी घडी अमलतास तीन छटांक पानीमें भिगोय देवै सबेरे

छानके ऊपरकी दवामें मिलायके ऊपरसे गुलकन्द छोडके पीवै तो उदररोग, शूलरोग, कृमिरोग, वायु-विकार मलविकार सब रोगोंका नाश करै.

अथ दूसरा जुलाब ।

निसोत ३ मासे, काला दाना ४ मासे, सनाय ५ मासे, मुनक्का ६ मासे; मिसरी ७ मासे इन सब दवाओंको खरल करके खावै तो बहुत उत्तम जुलाब होय यह जुलाब सब महीनोंमें देने लायक है.

अथ तीसरा जुलाब ।

छोटी हरैं ५ तोले तीन पाव पानीमें चुरावे जब तीन छटांक रहिजाय तो ५ तोले गुड मिलायके खावै तो जुलाब होय सब रोग दूर होयँ भूख लागे आठ प्रकारके उदररोग अच्छे होयँ.

अथ संग्रहणीकी दवा ।

दोहा-सोंठि बेल चित्रा धना, चाब बांटि करचूर ।
पानी तक्रके संगही, करि संग्रहणी दूर ॥

पुनि ।

दोहा-चूरण चित्रा मिर्चको, शहत तक्र करि खाय ।
गुल्म पिलीहा उदर दुख, संग्रहणी मिटि जाय ॥

पुनि ।

दोहा-बेल इन्द्रयव मोचरस, मोथा सम घृत खाय ।
अतीसार संग्रहणि अरु, रुधिर आँव मिटिजाय ॥

पुनि ।

दोहा-छालि कुड़ेकी इन्द्रयव, कुटकी पाठा लाय ।
मोथा बेल रसौत पुनि, धायफूल लै आय ॥
सोंठ अतीस जु पीसिके, सब सम बस्तरछान ।
चांवल धोवनसों सहत, मिले दीजिये खान ॥
अर्श गुदाकी पीड सब, संग्रहणी अतिसार ।
या औषधिके खात ही, इतने रोग निवार ॥

अथ कोढकी दवा ।

दोहा-पीपल सरसों तेल अरु, गाय आक पुनि दूध ।
गायघीउ ये चारिऊ, पाव पाव भरि सूध ॥
सैंधव नोन सुहाग लै, अरु हरताल मँगाय ॥
टंक टंक ये तोलि करि, दीजै सबै मिलाय ॥
पानीमधि मर्दन करै, दीजै आँख बचाय ।
कोढ़ अठारह और हू, रक्त विकार नशाय ॥

पुनि ।

दोहा-श्वेत आक जड़ छालि ले, अद्रकके रस गारि ।
गोली घुघुचीभारि भषै, छप्पन रोज विचारि ॥

पुनि ।

दोहा-पथ्य अलोनो दीजिये, गेहूँ चावल तासु ।
और बस्तु सबही तजैं, कोढ़ अठारह नासु ॥

पुनि ।

दोहा-मिरचैं अरु सिन्दूर पुनि, महिषी घृत संयोग ।
मथिकै लेपन कीजिये, नाशै पामा रोग ॥

पुनि ।

दोहा-नीलाथोथा बावची, गन्धक हरद मिलाय ।
दूनी सज्जी चोख लै, कटुक तेलमें पाय ॥
करै उबटनो अंगमें, महिषी गोबर नाय ।
कंडू नाना भांतिकी, या औषधिते जाय ॥

पुनि ।

दोहा-मनसिल आंवाहरद ले, बकुची चोख मँगाय
गन्धक थूथो ल्याय सम, चूरण पीसि बनाय॥

अथ उदररोगकी दवा ।

दोहा-जवाखार अरु कूठ वच, चित्रक जीरो लेउ ।
अजमोदा दात्यूनि लै, हिंगु चाब पुनि देउ ॥
तीनि नोंन साजी बहुरि, पाढ सोंठि पिसवाय।
ताते जल संग खाइये, उदररोग सब जाय ॥

पुनि ।

दोहा-जवाखार सैंधव त्रिकुट, हींग सहित पिसवाय।
बीजपूर सरसों सरस, खातहि पिलही जाय॥

अथ मूत्ररोगकी दवा ।

दोहा-बाँसा अरु एरंड लै, और लायची आनि ।
प्रात पिये दधिसंग तो, मूत्रकृच्छ्रकी हानि ॥

पुनि ।

दोहा-क्राथ जु गोखुरु बीजको, जवाखारयुत लेय ।
मूत्रकृच्छ्र अति जो रहै, ताहि दूरि करिदेय ॥

अथ अर्शरोगकी दवा ।

दोहा-लै बांदा जु बबूरको, कटिसों बांधै कोय ।
अर्शरोग बहुदिवसको,जाय बहुरि नहिं होय ॥

पुनि दवा ।

चौ०-सतवासोंठरुदसवाआन।चतुर्गुणा कूपोदक ठान॥
हरड छील लै सूंठ प्रमान।गुड आधा मन लीजे जान॥
गाडे भूमि पत्रको पाई । दिवस चतुर्दश तहां धराई ॥
बहुरि काढिके लेहु चुआई।सिद्ध होय तब याको खाई
मृगमद माशे दोय सुआन।सुगन्ध जलभीकह्यो मिलान
दोहा-अरसरोग बहुदिवसको, षटप्रकारको जाइ ।
ताते ढील न कीजिये, यहि पीजिये बनाइ ॥

पुनि दवा ।

दोहा-कुडा सोंठ गजकेसर, तीनों पीसो जांन ।
पथ्य नेमसे पीयही, रक्तबवासिर हानि ॥

अथ प्रमेहरोगकी दवा।

दोहा–त्रिफला मोथा दारिवा, निशा धानकी खील।
याको काढो दीजिये, हरदी चूरण मील॥
मिटिहैं रोग प्रमेह सब, पीवत पलमें जाय।
पथ्य रहै जो रोगिया, खट्टी वस्तु न खाय॥

पुनि प्रमेहरोगकी दवा।

दोहा–कूटि आंवले काढि रस, मधु अरु हरदि मिलाय।
मिटै बीस परमेह दुख, यह थोरे दिन खाय॥

पुनि दवा।

दोहा–शहत संग रस गुरचको, खाय प्रात दिन सात।
मिटै बीस परमेह दुख, नर सुख पावे गात॥

पुनि दवा।

दोहा–त्रिफला चूरण करि सरस, शहत संग नर चाट।
तौ नर बीस प्रमेहकी, व्यथा बेगि ही काट॥

पुनि दवा।

दोहा–रससेमरकी छालिको, हर्र सहित जो खाय।
वा तनु बीस प्रमेहकी, व्यथा बेगि मिटिजाय॥

पुनि दवा।

दोहा–मुँहमूंदी दाडिमकली, खांड खैर पुनि श्वेत।
यह चूरण परमेहको, खात बिदा करिदेत॥

पुनि दवा ।

दोहा-बड़ी लायची खांड सम, चूरण कर्ष प्रमान ।
दूध भात भोजन करै, तौ परमेह परान ॥

पुनि दवा ।

दोहा-शंखाहूली लायची, शिलाजीत पुनि खांड ।
खातनि यह चूरण करै, सब प्रमेहको भांड ।

अथ अर्शरोगकी दवा ।

दोहा-सज्जी हींग निबोलिको, और रसोन मँगाय ।
सब समान गुड डारिकै, पीसै सबै मिलाय ॥
प्रातकाल संध्या समैं, दो मासाभरि खाय ।
अरसरोग अरु वायु सब, दिन इकइसमें जाय ॥

अथ अतीसारपर लेप ।

दोहा-आमर्मिगी अरु जायफल, कुड़ा अफीम मँगाय ।
लेपै जलघिसि नाभिपर, अतीसार थमजाय ॥

पुनः दवा ।

दोहा-बांटि अतीस अफीम सम, जलयुत नाभिलगाय ।
अतीसार या लेपते, बेगि बिदा होजाय ॥

पुनः दवा अर्शरोगकी ।

दोहा-पैसाभरि लै लायची, तज दुइ पैसा डारि ।
पत्रज पैसा तीनिभरि, गजकेसरि पुनि चारि ॥

मिरच पांच पैसाभरी, पीपरि छहभरि आनि ।
सोंठि सात पैसाभरी, बांटि औषधै छानि ॥
सब सम मिश्री डारिकै, देइ रोगियै खान ।
अरस अरुचि हियरोग पुनि, गुल्मशूलकी हान ॥

पुनः अर्शरोगकी दवा ।

दोहा-सैंधव अरु दधि नीरमें, बांटि बीज देवदारु ।
गुद अंकुरपै लेप दै, अर्शरोग निरवारु ॥

अथ अजीर्णरोगकी दवा ।

दोहा-जवाखार सम सोंठि लै, प्रात घीउसों खाय ।
भूख लगे अति रुचि बढै, अन्न तुरत पचिजाय ॥

पुनः दवा ।

दोहा-अभया सोंचर सोंठि पुनि, पीपरि बायविडङ्ग ।
हिंगु शतावरि लीजिये, अरु अजमोदा सङ्ग ॥
मोथा डारि मजीठ पुनि, करि चूरण नित खाय ।
शीतल जलसों टङ्क दो, अन्न तुरत पचिजाय ॥

पुनः दवा ।

दोहा-मिश्री आधा सेर ले, मिर्च टङ्क दस आन ।
पुनर्नवाकी जड़ कही, टङ्क पचास प्रमान ॥
पीसि इन्हे चूरण करै, पैसाभरि नित खाय ।
भूख लगे अरु रुचि बढे, अग्नि कामरस आय ॥

अथ आँखकी दवा ।

दोहा-भिंगी बहेड़े आमकी, जल घिसि अंजन देय ।
निशि अंधाके रोग को, कै दधि मिर्च हरेय ॥

पुनः दवा ।

दोहा-मिरच भिंगी हिंगोटकी, चूरण सम करि लेय ।
भँगराको रस काढिकै, तीनि भावना देय ॥
मास एक अञ्जन करै, कण्डू मूर्च्छा जाय ।
माथा वायु बिच्छू सरप, इनको जहर मिटाय ॥
निशि अंधो फूली तिमिर, अरु कांवरि बिनशाय ।
नयनरोग सब हरणको, यह अञ्जन सुखदाय ॥

अथ कानरोगकी दवा ।

दोहा-आकपत्र तिलपत्र पुनि, लहसुन घृत सब सङ्ग ।
मींजि निचोरै कानमें, पीर बधिरता भङ्ग ॥

पुनः दवा ।

दोहा-आकपत्र लहसुन मिले, बांटि काढि रस लेय ॥
तातो डारै कानमें, पीर बिदा करि देय ॥

पुनः दवा ।

दोहा-तुम्बारि शुण्ठी हिंगुसों, बांटै सरसों तेल ।
डारि बधिरता शूलदुख, हरै शब्द अनमेल ॥

पुनः दवा।

दोहा-गुड गूगल बच हिंगु पुनि, सैंधव सांचर आनि।
डारि निंबरस खरलिये, नीको बहिरो कानि॥

अथ नाकरोगकी दवा।

दोहा-कुरा कलौंजी पीपरै, बच लै सरिस बँटाय।
पुटरी सूंघै जो सदा, तौ पीनस मिटिजाय॥

पुनः दवा।

दोहा-पाठ मुलहठी दो हरड, पीपरि जैती पात।
अरु दात्यूनि मँगायकरि, बांटि छानि लै तात॥
चुरै जु तिल्ली तेलमें, नास लेत नित जास।
या विधिसों पीनस तबै, तनते जात निरास॥

पुनः दवा।

दोहा-शुण्ठी गुड पिपरी मिरच,करि गोली नित खाय।
शीशपीर पीनस दुख, सो हरिजाय बिलाय॥

अथ मुखरोगकी दवा।

दोहा-तवाखीर एलायची, माखन खयर मिलाय।
मथि लेपै मुखके विषे, सब पकिबो मिटिजाय॥

पुनः दवा।

दोहा-राल नैनुघृत डारिकै, गुड मिलि लेय बनाय।
ओठ दरकिबो कठिनता, मुखपकिबो मिटिजाय

पुनः दवा ।

दोहा–कारो जीरो इन्द्रयव, कूटि तीन दिन पीसि ।
वदनपाक दुर्गन्धि व्रण, दूर करे यह मीसि ॥

अथ दांतरोगकी दवा ।

दोहा–थूथो एला फिटकरी, खैर जु सम बँटवाय ।
चौदह दिन दंतनि मलै, बहुत पीर मिटिजाय ॥

पुनः दवा ।

दोहा–सरसों सैन्धव लोध बच, जलसँग बांटि बनाय ।
वदन प्रात नित लेपिये, कीलारोग पराय ॥

अथ कामलारोगकी दवा ।

दोहा–त्रिफला कटू चिरायतो, बांसा नीम गिलोय ।
या काढ़ेके पियत ही, नाश पाण्डुको होय ॥

पुनः दवा ।

दोहा–त्रिफला रजनी आमले, लोह चून घृत लेय ।
शहद सङ्गके खात ही, कमल पाण्डु हरलेय ॥

पुनः दवा ।

दोहा–दूधी छोटी आनिके, पीसे मिर्च मिलाय ।
गायदूध सङ्ग पिवत ही, कमलरोग सब जाय ॥

अथ तापतिल्लीकी दवा।

दोहा-हुरहुर अरु सरफोंक जड़, पीसे मिर्च मिलाय।
पानीके संग पिबतही, तिल्लीरोग बिलाय॥

अथ सबलवायुकी दवा।

दोहा-जीरा काही फिटकिरी, त्रिफला सोवा ल्याय।
रसवत हालो हलद पुनि, तामहँ लोध मिलाय॥
ये औषधि सम आनिकै, करहु पोटली पीसि।
सबलवायुको नाशिकै, नयननि निर्म्मल दीसि।

अथ नहरुवाकी दवा।

दोहा- गाय मूत्रसों पीसिकै, बीज बबूर लगाय।
रोग नहरुवा शोथ पुनि, पीडा पीसि नशाय॥

अथ शिररोगकी दवा।

दोहा-मृगमद मिर्गी जु अंडकी, बांटि नासु यह लेय।
अधशीशी बहु दिवसकी, ताहि बिदा करिदेय॥

पुनः दवा।

दोहा-बच मुलहेठी सारिवा, कूट पीपरे आनि।
कांजीसों लेपन करे, अर्द्धशीश दुख हानि॥

पुनः।

दोहा-मिरच निबोली सम करो, नींबू रस पिसवाय॥
अंजन कीजे नयनमें, अर्द्धशिरो गद जाय॥

पुनः ।

दोहा–नास दीजिये घीउमें, सैंधव नोंन पिसाय ।
अर्द्धशीशकी पीर अति, या औषधिते जाय ॥

पुनः ।

दोहा–मिश्री शीतल नीरसों, घोरि पियावे कोय ।
आधाशीशी पीर पुनि, ताको कबहुं न होय ॥

पुनः ।

दोहा–छड़ बच मोथा रासना, कूट सु अंड मिलाय ।
तप्त नीर सँग लेपिये, कफ शिरपीडा जाय ॥

पुनः ।

दोहा–जड़ एरंडकी कायफल, कूट मिर्च जलसंग ।
ताते करि शिर लेपिये, दुख त्रिदोष कर भंग ॥

पुनः ।

दोहा–चन्दन शिवा कचूर लै, हाऊबेर उशीर ।
दूब कमलके बीज सम, लेपत नाशै पीर ॥

अथ आंखकी दवा ।

दोहा–त्रिफला चूरण शहद घृत, नयन रोगको खाय ।
कै जल पीवै नाकसों, अति दृग ज्योति बढाय ॥

पुनः ।

दोहा–सोंठ नीमके पत्र पुनि, सैंधव जलमें बांटि ।
तातो करि दृग लेपिये, सब पीड़ाको डांटि ॥

पुनः ।

दोहा–सैंधव गेरू फिटिकिरी, अभया जलमहँ पीस ।
नयनन लेपत ही तबै, सबै रोग करि खीस ॥

पुनः ।

दोहा–लोध लाख त्रिफला बहुरि, पीपरि सैंधव नौन।
भँगरा जड़ रस आंजि दृग, फूली रखिहै कौन॥

पुनः ।

दोहा–हरड़ मिर्च पीपरि कही, किरमालाके बीज ।
मधु घृत सों अंजन करै, नाश फूलिके कीज ॥

अथ मृगीरोगकी दवा ।

दोहा–ब्राह्मी सोंठि चिरायता, पुष्करमूल कचूर ।
दारुहलद सुरदारु बच, मोथा पीपलमूर ॥
अभया रोहिष सिरस फल, कूट क्काथ सम जानि।
अपस्मार उन्माद भ्रम, रोग विसूची हानि ॥

पुनः ।

दोहा-सहत संग बच लीजिये, खुरासान दो टंक ।
दूध भात पथ दीजिये, मृगी रहै नहिं अंक ॥

पुनः ।

दोहा-सेहुँड़में मिरचे धरै, दिन इकईस बिचारि ।
नास दीजिये नीरसों, मृगीरोगको टारि ॥

पुनः ।

दोहा-बच रस ब्राह्मी कूटि सम, शंखाहूली संग ।
गाय घीउसँग साधिये, मृगी रोगको भंग ॥

अथ तृषारोगकी दवा ।

दोहा-धना खील मिश्री बहुरि, दाखसमेत खजूरि ।
शर्बत करिकै पीजिये, तृषा जाइहै दूरि ॥

पुनः ।

दोहा-शिलाजीत मिश्री बहुरि, बडी लायची कूठ ।
बड़की जड सुंठी सहत, खात तृषा तन रूठ ॥

अथ शूलरोगकी दवा

दोहा-पीपल सोंठि हरीतकी, सोंचर तिबी समान ।
तप्त नीरसों पीजिये, नाश शूलको जान ॥

अथ उन्माद रोगपर दवा ।

दोहा-कूट लौंग असगन्ध पुनि, दोऊ जीरो आनि ।
त्रिफला अरु अजमोद ले, शंखाहूली जानि ॥
पाढ आनि चूरण करे, ता समान बच लेय ।
ब्रह्म नोनिया काढि रस, तीनि भावना देय ॥
बहुरि शहद घृत भावना, दे चूरण धरि राखि।
पैसा भरि ले प्रात ही, उठिकै चूरण चाखि॥
साठि दिवसके नियमते, बढै बुद्धि उर धीर ।
सागर सुत यहि नाम है, हरि उन्मादकी पीर॥
उलटी बुधि नाशै बहुरि,अपस्मार मिटिजाय ।
चतुरानन भाष्यो यहै,जग जीवन हित पाय ॥

पुनः दवा ।

दोहा-गूगल ग्रंथिक हरमली, नील वस्त्रमें पाय ।
धूप जिन्द देखत भजे, अरु उन्माद बिलाय ॥

पुनः दवा ।

दोहा-कंजा पत्र पलाशके, देवदारु बच आनि ।
मालकांगनी हलद दो, कांजा पत्र बखानि ॥
त्रिकुटा और मजीठ पुनि, निरबीसा लै हींग ।
बांटि छानिके मूत्रमें, छानि छागके रींग ॥

मन्त्र यन्त्र अरु तंत्र ही, भूत प्रेत उन्माद ।
और डाकिनी शाकिनी, मेटहि धूप उपाद ॥

अथ सुन्नबायकी दवा ।

दोहा-सेमरबीजा बांटि जल, पैसाभरि पी जाय ।
दोष वर्ण नाशै तुरत, सुन्न बेगि नशि जाय ॥

अथ दादकी दवा ।

दोहा-माजूफल गन्धक मिलै, जलसों पीसि लगाय।
कै चूना गन्धक कहों, दाद रोग बिनशाय ॥

पुनः दवा ।

दोहा-जव सरसों तिल तीनिके, न्यारे खार बनाय ।
बकुची बीज पवाँरके, बायबिड़ंग मँगाय ॥
औ माठा दे गायको, तीनि दिना सँग वाय ।
सात दिवस लगि लेपिये,औषधि मिही बँटाय।
और सर्व संयम करै, पामा आदिक जाय ।
वैद्यक विद्या यह कहो, सर्व दाद बिनशाय ॥

अथ व्रण-घावपर मलहम ।

चौपाई ॥

खैर पापरी तोला एक । लेप सुपारी चिकनी टेक ॥
रूमि मस्तँगी मुर्दाशंग । हरिया थूथौ फुलै निशंग ॥

बांटि छानिके औषधि करै । मैन एक तोला लै धरै ॥
पहिले तेलमें थूथो डारि। ता पीछे सब औषधि डारि॥
जो सु होय नीके करि लेप।खता होय पुनि ऊपर देप॥
व्रण जु अनेक जातिके होयँ।मलहम लगाये नीके होयँ॥

अथ कोढपर दवा ।

चौपाई ।

अर्कमूल गन्धक हर्तार । कुटकी रजनी लेउ सँभार ॥
गऊमूत्र लेपत दिन सात । श्वेत कुष्ठको होवै घात ॥

अथ पुनि दवा ।

दोहा-खैर आमरे क्वाथ करि, डारि बावची दोय ।
एक मासमें सब मिटैं, श्वेत दाग तनु लोय ॥

अथ कंठावरोधकी दवा ।

चौपाई ।

सेंधा नोंन कूठकों आन। और बावची बच खुरसान॥
सोंठि भंगरा पीपर लीजै।मिरच दक्षिणी सब समकीजै
पीस सहतसों बहुदिन खाय।कंठारोध रोग मिटजाय॥

अथ घंटीरोगकी दवा ।

दोहा-बोल आनिके नीरसों, पीसि कानमें पाय ।
सिद्ध योग पंडित कहैं, घंटी रोग नशाय ॥

अथ कंठरोगकी दवा।

दोहा–तूत जटाके पत्रके, काढै रस जो कोय।
हरै गँडूषा बहुत दिन,खुलै कंठ सुख होय ॥

अथ मुखझांईकी दवा।

दोहा–फूल तिलनको आनिकै, अथवा पेठे फूल।
मुखपर मर्दन कीजिये, झांई रहै न मूल ॥

अथ नामर्दीकी दवा।

दोहा–ब्रह्मडंडी अरु मोचरस, हालों गुखुरू ल्याय।
मालकांगनी ये सबै, दश दश पैसा भाय ॥
पैसा पांच प्रमाण ही, ताल बुखारे बीज।
आधासेरै खांड पुनि, चूरण एकत कीज ॥
आधसेर पय गायको, लीजै प्रात मँगाय।
चूरण पैसा एक भरि, मेलि बेगि पी जाय ॥
मण्डल भरिकै खाय नित,नामर्दी मिटि जाय।
खट्टा तीता पथ्य कर, लिखिके दिहा बताय ॥

अथ बिवाई रोगकी दवा।

दोहा–पीसि राल तिल तेलमें, पग मरदन कर जान।
ब्याई ताके ना रहै, वैद्यक कहेउ बखान ॥

अथ खांसीकी दवा ।

दोहा–लै अजवायन जायफल, अकरकरा मँगवाय ।
कनकबीज आफू सरस, जवाखारको ल्याय ॥
बांटि यहै चूरण करै, कनक फलनि भरि देय ।
गेहूँ चून लपेटिकै, अग्निमांझ धरि देय ॥
काढि ताहि बुकनी करै, मासे भरि नित खाय ।
महाप्रबल खांसी मिटै, ज्यारो सबै तजाय ॥

अथ वातज्वर लक्षण ।

दोहा–चित्तभ्रम अरु ताप तनु, पीडित होय अधीर ।
देही शीतल होय पुनि, नींद न आवै बीर ॥
टूटै तन आलस बहुरि, तालू जरै अचेत ।
वचन कठिन रोवै हँसै, बाद करै बिनुहेत ॥
लेय जम्हाई तन कँपै, चलै ताप उर शूल ।
पेट पीर फूलै बहुरि, नींद नहीं गति शूल ॥
चौंकि उठै जिह्वा कठिन, लकरीसी ऐंठायु ।
लगै थरहरा देहमें, ताहि जानि ज्वरवायु ॥

अथ पित्तज्वर लक्षण ।

दोहा–मुख कडुवो तनु ताप बहु, व्याकुल देही होय ।
तृषा बहुत परलाप बहु, नींद न आवै कोय ॥

नयन जरै अरु लाल पुनि, सूखै अधर कठोर।
रक्त नील पीरो वदन, पलभा तीक्षण छोर॥
कान भनक लागे बहुत, चहै खटाई खान।
मूत्र पीत अरु गरम पुनि, कफ मुख कडुवो जान॥
कर पद तप्त हियो जरै, ये लक्षण लखि लेय।
पित्तहिको यों जानिकै, पाछे औषध देय॥

अथ कफज्वर लक्षण।

दोहा-वदन लाल पुनि लाग दृग, आलस होवे श्वास।
वमन करै लघु नींद पुनि, बेदिल नयन उदास॥
जरै शीश खांसी बहुरि, जीभ करेरी जानि।
करिहां पीर पिराय अति, गलगेही जड़ मानि॥
अति अभूख मीठो वदन, मीठर गरो खुजाय।
हिम भारी अरु पीठि पुनि, नासा स्वर मुँदिजाय।
भूख प्यास थोरी लगे, मन्दी अग्नि शरीर।
देह वदन फीको लगे, यों कफ जानहु चीर॥
केकी हंस कपोतकी, चलै नाडिका बाल।
तौ कफको यों जानियो, परखो वैद्य विशाल॥

अथ वातज्वरकी दवा।

पिठवन सोंठि उशीर सरवन गोखुरू कुटकी गिलोय किरात मोथा कास्मरी पिपरामूल इन

दवाओंको डेढडेढ तोला कूटिके तीन पाव पानीमें काढा करै जब तीन छटांक रहिजाय तो छानके पीवै तो वातज्वर जाय.

अथ पित्तज्वरकी दवा।

चिरायता पीपरि बांसा प्रियंगु कूट जवांसा मिसरी इन सब दवाओंको बराबर दो दो तोले लेकर ढाईपाव पानीमें काढा करै. जब आधापाव रहिजाय तो छानके सबेरे पीवे तो पित्तज्वर जाय.

अथ कफज्वरकी दवा।

चाब मिरच तालीस इन दवाओंको एक एक भाग लेवै, पीपला मूल २ भाग, सोंठ ३ भाग, पीपरी ४ भाग, इलायची ५ भाग, तज ६ भाग, पत्रज ७ भाग इन सब दवाओंको कूटि कपड छान करिके चूरण करै सब चूरणके बराबर मिसरी मिलायके सुपारी बरांबर गोली बनायके एक शाम एक सबेरेको खावै तो कफज्वरका नाश होय.

अथ मलज्वरकी दवा।

किरमालो मोथा हरैं कुटकी पीपरामूल इन दवा-ओंको सम भाग लेवै थोडी कूटके रोगीका बल देखके क्वाथ करि पिलावै तो मलज्वर जाय.

अथ अजीर्णज्वरकी दवा।

सोंचर हरैं अजमोदा सोंठि पीपरी चूरण करिके खाय तो अजीर्णज्वर जाय.

अथ सर्वज्वरकी दवा।

सोंठ पीपरी गिलोय मिरच दोनों चन्दन अतीस पीपरामूल इन सब दवाओंको तीन तीन तोले लेवे सब दवाओंके बराबर चिरायता लेवे कूटि कपडछान करके इस चूरणको रोगीका रोग दोष बल विचारके देवै, रोगीका रोग जैसा होय तैसाअनुपान बदलके देवै शीतज्वरमें गरम अनुपान देवै दाह गरम ज्वरमें शीत अनुपान देवै जैसा ज्वर होय वैसा तजबीजके देवै तो इस चूरणसे किसी प्रकारका ज्वर होय तो नाश हो जाय और पथ्यसे खावै खट्टा तीता मीठा त्याग करै.

अथ यह यन्त्र बीसा अष्टदलकमल है ॥

इस यन्त्र बीसाको जगाय सिद्ध करके अपने पास रखनेसे सर्व कार्यसिद्धि होती है ॥ १ ॥



यह यन्त्र–दोहा-नाग-बेलिके पत्रपै, लिखि कारि देय खवाय ॥ जाय सासुरे सो त्रिया, सब उचाट मिटि जाय ॥ २ ॥

ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं
ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं
ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं
ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं
ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं

जाके कोठा बीचमें, लिखि रोगीको नाम । महा कठिन तो ताप हो, जाय आपने धाम ॥ ३ ॥

कं	ठः	सें	नः
रीः	जूः	डा	दाः
वै	पै	कः	छः

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसादका शिष्य भगत भगवानदास विरचित वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा तीसरा भाग समाप्त ।

हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान

खेमराज श्रीकृष्णदास
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,
७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर,
मुंबई - ४०० ००४.
दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६.

खेमराज श्रीकृष्णदास
६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट,
पुणे - ४११ ०१३.
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५,

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,
लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग,
जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक,
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१
दूरभाष - ०२५१-२२०९०६१.

खेमराज श्रीकृष्णदास
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८.

श्रीः ।

रसराजमहोदधि ।

(चौथा भाग)

पं. गौरीशंकरजी त्रिपाठी वैद्यशास्त्री निर्मित ।

मुद्रक एवं प्रकाशकः

खेमराज श्रीकृष्णदास,

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,

खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४.

संस्करण : अप्रेल २०१९, संवत् २०७६

मूल्य : २३० रुपये मात्र

© सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

मुद्रक एवं प्रकाशक:
खेमराज श्रीकृष्णदास,™
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,
मुंबई - ४०० ००४.

Printers & Publishers
Khemraj Shrikrishnadass
Prop: Shri Venkateshwar Press
Khemraj Shrikrishnadass Marg,
7th Khetwadi, Mumbai - 400 004.

Web Site : http://www.khe-shri.com
E-mail : khemraj@vsnl.com

Printed by Sanjay Bajaj for M/s Khemraj Shrikrishnadass
Prop. Shri Venkateshwar Press, Mumbai-400004,
at their Shri Venkateshwar Press, 66 Hadapsar Industrial Estate.
Pune -411 013.

भूमिका।

परमेश्वरके परम अनुग्रहसे आज हमारे बनाये हुए वैद्यकके ग्रन्थोंमें यह चौथा ग्रन्थ छपकर समाप्त हुआ यह ग्रन्थ कैसा है सो अपना बनाया हुआ होनेके कारण अपने मुखसे इसकी प्रशंसा करना अनुचित समझताहूँ, हाँ केवल इतना कहदेना काफी होगा कि, यह अपने ढंगका निरालाही है और ऐसे ग्रन्थकी भाषामें अत्यन्त आवश्यकता थी, इसमें सर्वरोगोंके निदान, लक्षण व चिकित्सा लिखी हैं, साथही पथ्यापथ्य भी सामिल है उत्तमता यह है कि,जो रोग चरक सुश्रुतमें भीनहीं हैं,उन सबकी चिकित्सादि भी लिखी हैं,सबसे उत्तम बात यह है कि,इसमें जो चिकित्सा लिखीहैं वह परीक्षा कीहुई हैं,और साथही यूनानीका भी रहस्य दियाहै।इसके अलावा औरभी रसायनविधि भाषा, बयानचालीसी, मुजर्रिबातगौरीशंकर, बूँटीप्रकाश,मतबअ गौरीशंकर,आयुर्वेदप्रकाश, पारस्करगृह्य सूत्रभाषाटीकागौरीशंकरनिघण्टु,यूनानीमिसरानीसार इत्यादि कई ग्रन्थ हमारे बनाये हैं। इस पुस्तक को मैंने बडे विचारसे लिखा-और स्वयं बम्बई "श्रीवेंकटे-

श्वर" स्टीम्-प्रेसमें उपस्थित होकर संशोधन किया, मैंने अपनी प्रसन्नतासे इस पुस्तकके सर्वाधिकार गो-ब्राह्मणहितकारी परमोदार धर्मरत्न सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी प्रोप्राइटर "श्रीवेंकटेश्वर" स्टीम् प्रेस बम्बईको समर्पण किया। विद्वान् तथा न्यायी पुरुषोंसे विनय है कि, यदि इसमें कोई अशुद्धियां देखें वह कृपया मुझे सूचित करें ताकिआगामी मुद्रणमें दुरुस्त कर दीजावें ।

ग्रन्थकर्ता-

श्रीगौरीशंकर त्रिपाठी वैद्यशास्त्री

जि. रायपूर. सी. पी.

॥ श्रीः ॥

अथ रसराजमहोदधिकी विषयानुक्रमणिका

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
सर्वज्वरोंके लक्षण और चिकित्सा	१	अम्लपित्तकी दवा	५०
लाक्षादि तैल	२१	श्लेष्मपित्त चिकित्सा	५१
कुर्स काफूर	२२	राजयक्ष्म चिकित्सा	,,
कुर्स सन्दल	,,	वांसावलेह	५३
सिंहशार्दूल गोली	२४	तालीसचूर्ण	,,
अतीसार चिकित्सा	२६	चन्दनादितैल....	५४
लघुलीलावतीवटी	२९	घी और तैलकी परीक्षा	५५
लीलावतीवटी....	३०	दाखका आसव	,,
संग्रहणी चिकित्सा	,,	दाखका अरिष्ट	५६
बवासीर चिकित्सा	३२	लोह आसव	५७
कुचिला शोधनेकी विधि	३३	उरःक्षत चिकित्सा	५८
बवासीरनाशक सिद्धमन्त्र	३७	एलादि गुटिका	,,
भस्मक चिकित्सा	४२	कास चिकित्सा	६०
अजीर्णरोगकी चिकित्सा	,,	मरिचादि गुटिका	,,
कृमिरोग चिकित्सा	४५	लवंगादि गुटिका	,,
पांडुरोग चिकित्सा	४६	चिरचिराखार बनानेकी विधि	६४
रक्तपित्त चिकित्सा	४८	हिक्का चिकित्सा	६६
		श्वास चिकित्सा	६८

अनुक्रमणिका ।

विषय.	पृष्ठ.
गन्धक शोधनेकी विधि	६९
स्वरभेद चिकित्सा	७५
अरोचक चिकित्सा	७७
छर्दि चिकित्सा	”
चांवल धोनेकी विधि	७९
तृष्णा चिकित्सा	८०
मूर्च्छा चिकित्सा	८२
भ्रम चिकित्सा ...	८३
तन्द्रा चिकित्सा	”
मदात्यय चिकित्सा	८४
दाह चिकित्सा....	८६
उन्माद चिकित्सा	८७
हिंगवादि घृत	८९
नरसिंह मन्त्र:....	”
अपस्मार चिकित्सा	९०
वातव्याधि चिकित्सा ...	९२
जम्हाईकी चिकित्सा	९३
हनुग्रह चिकित्सा	”
त्वचाशून्य चिकित्सा	”
अर्दितरोग चिकित्सा	९४
मन्यास्तम्भ चिकित्सा ...	”
मज्जाशोष चिकित्सा	”

विषय.	पृष्ठ.
भुजास्तम्भ चिकित्सा	९५
आध्मान चिकित्सा	”
तूनी प्रतूनी चिकित्सा ...	”
त्रिकशूल चिकित्सा	९६
मूत्राधिक्य चिकित्सा ...	”
मूत्रनिग्रह चिकित्सा	”
गृध्रसी चिकित्सा	९८
क्रोष्टुशीर्षक चिकित्सा	९८
खल्ली चिकित्सा	९९
वातकण्टक चिकित्सा ...	”
पाददाह चिकित्सा	”
पादहर्ष चिकित्सा	१००
आक्षेपक चिकित्सा	”
दंडापतानक चिकित्सा	”
अन्तरायाम और बाह्यायाम चिकित्सा	१०१
धनुस्तम्भ चिकित्सा	”
कुब्ज चिकित्सा	१०२
अपतन्त्रक चिकित्सा	”
अपतानक चिकित्सा	१०३
पक्षाघात चिकित्सा	”
सर्वांगवायु चिकित्सा	१०६

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
सातों धातुगतवातके लक्षण	१०६	वातारि अर्क	१२१
सातों धातुगत वायुकी चिकित्सा....	१०७	धन्वन्तरिवटिका	१२२
आमाशय वातकी चिकित्सा	१०८	वातारिचूर्ण	१२३
पक्वाशय वातकी चिकित्सा	१०९	ऊरुस्तंभचिकित्सा	”
उदर वातकी चिकित्सा	”	आमवातके लक्षण और चिकित्सा.... ...	१२४
मलस्थान वातकी चिकित्सा	”	वैश्वानर चूर्ण	१२५
हृदयगत वायुकी चिकित्सा	११०	अजमोदादिवटी	१२६
श्रोतगत वातकी चिकित्सा....	”	आमगजसिंह गुटिका	”
लंगडाकी चिकित्सा	१११	वातारि गूगुल	१२७
अकडवातकी चिकित्सा	”	पित्तव्याधिके लक्षण और चिकित्सा....	१२८
संधिवात चिकित्सा	११२	कफव्याधिके लक्षण व चिकित्सा	१२९
वातरोगीके लक्षण	”	सबकी सामान्य चिकित्सा....	१३०
योगराज गूगुल	११३	वातरक्तके लक्षण व चिकित्सा	”
त्रयोदशांग गूगुल	११५	अपथ्य	१३१
वातारि तैल	”	पथ्य	”
सैंधवादि तैल...	११६	चिकित्सा	१३२
अठरंगा तैल	”	मंजिष्ठादिकाढा	१३३
षटधरणयोग	”	गुर्चआदिकाढा	”
विष्णु तैल	११७	निम्बादि चूर्ण....	१३४
छागलादिघृत....	”	योगसारामृत	१३५
नारायण तैल....	११९	प्रभाकरलेप	१३६
वातारिवटी	१२०	अमृतादि चूर्ण	
वातपन्नगवटी....	”	सिंहनाद गूगुल	१३७
असगन्धादिचूर्ण	१२१	अमृतादि गूगुल	१३८

अनुक्रमणिका

विषय.	पृष्ठ.
शूलके लक्षण तथा चिकित्सा	१३८
शम्बुकादिवटिका	१४२
उदावर्तचिकित्सा	१४३
नाराचचूर्ण	१४४
गुडाष्टक	,,
गुल्मरोगके लक्षण तथा चिकित्सा....	,,
हिंग्वादिचूर्ण	१४५
वज्रक्षार	१४६
सार्जिकाक्षार	१४८
प्लीहाके लक्षण व चिकित्सा	,,
यकृत्के लक्षण और चिकित्सा	१५१
हृदयरोगके लक्षण व चिकित्सा	,,
मूत्रकृच्छ्रके लक्षण व चिकित्सा	१५२
मूत्रावातके लक्षण व चिकित्सा	१५५
पथरीके लक्षण और चिकित्सा	१५८
प्रमेहके लक्षण और चिकित्सा	१५९
कामदेव चूर्ण	१६२
प्रमेहारि चूर्ण	१६३
प्रमेहनाशन चूर्ण	१६६
त्रिफला तैल	,
खण्डादि चूर्ण सर्व प्रमेहपर	१६७
प्रमेह हरण चूर्ण	१६८
मधुयष्टी चूर्ण	१६८
शतावरी चूर्ण....	,,
प्रमेहकी उत्तम दवा	१६९
दिलखुश चूर्ण....	१७०
सदाबहारवटी.... ..	१७१
धातुरोग पर अद्भुत चूर्ण	१७२
प्रमेह पिडिकाके लक्षण और चिकित्सा	१७३
मेदोरोगके लक्षण और चिकित्सा....	१७४
दशांग गुग्गुल....	१७५
कार्श्य रोगके लक्षण और चिकित्सा...	१७६
उदररोगके लक्षण और चिकित्सा....	१७७
वातोदरके लक्षण	१७८
पित्तोदरके लक्षण	,,
कफोदरके लक्षण	,,
त्रिदोषजके लक्षण	१७९
प्लीहोदरके लक्षण	,,
बद्धगुदोदरके लक्षण	,,
क्षतोदरके लक्षण	,,
जलोदरके लक्षण और चिकित्सा....	१८०

विषय.	पृष्ठ.
ब्रह्मघृत	१८३
शंखद्राव	,,
शोथरोगके लक्षण और चि०	,,
अण्डवृद्धिके ल० और चि०	१८६
ब्रध्नरोगके ल० और चि०	१८८
गलगंडरोगके ल० और चि०	१८९
गण्डमालाके ल० और चि०	१९१
अपचीके ल० और चि०....	१९४
ग्रन्थिरोगके लक्षण और चि०	१९५
अर्बुदके ल० और चि०	१९६
श्लीपदके ल० और.चि०....	,,
विद्रधिके ल० और चि०	१९८
भग्नरोगके ल० और चि०....	२०५
नाडीव्रणके ल० और चि०	२०७
भगन्दरके ल० और चि०	,,
उपदंशरोगके-ल० और चि०	२०९
शूकरोगके ल० और चि०	२११
कुष्ठरोगके ल० और चि०	२१३
शीतपित्तके ल० और चि०	२१९
विसर्परोगके ल० और चि०	२२१
स्नायुरोगके ल० और चि०	२२२
विस्फोटकके ल० और चि०	२२३
फिरंग गर्मीके ल० और चि०	२२४
मसूरिका रोगके ल० और चिकित्सा.... ..	२२६
शीतलारोगके ल० और चि०	२२७
पलित रोगके ल० और चि०	२२८
इन्द्रलुप्तके ल० और चि०	२२९
दारुणरोगके ल० और चि०	२३०
अरुषिकाके ल० और चि०	,,
इरवेल्लिकाके ल० और चि०	२३१
पनसिकाके ल० और चि०	,,
पाषाणगर्दभिकाके लक्षण और चिकित्सा.... ..	,,
मुखदूषिकाके ल० और चिकित्सा	,,
व्यंगके ल० और चि०	२३२
वल्मीकके ल० और चि०....	२३३
कांखोंलाई और गंधनामाके ल० तथा चि० ...	,,

विषय.	पृष्ठ.
अग्निरोहिणीके ल० और चि०	२३४
विदारिकाके ल० और चि०	२३६
कुनख और चिप्परोगके ल० तथा चि० ...	”
परिवर्तिकाके ल० और चि०	”
अपवाटिकाके लक्षण और चिकित्सा...	२३६
निरुद्धप्रकाशके लक्षण और चिकित्सा....	”
सन्निरुद्धगुदके लक्षण और चिकित्सा....	”
वृषणकच्छूके लक्षण और चिकित्सा...	”
अहिपूतनके ल० और चि०	२३७
गुदभ्रंशरोगके ल० और चि०	”
शूकरदंष्ट्ररोगके ल० व चि०	”
अनुशयीके ल० और चि०	”
अलसकरोगके ल० और चि०	२३८
दारीके ल० और चि०	”
कदरके ल० और चि०	”
जतुमणि 'मसा' तिलके ल० और चि०....	”
पद्मिनी कण्टकके ल० और चिकित्सा....	२३९
अजगल्लिकाके लक्षण और चिकित्सा....	”
यवप्रख्या व अन्त्रालजीके ल० और चिकित्सा	”
विवृता, इन्द्रवृद्धा, गर्दभिका और जालगर्दभिकाके ल० और चिकित्सा	२४०
कच्छपिकाके लक्षण और चि०	”
शर्करार्बुदक लक्षण और चिकित्सा...	”
आलस्य, अरति, उत्क्लेश, ग्लानि, डकार तमकके ल० और उनकी चि०	”
शिरोरोगके लक्षण व चि०	२४१
नेत्ररोगके लक्षण और चि०	२४२
कर्णरोगके लक्षण और चि०	२४७

विषय.	पृष्ठ.
नासारोगके लक्षण और चिकित्सा....	.... २४८
मुखरोगके लक्षण और चिकित्सा....	.... २५०
विषके भेद और चिकित्सा....	२५१
स्त्रीरोग चिकित्सा	.... २५२
बालकके रोगोंके लक्षण और चिकित्सा....	.... २५९
वाजीकरण विधि	.... २६१
रसायन विधि....	.... २६७

इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता ।

॥ श्रीः ॥

रसराजमहोदधि।

चौथा भाग ४.

ज्वर कई प्रकारका है उसका विस्तार बहुत भारी है जो आज तक कहीं किसी ग्रंथमें छपा नहीं है परन्तु उनमें वातका पित्तका कफका वातपित्तका वातकफका पित्तकफका सन्निपातका चोट लगनेका कामका क्रोधका आदि कहांतक वर्णन करेंगे यों तो केवल सन्निपातहीका ज्वर ५२ प्रकारका है-इसलिये इस छोटेसे ग्रंथमें उनका वर्णन नहीं कर सकते। प्रथम नवीन ज्वरवाला इतने कर्मोंको त्याग देवे सो लिखते हैं। स्नान करना, उबटना लगाना, ठंडा पानी पीना, दिनमें सोना, कसरत करना, मैथुन करना, क्रोध करना, अधिक भोजन करना, दही खाना, दूध खाना, खटाई खाना, मिठाई खाना और बादी वस्तुयें, पथ्यसे चलता रहे गर्म पानी पीता रहे तोभी कष्टका नाश हो जायगा।

श्लोक-विनापि भेषजैर्व्याधिःपथ्यादेव निवर्त्तते।
न तु पथ्यविहीनस्य भेषजानां शतैरपि ॥ १ ॥

(अर्थ) पथ्य (परहेज) से चलतारहे और औषधी

न भी करे तबभी रोग दूर होजायगा और अगरपथ्य परहेज कुछ न किया तो सैकड़ों दवाइयां अथवा सैकडों वैद्योंसेभी कुछ न होगा। वातज्वर ७ दिनमें और पित्तज्वर १० दिनमें और कफज्वर १२ दिनमें पकता है, ज्वरमें इतनी वस्तुयें खाना चाहिये सो लिखतेहैं। लाल चावल, पुरानेचावल, सांठीके चावल, धानकी खील व लाई, मूग, मसूर, चना, मोठकी दाल और परवल, करेला, ककोडा, पित्तपापडा; गोभी, मूली, गुर्चके पत्ते, तुरई, आलू इनका साग और जौ व गेहूँकी रोटी। नवीन ज्वरमें दूध खाना विषके तुल्यहै और पुराने ज्वरमें दूध पीना अमृतके समानहै। अगर ज्वरमें नींद जातीरही हो तो भांग १ मासाको भूनकर शहद मासा ३ के साथ मिलाकर चाटे तो निद्रा आवै अथवा मकोय की जड़को सूतमें बांधकर शिरमें बांधे तो निद्रा आवे अथवा पकाहुआ बिजौरा नींबू १ सिरहाने रक्खे तो निद्रा आवे।

गुर्च और आमला चार चार मासे लेकर पावभर पानीमें काढा करे जब एक छटांक रहजावे तब ठंडाकर पीवेतो पित्तज्वर दूर हो। अथवा पित्तपापड़ा तोले १॥ लेकर पावभर पानीमेंकाढाकरे जब एक छटांक रहे तब पीवे तो पित्तज्वर दूर हो और दाह और प्यास और भ्रमभी मिटै। अथवा गुर्च मासे ६ को मिट्टीके कोरे

बर्त्तनमें रातको एक छटांक पानीमें भिगोदेवे सबेरे बांटकर कपडेमें छान लेवे और तोला १ शक्कर डालकर पीवे तो पित्तज्वर, दाह, शोष दूर होवे, अथवा धनियां मासे ६ को उक्त प्रकारसे भिगोकर पीवे तो पित्तज्वर और अन्तर्दाह दूर हों अथवा अरूसा मासे ६ को उक्त प्रकारसे भिगोकर पीवे तो पित्तज्वर व खांसी और मुख वा नाकसे खून गिरना बन्द होवे, अथवा पलाश व बेरी व नीम इनमेंसे किसीके कोमल पत्ते लेकर खट्टे मट्ठेमें पीसकर पेट और छाती पर लेप करे तो अन्तर्दाह शीघ्र ही दूर होवे अथवा तांबे व कांसेके बर्त्तनको रोगीकी नाभिपर रखकर उसमें शीतल जलकी धारा छोडे तो अन्तर्दाह दूर हो अथवा केलेके पत्ते या कमलके पत्ते चारपाई पर बिछाकर उसपर सोवे और छाती तथा पेटपर भी आठ दस पत्ते रक्खे तो अन्तर्दाह दूर हो अथवा सौबारका धुला हुआ गायका मक्खन लेकर उसमें कपूर और कबाबचीनी और गुलाबजलमें घिसा हुआ चन्दन और नीमकी पत्तीको पानीमें बांटकर फिर हाथसे मथकर निकाला हुआ फेना ये सब चीजें अनुमान माफिक लेकर उसी मक्खनमें मिलाकर जहां दाह होताहो वहां लगावे तो इस सर्वोत्तम औषधीके प्रतापसे अति शीघ्रही दाह व अन्तर्दाह दूर हो, यह कई बारका परीक्षा

किया हुआ है, छोटी पीपरिको बारीक पीस छान-
कर मासे ४ शहद मासे ६ में मिलाकर चाटे तो कफ-
ज्वर, श्वास, खांसी, तापतिल्ली और हिचकी दूर हो
अथवा सम्हालूके पत्ते तोले १ लेकर पाव भर पानीमें
काढ़ाकरेजबएकछटांकरहे तब छानके ठंडाकर उसमें
पीपरि छोटी बारीक पिसीहुई मासा १डालकर पीवे तो
कफज्वर दूर होवे और कानोंका दर्द व आवाज और
जाँघोंका दर्द दूर होवे । अगर कफज्वरवाले रोगीके
एकबारभी बहुत ही पसीना निकलने लगे तो आधपाव
अरहरको भूनकर महीन पीसकर उसीमें पीले रंगकी
पच्चीस कौडी जलाकर महीन पीसकर मिला लेवे
औरबारीक कपडेमें रखकर पोटली बांधकर जहांजहांसे
पसीना निकलता हो वहां वहांपर वह पोटली फेरै तो
पसीना निकलना अवश्यही बन्द होवे ।

शक्कर तोले १० और कुटकी बारीक पिसी हुई
मासे ६ दोनोंको मिलाकर आधा पाव गर्म पानीसे
खावे तो पित्तकफज्वर प्रथम दिवसहीसे दूर हो ।
यह औषधी सबसे उत्तम है इसके खानेके दो घण्टे
बाद दो दस्त केवल सफेद आमके होते हैं और
जाडा बुखार उसी दिन दूर होजाता है । अथवा
अडूसाके पत्ते और फूलोंका स्वरस तोले १० और
शहद तोला १ दोनोंको मिलाकर पीवे तो पित्तकफका

ज्वर दूर हो और मुख व नाकसे खून गिरना और कमलवाय और खांसी इतने रोग दूर हों, अथवा अदरख ६ मासे, परवल ६ मासे दोनोंका पावभर पानीमें काढा करे जब एक छटांक रहे तब ठंडा कर पीवे तो पित्तकफज्वर छर्दि दाह इतने रोग दूर हों। अगर सन्निपातवाला रोगी बेहोशीसे बकता होवे तो गुलरोगन अथवा काहूका तेल मासे ६ एक एक घंटे पीछे शिर मस्तक और खोपडीमें लगाया करे। अथवा सिरसके बीज, पीपरि छोटी, मिर्च, सेंधानमक, लहसन, मनसिल, बच इन सबको बराबर लेकर गोमूत्रमें महीन पीसकर आंखोंमें अंजन लगावे तो बेहोशी और बकवाद दूर होवे रोगी अपने होशमें आजावे। जीरा सफेद मासा ४चारको बारीक पीसकर गुड मासा ६ में मिलाकर खावे तो विषमज्वर अर्थात् जाडा बुखार दूर हो। अथवा बडी हरकी बकली माशा ६को महीन पीस छानकर शहद माशे ६ से चाटे तो जाडा बुखार दूर हो वमन दूर हो संग्रहणी दूर हो और प्रतिश्याय अर्थात् जुखाम भी दूर हो उक्त चारों रोगों पर उक्त दवा अपूर्व काम करतीहै कभी खाली नहीं जाती उक्त दवा खानेके(२) दो घन्टे बाद दो दस्त होते हैं उक्त चारों रोगोंपर यह कई बार परीक्षामें आचुकी है ॥

तुलसीके पत्तोंका स्वरस माशे ६ अथवा द्रोण-पुष्पी (दडघल) अर्थात् गोमाका स्वरस मासे ६ में काली मिर्च महीन पिसीहुई माशे २ मिलाकर पीवे तो३दिनमें जाडा बुखार दूर हो अथवा फिटकरी भुनी हुई मासा १ मिलाकर आधा पाव ठंडे पानीसे खावे परन्तु जाडा बुखार आनेके एक घंटे पेश्तर खावे तो पहिलेही दिन जाडा बुखार अवश्यही दूरहो अथवा इतवारके दिन अपामार्ग (चिरचिरा) की जड लाकर लालरंगके सात तारके डोरामें बांधकर कमरमें बांधे तो तिजारी दूर हो। अथवा अगस्तके पत्तोंका रस निकालकर नास लेवे तो चौथिया दूर हो.गुर्च तोले १॥ का पावभर पानीमें काढा करे जब एक छटांक रहे तब ठण्डा कर शहद तोला १ डालकर पीवे तो जीर्णज्वर अर्थात् कई महीनेका पुराना ज्वर दूर होवे और अगर इसी काढामें पीपरि छोटी महीन पिसीहुई माशे २ मिलाकर पीवे तो जीर्णज्वर,कफ, तापतिल्ली, खांसी, और अन्नमें अरुचि इतने रोग दूर हों,आमला चीताकी जड, हर्र, पीपरि छोटी, सेंधानमक, ये पांचों चीजें बराबर लेकर महीन पीसकर कपडेमें छानलेवे फिर उसमेंसे मासे ४ अथवा ६ मासे गर्म जल आधा पावसे सबेरे खावे तो वात, पित्त, कफ इत्यादि सर्व प्रकारके ज्वर दूर हों पाखाना साफ होवे,भूँख बढै कफ-

नाश हो, शरीरकी पीडा मिटै । अथवा अदरखका स्वरस या अदरखही माशा ३ लेकर महीन पीसकर उसमें जवाखार माशा १ मिलाकर खावे तो नाना-प्रकारके देशोंके नाना प्रकारके दुष्ट पानी पीनेसे जो ज्वर हुआ हो उसको शीघ्रही दूर करे और अगर देशा-टन करनेमें इस औषधीको अक्सर खाया करे तो किसी देशकाभी पानी कभी हानि न करसके । अद-रखके स्वरसके ३ या, ४ बूँदको नाकमें नास लेनेसे ज्वरमें उपजी मूर्च्छा (बेहोशी) दूर होतीहै । लोहेकी सलाईको गर्म कर युक्तिपूर्वक पसलीमें दाग देनेसे ज्वरमें उपजी श्वास दूर होती है ॥

सेंधानोंन महीन पीसकर पानीके साथ नास लेनेसे ज्वरमें उपजी हिचकी दूर होती है अथवा सोंठि पिसी हुई मासे ३, मिसरी मासे ३ मिलाकर खानेसे ज्वरमें उपजी हिचकी दूर होतीहै । अथवा हींगको आगपर रखकर उसका धुआं लेनेसे हिचकी दूर होती है ॥

आधा पाव बालूको कपडेमें बांधकर गर्म तवापर रक्खे जब खूब गर्म होजावे तब खट्टे सिरकामें पोट-लीको बुझाकर उसी पोटलीसे चढेहुये ज्वरवाले रोगी का सर्व शरीर सेके परन्तु कपडा ओढाये रक्खे तो इससे पसीना आवेगा और मस्तकका दर्द तथा सारे शरीरकी हडफुटन दूर होगी और जो बुखार चार

छः दिनसे बराबर चढकर रहगया है और किसी दवासे नहीं उतरता सो इससे दो घंटेमें उतरेगा। मकडीके जालेको इकट्ठा कर बत्ती बना तिलोंके तेलके चिरागमें डालकर काजल पाडकर वही सूखा काजल दोनों आंखोंमें लगावे तो तिजारी दूर हो। अथवा उल्लू पक्षीके दाहिनी तरफके पंखको सफेद सूतमें बांधकर रोगीके बांयें कानमें लटकावे तो इकतरा दूर हो। घमराकी जड़ अथवा सफेद फूलवाले आककी जड़ अथवा सफेद फूलवाली कनेरकी जडको सूतसे कानमें बांधे तो शीतज्वर (जाडाबुखार) दूर हो। सहदेईकी जड़को कानमें बांधे तो चौथिया दूर हो। अथवा गोमाके रसका आंखोंमें अंजन करे तो चौथिया दूर हो। जो ज्वर चौथेदिन जाडादेकर आताहै उसको चौथिया वा चातुर्थिकज्वर कहते हैं उसके दूर होनेका मंत्र—“ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः क्रोधेश्वराय नमोज्योतिःपतंगाय नमो नमः सिद्धरुद्र आज्ञापयति स्वाहा॥”इस मंत्रसे सात पीली सरसों लेकर फिर प्रत्येक सरसों पर सात सातबार मंत्र पढकर रोगीके शरीरमें जोरसे मारे तो चौथियाज्वर दूर हो।आलूबुखारादाना १कोआगमेंभूनकर मुखमें दबायेरहे और धीरेधीरे रस चूसे तो प्यास दूर हो। अरंडके पत्तोंपर लेटे तो ज्वरका दाह दूर हो। कलमी शोरा माशे३को बारीक पीस पानीमें मिलाकर

हृदय अथवा नाभिमेंलेपकरदेतो कईदिनकाचढाहुआ ज्वर शीघ्रहीउतरेअथवा साफ कियाहुआशोरा रत्ती २ खाकर ऊपरसे एक छटांक ठंडा पानी पीवे तो कई दिनकाचढ़ाहुआ ज्वर शीघ्रहीउतरे। अमिलीके चियां अर्थात् आरम्भिक फल लेकर उनमेंसे थोडा थोडा कई बार मुखमें दबाकर धीरे धीरे रस चूसनेसे ज्वरमें उपजी उबाक व वमन दूर होतीहै, बकरीके कच्चेदूधकी दोनों पैरोंके तलुओंमे मालिश करनेसे दाह शान्त होवे ज्वरमें गईहुई निद्रा आवे अथवा श्रीमहादेवजी का षडक्षर मंत्र (ओं नमः शिवाय) का यथाशक्ति जप करे या करावे और गाय के दूधमें जल व शक्कर मिलाकर महादेवजीको स्नान करावे फिर चन्दनअक्षत बेलपत्र आक व धतूर व कनेर व पियाबाँसा व कमल इनमेंसे किसीके फूल चढाकर धूप देकर कपूरकी आरती कर मिठाईका भोग लगावे तो सर्व प्रकारके ज्वर तुरन्तही शान्त होवें अथवा बच, हर्र, घी इनकी धूनी ज्वरवालेको दे तो जाड़ा बुखार दूर हो। अथवा मसूर की भूसीका धुआं देनेसे सर्व प्रकारके ज्वर शान्त हों। एकान्तरा ज्वरके दूरकरनेका मंत्र–"ओं गंगायामुत्तरे कूले अपुत्रौ तापसौ मृतौ। ताभ्यां तिलोदकं दद्यान्मुंचत्येकाहिको ज्वरः ॥ १ ॥"

चौराहेपर अथवा पीपलके पेडमें अथवा मूसेके

बिलमें तिल सहित जलकी१०८ अंजली १०८ मंत्र पढकर देवे तो एकान्तरा ज्वर दूर होवे अथवा पुराना घी, हींग और सेंधानोन मिलाकर नासलेवे तो जाडा बुखार व पुराना बुखार दूर हो । " समुद्रस्योत्तरेतीरे द्विविदो नाम वानरः॥तस्य स्मरणमात्रेण ज्वर एकाहिको गतः ॥ १ ॥ " इस मंत्रको ज्वरवाला पुरुष बार बार पढ़ा करे तो ज्वर शान्त होवे । अथवा छोटी दुद्धीकी जड़ या मकोयकी जड डोरेसे कानमें बांधेतो जाडा बुखार दूर हो । "वज्रहस्तो महाकायो वज्रतुण्डो महेश्वरः॥हतोसि वज्रतुण्डेन भूम्यां गच्छ महाज्वर॥ठः शःशंतः" इस मंत्रको ताम्रपत्र अथवा भोजपत्र पर लिखाकर रोगीके गले या भुजापर बांधेतो जाडा बुखार दूर होवे"ॐबाणयुद्धे महाघोरे द्वादशार्कसमप्रभे॥ जातोऽसौ हि महावीर्यो मुंचत्वेकाहिको ज्वरः॥१॥" इस मंत्रको लाल चन्दनसे पीपलके पत्तेपर लिखकर रोगी पुरुषकी दाहिनी और स्त्रीकी बाईं भुजापर बांधे तो विषमज्वर सर्वप्रकारका ज्वर दूर हो "ॐ नमो भगवते छिंधि छिंधि अमुकस्य ज्वरस्य शिरः प्रज्वलितपरशुपाणये पुरुषाय फट् ॥१॥" इस मन्त्रको भोजपत्र पर लालचन्दनसे लिखकर गलेमें बांधे अथवा रेशमके सात तारके डोरामें मन्त्र पढ पढकर २१ गांठ लगावे फिर वह गंडा गलेमें बांधे अथवा

छूरीसे धरती पर लकीरें करता जावे मन्त्र पढता जाय रोगी पर फूक डालता जाय तो ज्वर दूर हो'ॐविद्यु-दानन हुं फट् स्वाहा॥१॥' इसमन्त्रको पानपर चूनेसे लिखकर चाबे तौ तीन दिनमें सर्व प्रकारके ज्वर शांत होवें अदरखका स्वरस मासे६अरूसेके पत्तोंका स्वरस माशे६शहद मासे६इन तीनोंको मिलाकर तीन दिन खानेसे एकान्तरा ज्वर दूर हो इतवारके दिन सम्हारूकी जड या धतूरेकी जड या चिरचिरेकी जड़ या घमराकी जड डोरेसे हाथमें बांधनेसे एकान्तरा ज्वर दूर होताहै. अथवा भटकटाईकी जड या मयूरशिखाकी जड़ बांधनेसेभी ज्वर दूर होता है। "ॐ नमो वानरस्य मुखं घोरमादित्यसमतेजसम् ॥ तस्य स्मरणमात्रेण ज्वरो नश्यति तत्क्षणात् ॥"

मिट्टीकी छोटी हांडी १ और १ दीवा ये नये मँगवाकर दीवाके भीतर लाल चन्दनसे ऊपरका मन्त्र लिखकर रोगीके ऊपर सात बार उतारकर रोगीको छुआकर फिर अगर शीतज्वर (जाडा बुखार) हो तो उस दीवाको चूल्हाके भीतर गाडिये और ऊपरसे आग जलाइये तीन दिन तक चूल्हामें गाडा रक्खे और आग हर वक्त जलती रहे तो शीतज्वर सन्निपात ज्वर भी अवश्यही दूर हों और अगर दाहज्वर हो जो चार या छः दिन अथवा

अधिक दिनसे चढकर रह गया हो और किसी यत्नसे न उतरता हो और दाह व प्यास व बेचैनी हो तो उस दीवाको हांडीके भीतर औंधा रक्खे और ऊपर तक ठण्डा पानी भरदे और तीन दिनतक रक्खा रहनेदे तो दाहज्वर आराम हो।जो जाडा देकर चढता और पसीना देकर उतरताहै सो शीतज्वर है और जो दाह और जलन देकर चढता और हाथ पैर ठण्डे होकर उतरता है वह दाहज्वर है।फिर तीसरे दिन हनुमानजीके नामकी लाल मिठाई सवा पाव बांटे तो दाहज्वर शीतज्वर दूर हो। अथवा हुरहुरके दो पत्ते लेकर उन्हें हाथोंसे थोडा मसलकर सीधी कलाई पर बांधे और ऊपरसे दो चनाके बराबर फिटकरी रखकर कपडेसे खींचकर बांध देवे परंतु ज्वर आनेके एक घंटे पेशतर यह यत्न करे तो प्रतिदिन आनेवाला व एकान्तरा व तिजारी व चौथिया इतने ज्वर इस दवासे अवश्यही जावें दवा कभी खाली नहीं जाती परंतु जहांपर दवा बाँधीहै वहां बताशेके बराबर छाला पड जावेगा विना दर्द व तकलीफके दो तीन दिनमें आपही अच्छा हो जावेगा परन्तु ज्वर आनेके एक घन्टा पहिले बाँधो और जब देखो कि, ज्वर आनेका वक्त निकल गया आधा घन्टा और होगया तब खोलकर तुरंत फेंक दो आककी मुखबंद कली ३० अथवा आककी जड मासा १

महीन पीसकर एक मासा गुडमें मिलाकर तीन दिन तक ज्वर आनेके १ घंटे पेश्तर खाओ तो जाडा बुखार अवश्य ही दूर हो अथवा करंजकी मींगीको पानीमें चन्दनकी तरह घिसे फिर तीन या चार बूंद बुखार आनेके आधा घंटे पहिले नाकमें टपकावे और चार पांच मींगी पानीमें पीसकर गोली बनाकर बराबर सूँघता रहे तो जाडाबुखार दूर हो।'सुखदा वटी' करंजकी गिरी मासे ४ पीपारे छोटी माशे ४ जीरा सफेद मासे २ बबूलकी हरी पत्ती माशे ४ सबको पानीमें डालकर महीन पीसकर चनाके बराबर गोली बांधे और छायामें सुखाकर १ गोली सबेरे १ दोपहर १ शामको खावे तो ३ दिनमें जाडा बुखार दूर हो। बनप्सा मासा ४ उन्नाब दाने ८ मौरेठी मासे ४ गुलाबके फूल मासे ४ स्याहतरा मासे ४ मकोय मासे ४ इन सबका डेढ पाव पानीमें काढा करे जब आधा पाव रहे तब उतार छान ठण्डा कर मिसिरी पिसीहुई तोले ३ डालकर पीवे तो तीन दिनमें प्यास, दाह, सिरमें दर्द, जाडाबुखार ये अवश्यही दूर हों यह खाली कभी नहीं जाता बड़ा उत्तम काढा है। हुरहुरके पत्तोंको थोडी काली मिर्च डालकर महीन पीसलो फिर काली मिर्चके बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखालो फिर १ गोली रोज ३ दिनतक खाओ तो कफज्वर दूर हो। आकके पीले

पत्तोंको आगमें जलाकर राख करलो । फिर वह राख रत्ती ४ शहद मासे ३ में मिलाकर ३ दिन तक खावे तो कफज्वर दूर हो । हींग माशे२नमक काला माशे२ पानी सेर १ में औटावो जब सब पानी जलकर डेढ छटांक रहे तब उतार कर गुनगुना २ पीजाओ और कपडा ओढकर लेटे रहो तो इससे बहुत पसीना छूटेगा इसी तरह ४ दिन बराबर पीवो तो ताप, तिजारी, चौथिया सब दूर होंगे । नौसादर रत्ती२मिर्च काली२ इनको पीसकर बुखार आनेके एक घंटे पहिले पानी ठंडेके साथ खाजाओ तो ताप तिजारी चौथिया ये सब दूर हों । चूना तोले ४ को पानी तोले १० में घोलदेओ और उसी पानीमें तुरन्तही पकाहुआ नींबू १ निचोडदेओ जब चूना गाढा होकर पानीके नीचे जमजावे तब ऊपरका साफ पानी धीरेसे उतारकर किसी शीशीमें रखलो और जब बुखार आनेका लक्षण जम्हाई ऍडाई शुरू हो तब तुरन्तही वह शीशीका आधा पानी पिलादो अगर देखो कि फिर जम्हाई ऍडाई आने लगीं तो फिर वह बचाहुआ आधा पानी पिलादो तो बुखार हरगिज न आवेगा ! अथवानावे नामकी बूटीके पत्ते मासे२मिर्च काली५डालकर एक छटांक पानीमें बांट छानकर पीवे तो ३ दिनमें तापतिजारी चौथिया और जीर्णज्वर आराम होवे परन्तु यह बूटी

नीमसे बीस गुणी कड़ुई होतीहै इस वास्ते जो नपीजावे तो आधी छटांक शक्कर मिला लेनाचाहिये तिटलीके हरीपत्ती मासा २ पानमें रखकर सबेरे खावे तो ३ दिनमें तिजारी दूर हो। यदि ज्वरमें बहुतदस्त होतेहों तो ईसबगोल तोला १ को रात्रिको पानीमें भिगो देओ सबेरे बांटकर रस निकाल छानकर रस तोले २ में मिसरी मासे ६ मिलाकर पिलाओ तो ज्वरातिसार अवश्यही बन्द हो यह दवा कभी खाली नहीं जाती। यदि ज्वरमें प्यास व वमन होती हो तो पाव भर पानी-में एक छटांक चूना घोल दो थोडी देरके बाद जब देखो कि चूना नीचे बैठ गया तब ऊपरका साफ पानी किसी शीशीमें धीरेसे भरलो और फिर उस पावभर पानीमें पावभर गायका कच्चा दूध मिलाओ और शक्कर आधी छटांक डालो अथवा न डालो फिर बोतलको हिलाहिला कर उसीमेंसे एक एक तोला पानी पीनेको देते रहो तो वमन व प्यास एक घंटेमें बन्द होगी। अथवा पीपलकी लकडी या छालको आगमें भस्म करदो फिर वह गर्म राख पानीमें बुझा दो थोडी देरमें जब देखो कि राख पानीके नीचे बैठगई तब ऊपरका साफ पानी किसी बर्तनमें करलो फिर उसीमेंसे थोडा थोडा पीनेको देओ तो प्यास अवश्यही बन्द हो अथवा सेरभर पानीमें

चांदी गर्म करके या सोना गर्म करके बुझादो तो इस पानीके पीनेसे भी प्यास बन्द होती है क्रोधज्वर को नम्रता और मीठी मीठी बातें करके दूर करो कामज्वरको स्त्रीसे और खेदज्वरको आश्वासन (तसल्ली) से दूर करो, दृष्टिज्वरको नरसिंहजीके मन्त्रसे दूर करो इसी पुस्तकमें नरसिंहजीका सिद्ध मन्त्र मिलेगा। अगर अजीर्ण ज्वर हो तो सरसोंका तेल एक छटांक लेकर आगपर गर्म करो और गर्मही सारे शरीरमें मर्दन करो तो अजीर्णज्वरका तत्क्षण नाश हो अथवा सेंधानमक मिर्च पीपरि छोटी सिरसके बीज हल्दी इन सबको बराबर लेकर बकरीके मूत्रसे महीन पीसकर आंखोंमें अंजन करे तो अजीर्णज्वर तत्काल मिटै माथाका दर्द जाय और इस अञ्जनसे सर्व प्रकारके ज्वर दूर हों अगर ज्वरमें कई दिनसे बडे जोरसे पेटमें दर्द होता हो जिससे बडी बेचैनी हो तो मदारके पीले पत्ते पांच छः मँगाकर उनमें सीधी तरफ थोडा थोडा घी चुपडो और महीनपिसा-हुआ सेंधानमक मासा २ दो दो प्रत्येक पत्तेपर बुरका देओ फिर आगमें थोडागर्म कर पेटपर रख देओ उपरसे थोडीसी रूईकी गद्दी रखकर कपडा लपेट देओऔर यह रातको करो तो आशा है कि पहिलेही दिन दर्द अवश्यही अच्छाहो जावेगा। अगर मलज्वर

हो तो अमलतासका गूदा, हर्रकी बकली, निसोत, एलुआ ये सब तीन तीन मासे लेकर पावभर पानीमेंकाढा करे जब डेढ छटांक रहै तब ठंडा कर पीवे तो मलज्वर दूर हो चार विरेचन (दस्त) हों कोठा साफ हो। अथवा पीपरी छोटी, कुटकी, चिरायता, हर्र, एलुआ ये सब बराबर लेकर तोले२पानी डालकर महीन पीसे और थोडा गुनगुना करके पेटपर लेप करदेवे तो दो घण्टेमें दोदस्त हों या मल पेटहीमें भस्म हो, जब ज्वरमें तीनचार अथवा अधिक दिन पाखाना बिल्कुलही नहीं होताहै उस समयके लिये उक्त लेप बडा उपकारी है दो तीन पाखाना अवश्यही कराताहै कभी खाली नहीं जाताऔर भूंख लगती है जब दो तीन दस्त होचुकें तब उक्त लेप को पेटपरसे धो डालना चाहिये।

कफज्वर पर नास।

कायफल, सोंठि, मिर्च, पीपरी छोटी, नकछिकनी, नीमकी छाली ये सब बराबर लेकर बहुत महीन पीस कपडेसे छानकर नाकमें नास सूंघे तो कफज्वर मिटै छींके बहुत आवें माथेका दर्द तुरन्त अच्छा हो।

निम्बादि अरिष्ट।

नीमकी छाली, पत्ते, फूल, फल और जड ये सब १२ तोले सोंठि ३तोले मिर्च ३ तोले पीपरि छोटी ३ तोले हर्रकी बकली ३ तोले आवलाकी बकली ३

तोले, बहेडाकी बकली ३ तोले काला नमक ३ तोले संधानमक ३ तोले सांभर नमक३ तोले सज्जी खार ३ तोले जवाखार ३ तोले अजवाइन ३ तोले इन सबको महीन पीसकर कपडछानकर किसी शीशीमें रखछोडे फिर मासे ६याळखाकर ऊपरसे आधा पाव गर्मपानी पीवे तो अति शीघ्र प्रतिदिनका आनेवाला जाडा बुखार,एकान्तरा, तिजारिया,चौथिया, रात्रिमें आने-वाला ज्वर, दाहज्वर, मलज्वर, सन्निपातज्वर, मधुरा, कफज्वर, इत्यादि सर्व ज्वर अच्छे हों अगर नीमका पंचांग न मिलसके तो फूल अथवा पत्ते इन दोमेंसेजो मिलै उसको छायामें सुखाकर उतनी तौल लेनाचाहि-ये यह निम्बादि चूर्ण सर्व ज्वरोंका नाशक है। इक्कीस दिनसे जब ज्वर अधिक हो जाता है तब उसको वैद्य जीर्णज्वर, परन्तु बहुतसे वैद्य डेढ महीनेसे अधिकदिनवाले ज्वरको जीर्णज्वर कहतेहैं यह बडी मुश्किलसे छूटता है जब देखो कि अनेक दवा दी और जीर्णज्वर नहीं जाता तब वमन विरेचन देकर रोगी-को शुद्ध कर लो फिर यह वसन्तमालती खानेको देओ विधि-खपरिया तोले २ लेकर दोलायंत्रसे गोमूत्रमें अग्निपर चढाकर चार प्रहरमें शुद्ध कर लेना फिर उसी शुद्ध खपरियाको लेकर उससे आधी सफेद मिर्च कि जिसको कंकोल मिर्च कहतेहैं लेना फिर गायके मक्खन मे दोनोंको एक पहर मर्दन करे फिर नींबूका रस डाल-

कर खरल करे जबतक मक्खनकी चिकनाई दूर न हो तबतक नीबूका रस डाल डाल कर बारबार घोटता जावे जब मक्खनकी चिकनाई दूर हो तब इसकी गोली रत्ती २ या ३ की बनाकर छायामें सुखा लेवे फिर एक गोलीको प्रति दिन शहद मासे ६ और पीपरि छोटी महीन पिसीहुई मासा १ के साथ खावे तो कुछ दिन इसके सेवन करनेसे जीर्णज्वरका नाश अवश्य ही हो और शीतज्वर, विषमज्वर, धातुगत ज्वर, लोहूके दस्त, खूनके बिगडनेसे उत्पन्न हुये रोग, घोर व्यथावाले पित्तके रोग,बवासीर,कांच निकलना,प्रदर रोग, सर्व प्रकारके पित्तके रोग और सर्व प्रकारके रुधिरविकारके रोगोंका जडसे नाश हो। बवासीरसे खून गिरता हो तो बन्द होवे नेत्रके अनेक रोग दूर करे यह बहुत उत्तम और अत्यन्त प्रसिद्ध सिद्ध औषधी है कि जिसपर सबका विश्वास है ऐसा ज्ञात होता है कि ये तीन दिव्य अमोघ औषधियां सर्व पुरुष अपने अपने घरोंमें हमेशा रखते थे।एक मालती बसन्त, दूसरा लाक्षादि तेल,तीसरा योगराज गूगुल, क्योंकि प्रत्येक घरोंमें कोई न कोई इन तीनोंका नाम अवश्य जानता है तथा अन्य औषधियोंकी बनिस्बत इनका मान भी अधिक करता है । ऊपर जो दवा बताईगई उसका नाम 'लघु मालती बसन्त' है इसको

साधारण पुरुष भी बनाकर खा सकता है। अब 'बृहन्मालती बसन्त' बनानेकी विधि लिखता हूँ—सोनेके वरक, अनबिंधे मोती, शोधा हुआ सिंगरफ, काली मिर्च ये सब क्रमवृद्धिसे लेओ अर्थात् सोना १ तोला मोती २ तोले हिंगलू ३ तोले मिर्च ४ तोले लेओ और गोमूत्रमें शुद्ध कीहुई खपरिया ८ तोले लेओ फिर सबको खरलमें डाल गायका मक्खन डालकर तीन पहर घोटो फिर नींबूका अर्क डालकर जबतक मक्खन की चिकनांई दूर न हो तबतक बराबर घोटो फिर एक एक रत्तीकी गोली बनाकर छायामें सुखालो फिर १ गोली शहद मासे ६ और पीपरि छोटी पिसीहुई मासा १के साथ खावे तो धातुगत जीर्णज्वर, अतीसार रक्तके सर्व विकार, रक्तातीसार, पित्तके सर्व दारुणरोग, नेत्रके सर्वरोग, प्रमेह, धातुके विकार इत्यादि सर्व रोगोंको यह दूर करे गर्भवती स्त्रियोंके गर्भको पाले. गर्भवती स्त्री अरनीके एक माशा फूलोंके साथ इसको शहद मिलाकर खावे तो बालकके सर्व विकारोंको दूर करे माताके दूध और दो बूंद शहदमें बालकको खवावे। धातु प्रमेहकी बीमारीमें मक्खन मिसरीके साथ ४९ दिन खावे पित्तके सर्व रोगोंमें गायका दूध और मिसिरीके साथ। बवासीरमें छः माशे शक्करमें मिलाकर

एक गोली फांक कर ऊपरसे पाव भर गायका कच्चा ताजा दूध पीवे इत्यादि यह 'बृहन्मालती वसंत' है ।

अथ लाक्षादितैल ।

पीपल वृक्षकी लाख १ सेर लेकर ४ सेर पानीमें औटावे जब एक सेर बाकी रहै तब उतारकर छान लेवे फिर उसमें तेल तिलोंका सेर १ डाले और गायके दहीका पानी निचोड़ा हुआ सेर ४डाले फिर सौंफ, असगन्ध, हल्दी, देवदारु, रेणुका,कुटकी, मरोरफली कूट, मौरैठी, नागरमोथा,लालचन्दन, रास्ना,कमलगट्टा, और मजीठ ये एक एक तोले लेकर पानी डाल महीन बांटकर उसीमें डाल देवे फिर सबको कड़ाहीमें आगपर चढाकर मन्दाग्निसे चार प्रहरमें तेलको सिद्ध करे फिर ठण्डा कर छानकर शीशीमें रख छोडे और नित्य इसकी मालिश किया करे तो जीर्ण ज्वर,विषम ज्वर,ताप,तिजारी, खुजली, शूल, शरीरकी दुर्गन्ध और सर्व शरीरके फोडे दूर हों,माथेका दर्द मिटे। स्त्री लगावे तो गर्भवती हो और गर्भवती लगावे तो गर्भ पुष्ट हो, दाह मिटे इत्यादि यह और भी अनेक रोग दूर करे कभी निष्फल नहीं जाता महा उत्तम तेल है। अथवा दूधमें छोटी पीपरि प्रथम दिन ३ फिर एक एक नित्य बढ़ावे इस वर्द्धमान पीपरिसे २१ दिनमें जीर्णज्वर छूट जाता है ॥

अथ कुर्स कपूर ।

कपूर, केशर ये चार चार माशे मौरेठी बकली छिली हुई, बिहीदाना, खसखस, ये आठ आठ माशे खीरेके बीजोंकी गिरी, ककडीके बीजोंकी गिरी, काहूके बीज, चन्दन गुलाबजलमें घिसा हुआ, तरबूजके बीजोंकी गिरी, ये सब एक एक तोले, बबूलका गोंद दो माशे सबको कूट छानकर गोली बनाले खुराक दो या तीन या चार माशे तक ॥

कुर्स सन्दल ।

चन्दन गुलाबमें घिसा हुआ, माशे ४. जहरमोहरा गुलाबमें घिसा हुआ, सफेद कत्था, खुरफेके बीज, गुलबनफसा, खसखस ये सब चार चार माशे, केशर दो माशे, मीठे कद्दूके बीजोंकी गिरी, बिहीदानेकी गिरी छः छः माशे लेकर सबको कूट छानकर ईसबगोलके लुआबमें या बिहीदानेके लुआबमें गोली बनाले खुराक दो या ३ माशे। यह उत्तम दवा है इससेजीर्ण ज्वर दाह राजयक्ष्मा ये तीनों रोग अवश्य ही आराम होते हैं यह कई बारका परीक्षा किया हुआ है। खूबकलां पावभर लेकर ३ दिनरात नदीके पानी या कुएँमें पोटली बांधकर लटका दो चौथे दिन मलकर छायामें सुखाकर मिट्टीके बर्त्तनमें भरकर रखदेओफिर

गुर्च नीमकी मासे ६ कासनी मासे ९ इन दोनोंको पानी डालकर खूब महीन बांटकर डेढपाव पानीमें छान लेओ फिर पीतल या कांसेके कटोरामें डालकर बिना धुएँकीअग्निपर रखदेओ जब चुरने लगे और कालामैल ऊपर आजाय तब मैलको निकालकर फेंकदेओ और कटोरेको उतार ठंढा करके छानलो फिर उसमें तीन तोले शर्बत बिजूरी मिलाकर पहिले रखीहुई खूबकलां-मेंसे मासे ६ खूबकलां फांककर ऊपरसे वह कटोराकी औषधि पीजाओ इसी तरह ४० दिन करो और खानेको चावल मूंगकी दाल धोई या शक्कर भात गेहूँकी रोटी तुरईकी तरकारी खाओ घी दूध और चिकनाईसे बचे रहो तो ४० दिनमें निश्चय जीर्ण ज्वरका नाश होजावेगा यह औषधि कईबारकी परीक्षा की हुई है. खाली नही जाती ॥ (तर्कीब शर्बत बिजूरी) कासनीके बीज, खरबूजेके बीजोंकी गिरी, ककडीके बीजोंकी गिरी. सब डेढ डेढ तोले, कासनीकी जडकी बकली दो तोले, फिर इन सबको थोडा कुचलकर सेर १ पानीमें आगपर काढ़ा करे जब आधा सेर रह जावे तब कडाहीमें छानदेवे और शक्कर सेर एक उसीमें डालदेवे फिर आधा घण्टा तक मन्द अग्निसे पकावे फिर उतार ठंढा कर बोतलमें भर देवे बस यही शर्बत बिजूरी है और इसी तर्कीबसे सर्व प्रकारके शर्बत बनते हैं ॥

अथ सिंहशार्दूल गोली ।

हींग मासे ४ बच मासे ४ अजवाइन मासे ४ बाय बिडंग तोला १ सेंधनमक तोला१ जीरा सफेद तोला १॥ सोंठि तोला१॥ मिर्च तोले २ पीपरि छोटी तोले २॥कूट तोले २ मासे ८हर्र तोले ३मासे४भारंगी तोले ३ मासे ८चिरायता तोले ४ अजमोद तोले ४ इन सर्व औषधियोंसे गुड दूना ले सुपारी प्रमाण गोली बनावे फिर १ गोली सबेरे और१ शामको खावे तो चौरासी वायु, प्रलाप, सन्निपात, बवासीर, भगन्दर, शाकिनी दोष, भूत, प्रेत, राक्षस, बेताल, पिशाच, मूर्च्छा, अजीर्ण अहार, फोडा, फुंसी, मंत्र,यंत्र, टोना टामण, दीठ, मूठ,पेटपीडा,अफरा,स्थावरजंगमविष,बिच्छूका विष,बावले कुत्तेका विष, अफीम इत्यादिका विष दूर हो जैसे सिंहको देखकर हिरना भागे इसतरह इस औषधिको देखकर रोग भागें यह श्रीधन्वन्तरिजीने अपने पुत्रको बताई है ॥

खूबकलां एक छटांक और मुनक्का एक छटांक इन दोनों को कपडेमें पोटली बांधकर नदीके पानीयाकुएँमें रातभर लटकी रहने दो सबेरे निकालकर उसके ऊपर गेहूँका आटा मांडकर एक एक अंगुल मोटा चढाओ और ऊपरसे कपडा लपेट देओ फिर भाड़ या चूल्हेमें रखदेओ जब गोला लाल होजावे तब निकालकर

ठंढा कर दोनोंको बांटकर झडबेरीकी बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखालो फिर उसमेंसे एक गोली एक छटाक शर्बत शक्करके साथ सात दिन तक खाओ तो एकांतरा ताप, तिजारी, चौथिया इत्यादि सर्व ज्वर दूर हों। प्रथम मुनक्का लाकर उनके बीज निकालकर फेंकदेओ तब पोटली बांधो यह उत्तम दवा है कभी खाली नहीं जाती कईबारकी परीक्षा की हुईहै॥

जब देखो, कि अनेकदवाकरने पर भी ज्वरछूटताही नहीं तब रोगीके कन्धेके बराबर लम्बा और एक गज चौड़ागोलगड्ढ़ा खोदकर उसमेंखूबआगजलाओयहां तक कि गढ़ा सर्व तरफसे लाल और खूब गर्म होजावे फिर उसमेंसे सब आग निकालकर फेंकदेओ औरनीम की हरीरकनइयां लेकर डोरेमें बांधकर उस गढेमें इस किस्मसे लटकाओ कि गढा कहीं पर खुला न रहे फिर रोगीको उसमें खड़ा करो और चौथाई याआधा घण्टा खड़ा रक्खो पसीना खूब आवेगा जब रोगी बहुत घबरावे और कहेकि, अब दम निकलताहै जल्दी निकालो तब निकाल लो और पसीना पोंछकर निर्वात स्थानमें चारपाईपर बिठादो और गुर्चका सत मासा १ शहद माशा३ में मिलाकर तुरन्त चटादो और एक पावभर अच्छा गुलाबजल लेकर उसमेंएक छटांक मिसरी डालकर ऊपरसे पिलादो। फिर पान

इलायचीसे युक्त खानेको देओ तो मन प्रसन्न हो शरीरमें बल बढे ज्वर दूर हो यह अनेकबारका परीक्षा किया हुआ है ॥

अथ अतीसार चिकित्सा ।

दस्त होनेका नाम अतीसार है, वह ६ प्रकारका है यथा वातका १, पित्तका २, कफका ३, सन्निपातका ४, शोकका ५ और आमका ६, कसौंदीकी जड माशे ६ चांवलोंका धोवन तोले ४ में पीसकर पीवे तो दस्त बन्द हों यह बालकों और वृद्धोंको अत्यन्त लाभ-दायक है। अथवा लोहेके पात्रमें,थोडेसे घीमें हर्र भूने फिर ३ या ४ मासे खावे तो दुर्बल पुरुषका अतीसार दूर हो। अथवा इन्द्रजौका वृक्ष कि, जिसको कुटज या कुरैया कहते हैं उसकी छाली तोले४लेकर आधा सेर पानीमें काढा करे जब आधा पाव रहे तब ठंडा कर पीवे तो दस्त बन्द हों ॥

जायफल, छुहारा, अफीम ये तीनों एक एक माशा लेकर बंगलापानके अर्कमें महीन पीसकर चनेकी बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखा लेवे फिर १ गोली खाकर ऊपरसे गायका आधा पाव मट्ठा पीवे तो घोर अतीसार जाय। अथवा आमकी गुठलीकी गिरीतोला१,बेलगिरी तोला१इसकाआधासेर पानीमें

काढा करे जब डेढ छटांक रहे तब उतार छान ठंढा कर उसमें शहद माशे ६ और शक्कर माशे ३ डाल-कर पीवे तो वमन व दस्त दोनों बन्द हों। अथवा नकछिकनीको जलाकर राख करे वह राख तोला १, अजवायन तोला १, सोंठि तोला १, इनको पीस कर गुड़ तोले ३ मिलाकर जंगलीबेरके बराबर गोलियां बनाले फिर १ गोली एक मासा घीके साथ खावे तो नाभि अर्थात् पोतनारीके टलजानेसे जो दस्त होते हैं उनको तुरन्त बन्द करे। अथवा फटकरी तोला १, माजूफल तोला १ दोनोंको महीन पीसकर सिरकामें मिलाकर नाभिपर लगाकर ऊपरसे कड़ी पट्टी कपडेकी खूब खैंचकर बांध देवे तो पोतनाड़ी अर्थात् बाउटे हटजानेसे जो दस्त होते हों सो बन्द हों॥

अनारकी कली मासा १, बबूलकी हरी पत्ती मासा १,सौंफ घीमें भुनी हुई मासा १,खसखस (पोस्तादाना) जलाकर राख करदे वह राख मासे ३ फिर सबको एकमें मिलाकर रत्ती२वा तीन माके दूधसे बालकको देवे तो बालकके दस्त बन्द हों। अथवा बेलकी गिरी मासा १ कत्था सफेद मासा१ दोनोंको बारीक पीसकर रत्ती ४ माके दूधसे देवे तो बालकके वह दस्त जो कि दांत निकलनेके समय होने लगते हैं दूर हों। अथवा अतीस रत्ती ४ को पीसकर माके दूधसे देवे तो बालकके

दस्त बन्द हों अथवा बडका दूध माशे ६ तोंदीमें भरदे तो दस्त बंदहों अथवा आमकी छाली तोला १ को दही या सिरकामें चंदनकी तरह घिसो फिर तोंदीके चारों तरफ़ गाढ़ा गाढ़ा लेप करे तो दस्त बंद हों अथवा कैथाके बीज माशा ३ भून कर खावे तो पुराना अतीसार दूर हो। गूलरका दूध एक मासा भर बताशे में रखकर खावे तो दस्त बंद हों । जामुन, आम, आमला इन तीनोंके हरे पत्तोंका स्वरस मासे दो दो भर निकालकर उसमें बकरीका दूध तोला १ और शहद मासे ३ मिलाकर पिये तो खूनके दस्त बंद हों। शतावरी तोला दो का आधापाव पानीमें काढा करे जब एक छटांक रह जावे तब बकरीका दूध छटांक एक डालकर पीवे तो खूनके दस्त बंद हों। गायकादूध तोले ५, मक्खन तोला १, मिसिरी मासे ६, शहद मासे ३ डालकर पीवे तो दस्तसे लोहूका गिरना बंद होवे। काले तिल तोला १ को एक छटांक पानीमें बांटकर मिसरी मासा ६ मिलाकर बकरीका दूध आधपावसे पीवे तो दस्तसे खूनका गिरना बंद होवे। अगर बहुत दस्तोंके होनेसे पाखानेकीजगह पकजावे या दर्द करने लगे तो बकरीका दूध पावभर, शक्करतोले २, शहदतोले २ डालकर धोवे तो आराम हो। गायके आधापावदही में शहद तोला १ डालकर पीवे तो दस्त बन्द हों।

धानकी खील तोले २ को तीन छटांक पानीमें आग पर पकाकर खावें तो ज्वरमें जो दस्त होते हों सो बन्द हों अथवा इसबगोलकी भूसी मासे ३ और शक्कर मासे ३ दोनोंको आधपाव शर्बत या ठंडे पानीसे खावे तो खूनके दस्त बहुत पुराने भी बन्द हों । यह कईबारका परीक्षा किया हुआ है । आमलाकी पत्ती बबूलकी पत्ती आमकी पत्ती इन तीनोंका स्वरस मासे दोदोभर और शहद मासे ६ इसीमें मिलाकर खावे तो सर्व प्रकारके दस्त बन्द हों ॥

लघुलीलावती बटी ।

जावित्री, जायफल, नागकेशर, लौंग, अफीम इन सबको चार २ मासे ले महीन पीस पानीसे रत्ती रत्ती भरकी गोली बांधकर छायामें सुखालेवे फिर सफेद जीरा रत्ती ४ और सोंठि रत्ती ४ दोनोंको पीसकर उसीमें एक गोली रखकर फांकलेवे और ऊपरसे एक छटांक ठंडा पानी पीवे तो दाह वा प्यास युक्त अतीसार एकही खुराकमें बन्द हो यह कईबारकी परीक्षा की हुई है कभी खाली नहीं जाती उत्तम है । करेलाकी पत्तीका स्वरस, अनारकी पत्तीका स्वरस, मासे तीन तीन इसमें बकरीका दूध तोला १ मिलाकर फिर उसमें रूई भिगोकर नाभिपर रक्खे तो सर्व प्रकारके दस्त बन्द हों । अथवा आँवले आधी छटांक लेकर खूब

महीन पीसे फिर रोगीको सीधा लिटाकर तोंदीके चारों तरफ गोलाकार परिधिसी मेंड बांध देवे और नाभिमें खूब अदरखका स्वरस निचोड़ देवे तो सर्व प्रकारके दस्त बन्द हों ।

अथ लीलावती बटी ।

बच, रूमीमस्तंगी, अनारकी कली, वंशलोचन, आमकी गुठिली, लोध, मौरेठी, धवईके फूल, मोचरस, कुडाकी छाली, जायफल, बबूरकी कली, माईं ये सब एक एक तोले लेवे और सफेद कत्था सबसे दुगुना लेवे और कत्थासे दुगुनी कुम्हडाके बीजोंकी गिरीलेवे फिर सबको बारीक पीस छानकर पोस्तादानाके पानीमें चार चार मासेकी गोलियां बांधे फिर १गोली चावलके धोवनके साथ खावे तो सात भांतिका अति सार जाय । पथ्य दही भात । यह गोली हजारोंबार की परीक्षाकी हुई हैं और सर्व प्रकारके दस्त बन्द करनेके लिये रामबाण सरीखी अमोघ हैं यह गोली वैद्योंको प्रशंसित करती हैं ॥

अथ संग्रहणीचिकित्सा ।

अतीसारमें पतला दस्त होता है और संग्रहणीमें गाढा मल दर्द होहोकर बहुत ही थोड़ा थोड़ा निकल ता है इतना भेद है यह संग्रहणी ४ प्रकारकीहै-वातकी

पित्तकी, कफकी, त्रिदोषकी। तीन मासे आमके मौरको महीन पीसकर बासी पानीके साथ पीवे तो संग्रहणी जाय। अथवा राल मासे४या६को महीन पीस गुड या शक्कर मासे ६ में मिलाकर बकरीके दूध या पानीसे खावे तो संग्रहणी दूरहो। मरोरफली तोला १एकछटांक पानीमें बांट छानकर पीवे तो संग्रहणी दूर हो। अथवा फालसेकी जड तोला दोको खूब बारीकबारीककाटकर एक छटांक पानीमें रातभर भिगोदे सबेरे मलकर छान ले और ईसबगोल मासे ६ फांककर ऊपरसे फालसेका पानी पीले तो संग्रहणी दूर हो। गोंद बबूरका मासे९ को आधा पाव ठंडे पानीके साथ ३ दिनतक खावे अगर दस्त अधिक आते हों तो इसीमें खसखस मासे ३ और मिलाले तो तुरन्त ही संग्रहणी बन्द हो अथवा अफीम तोला १, चूना सीपका तोला १, दोनोंको पानीसे पीसकर मसूरके बराबर गोलियां बनाले फिर १ गोली सबेरे और एक शामको खावे तो सर्वप्रकारकी संग्रहणी और अतीसार दूर हों। अथवा खजूरके फल मासे ६ गायके दो तोला दहीके साथ खावे अथवा कतीरा गोंद मासे ६ रातको आध पाव पानीमें भिगोदे सबेरे मलकर शक्कर तोला १ डालकर पीवे तो संग्रहणी जाय। अथवा लहसोडेकी कोमल,पत्ती मासे ३ बाटकर खावे याजीरा सफेद मासे

६गायका दही तोला २ के साथ खावे अथवा सुपारी चिकनी३जलाकर उसकी राख गायके दो तोलादहीमें मिलाकर खावे अथवा सफेद मूसलीमासे ६ कोमहीन पीसकर गायका मट्ठा आधापावके साथ पीवे अथवा शंखकी भस्म मासे २ सेंधानोंन मासे २ इनको शहद मासे ३ के साथ खावे तो संग्रहणी दूर हो । अथवा भांग मासे २ को भूनकर शहद मासे ३ के साथ चाटै तो संग्रहणी जाय । अथवा मसूर तोले २ को तीन छटांक पानीमें भिगोय देय और काढा करे जब १ छटांक पानी बाकी रहै तब उसमें बेलगिरी मासे ६ डालदे जब देखे कि बेलगिरी गलगई तब उतार छान ठंडा कर पीवे तो संग्रहणी, आम, पांडुरोग, कामला व कोखका दर्द दूर होवे । अथवा सोंठि, मिर्च,पीपरि ये दो दो मासे लेकर शहद मासे ६ से चाटे तो आंव दूर हो अथवा अफीम और केशरको शहदमें घिसकर एक चावल भर देनेसे सर्व अतीसार व संग्रहणी दूर हों। संग्रहणी रोगवाला अनाज कम खाया करे, और गायके मट्ठेमें काला नमक सोंठि डालकर खूब पिया करै तो संग्रहणी दूर हो ॥

अथ बवासीरचिकित्सा ।

चरक सुश्रुतमें बवासीर६ प्रकारकी कही है अर्थात् वातकी १,पित्तकी२, कफकी ३, त्रिदोषकी ४, रुधिर

की ५,सहज ६ परन्तु लोकमें खूनी व बादी ये ही दो प्रसिद्ध हैं ॥

काले तिल तोला १,मक्खन तोला १ ये दोनों सबेरे आठ दिन तक खाय तो खूनी बवासीर जाय। नागकेशर मासे ६, मिसिरी मासे ६, मक्खन मासे९ सब मिलाकर७दिनतक सबेरे खावे तो खूनी बवासीर जाय। जंगली गोभीकी तरकारी घीमें पकाकर सेंधानमक डाल रोटीके साथ आठ दिन खावे तौ छओंप्रकार की बवासीर जाय। बबूलकी पतली फली जिनमें बीज न पड़े हों छायामें सुखाकर पीसछान मासे६ पानीके साथ दिन१५खावे तो सर्व प्रकारकी बवासीर जाय। कड़ुई तोंबीको सिरकामें महीन पीसले और फिर पाखानेकी जगहमें लेप करे तो शीघ्रही बवासीर जडसे आराम हो यह कईबारका परीक्षा किया हुआहै।अथवा शोधे हुए कुचिले महीन पीसकर प्रथम दिन रत्ती ४ शक्कर मासा १ में मिलाकर खावे और प्रतिदिन दो रत्ती बढाता जाय तो२१दिनमें छः प्रकारकी बवासीर २० प्रकारके प्रमेह १८ प्रकारके कोढ और कृमि इतने रोगोंका जडसे नाश हो ॥

कुचिला सोधनेकी विधि ।

वैद्यकके सबही ग्रन्थोंमें लिखी है परन्तु एक सर्वों-

त्तम विधि जो कहीं नहीं लिखी वही लिखता हूं इसविधिसे कुचिला शोधनेसे कटुताई भी दूर होजाती है। विधि–कुचिला पाव भर लेकर आधा सेर मुल–तानी मट्टीको दोसेर पानीमें घोलकर कड़ाही व मिट्टीके बर्तनमें डालकर उसीमें कुचिला डालकर आगपर रखदे और एक पहर मन्दाग्निसे पकने दो फिर निकालकर गरम पानीसे धोकर छुरीसे ऊपरकी बकली छोलकर कुचिलाको चावलके समान कतर कर छायामें सुखाकर बोतलमें रख छोडो। यह बहुत उत्तम औषधि है यह नित्य खानेसे ८४ प्रकारके वातरोगोंको जड़से खोदेता है। नसोंमें ताकत आनेके लिये इससे बढकर और कोई दूसरी दवाही नहीं है यह अनुपान योगसे लकवा जलन्धर बदनका रहजाना ग–ठिया कोढ सबको दूर ही करदेती है कभी निष्फल नहीं जाती तथा कामदेवके बलकोअत्यंतही बढा देतीहै।यह कफरोगके नाश करनेकी अतिउत्तम दवा है यह बावले कुत्तेके विषको जडसे नाशकरदेती है आगे इसी किता–बमें तुमको कुचिलेके अनुपान इत्यादि मिलेंगे। माल–काँगनी तोला १को पानीसे बाँटकर लेप करे तो खूनी बवासीर दूर होवे।सफेद घोंघची मासे ६, पेठेके बीज मासे ६, जमीकंद मासे छः इन तीनोंको पानीसे महीन पीसकर कपड़ेपर लेप कर बत्ती बनालो फिर

वह बत्ती पाखानेकी जगहमें तीन अंगुल प्रवेश करो तो अन्दरके मस्से और बादी बवासीर दूर हों परन्तु ३ दिनतक करना चाहिये।सरसोंके तेलमें राल सानकर आगपर रखकर पाखानेके मुकाममें धुआँ देवे तो खूनका गिरना बन्द हो। अथवा कपूरकी धूनी दे तो खून गिरना तुरंत बन्द हो।एक छटांकभर चावलोंको पाव भर पानीमें भिगोदे फिर ३ घण्टे बाद मलकर छानले बस यही चावलोंका पानी सर्वत्र काम आताहै।कमल की केशर, शहद, मक्खन, नागकेशर, शक्कर ये सब मासे तीन तीन लेकर एकमें मिलाकर खावे दिन ९ तो खूनी बवासीर दूर हो। हल्दी तोला २ को महीन पीसकर थूहरके दूधमें भिगोदे फिर सूतका मजबूत ऐंठा हुआ १ डोरा उसीमें डालदे तीनदिन भीगनेके बाद चौथे दिन निकालकर छायामें सुखाले इसीप्रकार ग्यारह बार डोरेको भिगो भिगोकर सुखावे फिर उसी डोरेसे बवासीरके मस्से बाँधे तो मस्से कटकर गिरपड़ें और भगन्दरकी गांठपर बाँधे तो वह भी दूर हो। यह कईबारका परीक्षा किया हुआ है। हल्दी और कडुई तुरईको बांटकर बवासीर पर लेप करे अथवा आकके पत्तोंको बारीक बांटकर लेप करे अथवा कुकुरौंधेके पत्तोंको बारीक बांटकर लेप करे अथवा तमाखूके पत्तोंको बारीक बांटकर लेप करे अथवा सहिंजनेके

पत्तोंको बारीक बांटकर लेप करे अथवा नीम और पीपलके पत्तोंको बारीक बांटकर लेप करे अथवा कडुई तोंबी और गुडको सिरकामें महीन पीस कर लेप करे अथवा बडके पीले पत्तोंको भस्म कर उसकी राख मासे ६ सरसोंके तेलमें मिलाकर लेप करे अथवा काले सांपकी कैंचुलीकी भस्म सरसोंके तेलमें मिलाकर लेप करे तो बादी बवासीर अवश्य ही दूर हो। ऊपरके सर्व लेप कईबारके परीक्षा किये हुये हैं। सेंधानोन मासे ३ देवदाली कि, जिसको घूँघरबेल और बन्दाल भी कहतेहैं जो गुर्चकी तरह एक प्रकार-की बेलि दरख्तोंपर चढती है मासे ३ देवदालीके बीज लेकर दोनोंको सिरकामें महीन पीसकर बवासीरके मस्सोंपर लेप करे तो अतिशीघ्र ही अर्थात् दो तीन बारके लेप करनेसे ही बवासीरके सर्व मस्से गलकर गिरजावें यह अनेक बारका परीक्षा किया हुआ है। और कभी झूठ नहीं होता एक जगह इसकी प्रशंसा एक बडेभारी वैद्यने ऐसी लिखी है कि, कौन कहता है कि, इसके लेप करनेसे बवासीरके मस्से नहीं गिरते हैं यह लेप अगर पहाड पर करदिया जाय तो वह भी टूटकर गिरपडे अथवा उक्त देवदालीका काढा कर उस से आबदस्त लेवे और एक तोला महीन पीसकर एक

छटांक पानीमें छानकर पीवे तो मस्से कटकर गिर जावें बवासीर दूर हो ॥

बवासीर नाशक सिद्ध मन्त्रः ।

ॐ भिभित्तिद्विः ॐ ठः निवासिनि गरलं विषं स्वजीर्ण संभवं नानार्शं नाशय नाशय ठं ठं ठं फट् स्वाहा ॥

विधि–इस मन्त्रसे कुशोंके द्वारा जल सात बार पढकर पीवे तो ७ दिनमें बवासीर दूर हो ॥

अथ द्वितीयमन्त्रः ।

ॐ काली काली महाकाली मतरो बहुभिर्गच्छ यत्किंचिद्विहितं तत् कुरु कुरु स्वाहा ॥

विधि–इस मन्त्रसे जलको ७ बार पढके प्रातःकाल पीवे तो बवासीर दूर हो ॥

अन्य मन्त्रः ।

ॐ काका करता करोरि करता आकर करता जो जो करता सो सो होय हेरसना रसहीसे परबस विष दूर होयदुहाई लोनाचम्मारीकी ॥

विधि–एक लोटामें पानी भरकर उस पानीपर २१ बार मंत्र पढकर फूँक दो परंतु लोटेको हाथमें रक्खे रहो फिर वही पानी लेकर पाखाने जाओ परन्तु लो- टेको जमीन पर मतरक्खो और उसी पानीसे आबदस्त

लेओ तो बवासीर दूर हो परंतु ऐसा ११ दिन करो। ये तीनों मंत्र अनेक बारके परीक्षा किये हुये हैं। अथवा महानीमके बीज ११, शक्कर मासे ६ मिलाकर पानीसे पीवो तो खूनी बवासीर अवश्य ही दूर हो स्यारकी खालके मोजा बनाकर पहिरे तो बवासीर जाय। अथवा २५ बिच्छुओंको सरसोंके तेलमें डालकर ४० दिनतक धूपमें रक्खेफिर उस तेलकी मालिश बवासीरके मस्सोंपर करे तो मस्से अच्छे होवें।सीपका चूना पानी डालकर झडबेरीके बेर बराबर प्रतिदिन खावे तो २१ दिनमें बवासीर दूर हो। पाखाना फिरकर वह जगह आकके पत्तोंसे पोंछे। नीमके बीजोंका तेल निकालकर मस्सोंपर मले। सोवाके बीज तोले ३ पानीसे महीन पीसकर टिकिया बनाकर पाखानेकी जगहमें बाँधे ऊपरसे आकका पत्ता या तमाखूका पत्ता या अरंडका पत्ता बाँधे तो तीन दिनमें बवासीरके मस्से कटकर गिरपड़ें यहउत्तम दवा परीक्षाकी हुई है। बवासीर वाला खटाई,मिठाई और बादी वस्तुएँ और दिनमें सोना, मैथुन करना छोड देवे मूलीकी तरकारी,जंगली गोभीकी तरकारी,कुसुमके पत्तोंकी तरकारी,जमींकंद और करेलेकी तरकारी खावे। हारसिंगारके बीजोंकी मींगी तोला १ कालीमिर्च मासे ३ इनको पानीसे पीसकर तीन तीन मासेकी

गोलियां बनाकर ठंडे पानीसे १ गोली रोज खावे तो अतीव चमत्कार यह दवा दिखावे। गायका कच्चा दूध आधासेर एक कटोरामें रखकर एक घूँट पीवे फिर बडी जल्दी और फुर्त्तीके साथ एक कागजी नींबूका रस उसी कटोराके दूधमें निचोडकर तुरन्त ही पीजावे देरी एक मिनटकी भी न करे तो तीन दिन इस प्रकार करनेसे यह औषधि अद्भुत चमत्कार दिखावे। कुकुरौंधेका स्वरस एक सेर लेकर कडाहीमें डालकर मन्दाग्निसे औटावे जब गाढ़ा होजावे तब कालीमिर्च मासे६ पीसकर उसीमें मिलाकर जंगलीबेरकी बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखाले फिर १ गोली सबेरे और १ गोली शामको खायाकरे और इसी गोलीको सरसोंके तेलमें पीसकर पाखानाकी जगहपर रोजलगायाकरे तो २१ दिनमें सर्व प्रकारकी बवासीर जायँ।करंजकी मींगी मासे ३ शक्कर मासे ६ मिलाकर सबेरे २१ दिनतक खावे तो सर्वप्रकारकी बवासीर जायँ।अथवा निर्मलीके फलको जलाकर उसकी राख मासे ३ शक्कर मासे ३ मिलाकर सबेरे दिन १९ खावे। बबूलके फूल या फल मासे ६ शक्कर मासे ६ मिलाकर खावे। आंधाहूँली छायामें सुखाकर उसकी आधी कालीमिर्च मिलाकर महीन पीसले फिर सबेरे ठंडे पानीसे तोला १ दिन १९ खावे तो सर्वप्रकारकी बवासीर दूर हो। भांगकी

पत्ती, नींबकी पत्ती, अमिलीकी पत्ती, बकायनकी पत्ती, सम्हाळूकी पत्ती, नीलकी पत्ती ये एक एक छटांक लेकर सेरभर पानी आगपर औटावे फिर बांसकी नलीसे उसकी भाफ पाखानेकी जगहमें ले तो बवासीर जाय।कुचिलेको आगपर रक्खे और उसका धुआं पाखानेकी जगहमें दे तो दर्द और लोहू तुरन्तही बन्द हो। कचनार, जामुन, मौलसिरी इन तीनोंकी छाली तोले दो दो लेकर जवकुट कर आधासेर पानीमें काढा करे, जब पावभर रह जावे तब उतार ठंढा कर पाखानेकी जगहको उससे धोवे सात ७ दिन करे तो सर्वप्रकारकी बवासीर दूर हों। अथवा सोवाके बीज तोले २ को पानीमें पकाकर पानीसे पीसकर टिकिया बना कर पाखाना फिरनेकी जगह पर रक्खे और ऊपर उसके फिटकरी तोला १ आगमें भूनकर घीमें रगडकर रुईके फोहेमें लगाकर उसी टिकियाके ऊपर रखदे और ऊपरसे एक पान लगाकर लँगोटसे खूब जोरसे कसकर बांधदे और सबेरे बाँधे सो शामतक बँधारहे और शामको बांधे सो सबेरे तक बँधारहे इसी प्रकार ७ दिन बांधे तो ८० वर्षके भी मस्से सर्व बैठ जावें और बवासीर दूर हो यह बहुत उत्तम दवा है और कई बारकी परीक्षा की हुई है अथवा शोरा कलमी मासे ३ फिटकरी भुनीहुई मासे ३ दोनोंको पीसकर साबुनके

पानीमें छोटी सुपारीकी बराबर गोलियां बनावे और मस्सोंपर लगावे तो मस्से दूर हों अगर मस्से भीतर हों तो आबदस्त लेनेके बाद एक गोली अन्दर प्रवेश कर दे और ऐसा ही ३ दिन करे तो तीन ही दिनमें मस्सोंको अवश्य ही दूर करे यह हमारे पढाये हुये लालमनने कईदफा परीक्षा किया है॥

धूप।

मनुष्यके बाल, सांपकी केंचुली, बायबिडंग, आककी जड़, छिकुराके पत्ते, मेढासींगी, हींग इन सबको बराबर लेकर आगपर रख कर उसका धुआँ बवासीरको देवे तो अतिशीघ्र बवासीर दूर हो। अथवा रसौंत तोले४, शोरा कलमी तोले ४ दोनोंको पीसकर मूलीके रससे झडबेरीके बेरकी बराबर गोलियां बनाकर छाया में सुखाले और सबेरे ४गोली रोज पानीके साथ खावे तो खूनी व बादी बवासीर दूर हो यह कई बारका परीक्षा किया हुआ है। आंबाहल्दी और सफेद मोम दोनों बराबर मिलाकर जुआरके बराबर गोलियां बनालो फिर प्रतिदिन सबेरे १ गोली पानीसे दिन१५ खाओ तो खूनी व बादी दोनों प्रकारकी बवासीर अच्छीहो। अथवा चाकसू तोला १, बंशलोचन, इलायची सफेदके बीज, मूलीके बीज, कत्था, रसौंत हर एक छःछः मासे तन्तरीककी छाल५तोले सबको कूट छान

कर जंगली बेरकी बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखालो फिर प्रति दिन एक गोली पानीके साथ खाओ तो खूनी बवासीर अच्छी हो ॥

अथ भस्मकचिकित्सा ।

चाहै जितना खावे परन्तु भूख लगी रहै और भूखा भूखा चिल्लाया करै यह भस्मक रोग है यह असाध्य होता है ।

लटजीराके बीजोंको दूधमें पकाकर खावे तो भस्मक जाय । बेरकी गुठलीकी मींगी तोले२को पानीसे बांटकर पीवे तो भस्मक अवश्य ही दूर हो । गूलरकी छाल तोला १ स्त्रीके दूधमें बांटकर ७ दिन पीवे तो भस्मक दूर हो । अथवा सफेद चावल तोले १० को आधासेर ऊँटनीके दूधमें खीर पकाकर दिन ३ खावे तो १२दिन तक भूख बिलकुलही न लगे और भस्मक रोग दूर हो । अथवा बिदारीकन्दका स्वरस तोले १०में भैंसका घी तोले २०डालकर सिद्ध करे फिर उस घीके पीनेसे भस्मक रोग अवश्यही दूर हो ।

अथ अजीर्ण रोग (हैजा) की चिकित्सा ।

अजीर्ण४प्रकारका है आमाजीर्ण१,विदग्धाजीर्ण२, विष्टब्धाजीर्ण३,रसशेषाजीर्ण४इसको मुसलमान लोग हैजा कहतेहैं लौंग तोला १का एकसेर पानीमें काढा करे

जब एक पाव जलजावे तो उतार ठंडा कर जब हैजा लगे तब यही पानी थोडा थोडा पीवै ॥

पोदीनाकी ३० पत्ती, कालीमिर्च ३, काला नमक मासा १, इलायची छोटी भुनीहुई दो, अमिली कच्ची या पक्की मासा १ इन सबको पानीसे महीन बांटकर चाटे वमन व दस्त और पेटका दर्द उसी समय बन्द हो और प्यास भी मिटै ॥

लेप ।

हींग सोंठि मिर्च पीपरि सेंधानोंन ये सब एक २ मासा लेकर इनको पानीसे पीसकर पेटपर लेपकर सो रहै तो सर्व प्रकारके अजीर्ण दूरहों । जौके आटाको पानीमें सानकर उसमें जवाखार व गायकी छांछ मिलाकर गर्म कर गर्मागर्म पेटपर लेप करे तो पेटका दर्द और अफरा दूर हों।अथवा सरसोंके तेलको आग पर गर्म कर गर्मागर्म शरीरमें मालिश करे तो सर्व शरीरका दर्द व पेटका दर्द और हाथ पैरकी अंगुली अगर खाली जाने लगी हों और उनमें तशन्नुज आगया हो तो उसी तेलके मालिशसे वह भी दूर हो अथवा लाल मिर्च ११ को नींबूका रस डाल डाल कर ४० दिन तक खरल करे फिर दो २ रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें सुखाकर १ गोली साथ पानके खावे तो अजीर्ण दूर हो क्षुधा लगे यह परीक्षा किया हुआ है अगर गुलाबजलमें एक जौकी बराबर दरियाई

नारियल व पपीता घिसकर चटावे तो दस्त व कै बन्द हों ॥ अफीम रत्ती १, कपूर रत्ती २, काली मिर्च रत्ती २, हींग रत्ती२, सोंठि रत्ती २ इन सबको पीसकर मूँगकी बराबर गोलियां बनाले और १ गोलीसे ४ गोलीतक दिनभरमें दे तो हैजा दूर हो । सिरसकी हरी पत्ती मासे ३, कालीमिर्च १२ इनको एक छटांक पानीमें बांटकर पीवे तो पेटका दर्द दूर हो । चूहेकी मेंगनी तोला १, सौंफ तोला १, दोनोंको पानीमें पीसकर गर्म कर पेटपर लेप करे तो पेटकी पीडा और स्त्रीके गर्भाशयकी पीडा और पोतनाडी व बाउटकी पीडा व पेटकी सर्व पीडा दूर करे । निर्मलीको पानीमें चन्दनकी तरह घिसकर तोला १ गुनगुनी करके तोंदी के चारों तरफ लेप करे तो पेटका दर्द दूर हो॥ आककी जड तोले २ को अदरखके अर्क तोला दोमें खरल करे और कालीमिर्चके बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखाले फिर १ गोली हैजावालेको दे तो मरता भी हो तो भगवान्‌की दयासे बच जावे यह बहुत उत्तम दवा है ॥ छोटी इलायचीकी बकली एक तोला पानी एक सेरमें काढा करे जब आधासेर रहजावे तब ठंढा कर प्यास लगे तब पिया करे । पेठाके फूल मासे ३ एक छटांक पानीमें घोटकर पीवे तो हैजा तुरन्त ही अच्छा होवे। अथवा सरफोंकाकी जड मासे २

या बरियारीकी जड़ मासे ३ तितलीकी पत्ती मासे छः पानी तोले दोमे बांटकर पीवे तो हैजा दूर हो। अथवा लालमिर्चका बीज १ थोडेसे मोंममें गोली बनाकर निगल जावे तो हैजा दूर हो॥

अथ कृमिरोगचिकित्सा।

कृमि दो प्रकारके हैं एक बाहरके जैसे जुआं वगैरः दूसरे भीतर के जैसे चुन्ने वगैरः। भीतरके कृमि ४ प्रकारके हैं और अलग अलग नामोंसे बीस प्रकारके हैं॥

बायबिडंग मासे ९ को शहद एकतोलासे खावे तो पेटके सब कीड़े दूर हों। पलासके बीज मासे ९ को महीन पीस शहद या मट्ठासे खाय तो पेटके कृमि दूर हों। कबीला मासे ३ को गुड़ तोले छः में मिलाकर खावे तो ३ दिनमें पेटके सबकृमि नाश हों। धतूरेके पत्तोंका स्वरस या पानके पत्तोंका स्वरस तोले ३ में पारा तोला १ घोटकर शिरके बालोंपर लेप करे तो जुआं व लीख सब दूर हों। खुरासानी अजवाइन मासे ६ को पीसकर गुड तोला १ में मिलाकर बासी पानीसे तीन दिन खावे तो पेटके सब कृमि बाहर निकल पड़ें। इन्द्रायनके पके फलका थोड़ासा गूदा लेकर लोहेके पात्रपर रखकर आगमें गर्म करे जब धुआं

निकलने लगे तब उस धुएँको दांत डाढमें जहाँ कीड़ा लगा हो वहां लगनेदे कीड़ा तुरन्त ही मरजावे। छोटे बच्चोंके अगर चुन्ने होजावें तो अरंडके पत्तोंका स्वरस या घमिराके पत्तोंका स्वरस या धतूरेके पत्तोंका स्वरस तीन दिनतक तीन तीन बार मलस्थानमें लगाया करै तो सब चुन्ने दूर हों। घमिराका रस, धतूरेका रस, बङ्गलापानका रस तीन तीन मासे लेकर सबको मिला कर तीनदिन तक दिनमें तीन दफे अंगुलीमें लगाकर बालकके पाखानेकी जगहमें लगावे तो सब कीड़े बाहर निकल आवें। खजूरके पत्ते तोले२का डेढपाव पानीमें काढा करे जब आधापाव रहे तब उतार छान एक दिनरात रक्खा रहने दे दूसरे दिन उसी बासी काढ़ामें शहद मासे ६ डालकर पीवे तो महादारुण कृमियोंका नाश होवे परन्तु ७ दिन करे। अथवा कच्ची सुपारीको मीठे नींबूके अर्कमें तीन पहर तक घोटकर पीवे तो दारुण कृमि नाश हों। पक्की खजूर एक छटाँक खाकर ऊपरसे दो जंभीरी नींबू चूसै तो मलके सर्व कृमि दूर हों॥

अथ पांडुरोगचिकित्सा।

पाँडुरोग५प्रकारका होता है-वातका १, पित्तका२, कफका ३, त्रिदोषका ४, मिट्टीखानेका५; इसी पांडुके

और भी भेद हैं कामला और हलीमक । कामलाको कोई कमलवाय या कवल, और फारसीमें यरकान कहते हैं इसमें आंखें व पेशाब व पाखाना सब पीला होजाताहै। लुहारकी दूकानपर जब हथियार या लोह पीटनेपर जो मैल जमा रहता है उसको कीटी कहते हैं उसको लेकर महीन पीस मासा १, गुड मासे ६ में मिलाय दिन ११ खावे तो पांडुरोग जाय । लोहेके मैलको तपाकर गोमूत्रमें बुझाकर ठीक कर लेवे रत्ती४, फिर शहद मासे ६, घी मासे ३ में मिलाकर चाटे तो पांडुरोग जाय। और असाध्य भी उदरशूल नष्ट हो यह परीक्षा किया हुआ है। अथवा त्रिफलेका चूर्ण मासे ६ शहदमें मिलाय खाय तो पांडुरोग जाय । दारुहल्दीका चूर्ण मासे ६ अथवा गुर्चका चूर्ण मासे ६ या कालीमिर्च मासे ६ शहदसे चाटे तो पांडुरोग जाय। गोमाके स्वरसका आंखोंमें अंजन करे तो कमलवाय दूर हो। घीगुआरपाठाके रसकी नास लेवे तो कमलवाय दूर हो। गेरू, आमला, हल्दी इनको बराबर बराबर पानीमें चन्दनकी तरह घिसकर आंखोंमें अंजन करे तो कामला दूर हो । कुटकी मासे ६, शक्कर मासे ६ मिलाकर पानीसे पीवे तो कामला जाय। पलासके फूल ३ तोले रातको पानीमें भिगो दे सबेरे मलकर वही पानी पीवे। चन्दनको पानीमें

घिसे मासे ३ फिर उसीमें आंबाहल्दी मासे ५ घिसे फिर शहद मासे ६ में मिलाकर चाटे दिन ७ भोजन दालभात । देवदालीके पत्तोंका रस नाकमें दो तीन बूँद टपकावे । लौंग तोला १ को पानी आधीछटांकमें भिगोदे सबेरे मलकर वह पानी पीवे । कडुई तोंबी पीसकर दो तीन बूँद स्वरस नाकमें टपकावे । पक्के केलेकी एक फली लेकर दो टुकडे करें एक टुकडेमें चूना सीपीका मासे १ रखकर खाजावे ऊपरसे वह दूसरा टुकडा भी खाजावे तो कमलबाय अवश्य ही आराम हो । नीबूका अर्क दो तीन बूँद आंखोंमें टपकावे । कामलाका रोगी पीले कपडे पहने रहे । मेंहदीकी पत्ती तोले ३ रातको छटांक भर पानीमें भिगोदो सबेरे मलकर छानकर पीजाओ । हर्रेका चूर्ण मासे ६ या सफेद निसोतका चूर्ण मासे ६ या इन्द्रायणका चूर्ण मासे ६,गुड या शक्कर मासे६मिलाकर खाय तो पांडु कामला, हलीमक जाय ॥

अथ रक्तपित्त चिकित्सा ।

जब खखार, थूंक, डकार, वमन इत्यादिमें मुख आदि स्थानोंसे लोहू निकलता है उसको रक्तपित्त कहते हैं ।

रक्तपित्तवाला चांवलका भात, कोदोंका भात, और मूंग,मोठ,मसूर,चना,की दाल खावे। अरूसेके पत्तोंका

स्वरस मासे ६, शहद मासे ६, मिसिरी मासे ६ मिलाकर पीवे तो दारुण रक्तपित्त अच्छा होवे और राजयक्ष्मा व खांसी भी दूर हो । बकराका खून तोला १, शहद तोला १ मिलाकर पीवे तो अत्यन्त रुधिरका गिरना दूर होवे । नाकसे लोहू गिरता होवे तो आंव-लाको घीमें भूनकर महीन पीस मस्तक पर लेप करै अथवा शक्करका शर्बत नाकसे पीवे या अनारके फूलके स्वरसकी या दूबके स्वरसकी या आमकी गुठलीके रसकी या पियाजके स्वरसकी नाकमें नाश लेवे तो नाकसे रुधिर गिरना बन्द होवे । कोहके फलका रस मासे ६ या हर्रका चूरण मासे ६, शहद मासे ६ में मिलाकर खावे तो रक्तपित्त दूर हो, भोजन पचै अग्नि दीपन होवे, कफरोग, शूल, अतीसार, वमन दूर होवे ॥ पीपरि ४ मासेको या पके हुये गूलर को या खजूरोंको या दाखोंको या फालसेको शहद मासे६से खावे तो रक्त पित्त दूर हो । अथवा पीपलकी लाख मासे३को शहद मासे ६ में मिलाकर खावे तो एक बारके चाटनेसे वमन सहित रक्तपित्तका नाश हो छातीका दर्द मिटै परन्तु इसमें घी मासे३ मिलाकर तब चाटै ॥ अथवा १०८ बार धोये हुये गायके मक्खनमें कपूर मिलाकर माथेपर चुपड़े तो नाकसे

रुधिर गिरना बन्द होवे । गोभीकी पत्ती मासे ६ पानीमें पीसकर खावे तो लोहूकी वमन व थूकनेमें जो लोहू आता है सो बन्द हो ॥ अफीम रत्ती २ खावे तो थूकनेमें लोहूका आना बन्द हो ॥ तुरई, लौकी, पालक, कुलफा, मसूर ये तरकारी खावे कचनारके पत्तोंका रस मासा६पीवे तो खून थूकना बन्द होवे ॥ सरफोंका औटाकर काढ़ा करे और १मासा या २ मासे लड़केको पिलावे तो लड़कोंके रुधिरके विकार सुर्ख बादी, रक्तपित्त सब दूर होवें ॥ अथवा रसौंत एक चनेके बराबर लड़केको खिलावे तो खूनके उपद्रव व रक्तपित्त दूर हों ॥

अथ अम्लपित्तकी दवा ॥

अन्न खानेकी इच्छा न हो और खट्टी डकारें आवें उसको अम्लपित्त कहते हैं वह दो प्रकारका है एक ऊर्ध्वगामी दूसरा अधोगामी ।

छोटी या बड़ी हर्रका चूर्ण मासे ६ में दाख मासे ६ या शहद मासे ६ या गुड़ मासे ६ मिलाकर ३ दिन खाय तो अम्लपित्त दूर हो अथवा संध्यासमय बिजौरानींबूका रस तोले २ पीवे तो अम्लपित्त जाय। अम्लपित्तवाला पुराने जौ, गेहूँ, मूँग खावे और शहद, मिसिरी, करेला, परवल, पेठा, बथुआ. केलाका फूल, कैथा, अनार, आमला, धनिया खावे ॥

अथ श्लेष्मपित्तचिकित्सा।

जब अन्नमें अरुचि और मस्तकमें दर्द और बार-बार वमन हो आलस्य हो मूर्च्छा हो शरीरमें पीडा हो उसको श्लेष्मपित्त कहते हैं। काकड़ासिंगी मासे ९ और परवल मासे ९ दोनोंको पावभर पानीमें काढा करे जब एक छटाक रहे तब उतार छानकर पीवे तो श्लेष्म-पित्त दूर हो यह दीपन और पाचन भी है अथवा पीपरि छोटी मासे ३, हर्र मासे ३, शक्कर मासे ३ ये सब मिला-कर प्रतिदिन सबेरे खावे दिन ९ तक श्लेष्मपित्त दूर हो।

अथ राजयक्ष्माचिकित्सा।

राजयक्ष्मा, क्षयी, बसीगर्मी तपेदिक ये इसके नाम हैं यह ६ प्रकारका होता है और एक हजार दिनतक रोगी दवा करनेसे जीता है आगे नहीं। इस रोगमें चाव-लका भात, गेहूँकी रोटी, मूगकी दाल, बकरीका मांस, बकरीका दूध और मुनक्काकी शराब ये परम हित हैं। अर्जुनकी छाली, बरियारीकी जड, कौंछके बीज ये तीनों बराबर लेकर महीन पीस मासे ६ बकरीके दूध पावभरमें मिलाकर फिर उसीमें शहद मासे ३ और शक्कर मासे ६ मिलाकर पीवे दिन १९ तो राजयक्ष्मा दूर हो बकरीका मांस या हिरनका मांस या कबूतरका मांस बकरीके दूधके साथ खावे तो यक्ष्मा दूर हो।

अंगूरकी शराब या मुनक्काकी शराब व महुवाहीकी शराब प्रतिदिन नियमसे दिनभरमें थोडा२बारबार पीवे परन्तु एकदफेमें दो तोलेसे अधिक न पीवे तो यक्ष्मा दूर हो । अथवा सम्हालूकी जडकी छालि और पत्ते तोले २ लेकर आधासेर पानीमें काढा करे जब आधापाव रहे तब उतार कर कडाहीमें छान देवे और उसीमें घी गायका एक तोला डालदेवे जब सब जलकर केवल घी ही रह जावे तब ठंढा कर खावे इसी तरह २१ दिन खावे तो यक्ष्मा दूर हो । गायका ताजा मक्खन मासे ३,शहद मासे३,मिसिरी मासे३,सोनेका वरक मासा १ इनको मिलाकर खाओ मोरेश्वर वैद्य कहता है कि,महादेवजीकी कसम है यह दवा झूंठ नहीं है इससे राजयक्ष्मा अवश्य ही दूर होवे ॥ मिसिरी १६ तोले वंशलोचन ८ तोले पीपरि छोटी ४ तोले इलायची छोटी दाने २ तोले दालचीनी १ तोला इन सबको महीन पीस छान मासे४या ६ शहदके साथ थोडा घी या मक्खन मिलाकर दोनों समय खावे तो यक्ष्मा दूर हो.श्वास,खांसी,मन्दाग्नि, अरुचि, जीभकी कठोरता, कफरोग, पसलीकी शूल, ज्वर, मुखसे रुधिर थूकना,कंधा और हाथ पैरोंकी दाहजलन मस्तकके रोग इतने रोग दूर हों यह बहुत उत्तम और अनेक बारका परीक्षा किया हुआ है इस औषधिकी

पूरी कदर राजपूतानाके जयपुर शहरमें तुमको देखनेमें आसक्तीहै । बाजारमें प्रतिदिन तुमको हजारों आदमी सितोपलादि चूरण खरीदते मिलैंगे इसका नाम सितोपलादि चूरण है हम इसको शर्बत अनार और शर्बत बनप्साके साथ देते हैं तो अत्यन्त शीघ्र फायदा देताहै और रोगीको प्रसन्न करदेता है ॥

अथ बांसावलेह ।

अड़ूसेका रस एक सेर, सोनामाखी, मिसिरी, पीपर छोटी ये आठ आठ तोले डालकर मन्दाग्निसे पकावे जब गाढा होजाय तब शीतल होनेपर शहद तोले ८ मिलावे फिर एक तोला प्रतिदिन खावे तो खांसी, कफ, राजयक्ष्मा और बवासीरको दूर करे यह अड़ूसेका अवलेह है ॥

अथ तालीसचूर्ण ।

तालीशपत्र, मिर्च, सोंठि, पीपरि छोटी, वंशलोचन ये क्रमसे भागवृद्धिसे लेवे जैसे तालीसपत्र १ तोला, मिर्च २ तोले, सोंठि ३ तोले, पीपरि ४ तोले और वंशलोचन ५ तोले लेवे और दालचीनी और छोटीइलायचीके बीज मासे छःछः लेवे और मिसिरी सब औषधियोंसे दुगुनी लेवे फिर सबको महीन कूट छानकर रख छोडे और मासे ४ या ६ सबेरे शहदके

साथ या दूधके साथ या बासी पानीके साथ या शक्करकी चाशनीके साथ या शक्करके शर्बतके साथ या शर्बत अनारके साथ या गुलबनप्साके साथ खावे तो श्वास, खांसी, अरुचि, छातीका दर्द, पांडुरोग, संग्रहणी, प्लीहा, ज्वर, राजयक्ष्मा इतने रोग दूर हों क्षुधा बढे यह उत्तम औषधि है कभी खाली नहीं जावे इसको दो महीनेतक बराबर खाना चाहिये तब पसीना छूट छूट कर हड्डी हड्डीके भीतरका ज्वर बाहर निकल पड़ता है, यह तालीस चूरण है ॥ पीछे जीर्णज्वरमें जो वसन्तमालती और लाक्षादि तेल लिख आये है वे भी यहां इस रोगमें खाने लगाने चाहियें ॥

अथ चन्दनादितैल ।

चन्दन, नख, कूट, मौरेठी, छारछरीला, पदमाख, मँजीठ, चीढ़, देवदारु, कचूर, इलायची, कमलकेशर, पत्रज, बेल, खस, कंकोल, तगर, नेत्रवाला, हल्दी, दारुहल्दी, सारिवा, कुटकी, लौंग, अगर, केशर, दालचीनी, रेणुका, जटामांसी ये प्रत्येक चार चार तोले लेकर पानी डाल महीन पीस ले और दहीका तोड़ ढाई सेर और पीपलवृक्षकी लाखका काढा कर रस निकाले सो रस सवासेर और तेल तिलोंका तीन सेर सबको एक कड़ाहीमें साथ ही डालकर मिलादेवे

और मन्दाग्निसे पकने दे बाद तीन पहरके जब देखे कि, सब औषधि जलकर तेल ही रह गया है तब उतार छान कर बोतलमें भर रक्खे फिर इसकी मालिश बदनमें किया करे तो राजयक्ष्मा, ज्वर, उन्माद, मृगी, रक्तपित्त, माथेका दर्द, हृदयकी दाह, धातुके विकार और बालग्रहोंको दूर करे । शरीरका रंग गोरा और चेहरा चमकीला और शरीरमें बल करे मन प्रसन्न रक्खे । यह चन्दनादि तैल है और कई बारका परीक्षा किया हुआ है ।

अथ घी व तैलकी परीक्षा ।

जब फेना उठने लगे तब घी सिद्ध हुआ जाने और जब फेना उठकर शान्त होजावे तब बिना फेनाका तैल सिद्ध हुआ जाने ॥ शोच करना, क्रोध करना, स्त्रीप्रसङ्ग और निन्दा करना इनको रोगी बिलकुल छोड़ देवे ॥

अथ दाखका आसव ।

मुनक्का १०० तोले, मिसरी४०० तोले झडबेरीकी जड व बकली ५० तोले, धवईके फूल २५ तोले, सुपारी चिकनी, लौंग, जावित्री, जायफल, तज, इलायची बडी, तेजपात, सोंठि, मिर्च, पीपरि छोटी,

नागकेशर, मस्तंगी, कसेरू, अकरकरा, कूट ये हरएक तोले दश दश लेवे और सर्व औषधियोंसे चौगुना पानी लेवे फिर सबको मिट्टीके बर्त्तनमें डालकर उसीमें पानी डाल मुख बन्द कर १४ दिन जमीनके नीचे गाड देवे पन्द्रहवें दिन निकालकर भट्टी पर चढा अर्क खींचे फिर केशर तोले २, कस्तूरी मासा १ डाल कर कांचके पात्रमें रखदेवे और बाद तीन दिनके पीवे दिन भरमें तीन बार सबेरे दोपहर और शामको पीवे सबेरे ६ तोले पीवे दोपहरको आधापाव और शामको तीन छटांक पीवे गरिष्ठ और चिकना आहार सेवन करे तो वीर्यको बढावे कास, श्वास, राजयक्ष्माको दूर करे मनको अत्यन्त प्रसन्न करे बहुत थोडा मद लावे स्त्रियोंको वशीभूत करे लोकमें वे मनुष्य धन्य हैं जो नित्य दाखका आसव पीते हैं ॥

अथ दाखका अरिष्ट (शर्बत) ।

मुनक्का ५० तोले चौगुने पानीमें औटावे जब चौथाई रहिजावे तब छानकर उसमें २०० तोले गुड डाले और तज (तेजपात), इलायची, नागकेशर, मेहँदीके फूल, कालीमिरच, पीपरि छोटी, वायविडंग इन सबको एक एक तोले महीन पीसकर डाले और कडाहीमें डाल कर औटावे कडछीसे बराबर हिलाता

जाय जब पकजावे तब उतारकर शीशीमें भर रक्खे फिर शरीरका बल देखकर एक तोला या दो तोले या ४ तोले प्रतिदिन सबेरे खावे तो छातीका दर्द व अन्दरका घाव और राजयक्ष्मा, खांसी, श्वास अरुचि, तृषा, दाह, गलेके रोग, ज्वर, प्लीहा, मन्दाग्नि इत्यादि रोगोंको दूर करे यह दाखका शर्बत है और कईबारका परीक्षा किया हुआ है कभी निष्फल नहीं जाता है ॥

अथ लोह आसव।

शुद्ध लोहेका चूर्ण मासे १६, सोंठि, मिर्च, पीपरि छोटी, आँवला, हर्र, बहेडा, जवाँसा, बायबिडंग, चीता, नागरमोथा, ये प्रत्येक सोलहमासे लेकर महीन पीसकर शहद १२८ तोले और गुड२००तोले पानी हजार तोले लेकर चिकने बर्त्तनमें भरकर उसीमें सर्व औषधियोंको डालकर मुख बन्द कर एक महीना धरतीमें खोदकर गाड देवे फिर निकालकर अर्क खैंच कर कांचके बर्त्तनमें भर रक्खे और १५ दिन बाद पीवे तो अग्निको दीप्त करे, पांडुरोग, सूजन, बायगोला, पेटके आठों रोग, बवासीर, १८ कोढ़, प्लीहा, आम, खाज, खाँसी, श्वास, भगन्दर, अरुचि, संग्रहणी, छाती व हृदयके सर्वरोग, रुधिरविकार इत्यादिका नाश करे यह लोहेका आसव अर्थात् मद्य है उत्तम व परीक्षा किया हुआ है ॥

अथ उरःक्षत चिकित्सा ।

हृदयके भीतर घाव होजाता है उसको उरःक्षत और यूनानीवाले सिलका रोग कहतेहैं यह मुश्किलसे आराम होता है ॥ जब छातीमें चीरनेके समान पीडा होती है और कलेजेमें घाव होजाता है जिससे हर समय ज्वर और खाँसी रहती है और खखारमें खून भी आता है राजयक्ष्मा अर्थात् तपेदिकमें और उरःक्षत अर्थात् सिलमें थोड़ा ही अन्तर है ॥

धानकी खीलें मासे ६ को दूध गायका कच्चा आधा पाव और शहद मासे ६ में मिलाकर पीवे और बाद दो घण्टेके मिसरी डालकर दूध कच्चा गायका पावभर पीवे ॥

अथ एलादि गुटिका ।

छोटी इलायचीके बीज, तेजपात,दालचीनी, मुनक्का, पीपरि ये दो दो तोले ले और मिसरी, मौरेठी, खजूर, दाख, मुनक्का, ये चार चार तोले लेकर सबका बारीक चूर्ण कर शहद डालकर एक एक तोलेकी गोली बनावे फिर शरीरका बल देखकर आधी अथवा एक एक गोली रोज खावे तो खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, वमन, मूर्च्छा, मद, भ्रम,रुधिर थूंकना, तृषा, पसलीका दर्द, अरुचि, राजरोग, प्लीहा, आम-

वात, स्वरभेद,क्षय इतने रोगोंको दूर करे, यह तृप्ति-कर्ता और वीर्यवर्द्धक और रक्तपित्तनाशक है यह परीक्षा किया हुआ है ॥

मुलतानी मिट्टी मासे६महीन पीसकर सबेरे साथ पानीके पीवे। पोस्ताका दाना तोले ३इसबगोल तोला १इनका आधासेर पानीमें काढ़ा करे जब पावभर रहे तब छानकर कडाहीमें डाले और उसमें शक्कर आधा-सेर डाले और खसखस मासे ९ गोंद बबूरका मासे९ पीसकर उसीमें मिलादे फिर थोडी देर पकाकर उतार कर बोतलमें भर रक्खे और एक तोला रोज खावे तो उरःक्षत अर्थात् सिल अवश्यही आराम हो यह उत्तम औषधि कईबारकी परीक्षा की हुई है। एक केंकडेको लेकर मिट्टीकी छोटीसी हांड़ीमें रखकर हांडीका मुख बन्द करके हांडीपर कपडा व मिट्टी चढाकर उसको गजपुटमें या भाडमें या भट्टीके भीतर डाल देवे और खूब आग जलावे जब केंकडा जलकर भस्म होजावे तब निकाल वह राख शीशीमें भर देवे फिर प्रतिदिन ४ रत्ती साथ पानके खावे तो उरःक्षत (सिल) दूर हो। अथवा पीपलवृक्षकी लाख मासे ३ या ६ महीन पीस शहदसे खावे तो उरःक्षत अवश्यही दूर हो यह उरःक्षतके लिये बहुत उत्तम तथा परीक्षा की हुई औषधि है। अथवा सुर्ख फिटकरी मासा १ साथ

शीतलपानीके पीवे तो मुखसे व खखारसे लोहूका आना बन्द हो यह लोहू बन्द करनेके लिये उत्तम ओषधि है।

अथ कासचिकित्सा।

खांसीं ५ प्रकारकी है वातकी १, पित्तकी २, कफकी ३, घावकी ४, राजयक्ष्माकी ५।

अथ मरिचादि गुटिका।

मिर्च तोला १, पीपरि छोटी तोला १, जवाखार मासे ६, अनारका बकला तोले २ इनको बारीक पीस आठ तोले गुड़ मिलाकर तीन तीन मासेकी गोलियाँ बना लेवे फिर १ गोली मुखमें रखकर धीरे धीरे उसका रस चूसा करे तो सर्व प्रकारकी खांसी दूर हो यह परीक्षा किया हुआ है।

अथ लवंगादि गुटिका।

लौंग, कालीमिर्च, बहेडेकी बकली ये एक एक तोला और खैरसार तोले ३ सबको पीसकर बबूलकी छालीके काढामें गोली चनाके बराबरबनाकर छायामें सुखालेवे फिर १गोलीको मुखमें रखकर धीरे धीरे रस चूसै तो आठ घडीमें सर्व प्रकारकी खांसी दूर हो। मैथुन करना, दिनमें सोना, दूध, दही, घी, खटाई, मिठाई,खीर और बादी व शर्द वस्तुएँ खाना व धुआंमें रहना इतनी चजिं खांसीवाला छोड देवे। बड़ी

बेरीके पत्तोंमें मनशिलको पानीसे पीस चुपडकर छायामें सुखालेवे फिर हुक्केमें रखकर एक या दो पत्ता प्रतिदिन सबेरे पीवे तो सर्वप्रकारकी दारुण खांसी दूर होवे ॥ कटेलीकी जड तोले२ लेकर डेढपाव पानीमें काढा करे जब डेढ छटांक रहै तब ठंढा कर उसमें छोटी पीपारिका चूर्ण मासे २ डालकर सबेरे पीवे तो ७ दिनमें दारुण खांसी दूर हो।कटेलीकी जड़ या फूलोंका चूर्ण मासा १, पीपारि छोटीका चूर्ण मासा १ दोनोंको शहद मासे ६ में मिलाकर चाटे तो सर्वप्रकारकी खांसी दूर होवे। आककी मुखबन्द कली और कालीमिर्च और सफेद कत्था इन सबको बराबर लेकर मूँगके बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखाकर १ गोली सबेरे १रातको खावे तो सर्वप्रकारकी खांसी दूर हों ॥ सरफोंकाकी जड या जवांसाकी जड या काले धतूरेकी जड़ मासे ६ हुक्केमें पीवे तो सर्वप्रकारकी खांसी दूर हो काकड़ासिंगीको महीन पीसकर पानीसे चना सम गोली बाँधे फिर १ गोली सबेरे और १ शामको मुखमें रखकर रस चूसता रहे तो सात दिनमें सर्वप्रकारकी खांसी दूर हो। हल्दी मासे ४ सज्जी सफेद मासा१इन दोनोंको महीन पीसकर झड़बेरीके बेरकी बराबर गोली बनाकर छायामें सुखाकर सबेरे शाम एक एक गोली मुखमें रक्खा करे तो ७ दिनमें सर्वप्रकारकी खांसी दूर हो । काली-

मिर्च, सज्जी सफेद, भुने चना ये तीनों बराबर लेकर अदरखके रसमें चना सम गोली बांधकर छायामें सुखावे फिर सबेरे शाम एक एक गोली खावे तो ५ प्रकारकी खाँसी दूर हो । सुहागा कच्चा मासे ६, सुहागा भुना हुआ मासे ६, कालीमिर्च तोला १ इनको महीन पीसकर घीगुआरके रससे चनाके बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखा लेवे फिर सबेरे शाम एक एक गोली खावे तो सर्वप्रकारकी खाँसी दूर होवे ॥ पोस्ता तोला १ भून लेवे फिर उसमें कालानमक मासा १, कालीमिर्च मासा १ मिलाकर मासा १ प्रतिदिनमें दो तीन बार खाया करे इससे छोटे लड़कोंकी कफ व खांसी अवश्य ही दूर हो । सलगम पर कपडा मिट्टी लपेटकर धीमी आंचमें भूनले फिर निकालकर उसका रस मासे ६ निचोड कर उसमें मिसिरी मासे २ मिला कर सबेरे शाम दिन ५ तक पीवे तो खांसी दूर हो । पाखानेकी जगह पर दिनमें दो बार सरसोंका तेल लगा दिया करे इससे खांसीकी तकलीफ कम होजाती है । कौआकी बीट कपडेमें सींकर गलेमें लटकावे तो छोटे लड़कोंकी खांसी अवश्य ही दूर हो । कुचिला दाने ३ को घी तोला १ में जलाकर कोयला करदेवे फिर वह राख रत्ती २ सबेरे पानमें खाया करे तो कफ व खांसी दूर हो । अमलतासका गूदा तोले १० और मिसिरी

तोले २० इन दोनोंको कूट पीस कर रख छोडे और १ तोला रोज खावे साथ पानीके तो खांसी दूर हो छातीमें जो कफ भरा है वह हटे तबीयत हलकी हो और पाखानेमें कफ निकले। हालीम मासे ३ को शहद मासे ३ से चाटे तो खांसी दूर हो छातीका कफ हटे और पसलीका दर्द दूर हो। काकडासिंगी, अतीस, पीपरि छोटी, मौरेठी, गोंद बबूलका इन सबको मासे तीन तीन लेकर महीन पीस छान कर मासा १ शहद मासे २ से सबेरे चटावे तो इससे छोटे लडकोंकी खांसी व कफ अच्छा हो वमन दूर हो। काकडासिंगी तोला १ महीन पीस कर रत्ती ४ शहद मासा १ से प्रतिदिन सबेरे चटावे तो लड़कोंका कफ व खाँसी दूर हो और खरखर करना मिटै ताकत आवे लडका पुष्ट होवे। बडी मुनक्का १ उसके बीज निकाल कर उसमें काकडासिंगी रत्ती १ और दालचीनी रत्ती १ मिलाकर खिलावे इससे लडकोंकी सर्व प्रकारकी खांसी दूर हो कफ व खरखर करना दूर हो इससे बेहतर और दूसरी दवा लडकोंकी खांसी दूर करनेको नहीं है यह कई बारकी परीक्षा की हुई है। अपामार्ग अर्थात् चिरचिराका खार रत्ती २ या ४ शहद मासे २ या पानमें रखकर खावे तो खांसी व कफ दूर हो

और कण्ठ व गले और छातीमें जो कफ भरा है सो भी हटै ॥

अथ चिरचिराखार बनानेकी विधि ।

चिरचिराको जडसे उखाड कर छायामें सुखाकर आग लगाकर भस्म कर देवै और वह राख एक बर्तनमें दूना पानी डालकर भिगोदेवे बाद दो पहरके दूसरे बर्तनमें वह राखका पानी धीरेसे छान लेवे फिर राखको फेंक देवे और एक घण्टे बाद वह साफ पानी धीरेसे कडाहीमें छान देवे और आगपर चढाकर मन्दाग्निसे जलने देवे जब सब पानी जलजावे एक बूंद भी न रहे तब कडाही उतार कर उसके भीतरसे लोहेके चाकूसे खुरच लेवे और शीशीमें रख छोडे बस यही चिरचिराखार है और यही सर्वप्रकारके खार बनानेकी तरकीब है इसी तरहसे जवाखार, चनाखार, थूहरखार, मूलीखार, केलाखार, कटाईखार तिलीखार इत्यादि बनते हैं परन्तु जो दरख्त बहुत बड़े हैं उनकी केवल पत्तियां ही लेकर छायामें सुखाकर भस्म करदेवे और फिर उक्त प्रकारसे खार बना लेवे जैसे अमिलीखार सहिंजनाखार इत्यादि । अमिलीके पत्ते तोले२का पावभर पानीमें काढा करे जब १ छटांक रहे तब उतार छान ठंढा कर उसमें भुनी हींग रत्ती २ और सेंधानमक मासे ३ मिलाकर पीवे तो सर्व प्रकारकी खांसी दूर हो ।

एक बहेडा लेकर ऊपर उसके घी चुपड कर फिर ऊपर उसके दो अंगुल मोटा गोबर अथवा गेहूँका आटा लपेट देवे और सुखाकर आगमें डालदेवे जब पकजाय तब निकाल ठंढा कर भीतरसे बहेडा निकाल लेवे फिर उसी बहेडेकी बकलीको पीसकर रती २ मुखमें डाले तो पांचों प्रकारकी खांसी दूर हो परन्तु हमइसमें सांभरनमक पीसकर थोड़ासा और मिला लेते हैं यह उत्तम दवा है। अडूसेके पत्तोंका स्वरस मासे ६ में शहद मासे ६ मिलाकर फिर उसमें साँभरनमक मासा १ मिलाकर थोडा गर्म कर पीवे तो सर्व प्रकारकी खांसी ३ दिनमें दूर हो जब देखो कि, खांसी किसी दवासे नहीं रुकती तब इसको देओ यह अनेक बारकी परीक्षा की हुई दवा है। पहिलीही खुराकमें आधी खांसी रहजाती है परन्तु हम नमककी जगह पीपरि छोटी मासा १ पीसकर उक्त दवामें मिलाकर पिलाते हैं तो अधिक लाभ पाते हैं इससे मुखका खून गिरना और खांसी तथा श्वास भी बन्द होता है यह दवा कभी निष्फल नहीं जाती। सुहागा भुना हुआ १रत्ती या दो रत्ती बँगलापानमें रखकर खावे दिन ७ तो खांसी दूर हो सफेद कत्थाको महीन पीसकर अदरख या अडूसेके स्वरसमें चना सम गोली बांध-

कर छायामें सुखाले फिर १ या दो गोली पानमें रखकर खावे या बिना ही पानके खावे सर्व प्रकारकी खांसी दूर हो। अदरखका स्वरस मासे ६, शहद मासे ६, सांभर नमक मासा १ मिलाकर पीवे तो सर्वप्रकारकी खांसी दूर हो, गलेका कफ हटै और नाकसे जो कफ गिरता हो तो उसी समय सूख जावे॥ हिचकी ५ प्रकारकी हैं अन्नजा १, यमला २, क्षुद्रा ३, गंभीरा ४, महती५ बकरीके आधासेर दूधको खूब पकाकर उसमें सोंठि मासे ६ डालकर पीवे तो हिचकी दूर हो। बिजोरानींबूका रस तोले २ में सेंधानमक मासे तीन और मोरेठीका चूर्ण मासे २ डालकर पीवे तो सर्वप्रकार की हिचकी दूर हो। मोरेठी पिसी हुई मासे ४को अथवा पीपरि छोटी मासे ५ को शहद मासे ६ से चाटे तो हिचकी दूर हो। सांभरनमक, कालानमक, सेंधा नमक इनको तीन तीन मासे लेकर खावे तो हिचकी दूर हो। स्त्रीके दूधमें माखीकी बीटको पीसकर नाकमें तीनचार बून्द टपकावे अथवा सफेद चन्दनको स्त्रीके दूधमें घिसकर नासलेवे तोसब प्रकारकी हिचकी मिटैं। काले उडद तोला १को चिलममें रखकर धुआँ पीवे तो५प्रकार की हिचकी दूर हों मोरपंख की चंद्रिका की राख रती २, पीपरि छोटी मासा १, शहद मासे ६ से चाटे तो पांचों प्रकारकी

हिचकी और अत्यन्त घोर श्वास और अतिउग्र वमनका शीघ्रही नाश हो। बहेडेकी बकली मासे ४ को शहद तोला १ से चाटे तो असाध्य भी हिचकी दूर हो और अतिउग्र श्वास भी दूर हो कालेधतूरेकी जड़, पत्ते, फूल, फल सबको कुचिलकर चिलममें रखकर पीये तो हिचकी व श्वास दूर हों। सेंधानमकको पानीमें बारीक पीसकर नास लेवे तो ५ प्रकारकी हिचकी दूर हों। पीपलवृक्षकी लाखका काढा कर तीन चार बूंद नाकमें टपकावे तो सर्व प्रकारकी हिचकी दूर हों। गर्म गर्म घी आधापाव पीवे अथवा गर्म गर्म दूध गायका आधा सेर पीवे अथवा गर्म गर्म गन्नाका रस आधासेर पीवे तो पांचों प्रकारकी हिचकी दूर हों। हरापोदीना मासे २ शक्कर मासे २ मिलाकर मुखमें चाबे तो हिचकी दूर हो। नारियलकी गिरी रत्ती २ शक्कर रत्ती २ मिलाकर लड़कोंको देवे तो लडकोंकी हिचकी दूर हो अथवा रीठेकी माला बनाकर लडकोंके गलेमें पहिरावे तो सर्व प्रकारकी हिचकी लडकोंकी दूर हों। हिचकीवाले रोगीको कोई ऐसी बात सुनावे जिसके सुनतेही उसको अत्यंत क्रोध अथवा शोक व रञ्ज हो अथवा ठण्ढे पानीका छींटा उसक मुखपर धोखेसे मारै अथवा श्वासको रोककर प्राणायाम करै अथवा वमन करै अथवा छींके लेवे अथवा मुद्गर हिलावे तो सर्व प्रकार-

की हिचकी दूर हों । कालीमिर्च २१ सौंफ मासे ९ कासनी मासे ९ इन सबको पीसकर खावे तो हिचकी दूर हो । गायकी नेनू तोले ३ मिसरी तोला १ मिलाकर खावे तो हिचकी दूर हो। कालीमिर्च आगपर रखकर उसका धुआँ नाकमें लेवे परन्तु हम मिर्चके साथ अजवाइन भी मिलाकर आगपर रखकर नाकमें धुआँ खिचवाते हैं तो अधिक लाभ पाते हैं । भोजन करनेके पीछे हिचकी पैदा हो तो वमन करदेवे।अथवा अनारकी कली, तुलसीकी पत्ती, दूब इनको बराबर लेकर बारीक पीसकर दो चार बून्द नाकमें टपकावे तो हिचकी दूर हो ॥

अथ श्वास चिकित्सा ।

श्वास, दमा, ऊब, और यूनानीमें जीकुन्नफस कहते हैं यह ५ प्रकारका है महाश्वास १, छिन्नश्वास २, ऊर्ध्वश्वास ३, तमकश्वास ४, क्षुद्रश्वास ५ ।

अदरखका स्वरस मासे ६ शहद मासे ६ मिलाकर पीवे तो श्वास खाँसी व कफ दूर हों । पेठाकी जडका स्वरस तोला १ या चूर्ण गर्म पानीसे पीवे तो श्वास खाँसी शीघ्रही दूर हों । गुड तोला १, तेल सरसोंका तोला १ इन दोनोंको हाथसे खूब मथकर खावे दिन ६० तो श्वास जडसे दूर हो । बेलपत्रका स्वरस

मासे ६, अडूसेके पत्तोंका स्वरस मासे ६,तेल सरसों-का मासे ६ सबको मिलाकर पीवे दिन ७ तो उग्र श्वास दूर हो । शोधा हुआ आमलासार गन्धक मासे ३, काली मिर्च मासे ३ इनको गायके घी १ तोलासे चाटे या केवल गन्धकहीको चाटे तो ११ दिनमें श्वास व खाँसी व राजयक्ष्मा दूर हो ॥

अथ गंधक शोधनेकी विधि।

आगपर किसी बटलोईको गर्म करो और उसमें पावभर घी डालो जब घी पककर ठीक होजाय तब आमलासारगन्धक आधापाव उसी घीमें डालदो वह डालतेही गलजावेगा फिर बटलोईको उतारकर एक बर्त्तनमें जो गायका कच्चा दूध आधासेर रक्खा है उसीमें बटलोईको उलटादो कि, जिस्में बटलोईके भीतरका घी व गन्धक दूधमें गिरजावे वह दूधमें गिरतेही मोटी रोटीके समान जमजायगा फिर निकाल कर गर्मपानीसे धोकर कपडेमें पोंछकर रख छोडो और वह दूध व घी धरती खोदकर उसमें गाड देओ ताकि कुत्ता वगैरः कोई जीव उस जहरको पीकर हानि न उठावे । बडी सीपीको जलाकर अदरखके रसमें खरल कर चनाके बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखावे फिर १गोली सबेरे रोज खावे तो श्वास दूर हो। आकका

पत्ता १, कालीमिर्च २५ कूटपीसकर उडदके बराबर गोली बनावे जवानको ६ गोली और बच्चेको १ गोली सबेरेके समय देवे तो श्वास दूर हो । रीठाकी मींगी मासे ९ सबेरे दिन १५ तक खावे तो श्वास दूर हो। अडूसेके बीज, नकछिकनी, बंगलापान ये तीनों बराबर लेकर आगपर भूनकर फिर सबको महीन पीसकर रत्ती ४ बंगलापानमें रखकर रोज सबेरे खावे तो अतिउग्र श्वास दूर हो फायदा अजीब दिखावे रोगी आश्चर्य करे। आकके पीले पत्ते जो आपसे दरख्तसे गिरगये हों एक सेर लेकर उन पर चूना तोला १, सेंधानमक तोला १ दोनोंको पानीमें खूब बारीक पीसकर पत्तोंपर दोनों तरफ लेपकर छायामें सुखा लेवे फिर एक हांडीमें सब पत्ते भरकर मुख बन्द करदेवे और कंडोंकी आंच १ पहरकी देकर भस्म कर लेवे फिर ठंढा होनेपर निकालकर वह भस्म रत्ती १ पानमें रखकर खावे तो श्वासका रोग दूर हो । अथवा आकके शिरेपरका सबसे छोटा कोमल पत्ता एक पानमें रखकर खावे बाद ३ दिनके आधापत्ता हररोज बढाते जावें तो ४० दिनके सेवनसे श्वास अवश्यही दूर हो। इलायची छोटीके बीज मासा १ मालकंगनी मासा १ दोनोंको बिना चबिलायेही निगलजावे तो ११ दिनमें दमा दूर हो । अदरखका स्वरस पियाजका रस, लहसनका रस, घीकुआरका रस,

शहद ये सब एक एक छटांक लेकर एक शीशीमें भरकर मुख बंद कर धरतीमें तीन दिन गाड देवे चौथे दिन निकालकर मासे ४ प्रतिदिन खाया करे तो २१ दिनमें दमा जडसे जाता रहे. विसखोपरेकी जड मासा १ पानमें रखकर रोज सबेरे खावे तो २१ दिनमें दमा दूर हो। ईसबगोल तोला १ सबेरे व शामको बराबर चार महीनेतक खावे तो सर्वप्रकारका असाध्य भी दमा जडसे जाता रहै यह कईबारका परीक्षा किया हुआ है। समुन्द्रफल २५ और पीपरि छोटी ५० लेकर दोनों को आगमें किसी बर्त्तनमें रखकर भस्म करे फिर वह भस्म मासा १ पानमें रखकर रोज सबेरे खावे तो तो १९ दिनमें दमा दूर हो। मकडीका जाला रत्ती १ गुड मासा १ में मिलाकर खावे तो दमा शीघ्रही आराम हो परन्तु यह गर्मी बहुत करता है। चिरचिरेका खार रत्ती २, या थूहरका खार रत्ती २, या आकका खार रत्ती २, या तमाखूका खार रत्ती २ पानमें रखकर खावे या शहद मासा १ से खावे तो दमा दूर हो गले व छातीमें जो कफ भरा है सो अलग हो। जमालगोटा १ छीलकर मींगी उसकी चिरागमें जलावे जब धुआं निकलना बन्द होजावे और वह जलकर राख होजावे तब पीसकर चार खुराक करे और प्रतिदिन सबेरे १ खुराक बंगलापानमें रखकर खावे तो छाती व गलेका

कफ दूर हो दमा दूर हो । फिटकरी भुनी हुई तोले २, मिसरी तोले २ दोनोंको पीसकर मिलाकर मासा १ या दो सबेरे खावे तो दमा दूर हो । थूहरकी मोटी लकडी एक हाथ लम्बी लेकर एक तरफसे पोली कर उसमें फिटकरी एक छटांक रखदेवे फिर कपडमिट्टी चढाकर कंडेकी आगमें जलादे फिर ठंढा होनेपर निकालकर उसमेंसे फिटकरी निकालकर पीसकर शीशीमें रख छोडे फिर हररोज रत्ती २ पानमें रखकर खावे दिन १९ तो दमा दूर हो । अथवा मदारकी जड तोले ३, अजवाइन तोले२,गुड तोले ९ सबको मिलाकर गोलियां जंगली बेरके बराबर बनाले फिर प्रतिदिन दो गोलियां सबेरे खावे तो दमा दूर हो । पियाबांसाकी जड छायामें सुखाकर महीन पीसकर मासे४ प्रतिदिन सबेरें खाया करे तो दमा दूर हो।अथवा बारहसींगाका सींग जलाकर राखकरे फिर वह राख मासा १ शहद मासे ३ में मिलाकर खावे और प्रतिदिन १ मासा बढाता जावे जब एक तोलातक पहुंचे तब न बढावे तो दमा दूर हो यह परीक्षा कियाहुआ है,काला नमक मासे २ महीन पीसकर रातको सोनेके समय फांक लेवे और हररोज आधा मासा बढाता जावे जब मासे ६ होजाय तब उतनाही रोज खाया करे अगर प्यास बहुतही जोरसे लगे तो गर्म पानी पीवे तो २१

दिनमें दमा जडसे जाता रहै। तमाखूके हरे पत्तोंका स्वरस मासे ६ और गुड मासे ६ एकहीमें खूब मिलाकर रक्खे बाद तीन दिनके एक एक तोला दोनों वक्त खावे तो ५ दिनमें श्वास बिल्कुल आराम हो परंतु कमजोर और बूढेको यह दवा न दे क्योंकि कमजोरको इस दवासे वमन व दस्त आने लगते हैं। अलसी मासे ३ और इस्पन्द मासे ३ दोनोंको पीसकर शहद १ तोलामें मिलाकर प्रतिदिन खावे अथवा भुनी हुई अलसी तोले ३ कालीमिर्च तोला १ दोनों-को मिलाकर रख छोडे और उसमेंसे मासे ६ शहद तोला १॥ से प्रतिदिन खावे तो श्वास जाय छाती व गलेका कफ दूर हो परन्तु कोई वैद्य मिर्च न मिलाकर उतना पोदीना मिलाते हैं। सुहागा भुना तोले ३ शहद तोले ४ में मिलाकर रख छोडे और सोते समय रातको मासे ३ खाया करे तो १५ दिनमें श्वास दूर हो। गेहूँका सत १ छटांक, शक्कर आधापाव, पोस्ताका दाना १ तोला, मीठे कद्दू (लौकी) के बीजोंकी मींगी तोला १, पानी आधासेर, सबको कडाहीमें डालकर लपसी बनाकर खाया करे तो श्वास खांसी, कलेजेका दर्द, पुराना ज्वर, आंतोंकी गांठ, इतने रोग दूर हों। शरीरमें ताकत आवे और दिमागको तरावट व ताकत पहुँचे। रेवन्दचीनी, एलुआ, सुहागा

भुना सबको बराबर लेकर कसौंदीके स्वरसमें चनेके बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखाकर एक गोली सबेरे १ शामको खाया करे तो श्वास दूर हो।अथवा एलुआ और कालीमिर्च दोनों बराबर लेकर अदरखके स्वरसमें उड़दके बराबर गोली बांधे फिर १ या दो गोली सबेरे खाया करे तो दमा दूर हो । नीलाथोथा मासा१;गुड़ मासा १ में गोली बाँधकर निगल जावे परन्तु सात दिनतक खावे प्रथम तीन दिनतक गर्मी घबराहट और जलन और दस्त व कै होवेगी जब बहुत ही बेचैनी मालूम हो और दस्त व कै बहुत हों तो मूगकी दाल चावलकी खिचडी बनाकर आधापावघी डालकर खावे बाद तीन दिनके दस्त व वमन व बेचैनी सबदूरहो जावेगी फिर चौथे दिनसे कोई भी तकलीफ न होगी और सातवें रोज बीस बरसका भी पुराना दमा जडसे जाता रहेगा यह बहुत उत्तम व परीक्षा की हुई औषधि है इसको बूढे व कमजोरको नहीं खिलाना चाहिये। भटकटैयाकी जड मासे ६ लेकर उसके दो टुकडे करे एक टुकडेको साँभरनमक मासे दोमें मिलाकर चबाजावे फिरदूसराटुकडा भी ऊपरसे चबाजावे तो इससे वमन होगी और सब कफ निकल जावेगा और दमा आराम होगा।चूहेका पित्ता गुडमें लपेटकर

निगल जावे तो३दिनमें दमा जडसे दूर हो।थूहरका दूध मासे२को आटामें मिलाकर टिकिया बनाकर आगमें भूनले फिर जवान आदमीको आधी टिकिया खिलावे इसके खानेसे दस्त होंगे जब सात दस्त होचुकें तब दही पावभर खिलावे अगर इससे दस्त बन्द न होवें तो गायका मक्खन २१ बारका धुला हुआ छटांक एक या दो खिलावे फिर आधी टिकिया वह भी खिलादे और तीन दिनतक मुलायम भोजन खानेको देवे तो ७ दिनमें दमा जडसे दूर हो परन्तु बदनमें हवा न लगनेदे। सेंधानमक मासे ३ को खूब बारीक काजलके समान महीन पीसकर गायके घीमें मिलाकर बीच छातीमें कंठतक मालिश करे तो कफ हटै दमा शान्त हो अथवा कालेधतूरेके बीज प्रथम दिन ९ खावे फिर प्रतिदिन एक बीज अधिक करे जब ३० बीजतक होजावें तब प्रतिदिन एक बीज कम करे तो दमा जडसे जाता रहे। तुलसीका स्वरस मासे३ काली मिर्च पिसीसुई मासा १ घी मासे ४ सब मिलाकर खावे तो सर्व वात विकारोंको दूर करे।

अथ स्वरभेदचिकित्सा।

जब आवाजमें भेद पडजाता है तब उसको स्वरभेद व गला बैठ जाना व आवाज पडजाना कहते हैं।

वह ६ प्रकारका है वातका १, पित्तका २, कफका ३, सन्निपातका ४, क्षयका५, मेदका ६. ब्राह्मी, बच,हर्र, अडूसा, पीपरि छोटी ये सब बराबर लेकर महीन पीस मासे ४ शहद मासे ६ से खावे तो स्वरभेद दूर हो सरसोंके तेलमें भिगोया हुआ कत्था मासा १ मुखमें धारण करे तो स्वरभेद मिटै। पीपरि छोटी और हर्र छोटीअथवा सोंठि और हर्र इनको बराबर लेकर थोडा थोडा बार बार मुखमें धारण करे तो स्वरभेद दूर हो। बहेडा, सेंधानोन, पीपरि छोटी इनको बराबर लेकर मासे ६ गायकामट्ठा एक छटांकसे दिन १५ पीवे अथवा हर्र छोटी मासे ६ महीन पीसकर गायके पावभर दूधसे खावे दिन ७ तो स्वरभंग मिटै, अथवा आंवलेको उक्तरीतिसे खावे। मूलीके बीज मासे ४ पीसकर गर्मपानीसे पीवे तो स्वरभेद दूर हो । गन्नाको भूनकर चूसे या मुखमें कबाबचीनी धारण करे रहे तो स्वरभेद मिटै। अथवा चिरागका गुल एक छटांक पानीमें डालकर पीवे तो सिन्दूर खानेसे जो आवाज मारी गई है उसको ७ दिनमें दुरुस्त करै गन्नाके रसमें या गुडके शर्बतमें चांवल पकाकर रातको सोनेके पहिले खूब भरपेट खावे और एक घण्टे बाद गर्म पानी आधापाव पीवे ऐसा ३ दिन करे तो स्वरभेद मिटै। पानकी जड जिसको कुलीजन कहते हैं मुख-

में धारण करे तो स्वरभेद मिटै। अथवा बडी बेरीके पत्ते तोले २ पानीसे पीसकर घीमें भूनकर सेंधानमक अनुमान माफिक डालकर पीवे दिन७तो स्वरभेद मिटै।

अथ अरोचक चिकित्सा।

अन्न खानेमें इच्छा ही नहीं रहती उसको अरुचि व अरोचक कहते हैं वह ५प्रकारका है वातका १, पित्त-का २, कफका ३, त्रिदोषका ४, आगन्तुज५.अदरख का स्वरस मासे ६ शहद मासे ६ से चाटे अथवा अद-रख मासा १ सेंधानमक मासा१भोजन करनेके प्रथम मुखमें चबाकर फिर तुरन्त ही भोजन करै तो अरोचक दूर हो। अथवा पकी अमिली तोले २ को एक छटांक पानीमें घोल दे फिर उसमें कालानमक मासे ३ और पोदीनाकी पत्ती ४० और कालीमिर्च मासे२ डालकर खावे तो अरोचक दूर हो अथवा पके अनारका स्वरस मासे ६ शहद मासे ६ मिलाकर पीवे तो अरोचक दूर हो परन्तु हम इसमें कालानमक मासे २ और मिलादेते हैं॥

अथ छर्दि चिकित्सा।

जब खाईहुई वस्तु मुखसे निकलती है उसको छर्दि वमन, वान्त, कै, उल्टी, रद्द कहते हैं। वह ५ प्रकार की है वातकी १,पित्तकी २, कफकी ३, त्रिदोषकी४,

आगन्तुज ५ बडी हर्रकी बकली मासे ४ या ६ महीन पीसकर शहद मासे ६ में मिलाकर चाटे तो वमन दूर हो यह वृन्द ऋषीश्वरने कहा है। अथवा गुर्च तोला १ को कुचलकर रातको एक छटांक पानीमें भिगो दे सबेरे मथकर वह पानी छानकर उसमें शहद मासे ६ डालकर पीवे तो पाँचों प्रकारकी दुर्निवार भी छर्दि दूर हों। पीपलवृक्षकी छाली या लकडीको आगमें जलाकर राख करे और वह राख पानीमें बुझालेवे फिर थोडी देर केबाद रक्खा रहनेके उस राखमेंसे पानीको छानकर शीशीमें भरलेवे फिर उसमेंसे दो दो तोले बारबार पीवे तो सर्वप्रकारकी छर्दि व तृषा दोनों बन्द हों यह कईबारका परीक्षा कियाहुआ है कभी खाली नहीं जाता। पित्त-पापडा या नागरमोथा तोले २ लेकर एकसेर पानीमें काढा करे जब आधासेर रहजावे तब छानकर थोडा थोडा बारबार पीवे तो छर्दि दूर हो। आमकी गुठलीकी मींगी तोला १, बेलगिरी तोला १ दोनोंका एक सेर पानीमें काढा करे जब आधासेर रहे तब उतार छान ठंढा कर उसमें शहद तोला १, शक्कर तोला १ मिलाकर थोडा थोडा बारबार पीवे तो छर्दि दूर हो और विरेचन (दस्त) भी बंद हों यह "आत्रेय" में लिखा है और हमारा परीक्षा कियाहुआ है। बिजौरानींबूका स्वरस मासे ६, शहद मासा १, पीपरि छोटीका चूर्णमासा १ इन सबको

मिलाकर बारबार पीवे तो वमन दूर हो यह "सुश्रुत" में लिखा है करंजके कोमल पत्तोंमें सेंधानोनऔर नींबूका रस अनुमान माफिक मिलाकर खावे तो वमन दूर हो यह "सारसंग्रह" में लिखा है। केलाके कन्दका स्वरस मासे ६, शहद मासे ६ मिलाकर पीवे तो वमन दूर हो यह "योगरत्न" में लिखा है। मक्खीकी बीट रत्ती २, शहद मासे ३ से चाटे तो वमन दूर हो यह "वृन्द" में लिखा है करंजके बीजोंको अग्निमें थोडा भून लेवे फिर मींगी निकालकर उसके तीन टुकडे करलेवे फिर एक एक टुकडेको मुखमें डालकर आधे घंटे तक चाबा करै तो घोर वमन दूर हो। मरोंरफली मासे ६ महीन पीस कर चांवलोंके धोवनसे पीवे तो वमन दूर हो।

अथ चांवलोंके धोवनकी विधि।

पावभर चांवल लेकर दो सेर पानीमें एक पहरतक भिगोदे फिर मलकर पानी छान ले यही चांवलोंका धोवन सर्वत्र काममें आता है॥

अथवा रीठाकी मींगीको एक घण्टेतक पानीमेंभिगोदे जब मुलायम होजावे तब थोड़ा थोडा चबाकर खावे ज्योंही उसका रस कंठमें पहुँचे त्योंही उसी क्षण वमन दूर हो यह अनेक बारका परीक्षा किया हुआ है यह अपने मित्र चौबे लक्ष्मण प्रसादजीको

मैंने बताया । सांठीके चांवलोंका धोवन आधा पाव पीवे तो शराब पीनेसे जो वमन होती है सो दूर हो। अमिलीके छोटे छोटे चियां (फल) को एक एक चना बराबर मुखमें रखकर चाबे तो वमन तथा चढ़े ज्वरमें जो वमन होतीहै सो भी दूर हो यह कईबारका परीक्षा किया हुआ है । अथवा पोदीनाकी पत्ती ४० कालीमिर्च ५, कालानमक मासे २ इलायची छोटी भुनी हुई ४ जरिश्क या अमिली कच्ची या पक्की मासे ३ इन सबको पानीसे महीन पीसकर थोडा थोडा बारबार चाटे तो सर्व प्रकारकी छर्दि दूर हो यह अनेक बारका परीक्षा किया हुआ है । अरुचिको तो जडसे नाश कर देता है और खानेमें अत्यन्त सुस्वादु है कभी निष्फल नहीं जाता ॥

अथ तृष्णा चिकित्सा ।

प्यास ७ तरहकी है-वातकी १, पित्तकी २, कफकी ३, घावकी ४, क्षयीकी ५, आमकी ६, भोजनकी ७,

शहदका कुल्ला दोघडी तक मुखमें रक्खे तो दाह व प्यासदूर हो। बिजौरानींबूका अर्क एक तोला, घीमासा १, सेंधानमक पिसा हुआ मासा १ सबको मिलाकर मस्तक पर लेप करै तो प्यास दूर हो, ठंढे पानी एक सेरमें एक छटांक शहद डालकर पिलावे और फिर वमन करडाले तो दारुण प्यासका नाश हो। बड़े भारी

घावके लग जानेसे जो प्यास पैदा हुई हो तो बकरेका ताजा खून पावभर पीवे क्षयीसे जो प्यास उपजीहो तो गायके दूधमें पानी मिलाकर पीवै या मौरेठी मासे ६ १ छटांक पानीमें बांट छानकर पीवे तो प्यास दूर हो। अथवा पीपल वृक्षकी राखका पानी कि, जिसकी विधि छर्दिचिकित्सामें लिख चुका हूँ, पीनेसे अतिउग्र प्यास तुरन्त ही मिटे। कमलगट्टोंकी मींगी तोले २ के चार चार टुकडे करके आधासेर पानीमें डालदे बाद १ घण्टेके वही पानी थोडा थोडा बार बार पीवे तो लड़कोंकी प्यास दूर हो। नीमकी कोमलपत्तीपाव-भर और पंडुआमिट्टी पावभर दोनोंको बांटकर चार गोला बनावे और आगमें लाल कर दो सेर पानीमें बुझा देवे तो फिर वही पानी थोडा थोडा बार बार पीने-को देवे तो अति उग्र प्यास दूर हो। आंवला १ और उससे आधा कत्था सफेद दोनोंको बांटकर गोली बनाकर मुखमें धारण कर रक्खे तो प्यास दूर हो। अथवा चांदी या सोनेको गर्म कर पानीमें बुझा देवे फिर वह बुझाहुआ पानी बार बार पीवै तो प्यास दूर हो। अथवा १ आलूबुखारा लेकर आगमें थोडासा भून लेवे फिर उसमेंसे थोडासा मुखमें धारण कर धीरे धीरे रस चूसा करे तो सर्व प्रकारकी प्यास दूर हो यह परीक्षा कियाहुआ है॥

अथ मूर्च्छा चिकित्सा ।

जब मनुष्य बेहोश होजाता है तब उसको मूर्च्छा, जोफ,गस कहते हैं वह ६ प्रकारकी है वातकी १, पित्त-की २, कफकी ३, लोहूकी४, मदिराकी ५, विषकी ६ कपूर मासा १, चन्दन मासे ६ घिसकर मस्तक-पर लेप करै तो बेहोशी दूर हो परन्तु हम गुलाबके अर्कमें उक्त दोनों चीजैं घिसकर लगवाते हैं । ठंडे पानीके छीटे मुखपर मारे और पंखेपर पानी छिडक कर पंखा करे अथवा थोडी देर तक नाक और मुखको हाथसे बन्द रखे तो मूर्च्छा दूर हो । लोबानका धुआं सूँघे या खीरा अथवा खीराका अतर सुँघावे तो मूर्छा दूर हो अथवा कौंछकी सूखी फलीको शरीरमें रगड देवे तो मूर्छा दूर होकर होशमें आजावे तब सारे शरीरमें गायका घी खूब मालिश करे तो कौंछका विष दूर हो जब किसी प्रकारसे मूर्छा दूर न हो और वह रोगी बडीदेर तक मरे पुरुषकी तरह बेहोश पडा रहै तो इस रोगीको संन्यास कहते हैं तब इस रोगके दूर करनेके लिये रोगीके शरीरमें कई जगह नखोंसे चुटकी काटै और सुईकी नोक थोडी थोडी कई जगह शरीरमें चुभोवै और रोम उखाडे और दांतोंसे काटै तो संन्यास रोग दूर हो रोगी होशमें आवे । विष खानेसे मूर्छा होवे तो संखिया अफीम वगैरः जो

विष खाया हो उसके दूर करनेवाली औषधियां पि-लावे जो विषचिकित्सामें लिखी हैं वहां देख लेना ॥

अथ भ्रम चिकित्सा ।

जब शरीर तो चैतन्य रहे परन्तु ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय मूर्च्छित हों और उस रोगीको धरतीआकाश सब वस्तु चाककी तरह घूमती हुई मालूम हों और यह भी मालूम हो कि, मैं भी घूमता हूँ, तो उस रोगको भ्रम व घुमेर व घुमनी कहते हैं ।

लालरंगके जवांसा तोले २ का पावभर पानीमें काढ़ा करें जब एक छटांक रहे तब उतार छान ठंढा कर उसमें गायका घी आधा या एक छटांक डालकर पीवे तो ३ दिनमें भ्रम व घुमनी दूर हो । बरियारीके बीज मासे ६, मिसरी तोला १ मिलाकर खावे तो ९ दिनमें घुमनी दूर हो । आंवला, हर्र, बहेडा इन तीनों की बकली मासा तीन तीन लेकर महीन पीस छान शहद तोला १ में मिलाकर खावे तो ७ दिनमें घुमनी दूर हो ।अथवा अदरख मासे ३ गुड़ मासे ६ मिला-कर खावे तो ७ दिनमें भ्रम दूर हो ।

अथ तन्द्रा चिकित्सा ।

निद्रावाले पुरुषकी तरह शरीरमें घोर आलस्य होवे और जम्हाई आवें आंखोंके पलक बन्द रहैं कुछ

थोडेसे खुलें बड़े जोरसे पुकारनेपर पलक खोले फिर आलस्यकी अधिकतासे तुरन्तही पलक बन्द करले उसको तन्द्रा कहते हैं। इस तन्द्रा और निद्रामें यह अन्तर है कि, निद्रावाले पुरुषको अगर पुकारो तो उसका आलस्य दूर होकर तुरन्त ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां अपने होशमें आजाती हैं परन्तु इस तन्द्रामें बहुत बहुत पुकारनेपर भी उन इन्द्रियोंको होश व ज्ञान नहीं होता यद्यपि बहुत जोरसे चिल्लाने पर वह तन्द्रा वाला पुरुष आंखें खोल देता है मगर तुरन्त ही वही बेहोशी आजाती है ॥

घोड़ेके मुखमें जो फेना छूटता है उसमें कालीमिर्च घिसकर दोनों आंखोंमें अंजन करे तो तन्द्रा दूर हो। अथवा सेंधानोंन, सहिंजनेके बीज, सरसों, कूट ये चारों चीजें बराबर लेकर बकरीके मूत्रमें महीन पीस नाकमें नास देवे तो अतिउग्र तन्द्रा दूर हो यह परीक्षा किया हुआ है ॥

अथ मदात्यय चिकित्सा।

भूखमें, प्यासमें, क्रोधमें, भयमें, कसरत करनेके पीछे, शोकमें, मल, मूत्र इत्यादि १४ बेगोंके बेगमें, घाव लग जानेके पीछे जो नशा लानेवाली कोई भी शराब, भाँग, गाँजा, चरस, अफीम, संखिया, धतूरा

इत्यादिवस्तु खाई जावे अथवा नित्यप्रति नशावाली कोई चीज कईबार अधिकताके साथ खाई जावे तो वह अनेक प्रकारके रोगोंको उत्पन्न कर उस पुरुषको मारदेती है इसी रोगका नाम मदात्यय है यह उन वस्तुओंके नामोंसे कई प्रकारका है ॥

मदिराके मदात्ययमें बार बार एक एक तोला मदिरा ही पीवे। सांठी चांवलोंका भात रोज शक्करके साथ खावे तो मदिराका मदात्यय दूर हो। बकरीका मांस और परवल दोनोंको पकाकर खावे तो चरसका मद दूर हो। पेठेका स्वरस तोला १ गुड मासे ६ मिलाकर खावे तो कोदोंका मद दूर हो। शक्कर डालकर गायका कच्चा दूध खूब पीवे तो धतूरेका मद दूर हो। सेंधानोन तोला १ खावे अथवा ठंढा पानी एकसेर पीवे तो सुपारीका मद दूर हो । अथवा शक्कर एक पावभर खावे परन्तु पानी न पीवे तो सुपारीका मद दूर हो। चूनाको खूब रगड रगड बार-बार सूंघै तो पानका मद दूर हो। हर्र बडी मासे ६ खावेतो जायफलका मद तुरन्तही दूर हो। ठण्ढे पानीमें स्नान करने और दही शक्कर भात खानेसे बहेडेका मद दूर हो। दिनभरमें आठ दफे चार चार लौंग चाबे तो तमाख़ूका मद दूर हो। मदिरा पीकर घी तोले २ में शक्कर तोले २ मिलाकर खावे तो मदिराका

मद बिल्कुल न होवे । सर्व प्रकारके मदात्ययोंमें उन उन नशावाली वस्तुओंके प्रथम कम करने फिर बिलकुल छोड देनेकी हमेशा कोशिश करते रहना क्योंकि नशेकी सर्व चीजें बुद्धिको बिगाडकर उत्तम स्वभावको नष्ट करदेती हैं । इस रोगमें कच्चा दूध, भात, शक्कर, घी, मलाई, पूरी, लड्डु, जलेबी, शक्करका शर्बत, शीतलजलसे स्नान, गुलाबजल पीना, कमलनाल, तूबा, लौकी, पालक भाजी ये चीजें हितकारी हैं॥

अथ दाह चिकित्सा ।

हृदयछातीसेलेकरकंठ पर्य्यन्त जलनका नाम दाह है।वह७प्रकारका है. गायकी नैनूको १०८बार धोकर पेट व छाती व कंठतक लेप कर शूलके गिलास व कटोरेसे आधाघण्टा मालिश करे तो दाह दूर होवे । अथवा सिरकामें कपडा भिगोकर गीला ही पेट व छाती पर रक्खे तो दाह दूर हो । सफेद चन्दनको गुलाबजलमें घिसकर फिर उसीमें कपूर घिसकर सारे शरीरमें लेप करे तो दाह दूर हो।नींबके पत्ते या बेरीके पत्तोंकोपानीमें बांटकर दहीकी तरह मथे और मथनेसे जो फेना उठे उसको पेट व छाती पर बारबार लेप करै तो तत्क्षण दाह शान्त हो।अथवा केलाके पत्ते या कमलके पत्ते या सिवालको खाटपर बिछाकर उसपर

रोगीको लिपटावे और खसके पंखेकी हवा करे तो दाह शान्त हो । अथवा पित्तपापडा, खस, नागरमोथा, लालचन्दन, पदमाख ये तीन तीन मासा लेकर डेढपाव पानीमें काढा करे जब एक छटांक रहे तब ठंढा कर उसमें शहद तोला १ डालकर पीवै तो अति-उग्र दाह दूर हो तथा ज्वर व प्यास व वमन भी मिटै यह अनेक बारका परीक्षा कियाहुआ है कभी निष्फल नहीं जाता है ॥

अथ उन्माद चिकित्सा।

इसको लोकमें पागल, सिडी, बावला कहते हैं यह मनका रोग है इसमें बुद्धि बिगडजाती है । यह ६ प्रकारका है- वातका १, पित्तका २, कफका ३, त्रिदोषका ४, मानसिक दुःखका ५, विषसे पैदा हुआ ६, परन्तु यूनानीवाले हकीमलोग इसको दो ही प्रकारका मानते हैं एक मानसिक दूसरा अन्यअङ्गज । इसको खफगान, हौलदिल, दीवाना कहते हैं ॥

चम्पाके फूल तोले २ शहद तोला १ में मिलाकर खावे तो उन्माद दूर हो । पकी अमिली तोला २ को आधापाव पानीमें बांटकर एक तोला शक्कर डालकर पीवे तो मन प्रसन्न हो परन्तु अमिली पकी लेवे। ईसबगोल तोला १ को पानीमें बांटकर १ तोला शक्कर

डालकर पीवे । रेवन्दचीनी तोले२को पानीसे महीन पीसकर दोनों कंधोंके बीचमें लेप करे तो उन्माद जाय । पित्तके उन्मादमें विरेचन (जुल्लाब) देवे कफके उन्मादमें वमन (कै) करावे और बाकी उन्मादोंमें बस्ति (पिचकारी) देवे । दश वर्षके पुराने घीको बलके अनुसार नित्य सेवन करे तो उन्माद जाय । सरसोंके तेलकी नास देवे और सारे शरीरमें मर्दन कर घाममें बैठे तो उन्माद जाय । कच्ची लालरंगकी चिरमिठी (घुंघुची) रत्ती २ को गायके आधापाव दूधके साथ पीवे तो उन्माद जाय ।परन्तु यह उपविष है इसवास्ते बडी होशियारीके साथ पीना चाहिये । पेठाके बीजों-की गिरी तोले २ को रातको एक छटांक पानीमें पत्थरके बर्त्तनमें भिगोदे सबेरे बांट छान कर शहद मासे ६ मिलाकर पीवे तो ११ दिनमें उन्माद जाय । भय और शोकसे कामज उन्माद शान्त होता है। और भय व क्रोधसे शोकज उन्माद शांत होता है । और काम व शोकसे भयसे पैदा हुआ उन्माद शान्त होता है तथा उक्त प्रकारसे कामज उन्माद भी शान्त होता है । और हर्ष, ईर्षा, लोभसे उत्पन्न हुए उन्माद, शोक, क्रोध, भय, कामसे शान्त होते हैं । मनचाही व अतिप्यारी वस्तुके विनाशसे जिसको उन्माद हो उसको उसीके समान मनचाही वस्तु मिलने-

से तथा शान्त वचन और विद्वानोंके शान्त उपदेशसे शान्ति होती है अथवा हवन करना, वेदकी पवित्र ऋचाओंका जप तथा अनेक प्रकारकी पूजा, बलि, मंत्र इत्यादिके करनेसे देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व इत्यादिसे उत्पन्न हुए उन्माद शान्त होते हैं॥

अथ हिंग्वादिघृत।

हींग, कालानमक, सोंठि, मिर्च, पीपरि ये दो दो तोले, गायका घी ४ सेर इसमें १६ सेर गोमूत्र मिलाय घृत सिद्ध करे, फिर शरीरका बल देखकर एक तोला दो तोले अथवा ४ तोले नित्य पीवे तो उन्माद जाय॥

अथ नरसिंह मंत्र।

ॐ नमो नारसिंहाय हिरण्यकशिपुवक्षःस्थलविदारणाय त्रिभुवनव्यापकाय भूतप्रेतपिशाचडाकिनी शाकिनीकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्तदोषान् हन हन सर सर चलचल कम्पय कम्पय मथमथ हुँफट् हुँफट् हुँफट् ठः ठः महारुद्र आज्ञापयति स्वाहा॥ इक्कीस बार पढकर मोरपंखसे झाडा दीजे तो भूत, प्रेत, यक्ष, गन्धर्व आदि दूर हों॥ अथवा आगे अपस्मार रोगमें जो जो औषधी लिखी हैं वे सब उन्मादको दूर करती हैं सो नीचे देखलेना॥

अथ अपस्मार चिकित्सा।

इस रोगमें स्मरण शक्तिका नाश होजाता है, एक तरफ बात करता जाता है और एक तरफ भूलताजाता है लोकमें इसको मृगी और फारसीमें सुरा कहते हैं। यह चार प्रकारका है बातका १, पित्तका २, कफका, ३, त्रिदोषका ४ पित्तका कोप हो तो १५ दिनमेंमृगी आती है और वातका कोप हो तो १२ दिनमें और कफका कोप हो तो एक महीनेमें मृगीका दौराहोताहै॥

लहसुन १ तोला तिलकाले तीन तोला अथवा तिलका तेल २ तोले दोनोंको मिलाकर २१ दिन सबेरे खावे तो मृगी दूर हो। अथवा ब्राह्मीबूँटीका स्वरस तोला १ में शहद तोला १ मिलाकर पीवे तो ३ दिनमें मृगी व उन्माद दूर हो। सरसों मासे ६ महीन पीसकर खावे और सरसोंको गोमूत्रमें पीसकर सारे शरीरमें लगावै तो मृगी दूर हो। मौरेठी पिसीहुई मासे ६को पेठाका स्वरस तोला १में मिलाकर खावे तो तीनही दिनमें मृगी दूर हो परन्तु दूध भातका भोजन करै। पुष्यनक्षत्रमें कुत्तेकापित्ता मंगाकरदोनों नेत्रोंमेंअंजनकरै और उस पित्तेमें घी मिलाकर शरीरमें धूप देवे तो मृगी दूर हो। आककी जडकी बकलीको बकरीके दूधमें घिसकर मृगी आनेपर दो चार बूंद नाकमें टपकावे

तो मृगी दूर हो कछुयेका लोहू १ तोला,जौका आटा १तोला,शहद १तोला सबको मिलाकर उडदके बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखावे फिर सबेरे शाम एक एक गोली रोज खावे तो१९दिनमें मृगी दूर हो।कडुई तुरईको पानीमें पीसकर दो चार बूँद नाकमें टपकावे तो मृगीवाला अचेतन पुरुष उसी समय होशमें आवे यह औषधि जादूके समान है। अकरकरा तोले ९, गन्नेके रसका सिरका तोले ९, शहद तोले ३० फिर इन सबको कडाहीमें डाल आगपर गर्म करे जब गाढा होजावे तब उतारकर शीशीमें भरकर रख छोडे फिर प्रतिदिन सबेरे मासे ६ गर्म पानीके साथ खाया करे तो मृगी अवश्य दूर हो। यह हकीम जालीनूसका परीक्षा किया हुआ है। रीठाको खूब महीन पीस छान कर रख छोडे और हमेशा नास लिया करे तो मृगी दूर हो। आगबोट नामका कीडा जो उटकता रहता है और अक्सर आकके पेड़पर रहता है उसको पकड कर सुखाकर पीसकर छानले फिर उसमें थोडी सी कालीमिर्च या घी मिलाकर एक चनेके बराबर नाकमें डाले तो मृगी दूर हो। २१ जायफलकी माला बना-कर गलेमें हरसमय धारण करे रहे तो मृगी दूर हो। उत्तम असली हींग तोला१को कपडेमें बांधकर गलेमें पहिरे रहे या कि, सुअरके सुमकी अँगूठी बनवाकर

मंगलके दिन दाहिने हाथकी छोटी अंगुलीमें पहिने या कि,गायके बायेंसींगकीअँगूठी बनवाकर बायें हाथकी छोटी अंगुलीमें पहिने तो मृगी दूर हो। भेडियेकी बीट और हड्डी हमेशा अपने पास रक्खे तो मृगी दूर हो। अथवा उन्मादरोगमें जो औषधियां व वस्ति तथा वमन विरेचनमें वर्णन किये गये उन सबसे मृगी दूर होती है। माजून, बडी हर्रकी बकली, निसोत,सोंठि, अगर, मस्तंगी, ऊदसलीब; हरएक साढेतेरह मासा, इस्तूखुदूस साढेचार मासा,छोटी हर्र आंवला ये सवा दो दो तोले दालचीनी तोला १॥,बादामकातेलतोला १॥ इन सबको पीसछानकर सब औषधियोंसेतिगुना शहद लेकर कडाहीमें डाले फिर उसीमें सब दवा मिलाकर मन्दाग्निसे काढा कर लड्डू बांध लेवे बाद४ दिनके खावे खुराक साढेचार मासा है ॥ यह मृगी मस्तिष्क (दिमाग)का रोग है इसकी बड़ीसावधानीसे औषधि करना चाहिये ॥

अथ वातव्याधि चिकित्सा ।

वातके ८० व ८४ रोग हैं उन सबका निदान लक्षण तो हमारे बनाये "आयुर्वेद प्रकाश" में देखो यहाँ वातव्याधिकी चिकित्सा कहते हैं ।

मीठी तथा नमकीन चीजोंके खानेसे खट्टी वस्तु

चिकनी वस्तुके भोजनसे, नास लेनेसे,गर्म वस्तुओंके खानेसे, नींदभर सोनेसे, सूर्यकी धूप सेवनेसे, पसीना लेनेसे, अग्नि तापनेसे, गर्मजल पीनेसे, तेलकी मालिश करनेसे इतने कर्मोंसे प्रकुपित वात शान्त होता है ।

अथ जम्हाई चिकित्सा ।

पानका बीडा खानेसे, या गर्म गर्म सरसोंका तेल लगानेसे, सोनेसे, बार बार जम्हाई आनेका रोग दूर हो ॥

अथ हनुग्रह चिकित्सा ।

मुख खुला रह जावे या दांतही बन्द होजावें उसको हनुग्रह कहते हैं । गर्म पानीके कुल्ले करावे अथवा पीपारि छोटी और अदरख वे दोनों मुखमें चबाचबा-कर थूंके तो हनुग्रह दूर हो । लहसुन मासे ६ को तिलोंके तेल तोले २ में भूने फिर सेंधानमक डालकर खावे तो हनुग्रह दूर हो ॥

अथ त्वचा शून्य चिकित्सा ।

लोहू निकलवानेसे यह रोग दूर हो । जवासेका स्वरस तोले २० को तेल सरसोंके आधपावमें आगपर जलावे जब तेल मात्र बाकी रहे तब उतारकर मर्दन करे तो त्वचाशून्य दूर हो । नाखूना, करुआ सुरंजान

ये दोनों बराबर लेकर पानीसे पीसकर आगपर गर्म करे फिर गुनगुना कर मोटा लेप करे तो त्वचाशून्य दूरहो ॥

अथ अर्दित रोग चिकित्सा ।

जब आधा मुख टेढा होजाता है उसको अर्दित कहदेते हैं ।

लहसुन १ तोलाको पानीमें बाटकर तिलोंके दो तोले तेलमें पकाकर खावे तो या गर्म गर्म दूध पीवे तो अर्दित रोग दूर हो इसी रोगको फारसीमें लकवा कहते हैं। राई मासे ६ अकरकरा मासे ६ शहद मासे ६ सबको मिलाकर दिनभरमें चार बार जीभपर मला करे तो लकवा दूर हो ॥

अथ मन्यास्तम्भ चिकित्सा ।

गर्दनकी सब नसें जकड जाती हैं जिससे गर्दन हिलती नहीं उसको मन्यास्तम्भ कहते हैं ॥

तेल व घीका मर्दन कर आक या अरंडके पत्तेगर्म कर बांधे तो मन्यास्तम्भ दूर हो। मुर्गीके अंडेमें घी व सेंधानमक मिलाकर गर्मगर्म गर्दनपर बांधे तो मन्यास्तम्भ दूर हो ॥

अथ भुजाशोष चिकित्सा ।

बरियारीकी जड तोले२का पावभर पानीमें काढा

करे जब एक छटांक रहे तब उतार छान कर सेंधानमक मांसा २ डालकर पीवे तो ७ दिनमें भुजाका सूखना व पीडा व कन्धोंकी पीडा अवश्य दूर हो॥

अथ भुजास्तम्भ चिकित्सा।

जब सारी भुजा जकड जाती है हिलती नहींऔर दर्द बहुत होता है, उसको भुजास्तम्भ कहते हैं।

ठंढे पानीकी नास लेवे या बरियारीकी जड नीमकी छाल,कौंछकी जड इन तीनोंका स्वरस मासे तीन तीन लेकरपीवे तो भुजास्तम्भ दूर हो। उडदके स्वरसकी दो चार बून्द नाकमें डालकर नास लेवेतो भुजास्तंभ शीघ्र दूर हो और वज्रके समान भुजा हो॥

अथ आध्मान चिकित्सा।

पीपर छोटी तोला १ निसोत तोले ४ शक्कर तोले ४ सबको पीस छानकर तोला१ शहद तोला १से चाटै तो आध्मान (पेटमें गुडागुडाहट होना और अपान वायुका रुकजाना) दूर दो इसीको अफरा भी कहते हैं। सेंधानमक डालकर दही व भात खावे तो अफरा दूर हो॥

तूनी प्रतितूनी चिकित्सा।

पीपारंछोटी मासे६ महीन पीसकर आधापाव गर्म पानीसे पीवे तो तूनी प्रतितूनी दूर हो। जब मलस्थान

और मूत्रस्थानसे पीडा उत्पन्न होकर नीचेको जाय उसको तूनी और ऊपरको पेटकीबाई कोख तक आवे उसको प्रतितूनी कहते हैं ॥

अथ त्रिकशूल चिकित्सा ।

कपड़ेमें पावभर बालू बांधकरआगमें गर्मकर सेंकै और खाटके नीचे अरने कंडोंकी अग्नि रखकर सेंकै तो त्रिकशूल दूरहो जब कटि (कमर) पीठ और बांस (वह लम्बा हाड जो चूतड़से लेकर गर्दनतक सीधा चला गया है उसको बांसकहते हैं) इन तीनोंमें बहुत दर्द होता है उसको त्रिकशूल कहते हैं ॥

अथ मूत्राधिक्य चिकित्सा ।

बरियारीकी जड़की छाल १ तोला, मिसरी १ तोला दोनोंको पीसकर पावभर गायके दूधसे पीवे तो १५ दिनमें बारम्बार मूत्रकरनेका रोग दूर हो ॥

अथ मूत्रनिग्रह चिकित्सा ।

जवाखार मासे ६ मिश्री मासे६ मिलाकर खावे तो मूत्रबन्ध तुरन्त खुले । पेठाके बीज तोला १ ककडीके बीज तोला १ इनको पानीसे महीन पीसनाभिकेनीचे लेप करे तो मूत्रबंध छूटे आंवला तोले २ को पानीसे महीन पीसकर नाभिके नीचे लेप करे तो मूत्रबन्धछूटै चूसकी मेंगनी (बीट) १ तोला; शोरा मासे ६ मिला-

कर पानीसे बांटकर गुनगुना कर नाभिके नीचे लेप करे तो मूत्रबंध तत्क्षण छूटै ॥

अथ गृध्रसी चिकित्सा ।

अरण्डका तेल तोला १ या २ गायके आधापाव मूत्रमें डालकर १ महीना पीवे तो गृध्रसी दूर हो। अरण्डके बीजकी मींगी तोले ३ को गायके आधासेर दूधमें खीर बनाकर खावे तो १५दिनमें गृध्रसी दूर हो अरूसा तोला १;अमिलतास तोला १;जमालगोटाकी जड़ तोला १ इन तीनोंका आधासेर पानीमें काढा करे जब आधापाव रहै तब उतार छानकर उसमें अरंडीका तेल तोला १ डालकर पीवे तो गृध्रसी दूर हो और चलनेकी शक्ति आवे। महानींबका गोंद मासा १ को पानीसे पीवे तो १५दिनमें असाध्य भी गृध्रसी दूर हो। सम्हालूके पत्ते तोले २ का पावभर पानीमें काढा करे जब एक छटांक रहे तब छानकर पीवे तो ७दिनमें असाध्य भी गृध्रसी दूर हो और चलनेकी शक्ति अवश्य होवै। लहसुन तोला १ गूगल तोले ५ इनको घीसे पीसकर बेर बराबर गोली बनावे फिर १ गोली रोज खावे तो गृध्रसी दूर हो। जब कटि (कमर), चूतड़, गुदा, जांघ, पीठ, पिंडली, पैर इनमें अधिक पीडा (दर्द) उत्पन्न होजाय और मारे दर्दके चला न

जाय चलनेकी शक्ति नष्ट होजाय और पसीना उत्पन्न हो उसको संस्कृतमें गृध्रसी और लोकमें कोई कुलिंग वायु कोई टंकनवायु कोई रींघनवायु कोई जांघफटना कहते हैं फारसीमें इसको इरकुन्निसा कहते हैं। सबरसकोतरी तोला १, बडी हर्र की बकली तोले २ सुरंजान मीठा तोला १ सबको पीसकर पानीसे गोलियां बनाकर छायामें सुखावे फिर मासे २ या ३ या ४ प्रतिदिन पानीसे खावे तो विरेचनहोकर इरकुन्निसाका दर्द दूर हो । केशर मासा १, सकमूनियां मासा ३॥, बड़ी हर्रकी बकली मासा १०॥, बादामकी मींगी, मासा १॥, सनाय तोले २; सुरंजान मीठा तोले३, मिसिरी तोला ८॥। इन सबको पीस छानकर ठंढे पानीसे प्रतिदिन एक तोला १०॥ मासा खावे तो इरकुन्निसा अवश्य दूर हो ॥

अथ क्रोष्टुशीर्षकचिकित्सा ।

गूगुल मासे३, गुर्च मासे३, हर्र मासे३, बहेडामासे ३ आंवला मासे ३ इन सबको पीस छानकरएकतोला अरंडीके तेलमेंमिलाकर खावे तो १९दिनमेंक्रोष्टुशीर्षक दूर हो जबवायुऔररुधिरके विकारसे पैरकी पिंडलीमें अधिक सूजन होकर सियारके मस्तक सरीखी गांठ पैदा होजाती है उसको क्रोष्टुशीर्षक रोग कहते हैं ।

तीतर पक्षीके मांसके शोरुवेके साथ गूगुल मासे ६ रोज खावे तो २१ दिनमें कोष्टुशीर्षक दूर हो ॥

अथ खल्ली चिकित्सा।

कूठ मासे ६, सेंधानोंन मासे ६, चूका मासे ६ इनको एक छटांक पानीमें बांटकर घी मासे ३ मिलाकर खावे तो २१ दिनमें खल्ली दूर हो। जब पैर, जंघा, पिंडली, और हाथकी जड इनको रोगी घुमाया करे उसको खल्ली कहते हैं। लोकमें इसका कोई प्रसिद्ध नाम नहीं है ॥

अथ वातकण्टक चिकित्सा।

दिनमें चारबार एक एक तोला अरंडीका तेल पीवे तो वातकंटक (पिंडलियोंकी घोर पीडा) दूर हो।

अथ पाददाह चिकित्सा।

ठण्ढे पानीमें मसूरकी दालको पीसकर थोडा कपूर मिलाकर पैरके तलुओंमें लेप करे तो पाददाह दूर हो। गायके मक्खनको पैरके तलुओंमें चुपडकर आगमें पैर सेंके तो पुराना तथा अतिउग्र पाददाह दूर हो। जब पित्त और लोहूके कोप सहित वायु पैरके तलुओंमें दाह जलन उत्पन्न करदेता है उसको पाददाह कहते हैं ॥

अथ पादहर्ष चिकित्सा ।

जायफलको महीन पीसकर पैरके तलुओंमें रगडे या आगमें पैरोंको सेंके तो पादहर्ष दूर हो। जब वात और कफकी अधिकतासे पैर झन्नाने लगते हैं, उसको पादहर्ष कहते हैं। लोकमें इसको पैर सोगये ऐसा कहते हैं ॥

अथ आक्षेप चिकित्सा ।

जब नसोंके भीतर वायु प्रविष्ट होकर आक्षेप करता है, जैसा कि, हाथीपर बैठा हुआ पुरुष हिलता है ठीक यही दशा आक्षेप रोगमें रहती है। जब हाथ, पैर, शिर, पीठ, चूतड इन्होंको वायु रोक देता है और शरीरको बारंबार आक्षेप (फेंकना) करता है उसको दंडाक्षेप कहते हैं। शोधा हुआ कुचिला रत्ती दो पानमें रोज खावे तो आक्षेप व दण्डाक्षेप दूर हों।

अथ दण्डापतानक चिकित्सा ।

अफीम, शुद्ध कुचिला, कालीमिर्च ये तीनों बराबर लेकर बँगलापानके रससे गोली एक रत्ती प्रमाण बांधे फिर एक गोली खाकर ऊपरसे पानका बीडा खावे तो दंडापतानक दूर हो और सूजन, मृगी, हैजा ये सब दूर हों ॥ यह गोली वायुके सर्व रोगोंमें लाभ देती है। इसका नाम समीरगजकेसरी बटी है। जब वायुके

साथ कफ भी मिलकर नसोंमें प्रविष्ट होजाताहै तब सम्पूर्ण शरीर दंडा अथवा मुर्दाकी तरह जकड जाता है कहीं पर भी हिल डुल तक नहीं सकता उसको दंडापतानक रोग कहते हैं ॥

अथ अन्तरायाम व बाह्यायाम चिकित्सा ।

एक तोले लहसुनको सरसोंके दो तोले तेलमें भूनकर खावे तो १९ दिनमें उक्त दोनों रोग दूर हों कबूतरके मांसमें लहसुन डालकर खावे तो उक्त दोनों रोग दूर हों। जब अंगुली टखना पेट छाती हृदय गला इतने स्थानों की नसोंमें वायु अधिकतासे प्रविष्ट होकर रोगीको धनु-षकी तरह टेढा करदेता है और आंखें अधिक फट जाती हैं और दोनों पसलियोंमें अति उग्र दर्द होताहै और मुखसे बहुत कफ निकलता है और रोगी पेटकी तरफ धनुषकी तरह झुक जाता है इसको अन्तरायाम कहते हैं और जब रोगी पीठकी तरह उल्टा झुक जाताहै उसको बाह्यायाम कहते हैं बस अन्तरायाम और बाह्यायाममें इतना ही फर्क है ॥

अथ धनुस्तम्भ चिकित्सा ।

जब पुरुष धनुषकी तरह झुक जाताहै उसको धनु-स्तम्भ रोग कहतेहैं।इस रोगीके सर्व अंग ढीले होजाते हैं और पसीना बहुतही निकलता है और बुद्धि बिलकुल

भ्रष्ट हो जाती है यह रोगी दस दिनसे अधिक किसी हालतमें नहीं जी सकता । अफीम रत्ती दो पानमें रखकर खावे तो लाभ करे ॥

अथ कुब्ज चिकित्सा ।

जब प्रकुपितवायु हृदय अथवा पीठको ऊँचा कर देता है उसलो कुबड़ा कहते हैं ॥

लहसुनको महीन बांटकर उस स्थान पर एक अंगुल मोटा लेप करे, बाद एक घण्टेके गर्म पानीसे धो डाले वहां पर बड़ा फफोला आजावेगा उसको सुईसे छेद कर पानी निकाल डाले ऐसा कईदफे करे और मोरके मांस या कबूतरके मांसके शोरुवेके साथ लहसुनको खाता रहे तो कूबड अच्छा हो ॥

अथ अपतंत्रक चिकित्सा ।

काली मिर्च मासा १, सहिंजनेके बीज मासा १, बायबिडंग मासा १, मरुआ मासा १इनको खूब महीन पीस छानकर नाकमें नास देवे तो अपतंत्रक रोग दूर हो शुद्धकुचिला रत्ती २, काले धतूरेके बीज रत्ती २इनको पानमें रखकर खावे तो अपतंत्रक रोग दूर हो।जब वायुके कोपसे हृदयमें पीडा शुरू होकर ऊपरको बढती है और शिरमें पहुँचकर दोनों कनपटियोंमें दर्द पैदा कर रोगीको धनुषकी तरह झुकाकर आक्षेप

(झटकेदेना) और मोह पैदा करदेती है,उसको अप-तन्त्रक रोग कहते हैं,इस रोगवाला बडे कष्टसे ऊंचेऊंचे श्वास लेता है नेत्र ऊपरको चढजाते हैं, आंखें बन्द किये रहता है और कबूतरकी तरह बोलता है और शरीरका ज्ञान नहीं रहता है ॥

अथ अपतानक चिकित्सा ।

कालीमिर्च तोला १ महीन पीसकर एक नींबूके अर्कके साथ पीवै तोअपतानक रोग दूर हो।गायके पाव भर गर्मदूधमें अरंडीका तेल एक छटांक डालकरपीवे तो जुल्लाब लगे और अपतानक दूर हो कबूतरकेमां-सके शोरुवेमें छोटी पीपरि मासे ९ पीसकर मिलाकर खावे तो अपतानक रोग दूर हो। जब दृष्टि रुकजाती है अर्थात् आंखोंसे देखता हुआ भी दूसरेको नहीं पहँ-चान सकता और मुखसे बोलता है फिर तुरन्त ही बे-खबर होजाता है इसको अपतानक रोग कहते हैं ॥

अथ पक्षाघात चिकित्सा ।

काले उडद मासे ४,कौंछके बीजमासे ४,अरंडकी जड़ मासे ४,बरियारीकी जड मासे ४ इनका पावभर पानीमें काढा करे जब डेढ छटांक रहे तब छानकर हींग मासा १ और सेंधानमक मासे २ डालकर पीवे तो १९ दिनमें पक्षाघात दूर हो। जब वायु कुपथ्यसे

कोपको प्राप्त होकर शरीरके आधे भागको अर्थात् शरीरके एक तरफके भागको या कमरसे नीचेभागको निकम्मा व बेकाम करदेता है उसको पक्षाघात वा एकांतवात या पक्षवध या अर्द्धांग कहते हैं। फारसीमें इसको फालिज कहते हैं। इस रोगमें शरीरके बन्धन ढीले होजातेहैं।और त्वचाका ज्ञाननहीं रहता फारसी पुस्तकोंमेंलिखा है कि,इस रोगमेंआधाशरीर लम्बाईमें ढीला हो जाताहै और यह रोग कफसे पैदा होता है। गर्भिणी स्त्रीके हो या जिसके लडका पैदा हुआ हो उस स्त्रीके हो बालकके वृद्धकेक्षीणपुरुषके जिसके शरीरमें खून कम होगया हो उसके हो पीडासहित हो सूजन भी हो धातुक्षय हो तो असाध्य है उक्त प्रकारोंवाला आराम नहीं होता । वैद्यलोग इसकी उत्पत्ति वातसे और हकीम लोग कफसे बतलाते हैं इस रोगमें बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट होजाती है।यूनानीपुस्तकोंमें लिखा है कि, गर्मपानी इस रोगमें कभी पीनेको न देना चाहिये और चनेकी रोटी कबूतरके मांस या तीतरके मांसके साथ खाना चाहिये शुद्धकुचिला १तोलाकालीमिर्च १ तोला दोनोंको महीन पीसकर पानीसे उडदके बराबर गोलियां बना लेवे फिर छायामें सुखाकर १ गोली बंगलापानमें रखकर रोज सबेरे खायाकरे तो,अथवा शोधे हुए कुचिलाको आगपर रखदे जब धुआँ निक-

लना बन्द होजावे तब उसको निकालकर उसीके बराबर कालीमिर्च महीन पीसकर मिलाकर पानीमें उड़दके बराबर गोली बनाकर खावे तो पक्षाघात दूर हो और अर्दित (लकवा) व कमरका दर्द और मस्तिष्क (दिमाग) की कमजोरी भी दूर हो और सर्द स्वभावको यह दवा बदल देवे यह उत्तम दवा है। इस रोगवालेकोहमेशा अँधेरे स्थानमें रक्खे और गर्मपक्षियोंका मांस खानेको देवे। भिलावांकी गिरी मासे३कोशकर मासे ६ के साथ खावे तो १९ दिनमें पक्षाघात व मृगी दूर हो बीरबहूटी नामका सुर्खरंगका कीडा जो बरसातमें बहुत होता है उसको लेकर उसका शिर और पैर काटकर फेंकदे बाकीको पानमें रखकर खावे तो २१ दिनमें पक्षाघात दूर हो स्वभाव ठीक हो बुद्धि दुरुस्त होवे भंग मासे ६, कालीमिर्च मासे६,दोनोंको बिना पानीके पीसकर खावे और उक्त औषधि सरसोंके तेलमें मिलाकर शरीरपर एकघण्टा मालिश करे तो पक्षाघात दूर हो। प्रसिद्ध यूनानी हकीम जालीनूस कहते हैं कि,मेरी रायमें इस रोगके लिये यह सबसे उत्तम दवा है मैंने इस दवामें अजीब तासीर देखी है। सनके बीज तोला १॥, शहद तोला १ में मिलाकर खावे तो २१ दिनमें पक्षाघात दूर हो। सफेद कनेरके जड़की बकली, सफेद चिरमिठी (घुंघुची) काले

धतूरेकी पत्ती ये चार २ तोले लेकर महीन पीसे और सरसोंके पावभर तेलमें डालकर जलावे जब दवा जलजावे तब उसी तेलमें घोटदे फिर जोड़ोंपर रोज मालिश करे तो पक्षाघात दूर हो और कामदेव चैतन्य हो । सोंठि मासे ३, कालानमक मासे ३, दोनोंको पीसकर रत्ती दो या ४ नाकमें नास ले तो पक्षाघात व अर्दित अर्थात् फालिज लकवा दोनों दूर हों ॥

अथ सर्वांगवायु चिकित्सा ।

जब वायुके कोपसे पुरुषकी आंख, कान, नाक, भौंह, माथा, होंठ, छाती, भुजा, स्कन्ध इत्यादि सर्व अंग फरकैं उसको सर्वांगवात कहते हैं ॥

अजवाइन, कालीमिर्च, अफीम इनको बराबर लेकर तिलोंके तेलमें मिलाकर तमाम बदन पर मालिश करे । और सांभरनमक तोले २ गेहूँकी भूसी पावभर इनको पानी डालकर आगपर पकावे फिर उससे फरकनेकी जगह सेंके तो यह रोग दूर हो ॥

अथ सप्त धातुगत वातके लक्षण यत्न ।

रसमें जब वायु प्रविष्ट होजाता है तब त्वचाको काली करदेता और फाडदेता है। और जब लोहूमेंबात प्रविष्ट होजाता हैं तब शरीर दुर्बलहोजाता और शरीरमें पीडा पैदा होजाती है, भोजन पचता नहीं तथा

अन्नमें अरुचि होजाती है। और मांसमें जब वायु प्रविष्ट होजाता है तब शरीर बहुत भारी तथा स्तम्भित व पीडायुक्त होजाता है। और मेदमें जब वायु प्रविष्ट होजाता है तब शरीरमें पीडा तथा फोडे होजाते हैं। हाडोंमें जब वायु प्रविष्ट होजाता है तब संधियोंमें पीडा उत्पन्न होजाती है और बल व मांस न्यून होजाते हैंऔर मज्जामें जब वायु प्रविष्ट होजाताहै तब तीव्र पीडा तथा बलका नाश होजाता है और शरीर सूखजाता है। और वीर्यमें जब वायु प्रविष्ट होजाता है तब रति-समय अतिशीघ्र वीर्य निकल जाता है॥

अथ क्रमसे उक्त सातों धातुगतवायुकी चिकित्सा लिखते हैं।

त्वचाके वातमें सरसोंके तेलमें अफीम मिलाकर मालिश करे और रुईसे सेंके। लोहूके वातमें खसको पानीमें पीसकर लेप करे और फस्त (लोहू निकल-वावे) खोलावे। और मांसके वातमें सनाय तोला १ को पावभर गायके दूधमें औटाकर पीवे तो हल्का जुलाब लगै। और हाड तथा मज्जाके वातमें लहसुन तोले ३ को तिलोंका तेल तोले १० में जला देवे फिर उस तेलकी मालिश शरीरपर करे और उसमेंसे १ तोला पीवे तो वात दूर हो। अथवा केतकीकी जड

तोले ३, बरियारीकी जड तोले ३,ककईकी जड तोले ३, चावलोंका धोवन तोले १० इन सबको आधापाव तिलोंके तेलमें मिलाकर आगपर औटाकर तेलको सिद्ध करे फिर उसको १ या २ तोला रोज पीवे और शरीरमें मर्दन भी करे तो मज्जागत वात दूर हो । और वीर्यके वातमें घीके साथ लहसुन रोज खावे और काले तिल एक छटांक रोज ४० दिनतक खावे और तिलोंके तेलका मर्दन रोज शरीरमें करे ॥

अथ आमाशयवातकी चिकित्सा

सैंधानोंन तोले २,पानी आधासेरमें औटाकर पीवे तो वमन होवे और सनाय तोले २ को पावभर दूधमें औटाकर पीवे तो हलका जुलाब लगे फिर हर्र मासे ६ और सैंधानोन मासे३ मिलाकर गर्म पानीसे खावे तो १५ दिनमें आमाशयकी वायु दूर हो । नाभिसे दोनों स्तनोंके बीचकी जगहको आमाशय कहते हैं इसमें जब वायु प्रविष्ट होजाता है तब हृदय, पेट, छाती, पसली, नाभि इनमें पीडा और प्यास, कच्ची डकार, हिचकी, खाँसी, श्वास, कंठ सूखना ये रोग उत्पन्न होजाते हैं आकके फूल मासे ३ और सांभर-नमक मासा १मिलाकर गर्मपानीसे खावे तो ७दिन-में आमाशयका वात दूर हो ॥

अथ पक्काशयगतवातकी चिकित्सा।

गायके पावभर गर्म दूधमें अरंडका तेल तीन या ४ तोले डाल कर पीवे तो दो दिनमें विरेचन होकर पक्काशयकी बादी दूर हो। पक्काशयमें जब वात प्रविष्ट होजाता है तब आंत गल गल गल गल बोलती रहती है और अपानवायु बन्द होजाती है और मल मूत्र दुःखसे उतरते हैं और अफरा तथा त्रिकशूल भी पैदा हो जाते हैं। बडी हर्रकी बकली तोला १ शहद तोला १ से खावे तो पक्काशयकी बादी दूर हो॥

अथ उदरवातकी चिकित्सा।

सोंठि मासे ६, हर्र छोटी मासे ६, कालानमक मासे ६ इन तीनोंको पानी डालकर पत्थरपर चन्दनकी तरह घिस लो फिर आधी छटांक पानी मिलाकर गुनगुना करके पीजाओ तो आधे घण्टेमें उदरस्थ वात दूर हो–उदरमें जब वायु प्रविष्ट होजाता है तब एकाएक अतिउग्र पीड़ा पेटमें उत्पन्न होजाती है। सांभरनमक तोले २ को महीन पीसकर फाँकलेवे परन्तु पानी बिलकुल न पीवे तो उदरकी वायु व पीडा दूर हो।

अथ मलस्थानवातकी चिकित्सा।

जब मलस्थानमें वायु प्रविष्ट होजाव तब मल, मूत्र,

अपान वायु ये रुकजावें और अफरा व शूल और पथरी ये पैदा होजावें और जाँघ, पिंडली, पसली, पीठ, कन्धा, त्रिक इनमें पीडा उत्पन्न हो जाती है। अरंडीका तेल तोला १ में साबुन मासे ६ को घिसो फिर अँगुलीमें लगाकर पाखानेकी जगहके अन्दरतक लगादो तो अपानवायु तुरन्त खुलेगी और पांच मिनिटमें एक पाखाना भी होगा। निसोत तोला १ पीसकर शहद तोला १ से खावे तो उक्तरोग दूर हो।

अथ हृदयगतवायुकी चिकित्सा।

जब हृदयमें पीडा और श्वास उत्पन्न होजावे तब जानो कि, हृदयमें वायु प्रविष्ट है।गुर्च मासे ३,काली मिर्च मासे ३ दोनोंको पीसकर गर्म पानीसे पीवे। असगंध मासे ६, बहेडाकी बकली मासे ६ इनको पीसकर गुड तोला १ में मिलाकर गर्मपानी आधा पावसे पीवे तो ३ दिनमें हृदयस्थवात दूर हो देवदारु मासे ६, सोंठि मासे६इनको पीसकर पानीसे पीवे तो हृदयका वात दूर हो॥

अथ श्रोत्रवातकी चिकित्सा।

कानमें जब वायु प्रविष्ट होजावे तब कानोंमें अनेक प्रकारकी आवाजें सुनाई पडें और कानोंमें दर्द भी होवे और बहने भी लगें। एक तोले सरसोंके तेलमें लह-

सुन मासे६जलाडाले फिर ठंढा कर वह तेल कानोंमें डाला करे अथवा अफीम रत्ती २ को सरसोंके तेल मासे६ या पानीमें घोले फिर उसको कानोंमें डाले तो पीडा व बहना व अनेक प्रकारकी आवाज सुनपडना दूर हो। सोवाको तेलमें जलाडाले फिर वह तेल डाले तो दर्द व आवाजका सुनाईदेना दूर हो ॥

अथ लँगडाकी चिकित्सा ।

जब मोटी नसोंमें वायु प्रविष्ट होजाता है तब नसोंमें दर्द व सूजन पैदा करके मनुष्यको लंगडा, लूला, पांगला, व खोडा करदेता है। इस रोगमें दर्द-की जगह जोंक लगाकर लोहू निकलवाडाले और गर्म रुईसे सेंकै और अफीम वा कुचिलेको तेलमें मिला कर मालिश करे ऊपरसे थूहरके पत्ते या धतूरेके पत्ते गर्म करके बांधे ॥

अथ अकडवात चिकित्सा ।

जब बहुत छोटी और पतली नसोंमें वायु प्रविष्ट होजाता है तब हाथ पैरोंमें हडफूटन व दर्द और कांपना और हाथ पैर अकड जाते हैं इस रोगमें अग्नि-से खूब सेंकै और शोधा हुआ कुचिला दो रत्तीसे प्रतिदिन बढाकर एक मासा तक पानमें खावे क्योंकि नसोंके अन्दरकी वायुके दूर करनेको कुचिलासे बढ-

कर दूसरी औषधि नहीं है और एक छटांक सरसोंके तेलमें दो तोले कुचिलाको जलाडाले फिर उस तेलकी मालिश भी किया करे तो उक्त रोग दूर हो ॥

अथ संधिवात चिकित्सा ।

जोडोंमें जब वायु प्रविष्ट होजाता है तब जोडोंको ढीला करदेता है और जोडोंके अन्दर सूजन और पीडा पैदा करदेता है । इन्द्रायनकी जड मासे ६, पीपरि छोटी मासे ६, गुड तोले १ मिलाकर खावे तो सात दिनमें संधिवात दूर हो, परन्तु इस दवासे चार पांच दस्त रोज होंगे । गूगुल मासे ६, सोंठि मासे ६, घी तोला १ मिलाकर खावे तो जोडोंकी वायु दूर हो । अरंडका छिला हुआ दाना १ सबेरे निगले फिर सात दिन तक एक दाना रोज बढावे फिर आठवें दिनसे ७ दाने रोज निगला करे तो २१ दिनमें उक्त रोग दूर हो ॥

अथ वातरोगीके लक्षण।

वातरोगमें बाल छोटे होजाते हैं । पुरुष बकवादी होजाता है । पेटमें गुडगुडाहट शब्द हुआ करता है । पसलियोंमें दर्द, पाखाना गाढा और एकदो दिनतक पाखाना होताही नहीं । शरीरमें कम्पन और रोमांच शरीर रूखा और दुर्बल और काला होजाता है और

शरीर ठंडा रहता है। कानोंमे घण्टीसी बजने लगतीहै शिर फरकता और चित्त अतिचंचल होजाता है। रातको निद्रा नहीं आती। पसीना नहीं आता। बलका नाश, वीर्यका नाश, परिश्रम, थकावट और डरपोंकपना, बुरे बुरे स्वप्न देखना, अत्यन्त चिन्तायुक्त रहना, अंग फरकना इतने वातरोगीके लक्षण हैं। हनुस्तम्भ, अर्दित, आक्षेप, पक्षाघात, अपतानक इन पांच रोगोंवाले पुरुष बहुतदिनतक पूर्णपथ्य परहेज से रहकर बहुतसी अनेक प्रकारकी अति उत्तम औषधियाँ खाकर भी अगर रोगी जवान और बलवान हो तो कोई बिरला ही आराम होता है।

अब यहाँपर बहुतसी परीक्षित औषधियाँ लिखते हैं।

जो वातके ८४ रोगोंमें अवश्य ही पूर्णलाभ देतीहैं वातका कोई रोग क्यों न हो इनमेंसे किसीभी औषधिके देनेसे फायदा होता है॥

अथ योगराज गूगुल।

सोंठि, पिपरामूल, चाब, कालीमिर्च, चीतेकी छाली, भुनीहींग, अजमोद, सरसों, दोनों जीरे, सम्हालूके बीज, इन्द्रजौ, पाढ, बायबिडंग, गजपीपरि, कुटकी,

अतीस, भारंगी, वच और मरोरफली, ये बीस चीजें प्रत्येक मासे चार चार और त्रिफला(औंरा–हर्र–बहेडा)सब औषधियोंसे दूना औरशुद्धगूगुल सबके बराबर लेकर लोहेकी कडाहीमें डालकर लोहेके दंडसे घी डालडाल कर खूबघोटै। जब खूब महीन काजलकी तरह होजावे तब झरबेरीकी बराबर गोलियां बनाकर घीके चिकने बर्तन अथवा कांचके बर्तनमें भरकर रख छोडे। फिर बलाबल देखकर १ मासा या २ मासे प्रातः- काल रास्नाके काढा अथवा गर्मदूध या गर्मपानीसे कुछ दिन सेवन करे तो वातके ८४ रोग अवश्य नाश हों। और कोढ, बवासीर, संग्रहणी, प्रमेह, वातरक्त, भगन्दर, नाभिशूल, यक्ष्मा, उन्माद, मृगी, वातगुल्म, उरग्रह, मन्दाग्नि, श्वास, खांसी, अरुचि, वीर्यदोष, प्रदर इत्यादि रोग दूर हों। यह रसायनी है इसपर मैथुन व भोजनादिका कुछ भी परहेज नहीं। यह काकोलीके काढाके साथ पित्तके रोगोंको हरता और अमिलतासकेकाढासे कफके रोगोंको और दारुहल्दीके काढासे सर्व प्रमेहको और गोमूत्रके साथ पांडुरोगको और शहदके साथ मेद व स्थूलताको और नीमके काढेसे १८ प्रकारके कोढोंको और गुर्चके काढेसे आमवातको और सोनापाठाके काढेसे मूसाके विष- को और त्रिफलाके काढासे नेत्रके सर्व रोगोंको

और पुनर्नवाके काढासे आठों उदररोगोंको हरताहै॥

अथ त्रयोदशांगगूगुल।

असगंध, हाऊबेर, गुर्च, शतावरी, गोखरू, बिधारा, रास्ना, सौंफ, कचूर, अजवाइन, सोंठिये सबबराबर ले और सबके बराबर शुद्धगूगुल, आधा गायका घी मिलाकर लोहके बर्तनमें लोहदंडसे खूब रगडकर दो दो मासेकी गोलियां बनाकर घीके बर्तनमें याकांचके बर्तनमें रखछोडे फिर रोगीका बल देखकर १ मासेसे ३ तक गर्म जल या गर्म दूध या मदिरा या मांसका अर्क या अजवाइनका अर्क या चोबचीनीका अर्कके साथ वातके अतिउग्र रोगोंमें कुछ दिन सेवन करावे तो८४वातविकार अवश्यही दूर हों कुबडा व खंजापन मिटै। टूटी हड्डी जुडे इसके समान और कोई गूगुल उपकारी नहीं। यह अनेकबारका परीक्षा किया हुआ है परन्तु चोबचीनीके अर्कके साथ सेवन करै दिन ४० तक॥

अथ वातारि तैल।

लहसुन तोले २०, लालमिर्च तोले २०, अफीम तोले ३ इनको कुचिलकर सेरभर तिलोंके तेलमें एक लोहेके बर्तनमें डालकर सरईसे उस बर्तनका मुख बंद कर चूल्हेके नीचे गाड़देवे जब १९ दिन होजावें तब निकाल कर तेलको छानकर बोतलमें भरलेवे और

वातविकार वाले रोगीके कुछदिन बराबर लगायाकरे तो सर्व वायुविकार हरलेता है परीक्षा किया हुआ है॥

अथ सैंधवादितैल ।

सैंधानमक ८ तोले, सोंठि ५ तोले, पीपलामूल २ तोले, चीता २ तोले, भिलावांकी मींगी ४०० तोले, कांजी २५७ तोले, तेल तिलोंका ६४ तोले,इन सबको मन्दाग्निसे लोहेकी कड़ाहीमें पकाकर बोतलमें भर रक्खे फिर इसका मर्दन करै तो वातके ८४ रोग दूर हों जब नारायण तैलसे लाभ नहीं होता तब इससे लाभ होता है ॥

अथ अठरंगा तैल ।

आक, महानीम,अरंड,सम्हालू, सहिंजना,धतूरा, सेहुंड, रास्ना इनके पत्ते अथवा इन सबका स्वरस बराबर २ लेवे और सबसे चौथाई तिलोंका तेल लेवै फिर सबको कडाहीमें डालकर मन्दाग्निसे तेलको पचालेवे फिर ठण्ढा कर बोतलमें भरलेवे और प्रतिदिन मालिश करे तो वायु सम्बन्धी सर्वरोग दूर हों ॥

अथ षट्धरणयोग ।

चीता, इन्द्रजौ, पाढ, अतीस, कुटकी, हर्र इनको बराबर लेकर महीन पीस छान कर चूर्ण बनावे फिर४ मासे या ६ मासे गर्मजलके साथ कुछदिन सेवन करै

तो वातके सर्वरोग नाश हों इसके खानेसे भूँख बहुत बढजाती है। और दो तीन दस्त रोज होते हैं। यह उत्तम औषधि है॥

अथ विष्णुतैल।

सरिवन, पिठवन, खरैंटी, गोखरू,गंगेरन, अंडकी जड़, दोनों कटाई,करंज, शतावरी,पियाबांसा ये सब आठ२तोले और तिलोंका तेल सेर ४ और गाय या बकरीका दूध सेर ८लेवे फिर सबको कडाहीमें डाल मन्दाग्निसे तेलकोसिद्धकर बोतलमें रख छोडे फिर इस तैलकी कुछ दिनतक मालिश करे तो मनुष्य तो किस गिनतीमें है यह तेल हाथी और घोड़ोंकेभी प्रबलवात को शीघ्रही दूर करदेता है टूटी हड्डीको जोड़ता तथा शरीरको फौलादसा बना देता है इसकानामविष्णुतैल है इसको भगवान् विष्णुने बनाया हैहमारा परीक्षाकियाहुआ है वातके दर्दको तो३दिनमेंहीनाशकर देताहै।

अथ छागलादिघृत।

बकरी जवान विना ब्याईहुईका मांस सेर१०और दशमूलतोले४००, असगन्ध तोले४००, बरियारीकी जड़ तोले ४००लेवे फिर प्रत्येक चीजोंको अलग २ चौगुने पानीमें औटावे जब चौथाई रहे तब सबको लोहेकी कड़ाहीमें छानदेवे इसीप्रकार ऊपर लिखी हुई

सब चीजोंका काढा कर२कड़ाहीमें छानदेवे और उसी कड़ाहीमें गायका घी सेर९डालदेवे और शतावरिका रस भी ६सेर डालदेवे फिर जीवन्ती, महुआ, दाख, दूधी,कमल, नागरमोथा, चन्दन, रास्ना, सरिवन्, पिठवन्, बरियारी, अनन्तमूल, शतावरि, असगंध, बिदारीकन्द, कचूर,हल्दी,दारुहल्दी, प्रियंगु, त्रिफला, तगर,तालीस, पद्माख,इलायची, तेजपात, नागकेशर, चमेलीके फूल,धनियां, मजीठ, अनार, देवदारु, एलुआ, रेणुका, बायबिंडग, जीरा सफेद, केशर ये प्रत्येक चार चार तोले लेकर सबको पीसकर उसी कडाहीमें डालदेवे और मन्दाग्निसे घृतकोसिद्धकरलेवे जब सब अर्क जलकर घृतमात्र शेष रहे तब उतार छान कर कांचके बर्त्तनमें रखछोडे परन्तु उसमेंमिसिरी सेर१मिलादेवे फिर बलाबल देखकर १ तोलासे ३ तोले तक खावे तो बहुतपुरानेअसाध्य भी बातकेसर्व रोग दूर हों तथा अनुपानसे पित्तके सर्वरोग व कफके सवरोग भी दूर होवें अगर हम इस घीकी पूर्णप्रशंसा लिखें तो कई पृष्ठ भर जावें इससे सर्व प्रमेह,सर्व कोढ़ सर्व उदर रोग तथा स्त्रियोंके सर्व रोग, राजयक्ष्मा वातरक्त, गर्भस्राव, बन्ध्यात्व इत्यादि सर्वरोग दूरहोते हैं इसके सेवन करनेसे मनुष्य१०० वर्ष तक जीता है॥

अथ नारायण तैल।

बेलगिरी, अरनी, सोनापाठा, पाढ, महानीम, प्रसारणी, असगंध, कटाई, बरियारी,ककई, गोखरू पुनर्नवा ये हर एक दश दश तोले लेकर चतुर्गुण जलमें पकावे जब चौथाई रहे तब उतारकर कडाहीमें छानदेवे और तेल दोसेर तथा सौंफ,देवदारु,बालछड, छरीला, बच, लालचन्दन,तगर,कूट, इलायची,उडद, मूगपर्णी, सरिवन्, पिठवन्,रास्ना, असगंध, सेंधानमक, पुनर्नवा ये प्रत्येक दोदो तोले लेकर पीस लेवे और शतावरीका रस सेर २ और बकरीका दूध सेर८ फिर इन सबको उसी कडाहीमें डालकर मन्दाग्निसे सिद्ध करै जब सब रस जलकर तेलमात्र शेष रहे तब उतार छान ठंढा कर बोतलमें भर देवे फिर इसकी मालिश करे, कानमें डाले, खावे पिचकारी लेवे तो ऊर्ध्ववात, अधोवात, मन्यागतवात, शिरोगतवात, हनुस्तम्भ, बधिरता, पंगुता, गूंगापना, भुजाशोष, पादशोष, जिह्वारोग इत्यादि वात के ८४ रोग दूर होते हैं। इसके लगानेसे हाथी व घोडोंके भी सर्व वायुविकार दूर हो जाते हैं। तब आदमी किस लेखेमें रहा ॥

अथ वातारिवटी।

चीतेकी जड, सोंठि, शोधा हुआ गन्धक, काला नोन, सेंधानोन, भुनीहींग, हर्र, आंवला, बहेडा, पिपरामूल, सुहागा भुना हुआ, कुचिला शोधा हुआ, गुड पुराना इन सबको बराबर लेकर महीन पीसकर नींबूके अर्कसे मासे मासे भरकी गोली बांधकर छायामें सुखाकर रख छोडे फिर एक गोली प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करै तो वातके ८४ रोग दूर हों शरीर मोटा व बलवान् हो क्षुधा बढै दस्त खूबसाफ हो शरीरकी नसोंमें पूर्ण ताकत आनेके लिये इसके बराबर अन्यऔषधि नहीं है यह मुझ ग्रन्थकर्त्तागौरीशंकर त्रिपाठीका अनेकबारका परीक्षा किया हुआ है।

अथ वातपन्नगवटी।

धतूरेके फल सेर १, सोंठि आधासेर, अजवाइन आधासेर, एक मिट्टीकी बडीहांडी लेवे उसमें प्रथम आधे फल धरै फिर सोंठि धरै फिर अजवाइन धरै फिर आधे फल धरै फिर ऊपरतक जल भरदेवै और हांडीका मुख बन्द करदेवै फिर मन्दाग्निसे दो पहर चुरावै फिर बाद दो पहरके उतारकर हांडीमेंसे केवल सोंठि लेलेवे बाकी सब फेंकदेवे फिर वह सोंठि छांहमें

सुखाकर महीन पीस छानकर सहिंजनेके रसमें घोट कर चनाके बराबर गोली बांधे फिर एक गोली प्रतिदिन सबेरे खावे तो ८४ वायुविकार दूर होयँ। यह बहुत तेज और चमत्कारिकऔषधि है यद्यपि काष्ठादि औषधि है तथापि रसमात्रा बराबर काम देती है ॥

अथ असगंधादि चूर्ण।

असगंध, रास्ना, अरंडकीजड़, अजवाइन, सोंठि सौंफ, अ जमोद, शतावरी, हाउबेर, बावची, बिधारा सफेद जीरा इन सबको महीन पीस छानकर मासे ४ प्रातःकाल गर्म दूध या गर्म पानी या मांसरस या मदिरा या घी या छाँछ या गोमूत्र इनमेंसे किसीके भी साथ खावे तो सर्ववायु विकार दूरहों परन्तु कुछ दिनतक सेवन करै ॥

अथ वातारि अर्क।

जवासा, नागरमोथा, अरंड़की जड़, अरूसा; अतीस, पियाबांसा, चाब, पीपल, सांठी, देवदारु, कटेली, धनियां, बच, सौंफ, शतावरि, बरियारी सोंठ, बिधारा, हर्र, गोखरू, अमिलतास, कचूर असगंध, गोखरू बडा, कालाजीरा, बहेडा, बादाम ये सब पांच पांच तोले अजवाइन सेर १ रास्ना सेर २, धनियां पाव भर फिर सबको मिट्टी या तांबेके

बर्त्तनमें ८ सेर पानीमें जवकुट कर एक दिनरात भिगोदे दूसरे दिन भट्टीपर चढाकर बाष्पयंत्र (नली भाफद्वारा) से अर्क खींचकर बोतलमें भर रक्खे फिर १ तोला या ३ तोले या ५ तोले रोज बलानुसार दिनमें एकबार या दो बार या तीनबार पीवे तो शरीरका सर्व दर्द व सूजन व चिलक व सर्व वायुविकार अवश्यही दूर हों, यह बहुत गुणकारी अर्क है, सूखे अंग भी इसके सेवनसे हरे व बलवान होजाते हैं और बवासीर, हृदयरोग, शुक्रदोष, स्त्रियोंके रोग, पीलपांव, आमवात, लकवा, फालिज इत्यादि वातके ८४ रोगोंका अवश्यही नाश होजाता है, गठियावगैरह तो दोही दिनमें अच्छे हो जाते हैं ॥

अथ धन्वंतरिवटी ।

हींग भाग १, बच २, बायबिडंग ३, सैंधानमक ४, जीरा ५, सोंठि ६, मिर्च ७, पीपरि ८, कूट ९, हर्र १०, चीता ११, अजमोद १२ भाग और पुराना गुड इन सबसे दुगुना लेकर सब पीस छान कर गुड मिलाकर छोटी सुपारीके बराबर गोली बना लेवे फिर १ गोली प्रातःकाल और १ गोली शामको गर्मजलसे खावे तो वायुके ८४ रोग अवश्यही दूर हों और वातहर्ष, गुल्म, वीस प्रमेह, हृदयरोग, १८ कोढ़, ८ शूल, गलग्रह, श्वास, संग्रहणी, अग्निमंदता, पांडु, अरुचि इतने रोगोंको अव-

श्यही दूर करे परन्तु कुछदिन बराबर सेवन करै शरीरमें बल बढे बुद्धि बहुत बढे यह औषधि महाराज धन्वन्तारिजीने खास अपने पुत्रको बताई है। यह औषधि बहुत चमत्कारिक है कभी निष्फल नहींजाती मैंने अनेक बार परीक्षा की है॥

अथ वातारि चूर्ण।

सोंठि, मिर्च, पीपरि, सफेदजीरा, कालानमक ये सब बराबर लेकर महीन चूर्ण करै फिर गर्मपानीसे मासे ४ एक समय खावे तो ८४ वायु दूर हों सर्वअंगोंकी शूल व दर्द दूर हो भूख बढै दस्त खूबसाफ हो शरीरका भारीपन व सुस्ती मिटै॥इतिवातव्याधि चि०

अथ ऊरुस्तंभ चिकित्सा।

जब ऊरु (पिंडिलियों)में कफ व मेद व वात इकट्ठा हो जावे तब उसमें शूल, चिलक, झंझनाहट, भारीपन ये उत्पन्न होजाते हैं और भीगे कपड़ेमें लपेटी हैं ऐसी शीतल तथा सुन्न (स्पर्श) ज्ञान नहीं रहता चलनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है उसको ऊरुस्तम्भ कहते हैं॥

वातरोगमें जो योगराजगूगुल और सैंधवादितैल तथा वातारि अर्क कह आये हैं ये ऊरुस्तंभको अवश्य हरते हैं जिस तरफसे नदीका प्रवाह आता है उसीतरफ

को एक या आधा कोश नदीके पानीमें चलनेसे ऊरुस्तंभ दूर होता है। अथवा वातरोगमें कहे षट-धरन चूर्णके खानेसे ऊरुस्तंभ दूर होता है अथवा करंज, त्रिफला, सरसों इनको गोमूत्रमें बांटकर मोटा२ लेप करै अथवा सांपकी बँबीकी मिट्टी और सरसों को महीन पीसकर शहद मिलाकर आगमें थोडा गुन गुना कर मोटा लेप करे तो ऊरुस्तम्भ अवश्य दूर हो अथवा बडे जोरसे नदीके किनारे सूरजकी गर्मीसे तपी हुई बालूमें दौडावे तो ऊरुस्तंभ अवश्य दूर हो॥ इति ऊरुस्तम्भ चिकित्सा॥

अथ आमवातके लक्षण चिकित्सा।

सर्वशरीरमें टूटनेके समान पीडा हो खानेकी इच्छा न होना, प्यास, आलस्य, ज्वर शरीरमें भारीपन और पांव, पिंडली, जंघा, कटि, ग्रीवा इनमें सूजन और विच्छू काटनेके समान पीडा होना, शरीरमें दाह, मूत्र अधिक आना, आंतोंका बोलना ये आम-वातके लक्षण हैं॥

अथ चिकित्सा।

बडी हर्रका चूर्ण मासे६, अरण्डीका तेल तोले३ में मिलाकर चाटैतो७दिनमें आमवात दूर हो अथवा गुर्च, अरंडकी छाली, देवदारु, अमिलतास, चीता ये बरा-

बर लेकर १ तोलेका पावभर पानीमें काढा करे जब एक छटांक रहे तब छानकर प्रतिदिन तीनबार अर्थात् प्रातः, मध्याह्न, संध्यामें पीवे तो ७ दिनमें आमवात दूर हो, कटिपीडा व पँसुरीकी पीडा भी मिटै। अथवा वातरोगमें योगराजगूगुलसे व सैंधवादि तैलसे भी आमवात दूर हो। अथवा हर्रको गोमूत्रमें २१ दिन भिगो रखे फिर छायामें सुखाकर पीस लेवे फिर मासे ६ अंडीके तेल तोले ३ से खावे तो आमवात अवश्य दूर हो। अथवा अमिलतासके पत्तोंकी तरकारी सरसोंके तेलमें छौंक कर बनाकर ७ दिन खावे तो आमवात दूर हो। अथवा निसोत, सेंधानोन, सोंठि इनको सम भाग लेकर मासे ४ प्रातःकाल कांजीके साथ खावे तो आमवात दूर हो॥

अथ वैश्वानर चूर्ण।

अरणी भाग२, अजवाइन भाग२, सोंठि भाग ९, अजमोद भाग ३, हर्र भाग १२ इन सबको पीस छान चूर्ण करै फिर मासे ४ व ६ गर्मपानी घी, छाँछ, दहीका पानी, व कांजी इनमेंसे किसी एकके साथ खावे तो सर्व उपद्रव सूजनसहित आमवात दूर हो और गोला, हृदयरोग, तिल्ली, गांठ, बवासीर,शूल, अफरा, बस्तिशूल, विबंध और सर्व वातरोग दूर हों पेट साफ हो क्षुधा बढै॥

अथ अजमोदादिवटी ।

अजमोद, मिर्च, पीपरि, बायबिडंग, देवदारु, चीता, शतावरी, सेंधानोंन, पिपरामूरि, आककी जड ये प्रत्येक चार चार तोले और सोंठि बिधारा ये चालीस चालीस तोले हर्र तोले २० इन सबको पीस-कर सबके बराबर गुड मिलाकर मासे चार चारकी गोली बनाकर १ गोली प्रभात १ संध्याको गर्मपानीके साथ खावे तो घोर आमवातका नाश होवे और वात-के ८४ रोग १८ कोढ भी अवश्य दूर हों शरीरमें बहुत बल बढे ॥

अथ आमगजसिंहगुटिका ।

सोंठि ६४ तोले, अजवाइन ३२ तोले, जीरा सफेद ८तोले, धनियाँ ८तोले, सौंफ, लौंग, सुहागा, मिर्च, निसोत, त्रिफला, जवाखार, पीपरि ये सब चार चार तोले लेकर सबको पीस छान चूर्ण करे और इन सब से चौगुनी शक्कर लेकर चाशनी कर उक्त चूर्ण उसीमें मिलादे और शहद तोले २० और कचूर, इलायची, तेजपात, दालचीनी ये भी दो दो तोला लेकर महीन पीसकर उसी चाशनीमें डालकर एक एक तोलाभरके लड्डू बनालेवे फिर १ मोदक सबेरे खावे तो असाध्य भी आमवात नाश होवे तथा अम्लपित्त व रक्तपित्त भी

दूर हों यह गहननाथ योगीका कहा हुआ है नुसखा कदापि निष्फल नहीं जाता ॥

अथ वातारिगूगुल।

शोधा हुआ आमलासार गन्धक तोले५, गूगुलशुद्ध तोले५, त्रिफला तोले ५, अरंडका तेल तोले ५ इनको महीन पीस छान कर तेलमें मिलाकर रख देवे फिर उसमेंसे तोला १ प्रातःकाल गर्मपानीके साथ १महीना खावे तो महाघोरअसाध्य सैकड़ोंवैद्योंकरके छोडाहुआ भी आमवातरोगी अवश्यही अच्छा होवे यह वातके भी ८४ रोगोंका नाश करता है, कटिशूलको एकही दिनमें दूर करदेता है यह हमारा अनेक बारका परीक्षित है बहुत उत्तम है ॥

दही, दूध, मछली, गुड, मांस, उडद, बैंगनइत्यादि बादी व शीतल वस्तुओंको आमवातवाला रोगीत्याग देवे । और परवल, करेला, कोदों, जौ, कुलथी, बथुआका शाक और लवाका मांस और मटर व चनाकीदालका यूस और पुराने सांठीके चांवल इतनी वस्तुयें आमवातमें पथ्य हैं और लंघन. स्वेदन (पसीना), जुलाब स्नेहन, बस्ति, पिचकारीइतने उपचारोंसे आमवातकी चिकित्सा करै । कपडेमें बालूकी पोटली बांधकर आगमें गरमकरकर सर्वशरीरको कपडेसे ढककर सेंके

तो पसीना निकलकर आमवातको दूर करै ॥ इति आमवात चिकित्सा ॥

अथ पित्तव्याधिके लक्षण व चिकित्सा ।

अधिकखट्टा, बहुतगर्म, बहुतनमक, बहुतउपवास, बहुतक्रोध करनेसे पित्तके ४० रोग उत्पन्न होजाते हैं उनके नाम लक्षण ॥

१ युवा अवस्थामें बाल सफेद होना, २ नेत्र लाल, ३ नेत्र पीले, ४ मूत्र लाल, ५ मूत्र पीला, ६मल पीला ७शरीर पीला, ८ नख पीले, ९ दांत पीले, १०आंखोंमें अंधियारालगना, ११सबकुछ पीलासा दीखना, १२ निद्रा थोडी, १३ मुखसूखना, १४ मुखमें दुर्गन्ध, १५ मुख तीक्ष्ण, १६ मुख खट्टा, १७ श्वास गर्म, १८डकारमें धुवांसा निकले, १९ भ्रम, २० चिन्ता, २१ उदासी, २२ ग्लानि, २३ क्रोध, २४दाह, २५ अतीसार, २६तेजवस्तु अग्नि दीप इत्यादि नहीं सुहावें, २७ शीतल बस्तुओंमें चित्त चला करै, २८ चित्त चंचल, २९ भोजन करनेमें दाह, ३० क्षुधा बहुत, ३१ नाकसे रुधिर निकलना, ३२ पतला दस्त होना, ३३ गरम दस्त होना, ३४मूत्र गर्म और बूंदबूंद टपकता तथा दर्द व शूलके साथ उतरता है, ३५ शरीर गर्मरहता है, ३६ पसीना बहुत आता है, ३७ पसीनेमें दुर्गन्ध आती है, ३८ शरीर रूखा और

फटासा होजाना, ३९ शरीरमें हडफूटनसी रहना, ४० शरीरमें बहुतसी गुमडी होजाना ये इसके लक्षण हैं ॥

अथ चिकित्सा।

नीम इत्यादि कड़वे पदार्थ खीर इत्यादि सुस्वादु पदार्थ आमला इत्यादि कसैले पदार्थोंका खाना, शीतल पवन वट व पीपलकी शीतल छायामें बैठना, रातमें चांदनीकी किरणोंमें घूमना, छायामें शीतल जलाशयों व फुहारा आदिमें स्नान करना, सुगंधित पुष्पोंकी माला और खसके पंखेकी पवन और सुन्दर रूपवती युवति स्त्रीका स्पर्श करनेसे, गुलाबका अर्क पीनेसे, शर्बत अनारके पीनेसे, फस्द (रुधिरनिकलवानेसे) गायके कच्चेदूधमें शक्कर व शर्बतअनारडालकर पीनेसे, शीतलपदार्थोंका शरीरमें लेप करनेसे, जुलाब लेनेसे पित्तके चालीसों रोग दूर होजाते हैं॥इतिपित्तव्याधि॥

अथ कफव्याधिके लक्षण व चिकित्सा।

बहुतमीठादही व चिकनी वस्तुएँ पूडी कचौरी वगैरः व खटाई इन वस्तुओंके अधिक खानेसे, दिनकेसोनेसे, शीतल उपचारोंसे, कफके २० रोग उत्पन्नहोते हैं उनके नाम १ मुख मीठा, २ मुख कफसे व्याप्त, ३मुखसे लार बहना, ४ निद्राकी अधिकता, ५कंठमें खरखर होना, ६ कड़ुआ पदार्थ खानेकी इच्छारहना, ७गर्मवस्तुखानेकी

इच्छा,८ बुद्धि मन्द होजाना,९ आलस्य बहुत रहना, १० थोडी चैतन्यता,११ अग्नि मन्दहोजाना,१२ मल अधिक होना, १३ मूत्र सफेद व फेनायुक्त, १४ वीर्य अधिकहोजाना, १५शरीरभारी रहना,१६ शरीर शीतल रहना,१७ शरीरबन्धासा रहना,१८भूख न लगना, १९उत्साहका नाशहोजाना,२० मस्तक भारीरहना॥

अथ सबकी सामान्य चिकित्सा ।

कडवी, खट्टी, कसैली, नमकीन वस्तुओंके अधिक खानेसे, दंड, मुद्गर, कसरत, व्यायामादि करनेसे, कुश्ती लडनेसे, मार्ग चलनेसे,वमन करनेसे, पसीना निकलनेसे, उपवास करनेसे, प्यासके रोकनेसे, जलमें पैरनेसे, रात्रिमें जागनेसे, बहुत कुल्ला करनेसे, गर्मवस्तुओंके खानेसे, नस्य सूंघनेसे, मैथुन करनेसे, गर्म व चरपरे लालमिरचकी कटुतासे युक्त भोजन करनेसे इन उपचारोंसे कफके बीसों रोग शान्त होजाते हैं ॥ इति कफव्याधि ॥

अथ वातरक्तके लक्षण व चिकित्सा ।

वातरक्त६ प्रकारका है । अधिकरक्त १, अधिकपित्त २, अधिककफ ३, अधिकरक्तपित्त४, अधिकरक्तकफ५, अधिकरक्तपित्तकफ६, अंगफरकना, सूजन व खुजली, रूखापन, श्यामता, शरीरमें पीडा व कम्प, पैरोंमें

पीडा, शरीरमें गुमडी व चकत्ते पडना, अधिकरक्तमें खुजली और पीडा बहुत तेज होती है सूजन व जलन खूब होजाती है । अधिक पित्तमें दाह,जलन,पसीना, मूर्छा, प्यास, विकलता, मोह ये उत्पन्न होजातेहैं, पीडा व दाह व सूजन अधिक होजाती, सूजन पककर फूट-जाती है।कफाधिकमें हाथ पैरोंमें झंझनाहट, शरीर शीतल पड़जाना, शरीर चिकना, खुजली बहुत होना ये कफ अधिकके लक्षण हैं । दो दोषवालेमें दोनों दोषोंके और जिसमें तीनोंके लक्षण मिलें उसको त्रिदोषका जानो, यह त्रिदोषवाला दोनों पैरोंके तलुओंमें अक्सर होता है वहांपर सफेद मटरके बराबर हजारों छाले पड़-जाते हैं पर कभी कभी त्रिदोषवाला हाथोंमें भी हो जाता है तब दोनों हाथोंकी हथेलियोंमें सफेद मटरके समान सैकडों फफोले पडजाते हैं वहां जलन व खुजलीभी होती है ॥

अथ अपथ्य ।

दिनमें सोना, कसरत करना, मैथुन, क्रोध, भारी व गर्म व कड़वे पदार्थ, खटाई, नमक इतनी वस्तुएँ वातरक्तवाला त्याग देवे ॥

अथ पथ्य ।

पुराने जौ, गेहूँ, चावल और लवा, बतक

बटेर, तीतर इनका मांस और चना, मूँग, मसूर, कुलथी इनकी दालका जूस और मकोय, शतावरी, बथुआ, पोई, बेंतके पत्ते इनकी भाजीमें कालानमक डाल घीमे छौंककर खावे ये सर्व परम हितकारी जानो ॥

अथ चिकित्सा ।

गेहूँके आटामें बकरीका दूध और घी मिलाय लेप करे अथवा तिलोंको भूनकर बकरीके दूधमें पीसकर लेप करे तो वातरक्त नष्ट होय। अथवा अलसी या अरंडीकी मींगीको बकरीके दूधमें पीसकर लेप करे तो वातरक्त दूर होवे । अथवा गुर्चका केवल काढा पीवे या गुर्चके काढामें गूगुल डाल पीवे अथवा गुर्चके काढासे योगराज गूगुल खावे तो वातरक्त दूर हो । गुर्चका सेवन अनेक रोगोंको हरता है प्रसंगवश गुर्चकी विधि लिखते हैं-चाहे गुर्चको गीली ही पीसकर स्वरस निकाल ले चाहे छायामें सुखाकर पीस छान ले चाहे काढा कर ले अगर गुर्चको गूगुलके साथ खाय तो वातरक्त जाय । और गुर्चको घीके साथ खाय तो वातका नाश करै । अगर गुर्चको गुडके साथ खाय तो पित्तको दूर करै । अगर गुर्चको मिसरी व शहदके साथ खाय तो कफको दूर करै । अगर अरंडके तेलके साथ गुर्च-

को खाय तो वातरक्त नाश होवै । अगर सोंठिके साथ गुर्चको खाय तो घोर आमवातका नाश करै । अगर शहदके साथ गुर्चको खाय तो २० प्रमेह नाश हों ।

अथ मंजिष्ठादिकाढा ।

मँजीठा, हर्र, बहेडा, आमला, अमिली, बच, देवदारु, हल्दी, गुर्च ये सब चीजें बराबर लेकर पाव भर पानीमें दो तोले औषधियोंका काढा करै जब एक छटांक रहे तब ठंढा कर छानकर पीवे तो वातरक्त, कोढ, खुजली, फोडा, फुंसी, खाज, सेहुआँ, विसर्प इतने रोगोंका अवश्य नाश करे यह अनेक बारका परीक्षा किया हुआ है ।

अथ गुर्चादिकाढा ।

गुर्च, बावची, पमाडके बीज, नीमकी छाल, हर्र, हल्दी, आंवला, अरूसा, शतावरि, सुगंधवाला, वरियारीकी जड, मौरेठी, महुआ, गोखरू, परवल, खस, मँजीठ, लालचन्दन ये सब बराबर लेकर जव-कुट कर १ या २ तोले लेकर पाव भर पानीमें मंदाग्निसे काढा बनावे जब एक छटांक रहे तब ठण्डा कर छानकर पीवै तो वातरक्त व १८ कोढ दूर हों और खाज, मंडल, चकत्तोंका समूल नाश हो । अगर एक महीने तक प्रतिदिनमें दो बार यह काढा पिया जावे

तो वातके ८४ रोग व संपूर्ण रुधिरविकार अवश्य ही नाश होवें।यह हिमालय पहाडपर तप करते हुये मुनिजनोंने परम दयाकर मनुष्योंके उपकारकेलियेबताया-यह बड़ा चमत्कारी काढा है अनेक बार हमने परीक्षा किया है जो तीन रुपयेकी छोटीसी शीशी अंगरेजी सालसापरेलाकी पीते हैं उन सुजनोंसे विनय है कि, अगर घोर रुधिरविकारसे पीडित हों तो इसको केवल ८ दिन पीके देखें यह सारसापरेलासे १००गुनाअधिक शीघ्र लाभ करता है इसकी १बोतलकीबराबरी सालसा की ५०बोतल नहींकरसकतीहैं।इसका सविस्तरवर्णन हमारे बनाये "मुर्जरिवातगौरीशंकर" नामक ग्रन्थमें देखो।गायकी नैनू अथवा घीको पानीसे १०८ बार धोकर लेप करे तो वातरक्त दूर हो अथवा भेडके दूधसे सेंक करे तो वातरक्त दूर हो ।

अथ निंबादिचूर्ण।

नीम, गुर्च, हर्र, आंवला, बावची ये चार चार तोले और सोंठि, बायबिडंग, पमाडके बीज, पीपरि, अजवाइन, बच, जीरा, कुटकी, सफेद खैर, सैंधानोंन, जवाखार, हल्दी, दारुहल्दी, नागरमोथा, देवदारु, कूट ये सब एक एक तोले लेवे फिर सबको पीस छान कर चूर्ण बनाकर गुर्चके काढाके साथ मासे

चार प्रतिदिन खावे तो एक महीनेमें सोनेके समान शरीर चमकने लगे और अतिउग्र महा असाध्य वातरक्त व सफेद कोढ व उदुम्बर और चर्मदलकोढसे, हुआँ, दाद, खाज, विचर्चिका, मंडल, चकत्ता, किट्टिभ, विप्लुता, आमवातकी सूजन व जलोदरादि आठों उदररोग, प्लीहा, बायगोला, पांडुरोग, कामला, सर्वव्रण इतने रोगोंका नाश होवे यह निम्बादिचूर्ण महाराज नागार्जुनमुनिका कहा हुआ है, रुधिर विकारके नाश करनेके लिये यह सर्वोत्तम औषधि है ।

अथ योगसारामृत ।

शतावरी, गंगेरन, बिधारा, उटंगनके बीज, सांठी, गुर्च, पीपरि, असगन्ध, गोखरू ये पांच पांच तोले. लेकर महीन पीस छान कर चूर्ण करलेवे । मिसिरी तोले २२, शहद तोले १७२, घी तोले ८९ और दालचीनी, इलायची, तेजपात ये तीनों चार चार तोले लेकर महीन पीसकर सब वस्तुओंको एकमें खूब मिलाकर पत्थर या कांचके बर्त्तनमें भर रक्खे फिर बलानुसार प्रातःकालसेवन करै तो वातरक्त, राजयक्ष्मा, १८ कोढ, दुर्बलता, पित्तरक्त, वातपित्त, कफके सर्वरोग तथा सर्व रुधिर विकारोंको दूर करै । शरीरमें बहुत बल बढे, बाल काले हों वलीपलित दूर हो सोनेके

समान शरीरका रंग निकलै इस औषधिके खानेमें इच्छानुसार आहार करै किसी वस्तुका परहेज नहींहै।

अथ प्रभाकरलेप ।

राल, गन्धक, आमलासार, फिटकरी ये तीनोंदो दो तोले और रसकपूर मासे ३ सबको एकमें खूब बारीक पीस लेवे फिर गायका नैनू अथवा घी १०८ बार पानीसे धोये हुयेमें मिलाकर कटिसे पैरोंतक फैलेहुये वातरक्तमें लेप करै तो खुजली व पानी व चेंप बहना पीडा होना दोही दिनमें अवश्य दूर हो लाली मिटै सर्व फुन्सी सूखकर झड जावें । यह बहुत उत्तम लेप है अनेकबारका परीक्षा कियाहुआ है । विसर्प व उपदंशके फोडे व मसूरिकाकोभी अवश्यही पूरापूरा आराम करदेता है अतिशीघ्र चेंप व पानीसा पीला मवाद बहनेको दूर कर ३ व ४ दिनमें आराम करदेता है ।

अथ अमृतादिचूर्ण ।

गुर्चका सत तोले९ गूगुल तोले९ दोनोंको पीसकर उसमेंसे मासे३प्रभात पानीके साथ खावे तो १ महीनेमें घोर वातरक्तका नाश हो परन्तु तेल, खटाई,हींग नमक इनसे पूरा परहेज रक्खे । अथवा गुर्च, धनियां, सोंठि, अरंडकी जड इनको बराबर लेकर पीस छान मासे ६ प्रभात पानीके साथ खावे तो १ महीनेमें

घोर वातरक्तका नाश हो अथवा मौरेठी, राल, जामुनके फलकी मींगी अनन्तमूल ये सब बराबर लेकर १६ मासेका पावभर पानीमें काढा करे जब एक छटांक रहे तब ठंढा कर अरंडका तेल तोले २ डालकर पीवे अथवा इनका चूर्ण मासे ४ को १ तोला अरंडके तेलमें मिलाकर खावे तो १ महीनेमें वातरक्त दूरहो अथवा गुर्च, अरंडकी जड, सांठीकीजड, शतावरि, पीपारि, देवदारु, असगंध, चिरायता, कुलिंजन, पिपलामूल, सोंठि ये सब सम भाग लेकर पीस छानचूर्णकरै फिर प्रभात ही ४ मासे या ६ मासे चूर्णको १ तोला घीमें मिलाय खावे तो १ महीनेमें वातरक्त दूर हो।

अथ सिंहनादगूगुल।

आंवला, हर्र, बहेडा, बायबिडंग, शिलाजीत, रास्ना, चीता, सोंठि, शतावरि, जमालगोटेकी जड़, पिपलामूल, देवदारु, गुर्च, दारुहलदी, सांठीकी जड, इलायची, गजपीपरि ये सब बराबर लीजै और इन सबके बराबर शुद्ध गूगुल, फिर सबको पीसछानकर गूगुल मिलाकर गायके घीमें खूब घोटकर चिकने बर्तनमें धर रक्खे फिर मासे ३ या ६ गर्म पानी या दूधके साथखावे तो बातरक्त अवश्य दूर हो तथाकोढ,

पित्त, पांडुरोग, नाभिपीडा, जलोदर, शोफोदर ये रोग भी नाश हों ।

अथ अमृतादिगूग्गुल ।

आँवला, हर्र, बहेडा, सोंठि, मिर्च, पीपरि, बायबिडंग, तज,गुर्च, निसोत, जमालगोटेकी जड़, ये सब मासे चार चार और गुर्च तोले ५ गूग्गुल तोले ११ त्रिफला तोले १७ लेवे फिर सबको महीन पीसकर घी मिलाकर लोहेके दंडसे लोहेकी कडाहीमें दो पहर घोटकर चिकने बर्त्तनमें रख छोडे फिर मासे ६ गर्मपानी अथवा दूधके साथ खावे तो घोर वातरक्त दूर हो तथा घोर व्रण, प्रमेह, भगन्दर, आमवात, शोफ व सूजन सबका नाश हो ॥ इति वात० ॥

अथ शूलके लक्षण व चिकित्सा ।

शूलरोग ८ प्रकारका है । वातका १, पित्तका २, कफका ३, वातपित्तका ४, वातकफका ५, पित्तकफका ६, सन्निपातका ७, आमका ८ ।

स्थानविशेषमें होनेके कारण इसके और भी कई नाम व भेद हैं जैसे हृदयमें हो तो हृच्छूल, पसलीमें हो तो पार्श्व (पसली) शूल और नाभिके नीचेके भागमें हो तो बस्तिशूल, नाभिमें होतो नाभिशूल कहते हैं । अगर भोजन करनेके पीछे शूल होवे तो

परिणामशूल कहते हैं। अब हम सबके अतिसूक्ष्म लक्षण कहते हैं॥

जो बस्तिमें शूल होवे वह वातका, जो शूल नाभिमें होवे वह पित्तका, और जो शूल हृदय पसली कटिमें होवे वह कफका, और जो ऊपर कहे सर्व स्थानोंमें शूल हो वह सन्निपातका, और बस्ति, हृदय, कटि, पसली इन स्थानोंमें शूल होवे वह कफवातका, और जो कोखि, हृदय, नाभि इनके बीचमें शूल होवे वह कफपित्तका, और जो दाह व ज्वरसहित शूल होवे वह वातपित्तका शूल है और अन्नके पचनेके समय जो शूल होता है वह आमका शूल है, जो शूल सदा रहे वह अन्नद्रव शूल है॥

अथ चिकित्सा।

वमन कराना, पसीना निकालना, दीपन पाचन औषधियोंका पिलाना, शूल रोगमें उत्तम है। बालूरेतको कपडेमें बांधकर आगमें गर्म कर कर बारम्बार पेट व शूलकी जगहको सेंकै अथवा एक बडी बोतलमें थोडा गर्मपानी भर बोतलका मुख बन्द कर पेटपर बोतल फेरै तो शूल दूर हो यह डाक्टरीक्रिया है इसको फोमेन्टेशन कहते हैं॥

अथवा काले तिलोंको कांजीमें खूब महीन बांटकर बड़ा गोला बनाकर पेटपर फेरै (घुमावे) तो शूल

दूर हो। अथवा मैनफलको कांजीमें चन्दनवत् घिसकर थोडा गर्म कर नाभिमें लेप करे तो सर्वशूल दूर हों। अथवा जुलाब लेवे तो सबशूल नाश हों। आमला मासे ६ को पीसकर शहदके साथ खावे तो शूल दूर हो। अथवा पिसी हर्र मासे ६, घी मासे ६, गुड तोला १ मिलाकर खावे तो शूल दूर हो। अथवा हर्र, बहेडा, आमला, राई इन सबको बराबर लेकर चूर्ण कर मासे ६ में घी व शहद मिलाकर खावे तो सर्वशूल नाश हों। अथवा देवदारु, कूट, शतावरि, हींग, सेंधानमक, चोक इन सबको कांजी व गन्नाके सिरकामें महीन पीसकर गुनगुना कर पेटपर गाढ़ा २ लेप करे तो सर्वशूल नाश हों। चोकको संस्कृतमें (हेमक्षीरी) और भाषामें सत्यानाशी कटेरी कहते हैं उसीकी जड लेना। अथवा बेलकी जड, अरंडकी जड, चीतेकी जड, सोंठि, हींग इन सबको बराबर लेकर पानीसे बाँटकर पेटपर गुनगुना करके लेप करे तो सर्वशूल नाश हों। अथवा धतूरेका फल और कुडा अर्थात् इन्द्रजौके वृक्षकी छाली इन दोनोंको बराबर लेकर काँजी अथवा सिरकामें महीन पीसकर गरम कर नाभि व नाभिके चारों तरफ लेप करे तो घोर शूल मिटे। अथवा सोंठि, हर्र, कालानमक इन तीनोंको

मासे तीन तीन लेकर पत्थर पर पानी डाल चन्दन-वत् घिसै फिर एक कटोरीमें पोंछकर तोले ३ पानी डालकर आगमें गुनगुना कर पीवे तो सर्वशूलोंका नाश हो परन्तु इसके पीनेसे दो दस्त भी होते हैं। अथवा पीपरि, कुटकी, चिरायता, हर्र, एलुआ इन सबको मासा तीन तीन लेकर पानी मिला महीन बांटकर गर्म करके सारे पेटपर मोटा मोटा लेप करै तो सर्वप्रकारके शूलोंका नाश हो मल द्रवै तीन दस्त भी हों। अथवा धनियां, हर्र, हींग, पुष्करमूल, काला नोंन, सेंधानोंन, काचनोंन इन सबको बराबर लेकर पीस छान मासे ६ गर्मपानीके साथ खावे तो सर्व-शूल और बायगोला व अपतंत्रवात इतने रोगोंका अवश्य नाश हो। अथवा अमलबेत, सफेद जीरा, कालानोंन मिर्च ये क्रमसे तोले दो व ४ व १ व ८ लेकर बिजौरा नींबूके अर्कमें घोलकर चनासम गोली बनाकर खावे तो शूल दूर हो अथवा हींग मासा १, कालानोंन मासा २, सोंठि मासा ४, हर्र मासा ८ लेकर महीन पीस गर्मपानीके साथ खावे तो कटि, कोखि, हृदय, बस्ति इतनी जगहका शूल दूर हो। अथवा अजमोद, सेंधानोंन, हर्र, सोंठि ये बराबर लेकर महीन पीस छान मासे ६ चूर्ण गर्मपानीके साथ खावे तो शूल दूर हो। अथवा शंख, कालानोंन, भुनी

हींग, सोंठि, मिर्च, पीपरि इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करै फिर ६ मासे गरमपानीसे खावे तो घोर शूल मिटै । अथवा हिरणके सींगको लोहेकी रेतीसे रिताय ले फिर मिट्टीकी कुल्हियामें रखकर उसका खूब मजबूतीके साथ मुख बन्द करके मिट्टी व कपड़ेकी तीन कपरौटी कुल्हियापर करके घाममें सुखाकर भट्ठीमें डालदे १ प्रहरके बाद निकाल ठंडा कर कुल्हियाके भीतरसे भस्म निकालकर शीशीमें भररक्खे फिर उसमेंसे मासा १ भस्म गायका घी मासे ३ के साथ खावे तो सम्पूर्ण शूल व विशेष-कर हृदयकी शूल और चूतरकी शूल दूर हो । अथवा शंखकी भस्मको गमपानीसे पीवे तो परिणाम शूल मिटै । अथवा तिल, सोंठि, हर्र, शंखकी भस्म ये बराबर भाग लेवे और इन सबसे दुगुना गुड मिला-कर सुपारीके समान गोली बनाकर १ गोली प्रातः-का शीतलजलसे खावे और दूधका भोजन करै तो सर्व प्रकारके शूल दूर हों ॥

अथ शम्बूकादि वटिका ।

घोंघाकी भस्म, सोंठि, मिर्च, पीपरि, कालानोंन, सेंधानोंन, सांभरनोंन, खारीनोंन, जवाखार ये समभाग लेकर कदम्ब अथवा सिरसके रसमें खरल कर मासामासा भरकी गोली बनाकर छायामें

सुखाकर बोतलमें रख देवे फिर गर्मपानीके साथ १ गोली खावे तो घोर परिणामशूलका नाश हो। अथवा बारहसिंगाके सींगको पानी डाल चन्दनवत् घिसै उसमें चनासम हींग मिलाय गरम कर गुनगुना लेप करै तो पसुलीकी शूल मिटै । अथवा काले तिलोंको बकरीके दूधमें खूब महीन बांट ले फिर गरम कर गुन-गुना लेप पसुलीमें करै तो पसुलीकी शूल मिटै। अथवा सोंठि, हींग, पोहकरमूल, बारहसिंगाका सींग गोमूत्रमें इन सबको बराबर२चन्दनवत् घिसकर गर्म कर पेटपर गुनगुना लेप करे तो सर्व प्रकारके शूलोंका नाश हो॥ इति शूलचिकित्सा॥

अथ उदावर्त चिकित्सा।

मल मूत्र आदि १४वेगोंके रोकनेसे उदावर्तरोग पैदा होता है सो उन्हीं उन्हीं वेगोंके नामसे १४ भांतिका है। हृदय भारी व शूल युक्त, डकार न आना, मस्तकमें शूल, आंखोंमें जलन, पेटमें अफरा; अन्नमें अरुचि, दस्त बहुत थोड़ा होना, मूत्र लाल व पीला, चिन्ता बहुत इत्यादि उदावर्त्तके बहुत विस्तारपूर्वक लक्षण व उत्पत्ति व चिकित्सा अगर देखना चाहो तो हमारे बनाये "आयुर्वेदप्रकाश" में देखलेना॥

अथ नाराचचूर्ण ।

निसोत तोला १, पीपरि तोले २, मिसरी तोले ४ इन सबको पीस छान शहदके साथ तोला १ खावे तो मल द्रवे चित्त प्रसन्न हो उदावर्त्त दूर हो ॥

अथ गुडाष्टक ।

सोंठि, मिर्च, पीपरि, पिपलामूल, निसोत, चीता, जमालगोटाकी जड़ इनको बराबर भाग लेकर चूर्ण बनाकर प्रातःकाल चूर्ण मासे ६ गुडके साथ खावे तो घोर उदावर्त दूर हो । और तिल्ली, वायुगोला; सूजन, पांडुरोग इन रोगोंका भी नाश हो अग्नि बढे, क्षुधा बढ़ै, शरीरमें बल बढै शरीरका रंग सुर्ख होवै । अथवा निसोत और हर्रको समान ले महीन पीसकर सेहुँडके दूधके साथ चनासम गोली बनालेवेफिर १गोली प्रातःकाल खाकर ऊपरसे गर्मदूध या गर्मपानी पीवे तो आनाह (दस्त न होना)दूरहो उदावर्त्त जाय । अथवा आधासेर गर्मदूधमें अरंडीका तेल तोले २डालकर पीवे तो मल द्रवे आनाह व अफरा व उदावर्त दूर हो॥ इति उदावर्त्त व आनाह चिकित्सा॥

अथ गुल्मरोगके लक्षण व चिकित्सा ।

गुल्म ५ प्रकारका है-१ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, ४सन्निपातका,५रक्तका, प्यास हो, शूल हो,

दाह हो, अरुचि हो, शरीर गर्म हो, व्याकुलता हो ये लक्षण हैं ॥

अथ चिकित्सा।

शरपुंखाका पंचांग अथवा जड़ तोले ५, सेंधानमक तोले ३, हर्र तोले ३ इन सबको पीस छान कर मासे ४ गर्म पानीके साथ खावे तो गुल्म दूर हो अथवा सज्जीखार तोला १, गुड तोला १ इनकी गोली बनाकर मासे २ प्रभात खाये तो गुल्म दूर हो॥

अथ हिंग्वादिचूर्ण ।

हींग, पिपलामूल, धनियां, जीरा, बच, चव्य, चीता, सोनापाठा, कचूर, अमिलबेंत, सेंधानमक, कालानमक, साँभरनमक, सोंठि, मिर्च, पीपरि, जवाखार, सज्जीखार, अनारदाना, हर्र, पुष्करमूल, अमिली, हाऊबेर, स्याहजीरा ये सब बराबर लेकर अदरखके स्वरसमें भिगोकर फिर बिजौरानींबूके रसमें भिगोकर झरबेरीके बेर बराबर गोलियाँ बनाकर छायामें सुखाकर रखदेवे फिर रोगानुसार १ व २ व ३ गोली खावे तो सर्व प्रकारके गुल्म नाश हों और अफरा, संग्रहणी, बवासीर, उदावर्त, शूल, उदररोग, पथरी, अरुचि, ऊरुस्तंभ, पसली, शूल, हृदयशूल, बस्तिशूल, वातविकार, जलोदर, कठोदर

इतने रोग अवश्यही नाश हों इस गोलीको गर्म पानीके साथ कुछ दिनतक सेवन करै तो पूर्ण चमत्कार दिखावे यह अश्विनीकुमारोंने कहा है बहुत उत्तम अमोघ औषधि है।

अथ वज्रक्षार।

सांभरनोंन, सेंधानोंन, कालानोंन, खारीनोंन, काचनोंन, जवाखार, सज्जीखार, सुहागाखार ये सब बराबर भाग लेकर महीन पीस छान कर सेहुंडके दूधमें भिगो देवे परन्तु तीन दिनतक रोज दूध डाले और घाममें रक्खे फिर तीन दिन उसी तरह आकका दूध डाले और घाममें रक्खा करे जब सूख जावे तब आकके पत्तोंके बीचमें रखकर मट्टीके बर्तनमें रखकर उसका मुख मजबूत बन्द कर उस बर्तन पर तीन कपरोटी कर घाममें सुखाकर आगमें खूब पकावे परन्तु इतना ध्यान रक्खे कि दवा भस्म न हो जावे फिर आगसे निकाल ठण्डा कर उसके भीतरसे वह चूर्ण निकालमहीन पीसलेवे और सोंठि, मिर्च, पीपरि, आंवला, हर्र, बहेड़ा, अजवाइन, जीरा, चीता ये बराबर भाग लेकर ऊपरके चूर्णमें मिलादेवे परन्तु जितना तौलमें ऊपरका चूर्ण होवे उतना ही तौलमें यह चूर्ण भी लेकर मिलावे फिर एक बोतलमें रख देवे उसमेंसे मासे ४ प्रातःकाल जलके साथ इस वज्रक्षारका सेवन करै तो सर्व प्रकारके असाध्य भी

गुल्म नाश हों तथा सर्व प्रकारके असाध्य शूल, अजीर्ण,सूजन,जलोदरादि आठों उदररोग, मन्दाग्नि, उदावर्त्त, तिल्ली ये सब अवश्य ही दूर हों। वातके कोपसे उत्पन्न हुए उक्तरोगोंमें गर्म पानीके साथ खावे पित्तके कोपसे उत्पन्न हुए उक्त रोगोंमें घीके साथ खावे और कफके कोपसे उत्पन्न हुए उक्त रोगोंमें गोमूत्रके साथ खावे और त्रिदोषसे उपजे उक्त रोगोंमें कांजी व गन्नाके सिरकाके साथ इस वज्रक्षारको खावे यह अजीर्ण तथा अजीर्णसे उत्पन्न हुए जो रोग हैं उन सबका नाश करता है बहुत उत्तम अमोघ औषधि है इसे श्रीब्रह्माजीने कहा है॥

अन्य औषधि।

शोरा ४मासेको अदरखके ४ मासे स्वरससे खावे तो गुल्म दूर हो। अथवा सीपी मासे ३ को पीसकर गुड़में लपेटकर खावे तो गुल्म दूर हो। अथवा सोंठि, मिर्च, पीपरि, हर्र, सेंधानोंन इनको सम भाग लेकर चूर्ण करै, फिर मासे ३ चूर्ण और मासे ६ घी और घीकुवारका गूदा मासे ६ इतने सब एकमें मिलाकर खावे तो सर्व प्रकारके गुल्म दूर हों। मांस, मछली, सूखाशाक, मूँग, उडद, अरहर, आलू, मीठेफल, ये सब हानिकारक हैं। एक रक्तगुल्म केवल स्त्रियोंके होता है पुरुषोंके नहीं होता। आमलेका रस मासे ६

मिर्चका चूर्ण मासे ३ मिलाकर पीवे तो रक्तगुल्म दूर हो । अथवा इन्द्रायणकी जडको पीस छानकर मासे ४ व ६ में शक्कर व शहद मिलाकर खावे तो दस्त होकर रक्तगुल्मका नाश हो । अथवा सोंठि, मिर्च, पीपरि, भुनीहींग, भारंगी इन सबको बराबर लेकर उसमें सबके समानभाग गुड मिलाकर तोला १खाकर ऊपरसे तिलोंका काढा पीवे तो रक्तगुल्म दूर हो। और यदि रक्तगुल्मके कारण स्त्रीको मासिक धर्म रुकगया हो तो इस औषधिसे मासिक धर्म भी जारी होवे ॥

अथ सर्जिकाचूर्ण ।

सज्जीखार, जवाखार, चीता, सोंठि,मिर्च, पीपरि, नील, सांभरनोंन, कालानोंन, सेंधानोंन, खारीनोंन, काचनोंन इन सबको समभाग लेकर चूर्ण बनाकर मासे ४ व ६ घीमें मिलाकर खावे तो सर्व प्रकारके गुल्म नाश हों । अथवा चीता, भुनीहींग, हर्र, सेंधानमक, अमिलबेत; जवाखार, अजवाइन इन सबको समभाग लेकर चूर्ण बनाकर फिर प्रातःकाल गर्मजलके साथ मासे ४ या ६ खावे तो गुल्मशूलका नाश हो॥ इति गुल्मचिकित्सा ॥

अथ प्लीहाके लक्षण व चिकित्सा ।

अपथ्य वस्तुओंके खानेसे मनुष्यकी बांई पसलीके

नीचे कफ और रुधिर इकट्ठे होकर गांठकी तरह जमकर बढने लगते हैं इसीको प्लीहा व तिल्ली व बरवट व लरक व पिलही भी कहते हैं ये ४ तरहकी होती हैं वातकी, पित्तकी, कफकी, रुधिरकी । जाडेका ज्वर जब २० दिनसे अधिकका होजाता है तब पेटमें तिल्ली बनना शुरू होता है । शरीर पीला पड जाता है। बलका नाश होजाता है । मलका अवरोध रहता है । यह बढते २ सारे पेटमें फैलकर मनुष्यको मार देती है ॥ यही प्लीहा जब दाहिनेतरफ होती है तब उसको यकृत् कहते हैं । यकृत्की उत्पत्ति व लक्षण सब प्लीहाके समान हैं ॥

अथ चिकित्सा ।

आकके पीले पत्तोंमें पानीके साथ सेंधानमक खूब बारीक पीसकर लगावे फिर छायामें सुखाकर एक छोटी मिट्टीकी हांडीमें पत्तोंको रखकर उसका मुख खूब मजबूतीसे बन्द करके उस हांडीपर कपड़ा व मिट्टी लपेट कर तीन कपरौटीकरके गजपुटमें भस्म करेफिरशीतल होनेपर निकालकर वह भस्म शीशीमें भरकर रक्खे और फिर दहीका पानी अथवा शहदके साथ भस्म मासा १ व २ खावे तो सर्व प्रकारकी प्लीहा दूर हो अथवा पीपल तोला १० लेकर किसी कांचके बर्त्तन

में रख देवे उसमें ढांकके खारका पानी इतना भर देवे कि, जिसमें सब पीपलें डूब जावेंजब छायामें रखा रहनेसे वह पानी सूख जावे फिर उसी प्रकार और पानी डालकर सुखावे इसी तरह सात भावना देकर छायामें सुखाकर पीस छान रख छोडे फिर मासे दो चूर्ण गर्म पानीके साथ खावे तो प्लीहा गुल्म दूर हों क्षुधा बढै । अथवा शंखकी नाभिका चूर्ण मासे ४ को जंभी-रीनींबूके अरक तोला २ के साथ खावे तो बहुत भारी कछुआके आकारवाली सर्व प्रकारकीप्लीहाकानाशहो अथवा शरफोंकाकी जड तोला १ को खूब महीन बांट कर गायके आधापाव मट्ठामें मिलाकर पीवे तो २९ दिनमें बहुत पुरानी व असाध्य भी प्लीहाका समूल नाश हो अत्रिके पुत्र महर्षि आत्रेयजीका वचन है कि अगर इस औषधिसे प्लीहाका नाश न हुआ तो जानो कि पानीपर पत्थर तिरगया (तैरने लगा) अथवा सत्यानाशी कटेरीका स्वरस तोला १, शहद तोला १ दोनोंको मथकर पीवे तो १९ दिनमें घोर प्लीहाका नाश हो यह कभी निष्फल नहीं जाता । अथवा समु-द्रफेन और मिसरी दोनोंको महीन पीसकर मासे १० निराहारमुँह पानीके साथ खावे तो प्लीहाकानाशहो। अथवा बथुआका स्वरस एक छटांक सांभरनमक १मासा महीन पीसकर उसीमें मिलादेवे फिर निराहार

मुँह पीजावे परन्तु पहिले भुने हुए चने ११ मुखमें डालकर ओठ बन्द करके खूब चभिलावे फिर चने थूककर बडीजल्दी फुर्तीके साथ उक्त बथुआका स्वरस पीजावे क्योंकि; भुनेचनेकी सोंधी खुशबू लगनेसे पेटमें लरक मुँह खोल देती है इसीसे चने थूँककर तुरन्त ही अर्क पीलेना चाहिये यह २१ दिनमें लरकको गला देता है ॥

अथ यकृत् चिकित्सा ।

ऊपर जो दवाइयाँ प्लीहाके नाशकरनेको कही गई हैं उनसे यकृत्का भी नाश हो जाता है और पीपरि बायबिडंग, जवाखार इनको समभाग लेकर मासे ४ व ६ करंजके पत्तोंके एक तोला स्वरसमें मिलाकर खावे तो यकृत् और प्लीहा दोनों नाश हों ॥

इति प्लीहा चिकित्सा ॥

अथ हृदयरोगके लक्षण व चिकित्सा ।

हृदयरोग५प्रकारका है—१वातका,२पित्तका,३कफका, ४ सन्निपातका,५कृमिका छातीमें चीरनेके समान अथवा सूजी चुभानेके समान अथवा भाला या कुल्हाडा मारनेके समान पीडा होवे उसको हृद्रोग कहते हैं । शरीर शीतल, मुख मीठा, अरुचि, मन दुःखी, प्यास, पसीना ये उपजते हैं ॥

अथ चिकित्सा ।

अर्जुन अथवा कोह वृक्षकी छालका चूर्ण मासे ६ दूधके साथ अथवा घीके साथ पीवै तो सर्व प्रकारके हृदयरोगोंका नाश हो । अथवा पीछे शूलरोगमें कही हुई हिरणके सींगकी भस्मसेभी हृद्रोग दूर हो । अथवा पोहकरमूल मासे ९ का चूर्ण शहदमें मिलाकर खावे तो ११ दिनमें हृद्रोग मिटै । अथवा पीपरि सोंठि, अनारदाना, कालानमक, भुनीहींग ये सब समभाग लेकर नींबूके अरकमें खरल कर झरबेरीके बेर समान गोली बनाकर छायामें सुखाकर एक गोली गरमपानीके साथ खावे तो असाध्य हृद्रोग दूर हो ॥ इति हृद्रोग चिकित्सा ।

अथ मूत्रकृच्छ्रके लक्षण व चिकित्सा ।

मूत्रकृच्छ्र ८ प्रकारका है–१ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, ४ सन्निपातका, ५ मलका, ६ वीर्यका, ७ पथरीका, ८ चोटलगनेका । बहुत ही कष्टसे बडीभारी व्यथाके साथ बूंदबूंद कच्चे रुधिरसहित बराबर थोड़ा २ मूत्र उतरे तोंदीके नीचे व जांघोंमें व मूत्रनलमें अधिक पीड़ा हो उसे मूत्रकृच्छ्र कहते हैं, भाषामें इसे सुजाक कहते हैं ॥

अथ चिकित्सा।

गायके कच्चे आधासेर दूधमें तीन तोला गुड मिलाकर थोडा गरम कर गुनगुना पीनेसे मूत्रकृच्छ्र दूर हो। अथवा पके पेठेके रसमें जवाखार मासे ३ और शक्कर तोला १ डालकर पीवे तो मूत्रकृच्छ्र दूर हो। अथवा गोखरू तोले २ का पावभर पानीमे काढा करे जब एक छटांक रहै तब ठण्डा कर उसमें जवाखार मासे ४ डालकर पीवे तो मूत्रकृच्छ्र दूर हो। अथवा आंवला, मुनक्का, बिदारीकन्द, मौरेठी, गोखरू इनको बराबर ले जवकुट कर तोले २ का पावभर पानीमें काढा करे जब एकछटांक रहे तब ठण्ढा कर उसमें मिसिरी तोले २ डालकर पीवे तो असाध्य भी मूत्रकृच्छ्र दूरहो। अथवा पिसेहुए आमलेके ६ मासे चूर्णमें १ तोला गुड मिलाय खाय तो दाह शूलसहित मूत्रकृच्छ्र दूर हो वीर्य बढै। अथवा मिसिरी मासे ६ में जवाखार मासे ६ मिलाकर खावे तो सर्व प्रकारके मूत्रकृच्छ्र दूर हों। अथवा शहद तोला १ में जवाखार मासे ६ मिलाकर खावे तो सर्व उपद्रव सहित मूत्रकृच्छ्रका नाश हो। अथवा सूर्यमुखीके बीज मासे ६ पत्थरपर पीसकर बासी पानीके साथ पीवे तो असाध्यभी मूत्रकृच्छ्र अच्छा हो। अथवा शोधाहुआ

आमलासार गन्धक मासे४, जवाखार मासे४, मिसिरी तोला १ मिलाकर गायके पावभर छांछके साथ पीवे तौ असाध्य भी मूत्रकृच्छ्रका नाश होवे । अथवा शिलाजीत, गोखरू, पाषाणभेद, इलायची, केशर, ककडीके बीज, सेंधानमक इन सबको बराबर लेकर पीस छान चूर्ण बना मासे ४ व ६ चावलोंके धोवनसे खावे तो महा असाध्य मूत्रकृच्छ्र दूर हो । गन्धक शोधनकी विधि व चावलोंके धोवनकी विधि व जवाखार बनानेकी विधि पीछे विस्तारपूर्वक वर्णन हो चुकी है । यह सुजाकका रोग बहुतही अधिकताके साथ होता है इस वास्ते हम इसकी अधिक विस्तारके साथ चिकित्सा लिखते हैं । भुनी फिटकरी मासे ३, गेरू मासे २, मिसरी मासे ६ सबको गायके पावभर कच्चे दूधके साथ १५ दिन खावे तो सुजाक दूर हो । अथवा सहिंजनेका गोंद १ तोला गायके पावभर दहीमें मिलाकर १० दिन खावे तो सुजाक दूर हो । अथवा राल मासे ६ मिसिरी मासे६ दोनोंको मिलाकर पानीके साथ १५ दिन खावे तो मूत्रके साथ जो कच्चा लोहू आता है वह बन्द हो । अथवा शोरा कल्मी मासे ६ बड़ी इलायचीके दाने मासे६दोनोंको मिलाकर सांठीके लाल चावलोंके धोवनसे ७ दिन प्रातःकाल खावे तो सुजाक अवश्य ही दूर हो मूत्रके

सर्व कष्ट मिटैं । अथवा मुरगकेशके बीज मासे६शक्कर मासे ६ मिलाकर पानीसे खावे तो १५ दिनमें सुजाक अवश्य दूर हो अथवा गन्दापिरोजाका सत मासा १, गुड मासा १ में मिलाकर खावे और ऊपरसे गायके आधापाव दहीमें एक छटांक पानी मिलाकर घोलकर पीवे तो ११ दिनमें सुजाक दूर हो । अथवा सिरसके कोमलपत्ते तोला १ आधापाव पानीमें बांट छानकर २ तोले मिसरी मिलाकर पीवे। अथवा बबूलकी कोमलपत्ती तोला १, गोखरू तोला १ दोनोंको एक छटांक पानीमें बांट छानकर १ तोला मिसरी मिलाकर पीवे तो सुजाक दूर हो। अथवा कतीरा तोला १, शक्कर तोला १ दोनोंको गायके पावभर कच्चे दूधमें मिलाकर कुछदिन निराहार मुँह सेवन करे तो बहुत पुराना भी सुजाक अच्छा हो । अगर पेशाबके साथ खून आता हो तो सफेद चन्दनका बुरादा तोले २ लेकर रातभर आधापाव पानीमें मिट्टी या पत्थरके बर्त्तनमें भिगो दे सबेरे मलकर छानकर चाकसूके २१ बीज चाबकर वह पानी पीजावे तो रुधिर अवश्य बन्द हो । इति मूत्रकृच्छ्र चिकित्सा ॥

अथ मूत्राघातके लक्षण व चिकित्सा।

विशेषकर मल मूत्र और वीर्यके वेगको रोकनेसे १३ प्रकारका मूत्राघात उत्पन्न होता है। १ वातकुंडलिका

२ अष्ठीला, ३ वातबस्ति, ४ मूत्रातीत, ५ मूत्रजठर, ६ मूत्रोत्संग, ७ मूत्रक्षय, ८ मूत्रग्रन्थि, ९ मूत्रशुक्र, १० मूत्रवात, ११मूत्रशाद, १२विड्घात, १३ वस्तिकुण्डलिका ॥ इस मूत्राघातको भी भाषामें सुजाकही कहते हैं फरक केवल इतना है कि, मूत्रकृच्छ्रमें पेशाबकी रुकावट तो थोड़ी ही देर रहती है परन्तु पेशाब करते समय अत्यन्त कष्ट व पीडा होती है और मूत्राघातमें पेशाबकी रुकावट बहुत ही अधिक देरतक रहती है परन्तु पेशाब करते समयमें पीडा व कष्ट बिलकुल कम होता है ॥

जो जो चिकित्सा मूत्रकृच्छ्रमें वर्णन होचुकी हैं उन्हींसे मूत्रघात भी अवश्यही आराम होजाता है। राई मासा १, शोरा कलमी मासा १, शक्कर मासे २ मिलाकर पानीके साथ खावे तो मूत्रबंध छूटे। अथवा गेंदाकी पत्ती तोले २ एक छटांक पानीमें पीस छान कर मिसरी तोला १ मिलाकर पीवे तो मूत्रबंध छूटे। अथवा मूसाकी मेंगनी तोले २, शोरा कलमी तोला १ दोनोंको पानीसे बांटकर गर्म कर गुनगुना लेप नाभिके नीचे भागमें करे तो मूत्रबंध तुरन्त छूटै। अथवा केवल मूसाकी मेंगनी व केवल शोराहीके लेपसे भी वही लाभ होता है। अथवा पलाशके फूल आधी छटांक लेकर थोडे पानीमें बांटकर गुनगुना लेप नाभिके

नीचेके भागमें करे तो मूत्रबन्ध छूटै। अथवा रेवन्दचीनी तोला १ सौंफके अरकमें पीसकर नाभिके चारों तरफ गाढा गाढा लेप करै अथवा शोरा कल्मी तोला १ शहतूतके रसमें पीसकर नाभिके चारोंतरफ गाढा २ लेप करै तो मूत्रबन्ध तुरन्त छूटै। अथवा थोडासा कपूर या शोरा लेकर मूत्रनलके छिद्रमें रक्खे तो मूत्रबन्ध तुरंत छूटै। अथवा पेठेके बीजोंकी गूदी तोला १, मिसिरी तोला १ गायके पावभर कच्चे दूधके साथ पीवे तो पेशाब जारी हो। अथवा शोरा तोले २ पावभर पानीमें बांटकर पीवे तो पेशाब जारी हो। अथवा बिनौलाकी मींगी तोला १गायके कच्चे दूध पावभरके साथ पीस छानकर पीवे तो पेशाब जारी हो। अथवा छोटी इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत, पीपरि ये सब सम भाग लेकर चावलके धोवनके साथ तोला १ पीवे तो मूत्रबन्ध तुरन्त छूटै। अथवा सोंठि तोले ८, मिसरी तोले८ मिलाकर ठण्ढेपानीसे दिनभरमें चारबार सब पीजावे तो मूत्रबन्ध छूटै। अथवा आंवला, हर्र,बहेडाकी बकली बराबर बराबर लेवे उसमेंसे तोला १॥ का पावभर पानीमें काढा करै जब आधापाव रहजावे तब उतार छानकर उसमें मिसिरी तोले २ मिलाकर पीवे तो मूत्रबंध छूटै॥

इति मूत्राघात चिकित्सा॥

अथ पथरीके लक्षण व चिकित्सा ।

इसको संस्कृतमें अश्मरी और भाषामें पथरी कहते हैं । अपथ्यकारी वस्तुओंके अधिक खाने और मल-मूत्रादिके वेगोंको रोकनेसे बस्तिस्थानका वायु बिगड-कर वहां रहनेवाले वीर्य, मूत्र, पित्त, कफको खुश्क कर वहाँपर पथरी पैदा कर देता है, वह पथरी ४ तरहकी है–१ वातकी, २ पित्तकी, ३ कफकी, ४ वीर्यकी इस्में नाभि व वस्तिमें घोर पीडा हो मूत्र बन्द होजाताहै ॥

अथ चिकित्सा ।

जवाखार मासे २, सुहागा कच्चा मासे २ दोनोंको पीसकर गोखरूके दो तोला रसमें मिलाकर पीवे तो पथरी गल जावे । अथवा नीमकी पत्तियोंका खार बनावे फिर वह खार मासे२बासी पानीके साथ खावे तो ७ दिनमें बडीभारी पथरी गलकर पानी हो जावे खार बनानेकी सविस्तर विधि पीछे वर्णन हो चुकीहै। अथवा अंगूरके दरख्तका खार मासे २ गोखरूके स्व-रस तोले दोमें मिलाकर पीवे अथवा करंजके पत्तोंका खार मासे २ शहद तोला १में मिलाकर खावे अथवा तिलके दरख्तका खार मासे२गन्नाके दो तोले सिरका-के साथ पीवे तो पथरी अवश्य ही गलकर पानी होजावे अथवा अंगूरके पत्ते तोले २ का पावभर पानीमें

काढा करे जब आधापाव रह जावे तब दो तोला मिसरी मिलाकर पीवे तो पथरी व मूत्रकृच्छ्र व मूत्राघात इत्यादि मूत्रके सर्व रोग दूर करै। अथवा बरनाकी छाली तोले १॥ का पावभर पानीमें काढाकरै जब आधापाव रहे तब गुड तोले २ डालकर पीवे तो बडी भारी पथरी १० दिनमें गल जावे। अथवा मूलीका खार मासे २ बासीपानीके साथ खावे तो पथरी गलकर पानी हो जावे। अथवा दारुदल्दी, सोंठि, हर्र, जवाखार इनको बराबर लेकर पीस छानकर मासे ६ गायके दहीके साथ पानीसे पीवे तो पथरी ८ पहरमें गलकर पानी होजावे। पथरीवाला पुरुष दाहिनेहाथकी बीचकी अंगुलीमें लोहेका छल्ला पहिने रहे॥ इति पथरी चिकित्सा॥

अथ प्रमेहके लक्षण व चिकित्सा।

मदिरा, मांस,स्त्री,शीत, उष्ण,क्लेश, दिनकासोना, गुड, तेल, खटाईके अधिकखानेसे पुरुषकेशरीरमें२० प्रकारके प्रमेहरोग पैदा होजाते हैं। १ उदकप्रमेह, २ इक्षुप्रमेह; ३ सान्द्रप्रमेह, ४ सुराप्रमेह, ५ पिष्टप्रमेह,६ शुक्रप्रमेह, ७ सिकताप्रमेह, ८शीतप्रमेह,९शनैःप्रमेह, १०लालाप्रमेह। ये कफके दश प्रमेह हैं ये सब साध्यहैं क्षारप्रमेह १, नीलप्रमेह २,कालाप्रमेह३,हारिद्रप्रमेह४,

मांजिष्ठप्रमेह ५, रक्तप्रमेह ६ ये ६ पित्तके प्रमेह हैं ये कष्टसाध्य हैं । वसाप्रमेह १, नीलप्रमेह२,कामप्रमेह ३, हस्तीप्रमेह ४ ये ४ प्रमेह वायुके हैं ये चारों असाध्य हैं आराम नहीं होते । परन्तु आत्रेयादि कई आचार्य २४ व २६ प्रमेह मानते हैं ॥ इन सबके लक्षण बुद्धिमान् वैद्य नामके अर्थसे जान लें जैसे उदकप्रमेह, इक्षुप्रमेह, शुक्रप्रमेह, सिकताप्रमेह, नीलप्रमेह, वसाप्रमेह इत्यादि अर्थात् पानीके समान मूत्र उतरे वह उदकप्रमेह है । ईखके रसके समान मीठा पेशाब उतरै वह इक्षुप्रमेह । वीर्यसहित पेशाब हो तो शुक्रप्रमेह । पेशाबमें बालूसा रेत आवे वह सिकताप्रमेह । नील पेशाब हो वह नीलप्रमेह । हल्दीसा पीला पेशाब हो वह हारिद्रकप्रमेह । चरबी व मज्जा सहित पेशाब आवे वह वसाप्रमेह है इत्यादि सबके लक्षण इसी तरह जानो सारा शरीर सुस्त रहे । बहुतही आलस्ययुक्त रहे । चिन्ता बहुत व्यापैं । वीर्य बहुत पतला व प्रसंगमें स्वप्नमें तुरन्त खलास हो । क्षुधा मन्द हो । पाखाना साफ न होता हो। शरीर दुर्बल रुधिर व मांस कम हो जावे । किसी भी काम करनेका उत्साह न हो ॥

अथ चिकित्सा ।

गेहू, चना, मूँग, उड़द, जौ, चांवल, अरहर ये अन्न और करेला, ककोडा, गोभी, तोरई, परवल,

चौलाई, कद्दू, तोंबी, कमलनाल, ककडी, खेखसी, मेथी ये तरकारियां हित हैं। और गुड, खटाई, तेल, लालमिर्च, छाछ, दही, दूध, घी, गन्ना, आसव, शराब, मांस, मछली, लहसुन, पिआज, मूली, नारंगी, अमरूद, केला, चूका, पूडी, कचौरी, घुइयां, आलू, सांभरनमक और सर्व खट्टे व बादी पदार्थ हानिकारक व अपथ्य हैं। नागरमोथा, हर्र, लोध, कायफल ये सब समान भाग लेकर १॥ तोलेका पावभर पानीमें काढा बनावे जब आधापाव रहे तब छान ठंढा कर इसमें शहद १ तोला डाल पीवे तो कफके दशों प्रमेह १ महीनेमें दूर हों। और परवल, नीम, आंवला, गुर्च इनको बराबर लेकर १॥ तोलेका काढा उक्तरीतिसे बनाकर उसमें १ तोला शहद मिलाकर पीवे तो पित्तके छओं प्रमेह दूर हों। अथवा गुर्चका स्वरस तोला १॥ में शहद अथवा हल्दीका चूर्ण तोला १ डालकर पीवे तो २१ दिनमें सर्व प्रमेह दूर हों। अथवा त्रिफलाके १ तोला चूर्णको १ तोला शहदमें मिलाय खावे अथवा आंवला-के १ तोला स्वरस या चूर्णमें १ तोला शहद मिलाकर खावे तो बीसों प्रमेह दूर हों। अथवा शहद तोला १ में शिलाजीत मासे २ मिलाकर खावे तो २१ दिनमें सर्व प्रमेह दूर हों। अथवा छोटी दूधीको छायामें सुखाकर उसके बराबर शक्कर मिलाकर

तोला १ गायके पावभर दूधके साथ खावे तो सर्व प्रमेह २१ दिनमें दूर हों। अथवा एक छटांक बिनौला लेकर शामको आधापाव पानीमें भिगोदे सबेरे मलकर वह पानी कडाहीमें छानकर उसमें मिसिरी तोले ३ डालकर पकावे जब शहद समान गाढी होजावे तब उतार ठंढाकर पीजावे इसी तरह प्रतिदिन करके पीवे तो १९ दिनमें सर्व प्रमेह दूर हों। प्रमेहरोगी जहां पेशाब करे वहां तेलके समान अथवा शहदके समान दाग पडे और उस जगह हजारों मक्खी व चींटियां जमा हो जावें और पेशाब अधिक और बारबार करे प्यास बहुत बढे इसको फारसीमें जीयावेतुस कहतेहैं। उक्त दवासे यह रोग अवश्य नाश हो ॥

अथ कामदेवचूर्ण ।

गोखरू, बिदारीकंद, कुलिंजन, शतावरि ये सब चार चार तोले और कौंचके बीज, उटंगनके बीज, इलायची, पीपरि, लालचन्दन, नागकेशर, सफेद मूसली, छडीला, गुर्च, बंशलोचन ये सब मासे चार चार लेवे फिर सबको पीस छान चूर्ण बनाकर पत्थरके बर्त्तनमें रखकर सेमरके रसकी पुट २१ देवे फिर डाभके रसकी २१ पुट देकर छायामें सुखाकर सबके

समान भाग मिसिरी मिलाकर रख छोडै फिर सबेरे शाम मासे नौ नौ गायके पावभर दूधसे खावे तो सर्वप्रमेह नाश हों, शरीरमें बहुत वीर्य बढे, अपूर्व पराक्रम प्राप्त हो, इस चूर्णकी प्रशंसा कहनेमें नहीं आसकती ॥ इति कामदेवचूर्ण ॥

अथवा महानीमकी पकी व कच्ची निबौली लेकर छायामें सुखाकर चूर्ण करै फिर तोला १ चावलके धोवनसे खावे तो सर्वप्रमेह नाश हों ॥

अथवा बबूलकी कोमल पत्ती तोला १ अगर सूखी हो तो मासे ६ लेकर उसकी बराबर मिसिरी मिलाकर पानीसे पीवे तो १५ दिनमें सर्वप्रमेह नाश हों. यह अत्यन्त लाभदायक और शीघ्र गुणकारी औषधि है अपना चमत्कार दिखाये बिना कदापि नहीं रहती। अथवा बबूलके फूल या बबूलकी फली जिनमें अभी बीज न पडे हों ये भी उक्त रीतिसे खाये जावें तो वही लाभ करतेहैं जो ऊपर वर्णन हो चुका। अथवा पत्थरपर पानी डालकर निर्मलीको चन्दनकी तरह घिसै फिर मासे २ में कालीमिर्च रत्ती ६ मिलाकर चाटै तो धातुके सर्वरोग नाश हों। यह औषधि चमत्कारी है।

प्रमेहारिचूर्ण।

गोखरू, तालमखाने, मूसली दोनों, शतावरि, कौं-

चके बीज, उटंगनके बीज, कच्चा सिंघाडा, ईसबगोल-की भूसी, बबूरका गोंद, वहिमन सफेद, वहिमन लाल, तोदरीजर्द, तोदरी सुर्ख, कसेरू, लहसोडा, रूमीमस्तंगी ये सब बराबर लेकर पीस छान चूर्ण करै फिर सबके बराबर मिसरी मिलाकर कांचकी शीशीमें भर रक्खै फिर सबेरे शाम दोनों वक्त गायके पावभर दूधके साथ तोला एक एक दिन २१ खावे तो सर्व प्रमेह दूर हों शरीरमें वीर्य व रुधिर बढै शरीर चमकीला और मोटा ताजा महाबलवान् होजावे धातु अत्यन्त गाढी होवे ॥

अथवा घीकुआँर जिसको "गमारमाठा" भी कहतेहैं उस का गूदा सेर एक लेकर हाथोंसे खूब मथ लेवे फिर कडाहीमें घी सेर एक डालैं उसीमें वह गूदा भी डालै और एक घडीभर चुरावे फिर उसीमें गेहूंकी मैदा आधासेर और शक्कर सेर एक डालकर लड्डू एक एक छटांकके बना रक्खे फिर निराहार मुँह १ मोदक गायके दूधके साथ खावे तो ११ दिनमें सर्व प्रमेह दूर हों. हमने अनेक प्रमेहरोगी आराम किये परन्तु इस औषधिके २१दिन खानेसे शरीरमें जितना मांस बढताहै उतना किसी भी औषधिसे हमने नहीं देखा और इससे भूख बढ़ती, बल बढ़ता, वीर्य बढता, रुधिर बढता और सबसे अधिक मांस बढता है । रोगीका

रोग दूर होकर खूब मोटा ताजा होजाता है। परन्तु हम उक्त औषधिको कई प्रकारसे काममें लाते हैं, कभी गमारपाठेका बिना पानी मिलाये बाष्पयंत्र (भबका) से अर्क खींचकर दूध या शक्कर या शहदके साथ खवाते हैं, कभी गमारपाठाके गूदामें गेहूँके मैदाको घोलकर घीमें जलेबी व बून्दी या बालूसाही बनाकर शक्करकी चाशनीमें तलकर दूधके साथ खिलाते हैं इत्यादि ॥

अथवा मोतीके दानावाली सीपीकी भस्म तोले २ तजसुरती तोले ५ सफेदमुसली तोले ५ इन सबको पीस छान चूर्ण करै फिर चूर्ण तोला १ निराहार मुँह खावे ऊपरसे दूध वा पानी कुछ भी न पीवे तो २१ दिनमें सर्व प्रमेह दूर हों। मोतीवाली सीपी ३ व ४ गिरह लम्बी और २॥ वा ३ गिरह चौडी और करीब दो अंगुलकी मोटी और उसकेभीतर मूँगके दानाकेसमान २० व २५ ऊंचे ऊंचे शीतला (चेचक)के दानोंके समान दाने उभरे हुए रहते हैं उन्हींके भीतर मोती अनबिंधे रहते हैं । अथवा रेवन्दचीनी मिसरी सिंघाडा इन सबको बराबर लेकर चूर्ण करै फिर मासे ९ निराहारमुँह गायके पावभर दूधके साथ खाय तो बहुत पुराने भी प्रमेह दूर हों । अथवा उदुम्बरके पक्के ५ फल थोड़ा सेंधानमकके साथ २१ दिन तक प्रातःकाल खाय तो सर्व प्रमेह नाश हों। अथवाभीम-

सेनी कपूर मासा १, कस्तूरी मासा १, अफीम मासे ४, जावित्री मासे ४ इन सबको बँगलापानकेरसमें घोट-कर एक एक रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें सुखा-लेवे फिर एक एक गोली सबेरे शाम दूधकेसाथ खावे तो सर्व प्रमेह नाश हों वीर्य बहुत पुष्ट व गाढा होवे ।

अथ प्रमेहनाशन चूर्ण ।

आंवलाकी बकली तोला १॥ हर्रकी बकली तोला १॥ बहेडाकी बकली तोला १॥, सफेदजीरा तोले ८, धनियां तोले ८, कौंचकेबीज तोले ८, दालचीनीतोले ४, लौंग तोले ४, नागकेशर तोले ४, तुख्मरैहां तोले ४ छोटी इलाचीके बीज तोले ४ इन सबको पीस छान चूर्ण करे फिर चूर्ण मासे ९ बराबरकी मिसरी व घीके साथ खावे चाहे उक्त चूर्णको घीमें भूनकर एकसेर मिसरीकी चाशनीमें तीन तीन तोलेके मोदक बना लेवे फिर एक मोदक प्रातःकाल दूधके साथ खावे तो सर्व प्रमेह अवश्यही नाश हों वीर्य बहुत गाढा होवे, शरीरमें अत्यन्त बल बढै ॥

अथ त्रिफला तैल धातुरोगपर ।

नीमकी छाली आधापाव, चिरायता आधापाव, हल्दी आधापाव, दारुहल्दी आधापाव, लालचन्दन आधापाव इन सबको एकत्रित कर जवकुट करे.

फिर सबका तीनसेर पानीमें काढा करै जब तीन पाव पानी शेष रहे तब उतार कर कडाहीमें छान देवे फिर उसी कडाहीमें आधासेर तेल तिलोंका डाल-कर मन्दाग्निसे तेल सिद्ध कर लेवे जब पानी जलकर फेनारहित तेल होजावे तब शुद्ध जानकर किसी कांचकी शीशीमें रख देवे फिर इस तेलकी प्रतिदिन मालिश करै तो धातु अत्यन्त पुष्ट हो शरीरमें रुधिर व मांस बढै चित्त प्रसन्न रहे तथा शिरका घूमना, चक्कर खाना, आंखोंकी जलन भी अवश्यही दूर हो यह बहुत गुण-कारी तैल है। अथवा नगौरी असगंध और बिधारा दोनोंको समभाग लेकर चूर्ण बनावै फिर प्रातः काल मासे ९ दूधके साथ खावे तो धातु अत्यन्त गाढी व पुष्ट होवे। धातुके सर्वरोग नाश हों शरीर मोटा हो यह असगंधादि चूर्ण है॥

अथ खांडादिचूर्ण सर्वप्रमेहपर।

शक्कर सेर १, मिर्च, लौंग, छुहारा, बादाम, चिरौंजी, तज, तेजपात, इलायची, लालचन्दन, पीपरि, सफेदजीरा, स्याहजीरा, सोंठि, धनियां, पिप-रामूल, कौंचके बीज, नागरमोथा, वंशलोचन, कमल-गट्टा, तवाखीर, शतावरि, स्याहमूसली, सफेद मूसली ये सब तोला दोदो लेकर पीस छान चूर्ण

बनाकर गायके दूधके साथ प्रातःकाल तोला १ खावे तो एक महीनेमें सर्वप्रमेह नाश हों धातु बहुत चढै शरीर खूब मोटा व पुष्ट होवै ॥

अथ प्रमेहहरण चूर्ण ।

शखाहूली तोले ५, छोटी इलायचीके बीज तोले५ शिलाजीत शोधा हुआ तोले ५, तवाखीर तोले १०, मिसिरी तोले १० इन सबको एकत्रित कर पीस छान चूर्ण बनाकर मासे९ प्रातःकाल दूध अथवा बासीपानी के साथ खावे तो सर्व प्रमेह नाश हों ॥

अथ प्रमेहपर मधुयष्टीचूर्ण ।

मौरेठी, गुर्च आँवला, हर्र, बहेडा, बिदारीकन्द, सफेद मूसली, स्याहमूसली, नागकेशर, शतावरि ये सब बराबर लेकर पीस छान चूर्ण, बनावे प्रातःकाल मासे ४ व ६ घी और शहदमें मिलाकर खावे तो १ महीनेमें धातुके सर्वरोग नाश हों शरीरमें इतना वीर्य बढै कि, लिखनेमें नहीं आसकता, अथवा केवल मौरेठीका चूर्ण मासे ६ शहदमें मिलाकर चाटे ऊपरसे पावभर गायका दूध पीवे तो शरीरमें बल व वीर्य अत्यन्त बढै ॥

अथ प्रमेहपर शतावरिचूर्ण ।

शतावरि, गोखरू, कौंचके बीज, बरियारीकी

जड, तालमखाने, ककईकी जड ये सब बराबर लेकर पीस छान चूर्ण बनाकर मासे ६ प्रातःकाल गायके दूध पावभरसे खावे तो धातुके सर्वरोग दूर हों वीर्य अत्यन्त बढै। अथवा गुर्च, आंवला, गोखरू ये बराबर लेकर पीस छान चूर्ण बनावे फिर प्रातःकाल मासे ६ चूर्ण शहद और घीमें मिलाकर खावे तौ निर्वीर्य भी वीर्यवान् और महाकामी होवे ॥

अथ प्रमेहकी उत्तम दवा।

सालिबमिसरी, सोरंजानमीठा, बोजीदान, शीतलचीनी, दालचीनी, रूमीमस्तंगी ये सब मासे छः छः और गोखरू और मिसिरी तोले तोले भर लेवे फिर सबको पीस छानकर मासे ४ व ६ प्रातःकाल बकरी या गायके दूधसे खावे और खटाई, मिर्चा, तेल, गुडसे परहेज करै तो १६ दिनमें धातुके सर्व रोग नाश हों और शरीरमें रुधिर और धातु बहुत बढै स्तम्भन पैदा हो ॥

अथवा भूनेहुए चने, खशखशदाना, भूनी हुई धनियां, गोखरू, दालचीनी, सालिबमिसरी सबको समभाग और सबके बराबर मिसरी मिलाकर पीस छान चूर्ण बनावे फिर मासे ९ प्रातःकाल गायकेपावभर दूधके साथ खावे तो धातुके सर्वरोग २४ दिनमें अवश्य

नाश हों । अथवा मौरेठी तोला १॥, गुलनार तोले २, काहूके बीज तोले ४॥, सम्हाहूके बीज तोले ५, फिरि सबको पीस छानकर निराहारमुँह मासे ६ व ९ पानीके साथ खावे तो ७ दिनमें धातुके सर्वरोग नाश हों यह उत्तम औषधि है । अथवा मोतीभरीहुई सच्ची सीपी तोले ५ लेकर तीनदिन तक खूब महीन खरल करे । तालमखाना तोले ५, मिसिरी तोले ५, सबको बारीक पीस छानकर एकमें मिलाकर बड़के दूधमें भिगोकर झरबेरीके बेरकी बराबर गोली बनाकर छायामें सुखाकर रख छोड़ फिर १ गोली निराहार मुँह गायके पावभर दूधसे पहिले दिन खावे, दूसरे दिन १ गोली सबेरे १ शामको । तीसरे दिन दो गोली सबेरे हो शामको खावे । इसीतरह ७ दिन खावे तो धातुके सर्वरोग जडसे नाश हों अगर कोई पुरुष इस गोलीको ४० दिनतक ब्रह्मचर्यके साथ खा सके तो जो जो चमत्कारिक लाभ हों वह लिखनेमें नहीं आ सकते परीक्षा कर देखो ॥

दिलखुशचूर्ण ।

शकाकुलमिसिरी ४ तोले, सालिबमिसरी १ तोला, छोटी इलायचीके बीज १० मासे, बहिमन सफेद १ तोला, बहिमनलाल १ तोला, दालचीनी १ तोला, मूसली

स्याह २ तोला, मूसलीसफेद२तोला, छुहारा २ तोला गोखरू मासे १० गावजवां १० मासे, मिसिरी १७ तोले फिर सबको पीस छान चूर्ण बनाकर मासे १० निराहारमुँह गायके दूधसे खावे तो धातु पुष्ट होशरीर मोटा हो। मस्तक, हृदय, कलेजा और कामदेव अत्यन्त बलवान हो। यदि इस रोगपर अनेक बारकी परीक्षा की हुई अनेक प्रकारकी फकीरी जड़ी बूटियां जानना चाहो तो मुझ ग्रंथकर्त्ताके बनाये "बूँटीप्रकाश" नामक ग्रंथको देखो॥

अथ सदाबहार वटी।

शोधा हुआ कुचिला १ तोला, मिर्च, कंकोल, मिर्च, अगर, अगरबिलसां अकरकरा, दोनों इलायची, आमला, तालमखाना, बालछड़, मीठेइन्द्रजौ, दालचीनी, रूमीमस्तंगी, छोटी हर्र, सौंफ, लौंग, नागरमोथा, पीपल, जायफल, ये सब छः छः मासे लेवे और शहद तोले ३२ लेवे फिर सब दवाइयोंको पीस छान कर शहदकी चाशनीमें पांच २ मासेकी गोलियां बना रक्खे फिर हर रोज निराहारमुँह १ गोली खावे तो ४० दिनमें गईहुई जवानी फिर दुबारा वापिस आवे और धातुके सर्वरोग दूर हों तथा आतशगर्मी और गठिया वातादि ८४ वातरोग भी नाश हों,

क्षुधा खूब बढै शरीरका रंग चमकदार निकले कामदे-
वका प्रताप शरीरको रात दिन संतप्त करै ॥

अथ धातुरोगपर अद्भुतचूर्ण ।

छोहारे १८ तोले ४ मासे, रूमीमस्तंगी १ तोला ८ मासे, सफेदमुसली १ तोला ८ मासे इन सबको महीन पीस कर शक्कर २३ तोले ४ मासे मिलाकर सबकी १२ खुराक बांधे फिर रातको सोते समय १ खुराक अर्थात् ३॥ तोले खाकर ऊपरसे गर्मागरम दूध गायका जो सेरभरका तीन पाव रहगया हो पीवै तो वीर्य अत्यन्त गाढा हो। खट्टा, खारी, बादी, इनका और स्त्रीका परहेज रक्खे यह वीर्यको निर्दोष करनेके लिये अव्वल दर्जेका नुस्खा है जो अनेक बार तजरुबामें आचुका है अथवा सिरसके बीज और पलाशके बीज दोनोंको बराबर लेकर पीस छान चूर्ण बनाकर उसके बराबर शक्कर मिलाकर १ तोला रोज गायके पावभर दूधके साथ खावे तो धातु बहुतगाढी हो अथवा आंवलाकी बकली, हर्रकी बकली, बहेडाकीबकली, बबूलके फूल, हल्दी, छोटी दूधिया ये सब बराबर लेकर पीस छान चूर्ण बनाकर सबके बराबर शक्कर मिलाकर १ तोला गायके पावभर दूध के साथ खावे तो धातुके सर्वरोग दूर हों दस्त साफ होवे भूख बढे । अथवा

कच्चा सिंघाडा, ढाकका गोंद, समुन्दर सीप, बीजबन्द, सेमलका गोंद, बबूलका गोंद, तालमखाना, गोखरू, कौंचके बीज, धनियाँ, मेदा लकडी, ईसबगोलकी भूसी ये सब दो दो तोले और काहूके बीज ६ तोले, मिसिरी १९ तोले लेकर सबको पीस छान चूर्ण बनाकर १ तोलाभर गायके पावभर दूधके साथ खावे तो धातुके सर्वरोग नाश हों शरीर मोटा और ताकतवर होवे ॥ इति प्रमेह चिकित्सा ॥

अथ प्रमेहपिडिकाके लक्षण व चिकित्सा।

प्रमेहरोगीके १० भांतिकी पिडिका उत्पन्न होती हैं १ शराविका, २कच्छपिका, ३ जालिनी, ४ विनता, ५अलजी, ६ मसूरिका, ७ सर्षपिका, ८ पुत्रिणी, ९ बिदारिका, १० विद्रधी ॥ सराईके आकार हो वह शराविका, कछुआके समान हो वह कच्छपिका। सरसोंके समान हो वह सर्षपिका। बिदारीकन्दके आकार हो वह बिदारिका। इसी प्रकार उन उन नामोंसे मशहूर हैं ॥

अथ सबकी चिकित्सा।

सबसे प्रथम उनमें जोंक लगाकर लोहू निकलवा फिर गाय अथवा बकरीके मूत्रसे दिनमें दो बार उनको धोया करे फिर, बबूलकी हरी पत्ती तोले २ इला-

यची छोटी४, कत्था सफेद मासे ३लेवे आगपर एक कटोरी रखदेवे उसीमें बबूलकी पत्ती डालदेवे थोडी देरमें पत्ती जलकर भस्म होजायगी उसको बारीक पीस लेवे फिर इलायची ४ आगमें डालकर भस्म करके पीस लेवे और कत्था भी पीसलेवे फिर सबको एकमें मिलाकर शीशीमें रखदेवे फिर प्रतिदिन साबुन अथवा निर्मलीके पानीसे पिडिकाको धोकर कपडेसे पोंछकर उसपर थोडासा अरंडीका तेल चुपडकर वह शीशी वाली उक्त दवा उसपर बुरका देवे तो५ दिनमें सर्वप्रकार की असाध्य भी पिडिका दूर हो । अथवा पत्थर पर पानी डालकर नीमकी बकली घिसै और उतनाही मुर-दासंग घिसै फिर दोनोंको मिलाकर पिडिकाओंपर चुपड देवे तो पिडिका अच्छी हों॥इति प्रमेह पिड़िका॥

अथ मेदरोगके लक्षण व चिकित्सा ।

दंड कसरत इत्यादि किसी प्रकारका परिश्रम न करने से दिनके सोनेसे बहुत मीठी खट्टी और पूडी कचौरी इत्यादि अधिक खानेसे कफके बढानेवाले अधिक आहार विहारोंके करनेसे मनुष्यके शरीरमें मेद बढ जाता है तब मोह, ग्लानि, निद्रा, आलस्य, भूंख, पसीना, मांस, चरबी ये बहुत ही बढ जाती हैं बल और मैथुनशक्ति ये बहुत ही घट जाती हैं । पेट व छाती बहुत बढ जाते और चलनेमें चूतड उदर (पेट)

छाती ये थलर २ खूब हिलते हैं यह रोग मनुष्यको बेकाम करदेता है।

अथ चिकित्सा।

सोंठि, मिर्च, पीपरि, चाब, सफेद जीरा, हींग, काला नमक, चीता इनको समभाग लेकर चूर्ण बना कर मासे ६ गर्म पानीसे सबेरें पीवे तो मेदरोग दूरहो। अथवा सोंठि, मिर्च, पीपरि, आंवला, हर्र, बहेडा इनको बराबर भाग लेकर चूर्ण बनाकर सरसोंका तेल और सेंधानमकके साथ मासे ६ रोज सबेरे खावे तो ६ महीनेमें मेदरोग अवश्य ही दूर हो अथवा पावभर बासीपानीमें दोतोले शहदडालकर निराहार मुँहपीवे तो ३ महीनेमें मेदरोग दूर हो। अथवा अरनीका स्वरस तोला १ में शुद्ध शिलाजीत २ मासे मिलाकर सेवन करे तो मेदरोग दूर हो। अथवा चीतेकी जडका चूर्ण मासे४ शहद तोले १ से चाटै तो मेदरोग दूर हो। अथवा पीपरिका चूर्ण मासे ६ शहद तोला १ से चाटै तो मेदरोग दूर हो। अथवा त्रिफलेके १तोला चूर्णको शहद मिलाकर खावे या आधापाव गोमूत्रमें १॥ तोला शहद डालकर पीवै तो मेदरोग दूर हो॥

अथ दशांग गुग्गुल।

सोंठि, मिर्च, पीपरि, चीता, आंवला, हर्र, बहेडा नागरमोथा, बायबिडंग, शुद्ध गूगुल ये सबबराबरलकर

पीस छान चूर्ण बनाकर मासे६शहद या पानीके साथ सेवन करे तो मेदरोग मिटै पुराने चांवल,मूँग,कुलथी, कोदौं, जौ, सामा, जागरण, मैथुन,दंड.कसरत, परिश्रम, चिन्ता, मार्गभ्रमण, शहद इतनी वस्तुओंको मेदरोगी हमेशा सेवन करै । इति मेदरोग चिकित्सा॥

अथ कार्श्यरोगके लक्षण व चिकित्सा ।

वातकारक व रूखे पदार्थोंके खाने पीनेसे लंघन या भरपेट न खानेसे, बहुत वमन विरेचन लेनेसे, धनादिके अधिक शोचसे, नींद,मल, मूत्रादि वेगोंके रोकनेसे, चित्तके बिगाडनेवाले काम करनेसे, बहुत भयसे,मनुष्यके शरीरमें कृशताकारोग उत्पन्न होजाता है।तब शरीरके जोड और मुखको छोडकर शेष सर्वशरीर, चूतड, पेट, कंधा इत्यादि ये सब सूख कर नसें निकल आतीं और केवल हाड और खालमात्र बाकी रहजाता है तब भी अगर चिकित्सा न की जावे तो प्लीह,खांसी,यक्ष्मा,गुल्म,बवासीर, जलोदर,संग्रहणी इत्यादि रोग पैदा होजाते हैं ।

अथ चिकित्सा ।

असगन्ध, दोनों मूसली ये तीनों बराबर लेकर समभाग मिलाकर गायके दूधसे तोला १ प्रतिदिन खावे तो शरीर मोटा होवे यह दवा स्त्रियोंको बहुत

लाभ देवे। अथवा गेहूँका सत, बादामकी मींगी, कतीरा, शक्कर ये सब समभाग लेकर पीस छानकर १ तोलाभर गायके दूधसे प्रतिदिन खावे। अथवा कालीमिर्च २॥ तोले, सोंठि २॥ तोले, पीपरि ७॥ तोले, तिल १२॥ तोले, अखरोटकी गिरी १२॥ तोले, शक्कर २ सेर, शहद आधासेर इन सबको पीसकर शक्करकी चासनी बनाकर उसीमें शहद वगैरः सर्व औषधी डालकर दो दो तोलाके लड्डू बनाकर खावे तो कृशता दूर हो मोटा व बलवान् होवे। यदि भय व धनादिकी चिन्तासे यह रोग हो तो समझावे तसल्ली करे दिलासा देवे॥ इति॥

अथ उदररोगके लक्षण व चिकित्सा।

मन्दाग्निसे अजीर्णसे बुरे अन्न व खराब पानीके पीनेसे पाखाना खुलासा न होनेसे वात पित्त और कफ बिगड़कर पसीना और जल व रसके बहानेवाले स्रोतोंको रोककर प्राण व अपानवायुको बिगाड़कर मनुष्यके शरीरमें वातका, पित्तका, कफका, त्रिदोषका, प्लीहका, बद्धगुदोदर, क्षतोदर, जलोदर ये आठ प्रकारके उदररोग पैदा करतेहैं, पेटमें अफरा रहै चलने फिरनेकी शक्ति नष्ट होजावे बल बिल्कुल जाता रहै, मंदाग्नि होजावे, सर्व अंग शिथिल होजावें। अपानवायु और मल बहुत कम

उतरे, शरीरमें सूजन पैदा हो, आंखोंके पलक सूजे रहें, शरीरमें दाह और आलस व औंघाई बहुत आवे तब जानो कि, उदररोग है ॥

वातोदरके लक्षण ।

हाथ, पैर, नाभि, कोखमें सूजन होवे और कोखि, पसली, कमर, पीठ और जोडोंमें फाडनेके समान पीड़ा होवे। सूखी खांसी होवे। शरीर टूटा जावे। दस्त उतरे नहीं, तोंदीके नीचे बोझासा मालूम होवे खाल, नख, नेत्र ये काले या लाल होवें पेट बोले और बढिजावे तथा बहुत शूल होवे और पेटमें महीन और काली नसोंका जालसा होजावे पेटमें अंगुली मारनेसे फूली मशककासा शब्द होवे हवाका गोला-सा पेटमें फिरता रहे ॥

पित्तोदरके लक्षण ।

ज्वर, मूर्च्छा, दाह, प्यास, मुखमें कड़वापन, भ्रम, अतीसार, खाल, नख व नेत्रोंमें पीली रंगत, पेट हरा, पीली तांबेके समान पेटकी नसें होजावें। पसीना व डकार बहुत आवें दर्द खूब होवे ॥

कफोदरके लक्षण ।

अंग शिथिल, नींद बहुत आवे, सुजन होवे, आलस्य, ग्लानि, अरुचि, श्वास, खांसी, खाल,

नेत्र, नख ये सफेद होवें । पेट गीला और सफेद नसोंसे युक्त और कड़ा व ठंढा और भारी और पत्थरसा होजावे और उसपर हाथ रखनेसे मालूम ही न होवे ॥

त्रिदोषजके लक्षण ।

जिसमें ऊपर कहे हुए सब लक्षण मिलें वह त्रिदोषका है ॥

प्लीहोदरके लक्षण ।

बाईं या दाहिनी तर्फ उदरमें अत्यन्त कठोर होवे और उसीमें प्लीहाके सर्व लक्षण मिलें ॥

बद्धगुदोरके लक्षण ।

हृदय और नाभिके बीचका भाग बढि जावे और उसमें दर्द होवे मल बहुत थोडा उतरे यह बिना शोधा अन्न व पानी कि जिसमें बाल कंकड रेत धूल वगैरह मिले हों उसके खानेसे होजाता है ॥

क्षतोदरके लक्षण ।

जिसके मलद्वारसे सफेद पानीसा थोडा थोडा हर समय निकला करे और नाभिके नीचेका भाग बढि जावे और उसमें शूल होवे यह भी अन्नमें रेत पत्थर वगैरः खानेसे होजाता है ॥

जलोदरके लक्षण ।

वमन विरेचन व स्वेदन या वस्तिकर्मके पश्चात् तुरन्त ही शीतलजल पीनेसे और ज्वरमें ठंढा पानी पीनेसे यह रोग होजाता है नाभिके चारोंतरफ पेटमें बहुत पानी भरजानेसे पेट भी बहुत बढ जाता है और झलझलाता है तथा खूब थलर थलर हिलता है अगर पेटपर हाथ मारे तो तबलेकीसी आवाज आती है शूल हो, अतीसार हो, मूत्रातीसार हो, उदरके सर्वरोग कष्टसाध्य हैं । अगर बलवान् और युवा पुरुषके हों तो बडी मुश्किलसे आराम होते हैं ॥

अथ चिकित्सा ।

पावभर गोमूत्रमे दो तोला अंडीका तेल डालकर पीवे अथवा मट्ठामें पीपलका चूर्ण और सेंधानमक मिलाकर पीवे । अथवा केवल ऊँटनीका दूध पीवे तो वातोदर दूर होवे । कूट, दन्ती, जवाखार, त्रिकुटा, सेंधानमक, कालानमक, सांभरनमक, बच, जीरा, अजवाइन, हींग, सज्जी, चाब, चीता, सोंठि ये सब समभाग लेकर पीस छानकर मासा६गर्मजलके साथ पीवे तो वातोदर दूर होवे अथवा समुद्रनमक, कालानमक, सेंधानमक, जवाखार, अजमोद, पीपल, चीता, अदरक, हींग, सांभरनान, खारीनोन सब समभाग लेकर

चूर्ण बनाकर मासे ४ घीमें मिलाकर भोजनके प्रथम ग्रासमें खावे तो वातोदर, गुल्म, अजीर्ण, संग्रहणी, बवासीर, पांडु, भगन्दर इतने रोग नष्ट होवें। पृष्ठिपर्णी, खरैंटी, कटेरी, लाख, सोंठि ये समभाग लेकर दूधमें पकाकर पीवे तो पित्तोदर दूर होवे। गर्म दूधमें अंडीका तेल डालकर पीवे तो कफोदर दूर होवे। सांठीचावल, गेहूँ, जौ, निवारधान्य, विरेचन, वस्तिकर्म ये उदररोगमें पथ्यहैं और मांस,मछली, शाक, तिलके पदार्थ, दंड, कसरत, परिश्रम, मार्ग चलना, दिनमें सोना, हाथी व घोडेकी सवारी गर्म व नमकीन वस्तु, खट्टे व बादीपदार्थ, दाहकारक व भारीपदार्थ,इतनी वस्तुयें उदररोगी त्याग देवे। मालकांगनीके तेलको गर्म दूधमें डालकर ८ दिन पीवे तो सर्व प्रकारके उदररोग दूर होवें। अथवा थूहरके दूधमें छोटी पीपरिको भिगोकर खावे तो सर्व उदररोग दूर होवें। अथवा शिलाजीतको गोमूत्रमें डालकर पीवे अथवा गूगुलको त्रिफलाके काढामें डालकर पीवे अथवा भैंसका मूत्र या ऊंटनी या बकरीका मूत्र दूधके साथ पीवे तो ७ दिनमें शोथोदर दूर होवे। अथवा बबूलकी छालके काढाको कडाहीमें डालकर खूब गाढा करके जंगलीबेरकी बराबर गोलियां बनालेवे फिर १ गोली मट्ठाके साथ खावे तो जलोदर दूर

होवे । अथवा आकका दूध ८ तोले, सेहुँडका दूध २४ तोले, हर्र, कबीला, पीपरि, अमिलतास, विष्णुकान्ता, नील, निसोत, दंती, शंखाहूली, चीता ये सब चार चार तोले लेकर पानीमें पीसकर सब चीजोंको एक कडाहीमें डालकर उसमें एक प्रस्थ घी डालकर पकावे जब उक्त दूध वगैरह सब जलकर केवल घीमात्र रहे तब उतारकर छान कर शीशीमें रख छोडे इसका नाम बिन्दुघृत है । इसकी जितनी बूँद खावे उतने ही दस्त होवें यह कोढ, भगन्दर, गुल्म, उदावर्त, सूजन और आठों प्रकारके उदररोग दूर करै । तोंदीपर लेप करदेनेसे भी दस्त आते हैं, समुद्रकी सीपीके खारको दूधके साथ पीवे । अथवा पीले आकके पत्तोंमें सेंधानकम लगाकर उनको पुटपाककी रीतिसे भस्म करके दहीके पानीके साथ मासा १ खावे तो प्लीहोदर दूर होवे अथवा जम्बीरी नींबूके रसमें शंखनाभिका चूर्ण मासे २ पीवे तो अत्यन्त बढी हुई कछुआके समान भी प्लीहा शीघ्रही शान्त होवे अथवा शरफोंकेकी जडके १ तोला कल्कको मट्ठाके साथ पीवे तो असाध्य भी प्लीहा शीघ्रही नाश होवे । अथवा सेमलके फूलोंको उबालकर रातभर रक्खा रहने देवे सबेरे राईका चूर्ण १ तोला मिलाकर खावे तो प्लीहाका नाश होवे ॥

अथ ब्रह्मघृत ।

शिलारस, सोंठि, नाडीका शाक, कौआठोंडीकी जड़, कटेरीकी जड, पांचोंनमक, हींग, पीपल येसब एक एक तोला लेवे और गायका घी एक प्रस्थ, गोमूत्र४ प्रस्थ,दूध २ प्रस्थ लेकर सब औषधियोंको गोमूत्रमें पीसकर सर्वपदार्थोंको एककड़ाहीमेंडाल देवेऔर मन्दाग्निसे घीको सिद्ध कर छानकर रखलेवे फिरमासा ६ खावे तो प्लीहोदर, शोथोदर इत्यादि सर्व उदररोग नाश होवैं ॥

अथ शंखद्राव ।

सज्जी, जवाखार, कसीस,सुहागा,शोरा,सेंधानमक नवसादर, फिटकिरी ये सब समभागलेकरमहीनपीस कर एक हांडीमें रखकर नली लगाकर तेजाब खींचे फिर दांतोंको बचाकर युक्तिपूर्वक १ बूँद खावे तो गुल्म, प्लीहा, आनाह, बवासीर, संग्रहणी, भगन्दर व्रण और सर्वप्रकारके उदररोग दूर होवें ॥ इति ॥

अथ शोथरोगके लक्षण व चिकित्सा ।

शोथरोग ९ प्रकारका है वातका, पित्तका, कफका, वातपित्तका, पित्तकफका, कफवातका, त्रिदोषका, अभिघातका, विषका.

वमन, विरेचन, ज्वर, लंघन इत्यादि कारणोंसे

जब पुरुष दुर्बल और बलहीन हो जाता है उससमय खट्टे व बादी व रूखे और कच्चे व भारी और विरोधी पदार्थ दही, लहसुन, मछली, दूध, शाक इत्यादि खानेसे शरीरकी वायु बिगडकर कफको, बाहरकी नसोंमें प्राप्त कर उनकी गमनक्रियाको रोंककर सूजन उत्पन्न करदेती है। शरीर भारी, चित्तमें व्याकुलता, ऊंची सूजन, दाह, नसें पतली, रोमांचहोना, शरीरका रंग बदल जाना, अंगुलीसे दबानेसे गढा पडना इत्यादि लक्षण होते हैं। जो सूजनशरीरके मध्यभागमें अथवा सारे शरीरमें स्थित हो वह कष्टसाध्य है। यदि मनुष्यके पैरोंसे सूजन उत्पन्न होकर ऊपरको जाय और स्त्रीके मुखसे उत्पन्न होकर पैरोंपर जावे अथवा गुप्त स्थान या वस्ति स्थानसे उत्पन्न होकर सारे शरीरमें फैले तो रोगी अवश्यही मरै। जिस सूजनवाले रोगीके श्वास, तृषा, वमन, दुर्बलता, ज्वर, अरुचि ये उपद्रव होवें वह अवश्य मरै॥

अथ चिकित्सा।

दूध, अन्न, जलको छोडकर सात दिनतक भैंसकेमूत्र को अथवा ऊँटनी या बकरीके मूत्रको पीवे तो सूजन व उदररोग अवश्यही नाश होवें। सहिंजनेकी छाला करंज, आक, दारुहल्दी, अमलतासकीजडयेसबसमभाग, लेकर गोमूत्रमें पीसकर लेप करै तो सूजन दूर होवै।

मोर अथवा कबूतरके मांसके शोरुवाको सरसोंकेतेलके साथ पीवे तो बहुत भारी व असाध्य भी सूजन दूर होवे । अथवा गोमूत्रके साथ अंडीका तेल या हर्रखावे अथवा थूहरके दूधमें भावना दी हुई पिपरी खावे अथवा बेलपत्रका स्वरस २ तोले रोज पीवे तो असाध्य भी सूजन दूर होवे । अथवा त्रिफलाके काढाके साथ १ मासा शिलाजीत रोज पीवे तो अत्यन्त बढी हुई सूजनका नाश होवे तिल और काली मिट्टीको पीसकर लेप करै तो भिलावांकी सूजन दूर होवे या भैंसके मक्खन या तिलोंको दूधमें पीसकर लेप करै अथवा कालानमक और तिलके पेडकी मिट्टीको पीसकर लेपकरै तो भिलावांकी सूजन दूर होवे।अथवा हर्र, गिलोय, भारंगी,पुनर्नवा, चीता, दारुहलदी, देवदारु, सोंठि ये समभाग लेकर इनका काढा बनाकर पीवे तो पेट, हाथ, पांव, मुख इतनी जगहकी सूजन तुरन्त ही नाश होवें ।अथवा देवदारु, पुनर्नवा, सोंठि इनको समभाग लेकर दूधमें औटाकर पीवे अथवा चीता, निसोत, देवदारु, सोंठि, मिर्च, पीपरि ये समभाग लेकर दूधमें औटाकर पीवे तो सर्व प्रकारकी सूजन दूर होवें । अथवा पुनर्नवा, देवदारु, सोंठि, सरसो सहिंजना इनको समभाग लेकर कांजीमें पीसकर लेप करै तो सर्व प्रकारका शोथ नाश होवे । अथवा बहेडेकी

मज्जा पानीमें घिसकर लेप करैं तो दाह व पीडा शान्त होवे अथवा मौरेठी, नागरमोथा, कैथाके पत्ते, चन्दन सफेद, ये समभाग पीसकर लेप करै तो शोथ व शोथ की पिडिका नाश होवें । अथवा गूगुल मासे ६ को गोमूत्रसे पीवे या पीपलको गोदूधसे पीवे या गुड और हर्र, अथवा गुड और सोंठि अथवा गुड और अदरख अथवा गुड और पीपरि बराबर लेकर १ तोला खावे और मूँगकी दाल, दूध, मांसका शोरुआ खावे तो सर्व प्रकारकी सूजन दूर होवें । अथवा गोमूत्रको पीवे या गोमूत्रमें अंडीका तेल डालकर पीवे । अथवा पुनर्नवाका स्वरस १ तोला रोज पीवे । अथवा विष्णुकांताका स्वरस १ तोला रोज पीवे । अथवा पुराने मानकंदके चूर्णको खीरमें पकाकर खावे तो सर्वप्रकारकी सूजन श्वास, खांसी, जुकाम, पीडा, आम, विबन्ध, मन्दाग्नि, अफरा, आनाह, गुल्म, उदावर्त्त, उदररोग नाश होवें ॥ इति शोथ चिकित्सा ॥

अथ अंडवृद्धिके लक्षण व चिकित्सा ।

अंडवृद्धि रोग ७ प्रकारका हैं । वातका, पित्तका, कफका, रक्तका, मेदका, मूत्रका, आंतका ॥

वातको कोप करनेवाले आहार विहारोंसे वायुकोपको प्राप्त होकर अंडकोशोंमें सूजन व पीड़ा उत्पन्न कर-

ती है। अंडवृद्धिवाला इतनी वस्तुओंको त्याग देवे मलमूत्रादि वेगोंका रोकना, हाथी घोडे इत्यादिकी सवारी, दंड, कसरत, परिश्रम, प्रसंग, अति भोजन, मार्गगमन, उपवास। और ये पथ्य हैं करेला, ककोडा, जमीकन्द, आलू, मेथी, लहसन, प्याज, जौ, गेहूँ, मूँग, अरहर, दूध, घी, तैल ॥

अथ चिकित्सा।

पावभर गर्म दूधमें २ तोले अंडीका तेल डालकर १ महीना तक पीवे। अथवा गूगुल मासे ६, अंडीका तेल तोला १, गोमूत्र आधापाव ये सब एकमें मिलाकर पीवे तो बहुत दिनोंकी पुरानी भी अंडवृद्धि दूर होवे। अथवा एक तोला शहदमें १ तोला अदरखका स्वरस मिलाकर ४० दिन पीवे। अथवा जोंक लगा देवे। अथवा त्रिफलाके काढामें गोमूत्र डालकर पीवे। अथवा बच, सरसोंको समभाग लेकर पानीसे पीस गर्म करके अण्डकोशोंपर लेप करै। अथवा सहिंजनेकी छालको घीमें घिसकर गर्म कर लेप करै अथवा धूप, अगर, कूट, देवदारु, सोंठि, ये समभाग लेकर गोमूत्र और कांजीमें पीसकर गर्मकर लेप करै तो अण्डवृद्धि आराम होवे अथवा इन्द्रायणकी जडका चूर्ण मासे ४ आधा पाव दूधमें पीस छान कर १ तोला अंडीका तेल डालकर ७ दिनतक पीवे। अथवा रास्ना, मौरेठी, गिलोय, अंड-

की जड, खैरंटी, गोखरू ये समभाग लेकर इनके काढामें १ तोला अंडीका तेल डालकर पीवे तो आंत उतरना दूर होवे । अथवा भारंगीकी जडको पानीसे घिसकर गर्म कर गालीकी गिल्टियोंपर लेप करै तो गिल्टी, गंडमाला, अंडवृद्धि इतने रोग आराम होवें । अथवा घोंघामें घी भरकर ७ दिन रखा रहने देवे आठवें दिन निकालकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर संधिकी गिल्टियों पर लेप करै तो गिल्टियां आराम होवें । अथवा तांबेके पात्रमें घी डालकर उसमें सेंधानमक बारीक पीसकर मिला देवे फिर उसको घाममें रखकर हाथसे खूब मथे इस मथनसे जो मल निकलै उसको गालीकी गिल्टियों पर रातदिन लगावे तो अत्यन्त बढी हुई गिल्टियें शीघ्रही आराम होवें । अथवा लज्जावन्तीकी जड और गीधकी विष्ठा ये दोनों पीसकर गर्म कर लेप करै तो गालीकी गिल्टियाँ अवश्यही नाश होवें ॥ इति अंडवृद्धि चिकित्सा ॥

अथ ब्रध्न रोगके लक्षण व चिकित्सा ।

भारी व बादी और खट्टे तथा बहुत मांस मछली इत्यादिके खानेसे वात, पित्त,कफ बिगडकर जांघोंकी सन्धिमें पीडा सहित बडीभारी गांठको उत्पन्न करदेते हैं उसको भाषामें बद कहते हैं ॥

अथ चिकित्सा।

गेहूँका आटा, कुन्दरूका चूर्ण ये समभाग लेकर भेडके दूधमें पीसकर गुनगुना लेप बदपर करे। अथवा एक बडे कौवेको मारकर उसका पेट तुरन्त ही फाड-कर बदमें बांध देवे परन्तु एक घड़ी बाद खोलकर फेंक देवे तो उसी समय बद पानी होजावे इससे अन्य उत्तम औषधी बदकी नहीं है। अथवा जीरा, हाऊबेर, कूट, गेहूँ, बेर ये समभाग लेकर कांजीसे पीसकर गर्म कर बदपर लेप करै तो अथवा पुष्य नक्षत्रमें भारंगीकी जड उखाडकर काँजीमें घिसकर पीवे तो बदका नाश होवे। अथवा नीलकी पत्ती पीसकर टिकिया बाँधे तो बद बैठ जावे। अगर बदको फोडना चाहे तो शोरा कलमी पीसकर उसपर लेप करै॥ इति॥

अथ गलगंडरोगके लक्षण व चिकित्सा।

मनुष्यके गले या ठोढीमें कडी और अचल अंड-कोशके समान सूजन लटके उसको गलगंड कहते हैं। वह तीन प्रकारका होता है १ वातका, २ कफका, ३ मेदका। इसको भाषामें घेघा या थाथीकी बीमारी कहते हैं। यह बीमारी जिला बहरायच व बस्ती व गोंडा व फैजाबादमें कसरतसे होती है॥

अथ चिकित्सा।

सरसों, सहिंजनेके बीज, सनके बीज, अलसी, जौ, मूलीके बीज इनको समभाग लेकर खट्टे दहीमें पीसकर लेप करे तो गलगंड अच्छा होवे। अथवा पुन्नागकी भस्म सरसोंके तेलमें मिलाकर लेप करे तो पुराना भी गलगंड अवश्य ही अच्छा होवे। अथवा सफेद फूलवाली विष्णुकान्ता-की जड मासे ६ को एक तोला घीमें महीन पीसकर सबेरे पीवे तो ७ दिनमें गलगंडका नाश होवे। अथवा कडुई तोंबीके पके हुए फलमें पानी भरकर ७ दिनरात रक्खा रहनेके बाद पीवे या मदिरा पीवे तो शीघ्रही गल-गंडका नाश होवे। अथवा गिलोय, नीम, जटामांसी तुन, पीपरि, बरियारी, गंगेरन, देवदाली ये समभाग लेकर पानीमें महीन बाँटकर चौगुने तिलके तेलमें पचाकर तेल सिद्ध करके १ तोला प्रतिदिन पीवे तो गलगण्डका नाश होवे। अथवा जलकुम्भी, सेंधानमक, पीपरि ये समभाग लेकर १ तोला प्रतिदिन पीवे तो गलगंडका नाश होवे। जौ, मूँग, अरहर, चना, बाजरा, परवल, करेला, तोंबा, जमीकन्द, मेथी, सोवा, कडुवे पदार्थ, वमन करना, जोंक, इत्यादि लगाकर लोहू निकलाना सेंकना, बफारा देना, दागना इतनी चीजें इस रोगमें पथ्य हैं। जलकुम्भीकी छालकी भस्म १ तोलेको १ छटांक गोमूत्रमें सानकर पीवे और कोदोंके भातका

भोजन करे तो शीघ्रही गलगंडका नाश होवे। अथवा हस्तिकर्ण (जंगली पलाश) की छाल या लालअरंडकी जडको चांवलोंके पानीमें पीसकर लेप करे तो गलगंड शीघ्रही नाश होवे। अथवा पुराने ककोडेके १ तोला स्वरसमें कालानमक ३ मासे सेंधानमक ३ मासे मिलाकर नस्य लेवे तो उग्र गलगंड भी शीघ्रही नाश होवे। अथवा नीले फूलके घमिराको औटाकर बफारा लेवे तो शीघ्रही गलगंड दूर होवे। अथवाकायफलके चूर्णकी मालिश करे तो शीघ्रही गलगंडका नाश होवे ॥ इति गलगंड चिकित्सा ॥

अथ गंडमालाके लक्षण व चिकित्सा।

जब गलेमें, बगलमें, पेडूमें, जांघोंकी सन्धिमें छोटीबड़ी चनासे लेकर आमलापर्यन्त मेद व कफकी अनेक गांठें उत्पन्न हो जाती हैं उनको गलगंड कहते हैं, तब कुछ कुछ ज्वर व गांठोंमें दर्द रहता है ॥

अथ चिकित्सा।

कचनारकी छाल२ तोलेका पावभर पानीमें काढा करे जब आधी छटांक रहजावे तब छानकर उसमें ४ मासे सोंठिका चूर्ण डालकर पीवे या इसी प्रकार बरनाकी छालका काढ़ा बनाकर उसमें १ तोला शहद मिलाकर पीवे तो पुरानी भी गंडमाला९दिनमें

अच्छी होवे । या २ तोले कचनारकी छालको चांवलोंके पानीमें बांटकर पीवे । अथवा निर्गुण्डीके स्वरसमें कारियारीको बांटकर चौगुने तिलके तेलमेंपचाकर तेल सिद्ध करके उसकी नस्य लेवे तो उग्र गंडमालाका नाश होवे । इसका नाम निर्गुण्डीतैल है ॥

अथवा पमारकी जड भंगराके स्वरसमें बांटकर चौगुने सरसोंके तेलमें पचाकर तेलको सिद्ध करके उसमें चौथाई हिस्सा सिन्दूर (बन्दन) मिलाकर मालिश किया करे तो गण्डमाला दूर होवे इसका नाम चक्रमर्दतैल है ॥

अथवा सफेद घोंघचीकी जड या फलको पानीमें महीन बांटकर चौगुने सरसोंके तेलमें पचाकर तेल सिद्ध करके मालिश किया करे तो गण्डमाला अतिशीघ्र नाश होवे । इसका नाम गुंजातैल है ॥

अथवा अमिलतासकी जडको चांवलोंके पानीमें बांटकर लेप करे और नस्य भी लेवे या निर्गुंडी (सम्हारू) की जडको पानीमें घिसकर नस्य लेवे अथवा कडुई तोंबी या कडुई तुरईके स्वरसकी नस्य लेवे या तोंबीके स्वरसमें पीपरिका चूर्ण मिलाकर नस्य लेवे या नींबके तेलकी नस्य लेवे या पीपरिका चूर्ण मासे ६, शहद मासे ६ के साथ चाटे अथवा इन्द्रायणकी जड या विष्णुकान्ताकी जडको गोमूत्रमें पीसकर

मासे ६ पीवे तो पुरानी भी गण्डमाला नाश होवे। अथवा तोंबीका स्वरस या लज्जावन्तीका स्वरस २ तोले पीवे तो गण्डमाला, कमलवाय, गलगंड, अंड-वृद्धि, गांठ इतने रोग शीघ्रही नाश होवें। अथवा छछूँदरके मांसको तेलमें जलाकर फिर उस तेलकी मालिश करै तो घोर गंडमाला दूर होवे। अथवा भारंगीकी जड़को मौरेठीके रसमें बांटकर लेप करै तो दारुण गंडमाला शीघ्रही दूर होवे। अथवा सहोरा या पीलुआकी छालीको पानीसे बांटकर सरसोंके चौगुने तेलमें पचाकर तेल सिद्ध करके नस्य लेवे तो अतिशीघ्र गण्डमाला दूर होवे॥

अथवा कचनारकी छाली २० तोले, सोंठि ४ तोले पीपरि ४ तोले, मिर्च ४ तोले, हर्र २ तोले, बहेडा २ तोले, आमला २ तोले, बरनाकी छाली १ तोला, इलायची ४ मासे, तेजपात ४ मासे, दालचीनी ४ मासे लेकर सबको महीन पीस छानकर सबके बराबर शुद्धगूगुल मिलाकर चार चारमासेकी गोलियां बनाकर छायामें सुखालेवे फिर प्रतिदिन सबेरे १ गोली मुण्डीके काढ़ा या खैर-सारके काढा या हर्रके गर्मागरम काढाके साथ खावे तो गलगण्ड, गण्डमाला, गांठ, घाव, गुल्म, कोढ, भगन्दर इतने रोग अवश्यही नाश होवें परन्तु पथ्यसे रहे नमक, खटाई व सर्वप्रकारकी बादी व सर्द चीजोंसे

परहेज रक्खे। इसका नाम कचनारगूग्गुल है। कोई आचार्य इसमें गूग्गुलसे आधा शहद भी मिलाकर गोलियां बनाते हैं॥ इति गंडमाला चिकित्सा॥

अथ अपचीके लक्षण व चिकित्सा।

ऊपर कहा हुआ गंडमाला जब बहुत दिनोंका होजाता है तब उसको अपची कहते हैं इसमें कोई गांठें पकती हैं कोई फूटती हैं कोई बहती हैं कोई सूख-तीहैं कोई नई पैदा होती हैं॥

अथ अपचीकी चिकित्सा।

चन्दन, हर्र, लाख, कुटकी ये समभाग लेकर पानीमें बांटकर चौगुने सरसोंके तेलमें पचाकर तेल सिद्ध करके नित्य १ तोला पीवे तो अपचीका समूल नाश होवे। इसका नाम चन्दनादि तैल है। अथवा सोंठि, मिर्च, पीपरि, बायबिडंग, महुआ, सेंधानमक देवदारु ये समभाग लेकर पानीमें बांटकर उक्त रीतिसे तेलको सिद्ध कर नस्य लेवे तो अपचीका नाश होवे। अथवा जंगली कपासकी जड़ २ तोलेको चांवलोंके पानीमें पीसकर पूडी बनाकर खावे तो अपचीदूरहोवे या सहिंजनेकी छाल और देवदारु ये दोनों समभाग लेकर कांजीमें पीसकर गर्म करके लेप करे तो घोर अपचीका नाश होवे। अथवा सरसों, नीमके पत्ते,

भिलावा ये समभाग लेकर इनको जलाकर भस्म करे फिर उस भस्मको बकराके मूत्रमें सानकर लेप करे तो अपचीका नाश होवे अथवा पीपलकी छाल, बेंत, गायके दांत ये समभाग लेकर भस्म करके शूकरकी चरबीमें मिलाकर लेप करे तो अपचीका नाश होवे अथवा कमलकी जड़ या चिरचिरेकीजड़को विधिपूर्वक न्योतकर पुष्य नक्षत्रमें लाकरगलेमें रेशमके धागेसे बांधे तो अपचीका नाश होवे ॥ इति अपची चि०॥

अथ ग्रन्थिरोगके लक्षण व चिकित्सा।

वात, पित्त, कफ ये तीनोंदोष जब मांस, मेद नसोंको दूषित करके गोल, ऊँची, दर्द संयुक्त सूजनपैदा करतेहैं उसको ग्रन्थि व गांठ कहते हैं। वह ५ प्रकारकी है १ वातकी, २ पित्तकी, ३ कफकी, ४ मेदकी, ५ नसोंकी ॥

अथ चिकित्सा।

सज्जीखार, मूलीखार, शंखका चूर्ण ये समभाग लेकर महीन पीसकर लेप करै तो ग्रन्थि दूर होवे। अथवा एक कागजके टुकड़ेपर गुलरीका दूध लगाकर उसपर थोडासा नमक बारीक पीसकर बुरकाकरगांठपर चिपकादेओ तो गांठ दूर होवे। इस रोगकी सविस्तर चिकित्सा हमारी बनाई मुजर्रिवात गौरीशंकरमें देखो ॥ इति ग्रंथिचिकित्सा ॥

अथ अर्बुदके लक्षण व चिकित्सा ।

बहुत मांस खानेसे लोहू और मांस दूषित होकर शरीरमें कहीं बडी गोल अचल गांठको पैदा करते हैं वह कभी भी पकती नहीं और न उसमें कभी दर्दही होता है उसको भाषामें बडी कहते हैं वह ६ प्रकारकी है १ वातकी, २ पित्तकी, ३ कफकी, ४ रक्तकी, ५ मांसकी, ६ मेदकी। परन्तु रक्तका अर्बुद जब असाध्य होजाता है तब पकता भी है ॥

अथ चिकित्सा ।

हल्दी, लोध, पतंग, धुयेंका करेंहुआं, मनशिल ये समभाग लेकर शहदमें मिलाकर लेपकरे तो अर्बुद दूर होवे । अथवा बडका दूध, कूट, शहदमें मिलाकर लेप करे तो अर्बुद दूर होवे अथवा बडका दूध, कूट, खारीनमक ये समभाग लेकर महीन पीसकर लेप करके ऊपरसे बडके पत्ते बांधे तो ७ दिनमें अर्बुदका नाश होवे । सहिंजनेके बीज, मूलीके बीज, राई, तुलसी, इन्द्रजौ, कनेर ये समभाग लेकर मट्ठामें पीसकर लेप करे तो अर्बुदका नाश होवे ॥ इति अर्बुद चिकित्सा ॥

अथ श्लीपदके लक्षण व चिकित्सा ।

पेडू और जांघोंमें प्रथम पीडासंयुक्त सूजन उत्पन्न

होकर धीरे २ पैरतक आवे उसको श्लीपद कहते हैं। फारसीमें इसको फीलपाँव कहते हैं।जो देश सर्वकालमे शीतल हैं जहांसे पुराना पानी नहीं सूखता है ऐसी जगहमें यह रोग बहुतायतसे होता है। रायपुर, सम्बलपुर, कटक और बनारसमें यह रोग अधिकतासे देखा गया है। यह तीन प्रकारका होता है १ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, वात और पित्तवालेमें कुछ कुछ दर्द व ज्वर भी रहता। है भाषामें इसको हाथीपांव कहते हैं॥

अथ चिकित्सा।

पसीना निकालना, लंघन करना, जुल्लाब लेना, लोहू निकालना, कफको नाश करनेवाले उपाय, बफारा लेना इतने उपायोंसे यह रोग नाश होता है। सरसों, सहिंजना, देवदारु, सोंठि ये समभाग लेकर गायके मूत्रमें पीसकर लेप करे। अथवा सोंठि, पुनर्नवा, राई ये समभाग लेकर कांजीमें पीसकर लेप करे अथवा धतूरा, अरंडकी जड़, सम्हालू, पुनर्नवा, सहिंजनाकी छाल, राई इनको समभाग लेकर पीसकर गर्म कर लेप करे तो श्लीपद आराम होवे। अथवा सहदेवीकी जडको ताडफलके रसमें पीसकर लेप करे तो असाध्यभी श्लीपदका नाश होवे।

अथवा थूहरके पत्तोंको पानीमें पीसकर नमक मिलाकर दो तोले रोज खावे । अथवा सहोरा या पीलुआकी छालीके काढामें गोमूत्र मिलाय पीनेसे श्लीपदका नाश होवे । अथवा हल्दीका चूर्ण १ तोला दो तोले गुडमें मिलाकर कांजीके साथ नित्य पीवे तो १ वर्षका श्लीपद व दाद नाश होवे । अथवा पुनर्नवा, हर्र, बहेडा, आमला, पीपरि ये समभाग लेकर चूर्ण कर १तोला शहदसे खावे तो पुराना भी श्लीपद नाश होवे । अथवा अरंडका तेल २ तोलेमें हर्रका चूर्ण २ तोले मिलाकर पावभर गोमूत्रसे पीवे तो श्लीपद अवश्यही नाश होवे, परन्तु इसको ७ दिनसे अधिक न पीवे ॥ इति श्लीपद चिकित्सा ॥

अथ विद्रधिके लक्षण व चिकित्सा ।

जब वातादि तीनों दोष दूषित होकर रक्त, मांस, मेदको बिगाडकर शरीरमें गोल, ऊंची, कठोर, पीडायुक्त सूजन उत्पन्न करदेते हैं उसको विद्रधि कहते हैं भाषामें फोडा कहते हैं । यह ६ प्रकारकी होती है। १ वातकी, २ पित्तकी, ३ कफकी, ४ सन्निपातकी, ५ चोट लगनेकी, ६ लोहूकी ॥

और भी एक अन्तरविद्रधि है उसके भी लक्षण सुनो । जब भारी पदार्थ, सूखासाग, अत्यन्त खट्टा, अति मैथुन, कसरत, मल मूत्रादि १४ वेगोंका रोकना, विरुद्ध

भोजन इत्यादि कारणोंसे वात, पित्त, कफ दूषित होकर शरीरके भीतर गोल कठोर सूजन (फोडा)को उत्पन्न करे उसको अन्तरविद्रधि कहते हैं। वह १० प्रकारकी है–१ गुदामें, २ पेडूमें, ३ नाभिमें, ४ कोखिमें, ५ पेडू और जांघोंकी संधिमें, ६ बैठनेकी जगह, ७ प्लीहमें, ८ यकृत्‌में, ९ हृदयमें, १० प्यासकी नालीके पासमें होती है। इनमेंसे नाभिके ऊपरके भागमें जो विद्रधि हैं वे महा असाध्य हैं और नाभिके नीचे भागमें जो हैं वे कष्टसाध्य हैं॥

अथ सबकी चिकित्सा।

जोंक लगाना, लोहू निकलाना, हलका जुल्लाब, लंघन ये लाभदायक हैं और त्रिफलाके काढामें६भाग निसोतका चूर्ण मिलाकर पीवे तो विद्रधि दूर होवे। अथवा ईंट या बालू या गर्मलोहेसे बार २ गर्म करके सेंके अथवा सफेदफूलवाले पुनर्नवाकी जड, बरनाकी जड ये दोनों समभाग लेकर काढा बनाकर पीवे तो अन्तर विद्रधिका नाश होवे अथवा सहिंजनेकी जडको पानीमें बांटकर कपडेसे छानकर शहद डालकर पीवे तो अन्तरविद्रधिका नाश होवे। अथवा सहिंजनेके काढामें हींग और सेंधानमक मिलाकर पीवे तो अन्तरविद्रधि दूर होवे॥ इति विद्रधि चिकित्सा॥

अथ व्रणशोथके लक्षण व यत्न ।

व्रणको भाषामें फोडा कहते हैं । पहिले फोडा होवे फिर सूज जावे फिर पके फिर फूटै । वह ६ प्रकारका है १ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, ४ सन्निपातका, ५ खराब खूनका, ६ चोटलगनेका । सर्व प्रकारके व्रणोंमें विना वायुके पीडा नहीं होती। और विना पित्तके पकना नहीं होता और विना कफके मवाद नहीं होता । अर्थात् वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष फोडेको पकातेहैं । यह रोग अनेक कारणोंसे उत्पन्न होता है और यह फोडा फुँसीका रोग अक्सर अधिकतासे होता है इस वास्ते इसकी उत्तम चिकत्सा वर्णन करते हैं । जानना चाहिये कि सर्वप्रकारके फोडा फुँसी सम्बंधी रोगके लिये (चाहे चोट लगनेसे या हथियार वगैरः लगनेसे या आगमें जल जानेसे अथवा किसी भी कारणसे पकगया हो) सुश्रुतमुनिने ११ तरहकी चिकित्सा कही है । अर्थात् १ लेप करना, २ औषधिके गर्मगर्म काढाकी उसके ऊपर धार छोडना, ३ सेंकना, ४ लोहू निकालना, ५ पकाना, ६ फोडना, ७ मवाद निकालना, ८ निर्मल व साफ करना, ९ आराम करना, १० सुखाना, ११ त्वचाके रंगके समान रंग करना ॥ अरण्डके तेलमें सूखा चूना रगडकर लेप करे तो फिर फोंडा बढता नहीं । अगर फूटे हुए घावपर उक्त लेप

करे तो ३ दिनमें घाव सुखजाता है ।अथवा बिजौरा नींबूकी जड, छडीला,देवदारु, सोंठि,लहसन, अरनी ये समभाग लेकर पीसकर गर्म लेप करे तो दर्द व सूजन कम होजाती है । अथवा सिरसकी छालीको चन्दनकी तरह घिसकर फोड़े पर लेप करे तो दर्द दूर होवे और शीघ्रही फूट जावे । अथवा नागफनीके ऊपरका हरा बक्कल छीलकर फेंक देवे फिर अन्दरका गूदा बांटकर गर्मकर फोडापर बांधेतो दर्द दूर करैऔर अतिशीघ्रही फूटै। अथवा छुइमिट्टी जिससे मकान पोततेहैं उसे पानीसे महीन गाढागाढा पीसकर लेपकरे अथवा कल्मीशोरा पानीसे बांटकर फोडापर लेप करे तो ५मिनटमें सारी तकलीफ दूर होवे जलन मिटैऔर फोडा तुरन्तही फूटै।फोडाकी लाख दवाइयां एकतरफ और लोहू निकलाना एक तरफ है क्योंकि, पीड़ाकी जड खराब लोहू ही है जब खराब लोहू निकलजावेगा तबही पीडा शान्त होगी जोंक लगाना सींगी लगाना नस्तरसे चीरदेना दाग देना ये सब परम लाभदायक हैं। अथवा पुनर्नवा, देवदाली, सोंठि, सहिंजनेकी छाली, राई ये सब समभाग लेकर खट्टीचीज (नींबू मट्ठा वगैरह)में पीसकर थोड़ा गर्म करके फोडेपर लेप करे तो दर्द व सूजन शीघ्रही दूर होवें । अथवा सनके बीज,मूलीकेबीज,सहिंजनेका फल,तिल, राई,अलसी,

जौके सत्तू, मदिराका बोदर,पिलुआकेफल,नौसादर ये हरएक शीघ्रही फोड़ेको पकाकरफोड देतेहैं।इनमेंसे कोई भी चीज पानीमें बांटकर फोडेपर टिकिया बांधोजब इसके बांधनेसे फोडा पकजावे तब करंजकी जड,चीते की जड,जमालगोटेकी जड, कनेरकी जड़, कबूतरकी बीट, गिद्धकी बीट, मुर्गाकी बीट, लाल चन्दन ये सब समभाग लेकर पानीमें पीसकर लेप करे तो फोडा तुरन्त ही फूटै । अथवा खारी नमक, जवाखार, सज्जीखार चिरचिराखार, हाथीदांत इनको पानीमें घिसकर केवल १ बूँद फोड़ेपर टपकावे तो कैसाहू बड़ा व सख़्त व उग्र फोडा हो तुरन्त ही फूट जावे।अथवा अनन्तमूलका काढा पीवे और उसका लेपभी करे तो सर्व प्रकारके फोडा फुँसी आराम होवें परन्तु विशेष कर फूटें हुए फोडेपर लेप करनेसे चमत्कारिक लाभ दिखलाता है।अथवा नीमके पत्ते,काले तिल, जमालगोटाकी जड निसोत, सेंधानमक, शहद,ये समभाग लेकर पीसकर टिकिया बनाकर बांधे। अथवा केवल नीमके पत्तोंको बाँटकर टिकिया बनाकर बाँधे या विषमारके पत्तोंकी टिकिया बाँधे तो खराबसे खराब फोड़ा भी अच्छा होवे, मवाद साफ होवे । अथवा शरफोंकेको शहदमें घिसकर या पीसकर लेप करै तो घाव पूरि आवे । अथवा गेहूँकी मेदा, शहद, घी, सरसोंका तेल, ये

सब समभाग लेकर एकमें मिलाकर फेंटकर गर्मकर लेप करै तो जलन और दर्द घाव दूर होवें ॥

अथवा कंजाकी जड, नीमकी जड, सम्हालूकी जड इन सबको समभाग लेकर पानीमें घिसकर लेप करै तो फोडाके कीडे दूर होवें। अथवा नीमके पत्तोंमें हींग मिलाकर लेप करै अथवा लहसुनका लेप करै तो कीडे व खाज फोडासे दूर होवें। अथवा त्रिफलाके काढामें गूगुल मिलाकर पीवे तो खराबसे खराब बुरी-गंधवाला और पुरानेसे पुराना जो बारंबार भरता फूटता हो ऐसा फोडाभी आराम होवे। अथवा परवल, नीमकी छालि, कपूर, आमला, हर्र, बहेडा ये सब समान भाग लेकर दो तोलेका काढा बनाकर उसमें गूगुल मिलाकर पीवे तो सर्वप्रकारके फोडे, विसर्प, विस्फो-टक, रुधिरविकार इतने रोग नाश होवें।

अथवा बबूलकी पत्ती९तोले, सफेद कत्था६मासे, इलायची छोटी नग १०, शीतलचीनी ६ मासे, लेवे पहिले एक कटोरीमें बबूलकी पत्ती डालकर कोयलेकी आगपर वह कटोरा रखदेवे ताकि सर्वपत्ती राखहोजावें फिर इलायची आगपर रखकर भून लेवे फिर सबको एकमें खूब महीन पीसलेवे फिर घावपर अंडीकातेल चु-पडकर उक्त बुरकीबुरकाय देवे तो अतिशीघ्र घाव सूख कर पपडी जमजावे, जब पपडीबन्धकर आपही उधिड

जावे तब मनशिल, मजीठ, लाख,हल्दी,दारुहल्दी ये समभाग लेकर पानीमें बांटकर घी और शहद मिलाकर लेप करे तो शरीरके रंगके समान फोडेकी जगहका रंग होवे ॥

पुराने चांवल, घी, हिरन वगैरह जंगली जीवोंका मांस, शक्कर, दूध, मूंग ये पथ्य हैं । और नमक खटाई,मिर्च ये बिलकुल छोड देवे।और चौलाई,तुरई बथुवा, मूली,बैंगन, परवल, करेला, आँवला,अनार मेथी,पालक,लौकी,ककडी,इनको घीमें भूनकर सेंधानमक मिलाकर खावे और पुराने चांवलोंका भात मूंगकी दालके साथ खावे तो शीघ्रही घाव आराम होवे, परन्तु दिनमें सोना,रात्रिमें जागना,मैथुन करना,परिश्रम करना ये४बातें फोड़ा व घाववाला रोगी बिलकुल छोड़ देवे क्योंकि इनसे तुरन्तही सूजन व दर्द व मौतभी होजातीहै।अगर तलवार वैगरहसे कटकर घाव होगया हो तो गुलशकरी या बरियारीका रस वहांपर भरदेवे तो शीघ्रही घाव आराम होवे । अगर आगसे जलगया हो तो परवलके काढामें रससोंके तेलको सिद्ध कर मालिश करे तो दाह, दर्द दूर होवे । अथवा जौको जलाकर भस्म करदेवे फिर अलसीके तेलमें मिलाकर लेप करे तो अग्निका जला घाव अच्छा होवे अथवा बेरीकी पत्ती या छालीको घीमें घिसकर लेप

करै। अथवा मोम, महुआ, लोध, राल, मँजीठ, चन्दन, मूर्वा ये समभाग लेकर पानीसे बांटकर घीमें पकाकर घी सिद्ध करके उस घीकी मालिश करे तो आगके जले सब फोडे व घाव अच्छे होवें।

अथवा घी एक छटांक, मोम आधी छटांक, सफेद कत्था ६मासा, आमलासार गन्धक ६ मासा, गन्दा विरोजा १ तोला, फिटकरी ६ मासा, रसकपूर ३मासा गेरू ६मासा, शीतलचीनी ६ मासा, सिन्दूर ६ मासा, पहिले घी और मोमको एक कटोरीमें रखकर आगपर पिघलालेवे फिर बाकी सब चीजें महीन पीसकर उसी में मिलाकर खूब फेंट देवे फिर इसी मलहमको लगावे तो सब प्रकारके फोडा, फुंसी, घाव, चकत्ते, मण्डल, उपदंशक, विस्फोटक, मसूरिका, विसर्प वगैरः शीघ्रही अच्छे होवें ॥ इति व्रणचिकित्सा ॥

अथ भग्नरोगके लक्षण व चिकित्सा।

भाषामें भग्नरोगको हड्डी टूटना कहते हैं यह अनेक कारणोंसे होता है और अनेक तरहका है अब इसकी चिकित्सा कहतेहैं। मजीठ और महुआको ठंढे पानीमें बांटकर टूटे हाडपर लेप करे तो टूटा हाड जुडै। अथवा १०८ बार धोये हुए गायके मक्खनमें सांठीके चावलोंका चूर्ण मिलाकर लेप करे। अथवा चावलोंके

चूर्णमें नमक मिलाकर लेप करे। अथवा अमिली या आमके रसका लेप करे तो सूजन व दर्द व टूटा हाड अच्छा होवे । अथवा पीपलकी लाख गेहूंकी मैदा अर्जुनकी छाली ये समभाग लेकर घीमें पीसकर दूधके साथ पीवे । अथवा हारसिंगारका चूर्ण घीमें मिलाकर खावे तो टूटी सन्धि टूटा हाड अच्छा होवे अथवा केवल कच्ची फिटकरी ६ मासेको गाय या बकरीके कच्चे दूधसे पीवे । अथवा लहसुन, शहद, पीपलकी लाख, घी, मिसिरी ये समभाग लेकर महीन पीसकर रोज खावे तो सर्वप्रकारके टूटे हाड जुड़ें । अथवा पीपलकी लाख, बडी खरैटा, अर्जुनकी छाली, असगन्ध, हारसिंगार, गूगुल ये समभाग लेकर महीन पीसकर प्रतिदिन १ तोला खावे तो टूटा हाड जुडै शरीर वज्रके समान होवे इसका नाम लाक्षादिगूग्गुल है। इसमें मांसका यूष चावल गेहूँ घी दूध मक्खन बादाम अंगूर ये पथ्य हैं । और नमक मिर्चा खटाई मैथुन परिश्रम रूखाअन्न घाममें बैठना चिन्ता करना दिनमें सोना रात्रिमें जागना ये बिलकुल छोड देवै।और टूटे हाडकी सबसे बढ़क उत्तम औषधी मोमियाई है इसको ३ मासे लेकर दूधके साथ खावे तो टूटा हाड जुडै शरीर मजबूत होवे यह दवा यूनानी है ॥ इति भग्नचिकित्सा ॥

अथ नाडीव्रणके लक्षण व चिकित्सा।

जब फोडा आराम होकर एक सूराखसे मवाद बहा करता है उसको नाडीव्रण और भाषामें नासूर कहते हैं। थूहरके दूध और आकके दूधमें दारुहल्दीको घिस कर बत्तीसी बनाकर सूराखमें भरदेवे तो सर्व प्रकारके नासूर शीघ्रही अच्छे होवें। अथवा अमिलतास, हल्दी, मंजीठ ये समभाग लेकर शहदमें पीसकर बत्ती बना कर नासूरके मुखमें देवे तो सर्वप्रकारके नासूर अच्छे होवें। अथवा भैंसके सींगकी भस्मको घीमें मिलाकर लेप करे तो नासूर अच्छा होवे। अथवा गूगुल, हर्र, बहेडा, आमला, सोंठि, मिर्च, पीपरि ये समभाग लेकर घीमें मिलाकर तीनतीन मासेकीगोली बनाकर गिलोयके रस या काढामें एक एक गोली रोज खावे तो बिगडा हुआ नासूर, भगन्दर, दर्द, गुल्म इतने रोग दूर होवें इसका नाम सप्ताङ्ग गूगुल है॥ इति नासूर चिकित्सा॥

अथ भगन्दरके लक्षण व चिकित्सा।

गुदाके इर्दगिर्द चारोंतरफ दो दो अंगुलके फासिलेमें फुंसी व गांठ होवें और दर्द करैं पकैं फूटैं बहतीरहैं उसको भगन्दर कहतेहैं फारसीमें उसको नवासीर कहतेहैं यह५ प्रकारकाहै। १वातका, २पित्तका, ३कफका४सन्निपातका

५ चोटलगनेका। यह भगन्दर जब अपथ्य आदिसेबिगड़ जाताहै तब उस जगह सुराख होता है फिर उसी सुराखसे कभी मूत्र व कभी मल भी निकला करता है वैद्यको चाहियेकि भगन्दरकी गांठ व फुंसीको कभी पकने न देवे बल्कि ऐसी दवा करे जिससे फुंसी बैठ जावे। पुनर्नवा, गिलोय, सोंठि, मौरेठी, बेरीके पत्ते ये समभाग लेकर महीन पीसकर गर्मकरके वहां बांधै तो गांठ बैठ जावे। अथवा अफीम ६ मासे एलुआ ६ मासे, मुनक्का २ मासे इनको पानीसे पीसकर टिकिया बनाकर बांधे तो भगन्दरकी गांठ बैठ जावे। अथवा त्रिफला ३ तोले गूगुल १ तोला, पीपरि ५ तोले, इनको पानीसे पीसकर तीन तीन मासेकी गोलियां बनाकर खावे तो गुल्म बवासीर, भगन्दर, अवश्य ही आराम होवें। इसका नाम नवकार्षिक गूगुल है। और परिश्रम, प्रसंग, सवारी, युद्धकरना, भारी व देरमें पचनेवाली चीजें खाना इनसे भगन्दरवाला रोगी बचारहे बल्कि आराम होजानेके १ वर्षतक उक्त चीजोंसे परहेज रक्खै। अथवा त्रिफलाके रसमें बिलावकी हड्डी घिसकर लेप करे। अथवा त्रिफलाके पानी या काढासे रोज धोवे और उसीमें घिसकर हड्डीको लगावे। अथवा गधाके लोहूमें अर्जुनकी छालीको पकाकर लेप करे तो भग-

न्दरका नाश होवे। अथवा अडूसेके पत्तोंकी टिकिया बनाकर उसपर सेंधानमक बुरककर बांधें तो भगन्दर अच्छा होवे ॥ इति भगन्दर चिकित्सा ॥

अथ उपदंशरोगके लक्षण व चिकित्सा।

रजस्वला अथवा रोगिणी स्त्रीसे प्रसंग करने व हथरस आदि कारणोंसे मनुष्यके मूत्रनलमें फुंसी, खाज, घाव इत्यादि होजाते हैं उसीको उपदंश कहते हैं। यह ५ प्रकारका है, १ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, ४ सन्निपातका, ५ चोट लगनेका। इसको भाषामें गर्मी और फारसीमें आतिशक कहते हैं। फिरंगगर्मी व आतिशक तो मूत्रनल व सर्वशरीरमें विस्फोटककी तरह फैलजाती हैं परन्तु उपदंश केवल मूत्रनलहीमें रहता है इतनाही दोनोंमे भेद है। वैद्यको चाहिये कि, इस रोगकी इस प्रकारसे चिकित्सा करे कि, जिसमें मूत्रनल पकने न पावे क्योंकि, पकनेपर अधिकांश गलकर गिरजाना सम्भव है। जब इस रोगकी बहुत दिनोंतक उत्तम प्रकारसे चिकित्सा नहीं कीजाती तब शिश्नके शिरमें धानके अंकुर सरीखा या मुर्गाकी शिखा सरीखा निकलआता है उसको लिंगार्श अर्थात् लिंगकी बवासीर कहते हैं, कोई कोई इसको लिंगवर्ती भी कहते हैं, यह रोग त्रिदोषसे उत्पन्न होता है ॥

अथ उपदंश चिकित्सा ।

बफारा देना, लोहू निकालना इस रोगमें अत्यन्त लाभदायक है । त्रिफलाके काढा या घमिराके रससे उस स्थानको बार बार धोवे । अथवा गुलेदोपहरियाके पत्तोंका चूर्ण या अनारकी छालीके चूर्णसे उस जगह मालिश करे।अथवा चिकनीसुपारी या सफेदकनेरकी छालीको पानीमें घिसकर लेप करे। अथवा त्रिफलाको कढाईमें डालकर भस्म करे फिर शहदमें मिलाकर लेप करें तो उपदंश शीघ्रही आराम होवे । सज्जीखारका लेप करे तो लिंगार्श दूर होवे । सिरसकी छालीको पानीमें घिसकर रसौंत मिलाकर लेप करे अथवा हर्रको पीसकर रसौंत मिलाकर लेप करे तो लिंगके सर्वरोग नाश होवें अथवा बबूलकी छाली, चांवल, अनारकी छाली, मनुष्यके मस्तककी हड्डी ये समभाग लेकर महीन पीसकर लेप करे तो उपदंश दूर होवे। दिनमें सोना, मूत्रके वेगको रोकना भारी-अन्नका भोजन, मैथुन, गुड, खटाई, तेल, मिर्चा, परिश्रम, मट्ठा, बैंगन, उर्द, नमक मदिरा इतनी चीजें उपदंशवाला बर्ज देवे । अब इस रोगके जडसे नाश होनेके लिये रसशेखर कहते हैं। पारा १ तोला, अफीम १ तोला लेकर लोहेके बर्त्तनमें डालकर नीमके सोंटासे श्यामा तुलसीका स्वरस डाल डालकर ३ पहर-

तक मर्दन करे बाद उस मर्दनकेउसमें १तोला सुहागा डालकर फिर भी तुलसीका रस डाल डालकर १ पहरतक मर्दन करे फिर जावित्री,जायफल,खुरासानी, अजवाइन, अकरकरा इनको ढाई ढाई तोले लेकर उसीमें मिलाकर तुलसीका रस डालडालकर खूब रगडे फिर वंशलोचन तोले २४, खैरसार तोले २४ उसीमें मिलाकर फिर तुलसीका रस डालकर सबको एकहीमें एक घडीतक घोटकर चना समान गोली बनाकर छायामें सुखा लेवे फिर दो दो गोली शामको खायाकरे और नमक, मिर्चा, खटाई, गुड इन४ चीजोंसे परहेज रक्खे तो उपदंश, गलितकुष्ठ, गर्दभिका, घाव, फिरंग विसर्प, विस्फोटक इतने रोग अवश्यही जडसे नाश होवें, इसका नाम सिद्धरसशेखर है ॥ इति उपदंश चिकित्सा ॥

अथ शूकरोगके लक्षण व चिकित्सा।

लिंगके बढानेके निमित्त उसमें अनेक औषधियों-का प्रयोग करनेसे उसमें १८ प्रकारके शूकरोगउत्पन्न होते हैं उनके नामके अर्थोंसे प्रायः लक्षण विदित होजाते हैं। १ सर्षपिका, २ अष्ठीलिका, ३ ग्रंथित, ४ कुंभिका, ५ अलजी, ६मृदित, ७संमूढपिडिका, ८ अव-मंथ, ९पुष्करिका, १० स्पर्शहानि, ११ उत्तमा, १२शत-

पोनक, १३ त्वक्पाक, १४ शोणितार्बुद, १५मांसार्बुद १६ मांसपाक, १७ विद्रधि, १८ तिलकालक ॥ अब इनके भाषामें क्रमसे अर्थ कहते हैं,ये सर्वरोग शिश्नके ऊपर होते हैं ॥

१ सफेद सरसोंके समान फुन्सी होना, २बडीबडी लंबी कठोर फुन्सी होना,३बहुतसीगांठ होना,४जामुनकी गुठिलीसी फुंसी होना, ५ पोस्ताके दानासमान फुन्सी होना, ६ लिंगका सूजना,७एक छोटीसीफुन्सी होना,८ छोटी व बडी कई तरहकी फुन्सी होना, ९ लिंगके शिरपर बहुतसी फुन्सी होना, १० दर्द होना लोहू निकलना, ११ मूँगके बराबर सुर्ख फुन्सी होना, १२ लिंगमें अनेक छेद होजाना, १३ लिंग पकजाना, १४ काली व लाल फुन्सियाँ होना,१५एक बड़ीफुंसी होना, १६ लिंगका मांस गलगलकर गिरना १७अनेक प्रकारकी कठोर फुन्सी होना १८ अनेकतरहकी काली फुन्सी होना व पकना फूटना व मवाद बहाकरना व मांस गलना ॥

अथ चिकित्सा ।

इन रोगोंमें लोहू निकलाना, जुलाब लेना, हल्का भोजन करना लाभदायक है और त्रिफलाके काढामें गुग्गुल मिलाकर पीवे तो सर्व शूक रोग दूरहोवें।अथवा

गाय या गधीके कच्चे दूध या शहदमें लिंगको १ या २ पहर तक डुबाये रक्खे। अथवा रसौंतका लेप करे तो दर्द व सूजन और खाजसंयुक्त बहता व गलता हुआ भी लिंग अच्छा होवे । अथवा दारुहल्दी, निर्गुण्डी, मौरेठी, धुयेंका करेहुआं, हल्दी, देवदारु ये समभाग लेकर पानीसे बांटकर चौगुने सरसोंके तेलमें पचाकर तेल सिद्ध करे फिर नित्य इस तेलकी मालिश किया करे और थोडा थोडा पीवे भी तो लिंगके सर्वरोग नाश होवें, इसका नाम दार्वी-तैल है ॥ इति शूकरोग चिकित्सा ॥

अथ कुष्ठरोगके लक्षण व चिकित्सा ।

मल मूत्रादिके वेगको रोकनेसे, विरुद्ध भोजन (जैसे दही-मछली, तेल-गुड, नमक, खटाई, उडद-तिल) के खानेसे, बहुत मैथुन करनेसे, दिनकेसोनेसे महापातकके करनेसे, किसी सिद्धके शापसे, वातपित्त कफ ये तीनों दोष शरीरकी सातों धातुओंको बिगाड कर १८प्रकारके कुष्ठरोग पैदा करदेते हैं उनके नाम-१ कपाल, २ उदुम्बर, ३ मंडल, ४ऋक्षजिह्व, ५ पुण्डरीक, ६ सिध्म (सेहुँआं) ७काकण, ८ एककुष्ठ, ९ गजचर्म, १० चर्मदल, ११ किट्टिभ, १२ वैपादिक, १३ आल-सक, १४ कच्छदाद, १५पामा (खाज), १६ विस्फोटक

१७ शतारू, १८ विचर्चिका इनमेंसे पहिले ७ महा-कुष्ठ हैं । और १ एककुष्ठ, २ चर्मदल, ३ गजचर्म, ४ विचर्चिका, ५ खाज, ६दाद, ७विस्फोटक, ८किट्टिभ, ९ आलसक, १० शतारू, ११ विपादिका ये क्षुद्रकुष्ठ हैं। बाघके समान भयानक मुख होजावे, भौंह, गाल, नाक, होंठ और हाथ पांवकी अंगुली बहुत मोटी और शून्य होजावें। उनमें पीडा बहुत होवे ये कुष्ठरोगके लक्षणहैं॥

अथ कुष्ठ चिकित्सा ।

एक महीनेमें दो दफ़े वमन विरेचन करतारहे, लोहू निकलाना घी पीना लाभदायकहै। यहरोग संक्रामकहै, संसर्गसे भी होजाता है, इसवास्ते कोढीके साथबैठना भोजन करना, एक खाटपर बैठना, छूना, उसका कपडा या माला या जूता पहिनना याउसके मुँहकी हवालगना, ये सब पूर्णरीतिसे बचावे क्योंकि कोढ १, ज्वर २, यक्ष्मा ३, नेत्रदुखना ४, चेचक ५, जुकाम ६, हैजा ७ ये सात रोग संक्रामक अर्थात् उडकर दूसरेको तुरन्त लग जाते हैं. इस वास्ते इनसे बहुतही अलग रहे परन्तु इन सबमें कोढ ही सबसे खराब है क्योंकि कोढ-वाला मरकर फिर दूसरा जन्म लेता है, तब भी उसको कोढरोग होता है । बावचीके चूर्णमें अदरख-का रस मिलाकर शरीरमें उबटन लगावे तो कुष्ठ दूर

होवे। अथवा नीमका पंचांग १० तोला लेकर पीस छान चूर्ण करके घमिराके रसकी ७ भावना देकर फिर त्रिफला, सोंठि, मिर्च, पीपरि, ब्राह्मी, गोखरू, भिलावाँ, चीता, बायबिडंग, बाराहीकंद, लोहचूर्ण, हल्दी, दारु-हल्दी, बावची, अमिलतास, कूट, इन्द्रजौ, पाढ, शक्कर ये एक एक तोला लेकर खैरसार, आसना, नीम इनके काढामें भावना देकर छायामें सुखाकर सबको एकमें पीसकर रख देवे फिर प्रथम कोढीको वमन विरेचन देकर उक्त चूर्ण १ तोला शहद या घी या खैर-सारके काढा या गर्मपानीके साथ खिलावे। प्रथम ६ मासोंसे प्रारंभ करके ४ तोले तक धीरे धीरे खुराक बढावे और इसपर हल्का भोजन करे इससे १८ प्रकारके कोढ़ अवश्यही नाश होवें। यह पंचनिम्बावलेह है। इसको श्रीब्रह्माजीने मार्कंडेयादि मुनियोंसे कहा है। अथवा चीतेकी जड, हर्र, बहेडा, आमला, सोंठि, मिर्च, पीपरि, जीरा, कलौंजी, बच, सेंधानमक, अतीस, कूट, चाब, इलायची, जवाखार, वायबिडंग, अजमोद, नागर-मोथा, देवदारु ये सब समभाग लेवे और सबके बरा-बर गूगुल लेकर सबको एकमें मिलाकर घोट छानकर घीसे सुपारी प्रमाण गोलियां बनालेवे फिर १ गोली या २ गोली प्रतिदिन गर्मदूध या गर्मपानीसे खावे तो अठारहों प्रकारके कुष्ठ दूर होवें। इसका नाम एक-

विंशति गूगुल है। पुराने चावल, गेहूँ, चना, मूँग, मेथी, सोवा, करेला, जमीकन्द, जंगलीजीवोंके मांस, खैर इतनी चीजें पथ्य हैं, और दूब, हर्र, सेंधानमक, पमारके बीज, तुलसी ये सब बराबर लेकर कांजी या खट्टे मट्ठामें पीसकर लेपकरै तो महा असाध्य कच्छदाद, खाज, आदि सबको दूर करे। और पमारके बीज, कूट, सेंधानमक कांजी, सरसों, बायबिडंग ये सब समभाग लेकर पीसकर लेपकरे तो कृमि सेहुँआँ, दाद, खाज, कोढ़का नाश होवे अमिलतास और मकोयके पत्तों या कनेरके पत्तोंको खट्टे मट्ठामें पीसकर पहिले उस जगह तेल लगाकर फिर उक्त लेपकी मालिश करे तो दाद, खाज, सेहुँआं, कोढ दूर होवें । बायबिडंग, सेंधानमक, हर्र, बावची, सरसों, करञ्ज, हल्दी इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे सर्व कुष्ठ नाश होवें। काँस या कसौंदीकी जडको कांजी या खट्टे मट्ठामें पीसकर लेपकरै तो दाद और किट्टिभ कोढ का नाश होवे। पमारके बीजोंको थूहरके दूध या गोमूत्रमें पीसकर २ घड़ी धूपमें रखकर लेप करे तो किट्टिभ कोढ नाश होवे। चिरचिराके रस या मट्ठामें मूलीके बीजोंको पीसकर या केलाके खारमें हल्दीको पीसकर या जवाखार और गन्धकको नींबूके अर्क या पानी या मट्ठा या सरसोंके तेलमें मिलाकर लेपकरे तो सेहुँआंका नाश होवे. कूट, मूलीके बीज, मालकांगनी, सरसों, हल्दी,

केशर ये सब समभाग लेकर मट्ठामें पीसकर लेप करे तो बहुत पुराने सेहुँआंका नाश होवे।सिन्दूर और मिर्च ये समभाग लेकर भैंसके मक्खनमें मिलाकर लेप करै तो खाज दूर होवे।कनेरके पत्तोंके रसको सरसोंके तेलमें पचाकर तेल सिद्ध करके लगावे तो खाज आराम हो अरूसेके पत्ते और हलदी ये दोनों समभाग लेकर गोमूत्रमें पीसकर लेप करे तो३दिनमें खाजका नाश होवे। मकोय, पमारके बीज, कूट, पीपरि इनको समभाग लेकर बकराके मूत्रमें पीसकर लेप करे तो सफेद दाग अच्छा होवे । बावची१ तोला, हरताल४तोला इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करे तो सफेद कोढका नाश होवे या आमला और कत्था ये दोनों समभाग लेकर दो तोलेका काढा बनाकर उसमें शहद या बावचीका चूर्ण १ तोला डालकर पीवे तो सफेद कोढका नाश होवे । या सफेद फूलवाली अरणीकी जड रविवारको लाकर दूधमें घिसकर१तोला प्रतिदिन पीवे तो सफेद कोढका नाश होवे।या मनसिलऔर चिरचिरेकी भस्म समभाग लेकर पानीमें पीसकर लेप करे तो सफेद कोढ अच्छा होवे।बावचीका१तोलाचूर्ण गर्मपानीके साथ पीकर १ पहर तक धूपमें बैठे तो सर्व कुष्ठ १५ दिनमें दूर होवें परन्तु केवल दूधका ही आहार करेऔर कोई वस्तु न खावे।नीम,परवल,कटाई,गिलोय,अरूसा येपांच२तोले

लेकर दो सेर पानीमें काढ़ा करे जब आधासेर बाकी रहे तब कडाहीमें छानकर उसमें आधासेर घी और आधासेर त्रिफला मिलाकर पकावे और घीको सिद्ध कर प्रतिदिन १ या २ तोले पीवे तो८०प्रकारके वात-रोग,४०पित्तके रोग, २०कफके रोग, १८ कोढ, कफ, खांसी,घाव,कृमि,बवासीर इतने रोग दूर होवें। इसका नाम पंचतिक्त घृत है।चीतेकी जड,निर्गुण्डी (सम्हालू), कनेरकी जड, नारी, मीठा तेलिया विष ये चार चार तोले कांजी या खट्टे मट्ठामें पीसकर उसमें करंजका तैल ३२ तोले, कांजी ४ तोले मिलाकर धूपमें पकाकर यह तेल लगावे तो कोढ़ और सर्व प्रकारके घाव अच्छे होवें। इसका नाम पृथ्वीसार तैल है ॥

मंजीठ, इन्द्रजौ, गिलोय, नागरमोथा,वच,सोंठि हलदी, दारुहलदी, कटाईकी जड, कूट, नीमकी छाली, परवल, कुटकी, भारंगी, बायबिडंग, मूर्वा, देवदारु, घमिरा. पीपरि,पाढ़,बनप्सा, शतावरि. खैर, त्रिफला, चिरायता, बकायन, आसना, अमिलतास, निसोत, बावची.बरना,जमालगोटाकी जड,सहोरेकीजड,अड्‌सा,पित्तपापडा,अनंतमूल,अतीस,धमासा,इंद्रायणकी जड,नेत्रबाला ये समभाग लेकर २तोलेका विधिपूर्वक काढा बनाकर पीवे तो सर्व प्रकारके रुधिर विकार, १८ कोढ, विस्फोटक, विसर्प, वातरक्त, शून्यबहरी,

नेत्ररोग अतिशीघ्र आराम होवें । इसका नाम बृहन्मांजिष्ठादि काढा है ॥

मिर्च, निसोत, जमालगोटाकी जड़, आकका दूध, गोबरका रस, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, जटामांसी, कूट, चन्दन, इन्द्रायणकी जड, कनेरकी जड, हरताल, मनशिल, चीता, कारियारी, नागरमोथा, वायबिडंग, पमारके बीज, सिरसों, इन्द्रजौ, नीमकी छाली, सेहुँड, थूहर, गिलोय, अमिलतास, खैरसार, बावची, बूच, मालकांगनी ये सब चार चार तोले लेवे और मीठा तेलिया विष ८ तोले लेकर सबको पानीमें पीसकर २५६ तोले सरसोंके तेलमें मिलाकर उसीमें तेलसे चौगुना गोमूत्र डाले फिर मन्दाग्निसे तेलको सिद्ध करलेवे फिर इस तेलकी मालिश करे तो १८ कुष्ठ, दाद, खाज, विस्फोटक, ८० प्रकारके वातरोग अवश्य ही नाश होवें । शरीर वायुके समान वेगवाला होवे । इसका नाम बृहन्मारिचादितैलहै ॥ इति कुष्ठ चिकित्सा ॥

अथ शीतपित्तके लक्षण व चिकित्सा ।

ठंढी हवाके लगनेसे मच्छडोंके काटनेके समान शरीरमें सुर्खरंगके चकत्ते पडजाते हैं जिनमें खुजली चलती है उसको शीतपित्त और भाषामें पित्ती उछलना कहते हैं ॥

अथ चिकित्सा ।

जुल्लाब लेना, वमन करना, गर्मगर्म सरसोंके तेलकी मालिश, गर्म जलसे स्नान करना लाभदायक है। त्रिफलाके चूर्णके साथ खावे अथवा घीमें सेंधानमक मिलाकर शरीरमें मालिश करे तो पित्ती आराम होवे अथवा सोंठि, मिर्च, पीपरि ये समभाग लेकर उसके बराबर मिसिरी मिलाकर खावे या आमलेका चूर्ण १ तोला १ तोला गुडमें मिलाकर खावे या अदरखके रसमें पुराना गुड मिलाकर खावे तो पित्ती व मन्दाग्नि दूर होवे। या गुडके साथ अजमोद खावे तो पित्ती आराम होवे। अथवा अदरख ५० तोले, गायका घी २५ तोले, गायका दूध १०० तोले, शक्कर ५० तोले, पीपरि, पिपरामूल, मिर्च, सोंठि, चीता, बायबिडंग, नागरमोथा, नागकेशर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, कचूर ये सब चार चार तोलेभर लेकर पानीमें पीसकर सबको एकमें मिलाकर मन्दाग्निसे विधिपूर्वक पकाकर तैयार करे फिर १ तोला या २ या ४ तोले प्रतिदिन खावे तो रक्तपित्त, खांसी, श्वास, वातरक्त, गुल्म, उदावर्त्त, सूजन, दाद, खाज, पित्ती, कृमि, मन्दाग्नि इतने रोग अवश्य ही नाश होवें। क्षुधा व बल बढ़े, शरीर मोटा होवे। इसका नाम आर्द्रकखण्ड है॥ इति शीतपित्तचिकित्सा॥

अथ विसर्परोगके लक्षण व चिकित्सा।

बहुत गर्म व हरे शाक खाने व बहुत शराब पीनेसे व बहुत खटाई खानेसे वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष शरीरकी सातों धातुओंको बिगाडकर ज्वरसंयुक्त अनेक प्रकारकी फुंसियां (जिनमें पीडा व दाह व खुजली व चेप निकले और अतिशीघ्र सारे शरीरमें फैल जावें) पैदा करदेते हैं उसको विसर्प कहते हैं, वह ७ प्रकारका है १ वातका, २ पित्तका, ३ कफका, ४ सन्निपातका, ५ वातपित्तका, ६ वातकफका, ७ कफ-पित्तका। इनमेंसे पहिले ३ साध्य हैं यहीआराम होते हैं बाकी ४ महान असाध्य हैं॥

अथ चिकित्सा।

जुल्लाब लेना, वमन करना, पसीना निकालना, लोहू निकालना ये उपाय परम लाभदायक हैं॥ गायके मक्खनको १०८ बार धोकर उसमें शुद्ध आमलासारगन्धक १ तोला, फिटकरी १ तोला, रस-कपूर ६ मासा ये सब पीसकर उसीमें मिलाकर लगावे तो विसर्प आराम होवे। अथवा सिरसकी छालीको पानीसे पत्थरपर घिसकर लेप करे तो विसर्प अच्छा होवे। अथवा कसेरू, सिंघाडा, कमलगट्टा, सिवार, लालचन्दन ये समभाग लेकर घीमें मिलाकर लेप

करे । या तगर, सिरसकी जड, मौरेठी, लालचन्दन, इलायची, छड, हलदी, दारुहलदी, कूट, नेत्रवाला ये समभाग लेकर महीन पीसकर घीमें मिलाकर लेप करे तो विसर्प,कुष्ठ, ज्वर, सूजन इतने रोगोंका नाश होवे । इसका नाम दशांगलेप है अथवा कमलगट्टा, खस, चन्दन इनका लेप करे तो विसर्प दूर होवे ॥

इति विसर्पचिकित्सा ॥

अथ स्नायुरोगके लक्षण व चिकित्सा।

खराब पानी पीने और खराब अन्नके खानेसे वायु बिगडकर पैरोंमें फफोलेको फोडकर उसके भीतर डोरा (धागा) पैदा करदेताहै । अगर औषधिसे वह धागा बाहर निकल आवे तो रोग आराम होजायगा। अगर टूट जावे तो उस जगहको लँगडी कर देवे इस रोगको भाषामें नहरुआ और बाला कहते हैं, यह रोग जिला दमोह व मंडलामें अधिक देखा गया है॥

अथ चिकित्सा ।

शीतल पानीमें हींगको घोलकर पीवे तो नहरुआ न होवे।या कलौंजीकी जड ठण्ढे पानीमें पीसकर पीवे या अरंडकी जडका रस गायके घीमें मिलाकर पीवे या बबूलके बीजोंको महीन पीसकर लेप करै या गायके घीमें निर्गुंडीका रस मिलाकर पीवे तो स्नायुरोगका

शीघ्रही नाश होवे। सहिंजनेके पत्तोंको कांजीसे पीसकर सेंधानमक मिलाकर लेप करे तो नहरुआ दूर हो या वालछडकी जडको पानीके साथ पत्थरपर घिसकर लेप करे तो नहरुआ डोरा बाहर निकल आवे। या कबूतरकी पर दो चांवलभरको गुड़में मिलाकर खावे। अथवा ७ दाना बकायनके रोज निगल जावे अथवा एलुआ १ मासा पहिले दिन खावे, दूसरे दिन दो मासा इसी तरह ७ दिनतक रोज बढ़ाकर खावे और लेप भी करे। अथवा चौलाईकी जड पीसकर नहरूपर बांधे तो शीघ्रही अच्छा होवे ॥ इति नहरू चिकित्सा ॥

अथ विस्फोटकके लक्षण व चिकित्सा।

मिर्चा, खटाई, नमक, तेल इनको अत्यन्त अधिकताके साथ खानेसे, अत्यन्त परिश्रम करनेसे, बहुत घाममें रहनेसे, वात, पित्त, कफ कोपको प्राप्त होकर शरीरके माँस व लोहू व हाड़ोंको दूषित करके प्रथम घोर ज्वर उपजाकर भयंकर फोड़ोंको पैदा करदेते हैं, वह फोड़े कभी शरीरके एक स्थानमें होतेहैं और कभी सारे शरीरमें फैलजाते हैं, इन फोड़ोंमें जलन बहुत होती है कोई बहुत जल्द पकतेहैं कोई देरमें पकते हैं। यह रोग ८प्रकारका है-१वातका, २पित्तका, ३कफका

४ वातपित्तका, ५वातकफका,६कफपित्तका, ७ सन्नि-पातका,८ रक्तका । इनमें पहिले ३ साध्य हैं ॥

अथ चिकित्सा ।

लंघन करना,वमन व जुल्लाब लेना अत्यन्त लाभ-दायक है और पुराने चांवल, पुराने जौ,मूँग, मसूर, चना, परवल,करेला, तुरई ये पथ्य हैं।चिरायता,बच, अडूसा,त्रिफला,इन्द्रजौ,कुडाकीछाली, नीमकीछाली, परवल,ये समभाग लेकर काढा बनाकर उसमें शहद डालकर पीवे तो विस्फोटक दूर होवे । या पुत्रजीवक-की मींगीको पानीमें पीसकर लेप करे तो विस्फोटक, गांठ, कखवारी इत्यादिका नाश होवे । अथवा इन्द्र-जौको चांवलोंके पानीमें पीसकर लेप करे तो विस्फो-टक आराम होवे ॥ इति विस्फोटक चिकित्सा ॥

अथ फिरंगगर्मीके लक्षण व चिकित्सा ।

रजोवती वा गर्मीवाली स्त्रीसे प्रसंग करनेसे या अतिगर्म प्रकृतिवाली स्त्रीके संगमसे यह रोग पैदा होजाता है, प्रथम लिंगपर फुन्सी आती हैं वहांकी खाल फट जाती है फिर धीरे धीरे जीभमें मुखमें ओठोंमें सारे शरीरमें छोटी छोटी फुन्सियां हो जाती हैं जिनमें बहुत पीडा व जलन होती है ।जब यह रोग बढ जाता है-तब तालू फूट जाता है । और कौआ व

लिंग व अण्डकोश गलकर बिलकुल जडसे गिरजाते हैं इस वास्ते इस रोगके उत्पन्न होते ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥

अथ चिकित्सा।

इस रोगमें डाक्टर व हकीम व वैद्य रसकपूरको अत्यन्त लाभदायक समझते हैं और प्रायः उसीका प्रयोग करते हैं, परन्तु उसके खानेसे मुखमें सूजन आजाती है इसवास्ते अब रसकपूर खानेकी उत्तम तर्कीब लिखते हैं, जिससे मुख नहीं सूजता। गेहूँके आटाको पानीसे मांडकर उसके भीतर चार चार रत्ती रसकपूर भरकर उस आटाकी गोली बना लेवे फिर उसके ऊपर लौंगका चूर्ण लपेटकर मुखमें रखकर शीतल पानीसे इस प्रकार निगले जिसमें दांत न लगने पावें, ऊपरसे बँगला पानके १० बीडा खावे और नमक, खटाई, मिर्चा, गुड इन चार चीजोंसे बिलकुल परहेज करे तो ७ दिनमें फिरंगगर्मीका नाश होवे। अथवा पारा ४ मासा, अकरकरा ८ मासा, शहद १ तोला इन सबको खूब घोट कर ७ गोली बनाकर १ गोली रोज शीतलपानीसे खावे तो फिरंगगर्मीका नाश होवे। अथवा पीले फूलकी बरियारीका स्वरस ४ मासामें ४ मासा पारा मिलाकर दोनोंको हाथोंसे

खूब मसलै यहांतक कि, पारा दिखलाई न देवे ऐसे ७ दिनतक करे तो फिरंगगर्मीका नाश होवे। अथवा चोबचीनी महीन पीस छान कर ६ मासेको १ तोला शहदसे प्रतिदिन खावे तो विना दर्द तकलीफके ७ दिनमें फिरंगगर्मीका नाश होवे। अथवा सुर्ख फिट-करी १० तोला लेकर एक सेर खटाईके स्वरसमें ४ पहर खरल करके चनाके समान गोली बनाकर १ गोली तेलके आमके,अचारमें लपेटकर खावे तो फिरंगगर्मीका नाश होवे यह एक फकीरकी बताई हुई उत्तम औषधि है। फिरंगगर्मीपर अनेक प्रकारकी चम-त्कारिक औषधियां देखना चाहो तो हमारी बनाई "मुजर्रिबात गौरीशंकर" में देखो ॥ इति फिरंग चिकित्सा ॥

अथ मसूरिका रोगके लक्षण व चिकित्सा ।

खटाई, नमक,मिर्चा, जवाखार, बासी पूडी वगै-रहके बहुत खानेसे, खराब हवा व पानीके पीनेसे तीनों दोष बिगडकर शरीरमें मसूरके समान लाल व काली फुंसियोंको पैदा करते हैं, उनमें पीडा होवे, जलन होवे, ज्वर होवे, देरमें पकैं। यह मसूरिकारोग १४ प्रकारका है—वातका १ पित्तका २ कफका ३ रक्तका ४ सन्निपातका५ रसधातुगत ६ रक्तधातुगत ७ मांसधातुगत ८ मेदधातुगत ९ अस्थिधातुगत १०

मज्जाधातुगत ११ वीर्यधातुगत १२ चर्मज १३रोमान्तिक १४। इनमें पहिली ३ साध्य हैं॥

अथ चिकित्सा।

इस रोगमें चांवल, मूँग, मसूर, सैंधानमक, मिसिरी आमला, सिंघाडा, कसेरू, लौकी, पेठा ये पथ्य हैं॥ परवलकी जडका काढा पीनेसे पित्तकी मसूरिका दूर होवे। लोहू निकलानेसे रक्तकी मसूरिका दूर होवे। कलौंजीके पत्तोंके स्वरसमें हल्दीका चूर्ण मिलाकर पीवे तो रोमान्तिकमसूरिका दूर होवे। फिटकरीको महीन पीसकर घावपर बुरक देवे तो घाव अतिशीघ्र सूख जावे। जो जो दवाइयाँ फिरंगरोग व कोढ व विसर्पमें कह आये हैं उन सबसे मसूरिकारोग आराम होता है इसी वास्ते यहाँ थोडी ही चिकित्सा कही गई है॥ इति मसूरिका चिकित्सा॥

अथ शीतला रोगके लक्षण व चिकित्सा।

पहिले शरीरमें दो तीन दिन उग्र ज्वर रहै फिर मसूरके दानोंके समान या उससे छोटी बडी फुंसियाँ सारे शरीरमें निकलें और बहुत जल्दी बढकर दो तीन दिनमें पककर फूट जावें और ७ दिनमें आपसे आप सूखकर झडजावें इसको शीतलारोग कहते हैं। यह भीम सूरिकाकी एक किस्म है। भाषामें कोई इसको

चेचक व देवी निकलना व माताकी बीमारी कहते हैं। यह रोग ७ प्रकारका है। इस रोगवालेको पवित्र स्थानमें पवित्रताके साथ रक्खे और नीमकी डालीसे मक्खियाँ डुलाते रहे। और अमिलीके बीज और हल्दीको शीतलपानीमें पीसकर पीवे तो उसके शीत-लाका कोप कभी न होवे। या केलाके रसमें सफेद चन्दनको पीवे या अडूसाके रसमें महुआकी छालीको पीवे या शहदसे महुआकी छाली पीवे। अथवा जूहीके पत्तोंके स्वरसको पीवे तो शीतला नहीं निकले या गधीके दूधको पीवे परन्तु शीतला निकलनेके पहिले ही उक्त औषधियाँ खानी चाहिये। जो फुंसी पककर फूट जावें वहाँ अरने कंडेकी राख लगा देवे तो घाव तुरन्तही सूख जावे अथवा चन्दन,अडूसा,नागर-मोथा, गिलोय,दाख,ये समभाग लेकर रातको पानी में भिगोकर सबेरे मलकर छानकर पीवे तो शीतलाका ज्वर शान्त होवे, इस रोगमें जप, होम, दान, शिव पार्वतीका पूजन, बलिदान, ब्राह्मणभोजन, गोपूजन, स्वस्तिपुण्याहवाचन करानेसे रोगकी शान्ति होती है॥ इति शीतालरोग चिकित्सा॥

अथ पलित रोगके लक्षण व चिकित्सा।

बहुत क्रोध व शोक व परिश्रम करनेसे शरीरका

पाचक पित्त शिरमें प्राप्त होकर शिरके काले बालोंको सफेद करदेता हैं इसको पलित रोग कहते हैं।

अथ चिकित्सा।

लोहका चूर्ण १ तोला, आमकी गुठली ६ तोला, आमला नग२, हर्र नग१, बहेडानग१लेकर इनसबको लोहेके पात्रमें पीसकर रात्रिभर रक्खा रहने देवे फिर सफेद बालोंपर लेप करे तो बाल काले होवें। खम्हारि की जड, कटसेलाके फूल, केतकीकी जड, लोहेका चूर्ण, त्रिफला, घमिरा, ये समभाग लेकर पानी पीस कर चौगुने तिलोंके तेलोंमें पचाकर तेल सिद्ध करके लोहेके पात्रमें डालकर १ महीने तक जमीनमें गाड देवे फिर निकालकर मालिश करे तो भौंराके समान बाल काले होवें॥ इति पलित चिकित्सा।

अथ इंद्रलुप्तके लक्षण व चिकित्सा।

खून खराब होकर शिरके बाल गिरा देता है फिर वहां पर बाल नहीं जमते इसको खालित्य व गंज कहतेहैं।

अथ चिकित्सा।

कडुये परवलके पत्तोंके रसमें कुटकीको पीसकर लेप करनेसे बाल फिर जम आते हैं, अथवा गोखरू, तिलके फूल, इनको समभाग लेकर शहद और घीमें मिलाकर लेप करे तो गिरे हुए बाल फिर जामैं। या

हाथीदांतकी राख, बकरीका दूध, रसौंत ये समभाग लेकर एकमें पीसकर लेप करे तो बाल अवश्यही जमैं यह सर्वोत्तम औषधि है कभी निष्फल न जावे। अगर हथेली पर इसका लेप करे तो वहां भी बाल जमैंफिर और जगहकी क्या गिनती ?॥इति गञ्जचिकित्सा॥

अथ दारुणरोगके लक्षण व चिकित्सा ।

वात कफके कोपसे बालोंकी जड कठोर व सूखी होजावे वहां भूसीसी निकला करे उसको दारुणरोग कहते हैं भाषामें फिहांसो व खौसी निकलना कहतेहैं॥

अथ चिकित्सा ।

महुआकी छाली, कूट, उडद, सेंधानमक ये सम-भाग लेकर शहदमें पीसकर लेप करे, अथवा पोस्ताको दूधमें पीसकर लेप करे तो फिहांसो दूर होवे ॥ इति दारुणरोग चिकित्सा ॥

अथ अरुंषिकाके लक्षण व चिकित्सा ।

कफ, लोहू, कृमि, इनके बिगडजानेसे अनेक मुख वाली बहुतसी फुंसियां होजावें इसको भाषामें बराही कहते हैं ॥

अथ चिकित्सा ।

नीलाकमल, केशर, आमला, मौरेठी, महुआकी छाली ये समभाग लेकर इनका लेप करे तो अरुंषिका दूर होवे

अथ इरवेल्लिकाके लक्षण व चिकित्सा।

मस्तकमें घोर पीडावाली गोल फुंसी होवे उसको इरवेलिलका कहते हैं ॥

अथ चिकित्सा।

जोंक लगवाकर लोहूँ निकलवाकर हजार बार धोए मक्खनका लेप करे तो इरवेलिलका दूर होवें ॥

अथ पनसिकाके लक्षण व चिकित्सा।

वातके कोपसे कानके भीतर उग्र पीडावाली फुड़िया होवे उसको पनसिका कहते हैं ॥

अथ चिकित्सा।

चोआको रुईकी फुरेरीमें लगाकर कानके भीतर लगा देवे तो पनसिका तुरन्त ही आराम होवे ॥

अथ पाषाणगर्दभिकाके लक्षण व चिकित्सा।

वात कफके कोपसे ठोढीके नीचे कठोर सूजन पीडा संयुक्त हो उसको पाषाणगर्दभिका कहते हैं ॥

अथ चिकित्सा।

जोक लगाकर लोहू निकलवा देवे फिर सिरसकी छाली पानीसे घिसकर लेप करे तो यह रोग दूर होवे॥

अथ मुखदूषिकाके लक्षण व चिकित्सा।

वात कफ रक्तके कोपसे युवा अवस्थामें

सेमलके कांटोंके समान बहुतसी फुन्सियाँ उपजती हैं उसको भाषामें मुहांसा निकलना कहते हैं ॥

अथ चिकित्सा ।

लोध, धनियाँ, वच ये समभाग लेकर पानीमें पीसकर मुखपर लेप करे अथवा गोलोचन, मिर्च पानीमें बांटकर मुखपर लेप करे । अथवा सरसों, बच, लोध, सेंधानमक इनको पानीमें बांटकर लेप करे या सेमलके कांटोंको दूधमें पीसकर लेप करे तो ३ दिनमें कमलके समान मुख होजाता है ।

अथ व्यंगके लक्षण व चिकित्सा।

बहुत क्रोध व परिश्रमके करनेसे वात पित्त बिगडकर सुर्खरंगके दाग चेहरेपर कर देते हैं, उसको भाषामें झाईं कहते हैं. अगर काले रंगके दाग पडजावें तो उसको नीलिका व नीली झांईं कहते हैं ॥

अथ चिकित्सा ।

बडके अंकुर और मसूर इनको गायके दूधमें पीसकर लेप करे तो झाँईं दूर होवे अथवा शहदमें मंजीठ पीसकर लेप करे। अथवा खरगोशके लोहूका लेप करे । अथवा बरनाकी छालीको बकरीके मूत्रमें घिसकर लेप करै । अथवा जायफल या बादामकी गिरीको पानीमें घिसकर लेप करे। अथवा मसूरकी

दालको दूधमें पीसकर कपूर और घी मिलाकर लेप करे तो कमलके समान मुख हो जाता है ॥ इति झांई चिकित्सा ॥

अथ वल्मीक लक्षण व चिकित्सा।

बगल, हाथ, पैर, गला इन स्थानोंमें बांबीके आकारकी कठोर व लम्बी अनेक छेदोंवाली गांठें उपजैं और फूटकर बहाकरें उसको वल्मीकरोग कहते हैं ॥

अथ चिकित्सा।

जोंक लगादेवे या दागदेवे या नस्तरसे चीर देवे फिर पीछे कहे हुए व्रणरोगकी दवाइयोंसे आराम करे॥

अथ कांखोंलाई और गन्धनामाके लक्षण व चिकित्सा।

हाथकी जडमें या बगलमें या कंधामें या पीठमें पित्तके कोपसे उग्र पीडावाला बडा फोडा निकले उसको कखवारी कहते हैं। और कखवारीके आसपास ऐसी ही दूसरी फुंसी निकल आवे उसको गंधैल कहते हैं.

अथ चिकित्सा।

जदबारखताईको गुलाबजलमें घिसकर लेप करे। अथवा चकचूनीकी पत्ती और अरंडकी पत्ती य दोनों

बराबर लेकर पीसकर उसमें थोडा नमक मिलाकर गर्म करके बांधे तो कखवारी दूर होवे ॥

अथ अग्निरोहिणीके लक्षण व चिकित्सा ।

बगलमें मांसको फाडनेवाला भयंकर फोडा निकलै उसमें उग्र दाह व पीडा और ज्वर भी उपजै और दाह ऐसा उग्र होवे मानो अंगार भरदिया, अगर इसका इलाज तुरन्त न हो, तो ७ दिन या १२ दिन या १६ दिनमें रोगी मरजाता है यह सन्निपातसे पैदा होती है और महा असाध्य है । इसीको अंगरेजीमें प्लेग और फारसीमें ताऊन कहते हैं । इसकी चिकित्सा अनेक मुनियोंनें नहीं कही परन्तु पतंजलि (चरक) ऋषिने इसकी चिकित्सा लिखी है सो लिखते हैं ॥

अथ चिकित्सा ।

लंघन कराना, लोहू कढाना, जुलाब देना, दाग देना लाभदायक है । यदि इस पर भी बढ जावे तो त्याग देना ही उचित है । जदबारखताईको गुलाबजलमें घिसकर लेप करे । अथवा नींबूके अर्कमें लालचन्दन, गूगुल, चीतेकी जड़ ये तीनों समभाग घिसकर गर्म कर लेप करे । अथवा नागफनीका हरा बक्कल छीलकर फेंक देवे फिर भीतरके गूदेको बांटकर गर्म करके लेप करे तो गांठ बैठ जावे॥इति अग्निरोहिणी चिकित्सा ॥

अथ बिदारिकाके लक्षण व चिकित्सा।

बिदारीकंदके समान गोल और सुर्ख पीडासंयुक्त फुन्सी बगल अंडकोशोंकी संधिमें उपजे उसको बिदारिका कहते हैं। इसमें जोंक लगाकर लोहू निकलवा देवे फिर व्रणमें कहा हुआ इलाज करे॥ इति बिदारिका चिकित्सा॥

अथ कुनख व चिप्परोगके लक्षण व चिकित्सा।

नखके पकजानेको चिप्प और नखके उखड़ जानेको कुनख कहते हैं, लोहू निकलवाकर व नस्तरसे चीरकर लोहेके बर्तनमें हलदीके रसको डालकर उसमें हर्र घिसकर लेप करे। अथवा सुहागा या फिटकरीको महीन पीसकर बुरकाय देवे तो रोग शान्त होवे॥ इति कुनख चिकित्सा॥

अथ परिवर्तिकाके लक्षण व चिकित्सा।

लिंगके मुख (सुपारी) के नीचे एक लम्बीगांठ उत्पन्न होवे और ऊपरका चमड़ा लौट जावे उसमें जलन व पीडा होवे उसको परिवर्तिका कहते हैं। इस रोगमें लिंगपर घी मलकर धीरे धीरे ऊपरकी खालको सीधा करे फिर महांनीमकी पत्तीको औटाकर बफारा लेवे तो रोग दूर होवे॥

अथ अवपाटिकाके लक्षण व चिकित्सा।

अनेक कारणोंसे लिंगके ऊपरकी चमड़ी उतरजावे उसको अवपाटिका कहते हैं। खैरको पीस कर चुपड़ देवे तो यह रोग अच्छा होवे ॥

अथ निरुद्धप्रकाशक लक्षण व चिकित्सा।

लिंगकी सुपारीके ऊपरकी चमड़ी बातके कोपसे लिंगको ढककर मूत्र बन्द कर देवे उसको भाषामें मुदरीक रोग कहते हैं। चोयाको लगावे तो यह रोग दूर होवे ॥

अथ सन्निरुद्धगुदके लक्षण व चिकित्सा।

मलके वेगको रोकलेनेसे मल निकलनेका द्वार छोटा होजाता है, तब सूखा मल बडे कष्टसे उतरता है, उसको सन्निरुद्धगुदकहते हैं, वातनाशकतेलोंके लगानेसे या हिनाके अतरको लगानेसे यह रोग दूर होवे॥

अथ वृषणकच्छूरोगके लक्षण व चिकित्सा।

अंडकोशोंमें मैल जम जानेसे खाज व फुंसियां होकर पानी सा चेंप निकले और फोडे हो जावें उसको वृषणकच्छू कहते हैं। राल, कूट, सेंधानमक, सरसों ये समभाग लेकर पानीमें पीसकर उबटन करे तो यह रोग अच्छा होवे ॥

अथ अहिपूतनारोगके लक्षण व चिकित्सा।

बालककी गुदामें मल भरा रहनेसे या पसीना निकलनेपर स्नान करानेसे सारे शरीरमें गीली खाजके फोडे होकर बहा करें घाव होजावें उसको अहिपूतना कहते हैं। त्रिफला और खैरके काढासे घावको धोवे फिर शंख, सुरमा, मौरेठीको पीसकर लेप करे या फिटकरीको बारीक पीसकर लेप करे तो आराम होवे॥

अथ गुदभ्रंश रोगके लक्षण व चिकित्सा।

बहुत दस्तोंके होनेसे गुदा बाहर निकल आवे उसको भाषामें कांच निकलना कहते हैं। इसमें तेल चुपडकर धीरेसे गुदाको दबाय दे और कमलके पत्तोंको शक्करके साथ खावे अथवा मूसाकी हड्डीको तेलमें जलाकर वह तेल लगावे तो कांच निकलना दूर होवे॥

अथ शूकरदंष्ट्ररोगके लक्षण व चिकित्सा।

शरीरमें कहींपर पक जावे और जलन व पीडा और ज्वर उपजै उसको शूकरदंष्ट्र कहते हैं। जलभाँगराकी जड और हलदीको पीसकर लेप करे। अथवा कमलकी जडके काढामें घी मिलाकर पीवे तो यह रोग दूर होवे॥

अथ अनुशयीके लक्षण व चिकित्सा।

पैरमें फोडा होजानेको अनुशयी कहते हैं। फोडामें कहा हुआ इलाज करे तो आराम होवे॥

अथ अलसकरोगके लक्षण व चिकित्सा।

कीचडमें चलनेसे पैरकी अंगुलियोंमें खाज होकर चेंप सा बहा करे उसको खरुवा कहते हैं। अंडीके तेलमें चूना मिलाकर लगावे तो यह रोग दूर होवे ॥

अथ दारीके लक्षण व चिकित्सा।

पैरके फट जानेको दारी अर्थात् बिवाई जाना कहते हैं। उसमें मोम भरदेवे और लोहेके सूजाको गर्म कर दाग देवे या मेंहदी लगावे तो यह रोग अच्छा होवे ॥

अथ कदरके लक्षण व चिकित्सा।

पैरके तलुयेमें गांठ सी हो जावे उसको गोखरू कहते हैं। तेज छूरीसे काटकर गर्मलोहेसे वहां दाग देवे तो यह रोग दूर होवे ॥

अथ जतुमणि, मासा, तिल लक्षण व चिकित्सा।

काला या लाल खालसे किंचित् ऊंचा दाग शरीरपर पड जावे उसको जतुमणि अर्थात् लहसुन कहते हैं काली और उदड या चना समान बिना पीडाके शरीरमें बहुतसी गांठें ऊपर उठ आवें उसको मसा कहते हैं। तिलके समान काले रंगके दाग शरीरमें पड जावें उसको तिलरोग कहते हैं ॥

अथ तीनोंकी चिकित्सा।

इनको तेज छुरीसे छीलकर तेजाबसे या लोहेको गर्म करके उससे वहाँ जला देवे तो रोग अच्छे होवें॥

अथ पद्मिनीकंटकरोगके लक्षण व चिकित्सा।

शरीरमें कहीं पर खरखरे चकत्ते पड जावें उनमें पीडा व खाज होवे उसको पद्मिनीकण्टक रोग कहते हैं। नीमकी छालीको घिस कर लगावे और पीवे और वहां पर नीमकी पत्ती औटाकर बफारा लेवे तो यह रोग दूर होवे॥

अथ अजगल्लिकाके लक्षण व चिकित्सा।

मूँगकी बराबर विना पीडाकी बच्चोंके शरीरमें गाँठ उत्पन्न होवें उसको अजगल्लिका कहते हैं। जोंक लगाकर लोहू निकाल देवे फिर तेजाबसे जला देवे तो यह रोग दूर होवे॥

अथ यवप्रख्या व अन्त्रालजीके लक्षण व चिकित्सा।

जौके समान लम्बी गाँठ शरीरमें उपजे उसको यवप्रख्या और गोलबेरके समान गाँठ होवे और फूटकर बहे उसको अन्त्रालजी कहते हैं। इन दोनोंमें पहिले नीमका बफारा देवे फिर तेज छुरीसे काटकर लोहा गर्म करके वहां पर दाग देवे तो ये रोग अच्छे होवें॥

अथ विवृता, इन्द्रवृद्धा, गर्दभिका और जाल-गर्दभिकाके लक्षण व चिकित्सा ।

फटे मुखकी सूजन संयुक्त फुन्सी होवे उसको विवृता और कमलगट्टेके समान फुन्सी होवे उसको इन्द्रवृद्धा और गोल चकत्ते पीडा संयुक्त हों उसको गर्दभिका और प्रथम चकत्ते होकर सारे शरीरमें फैल जावें और पीडा व ज्वर भी उपजे उसको जालगर्दभिका कहते हैं अब इन चारोंकी चिकित्सा कहते हैं प्रथम नीमका बफारा देकर जोंक लगाकर लोहू निकाल देवे फिर पीछे व्रणरोगमें कहा हुआ मलहम लगावे तो चारों रोग अच्छे होवें ॥

अथ कच्छपिकाके लक्षण व चिकित्सा ।

कठोर कछुआके समान शरीरमें पांच छः गाँठें निकलें उसको कच्छपिका कहते हैं । फोडेकी तरह नस्तरसे चीरकर मलहम लगावे तो आराम होवे ॥

अथ शर्करार्बुदके लक्षण व चिकित्सा ।

शरीरमें बिना पीडावाली गांठ उपजे और फूटकर बहा करे उसको शर्करार्बुद कहते हैं । छुरीसे काटकर गर्म लोहा या तेजाबसे जलादेवे तो आराम होवे ॥

अथ आलस्य, अरति, उत्क्लेश, ग्लानि, डकार, तमके लक्षण व चिकित्सा ।

उत्साह न होनेको आलस्य कहते हैं। और खेदयुक्त

चित्त रहनेको अरति और अन्नको थूंकनेका नाम उत्क्लेश और मुख मीठा रहना औंघाई लगना भोजनकी इच्छा न होनेको ग्लानि और भोजन न पचनेसे बारंबार शब्द सहित मुखसे उदान वायुके निकलनेकी डकार और पेट बोलना आंखोंके सामने अंधे होनेको तम कहते हैं।इन सर्वरोगोंमें गर्म जलसे स्नान करना । शरीरमें गर्मगर्म तेलकी मालिश करना। कसरत करना । देशाटन करना। चाय पीना। गर्मदूध पीना। उत्तम गाना सुनना । या प्रसन्ना नामकी मदिरा थोडी थोडी पीना। इत्र आदि उत्तम खुशबू सूंघना परम लाभदायक हैं॥इति क्षुद्ररोग चिकित्सा॥

अथ सिररोगके लक्षण व चिकित्सा।

शिरमें ११ प्रकारके रोग हैं–१वातका, २ पित्तका, ३ कफका, ४ त्रिदोषका, ५ लोहूका, ६क्षीणताका,७ कृमिका, ८ सूर्यावर्त, ९ अनन्तवात, १० कनपटीकी पीडा,११ अर्द्धावभेदक इन ११ प्रकारके रोगोंसे शिरमें पीडा होती है। तेलकी मालिश करना, बफारा लेना नस्य सूंघना, छींक लेना, वमनकरना, जुल्लाब लेना, इतने उपाय परम लाभदायक हैं।और जंगलीजीवोंके मांस, सांठी चांवल, मूंग, उड़द, कुलथी, घी, दूध ये पथ्य हैं। सफेद चन्दनका लेप, खसके पंखेकी हवा, गुलाबका इत्र सूंघना लाभदायक है। चन्दनका तेल

या दालचीनीका तेल या १००वार धोये हुए गायके मक्खनका लेप करना । अथवा आधा पाव खोवाकी पट्टी मस्तक पर बांधनेसे शिरके सर्व रोग आरामहोतेहैं अथवा गुलरोगन या चमेलीके तेलको लगावे या रोगन बादाम या काहूका तेल लगानेसे या लोहू निकलवानेसे या लंघन करनेसे शिरके सर्व रोग दूर होते हैं । अथवा अरंडकी जड, तगर, सौंफ, लौकी, रासना, सेंधानमक, जलभांगरा, बायबिडंग, मौरेठी, सोंठि ये सब दो दो तोले लेकर पानीमें बांटकर २० तोले तिलोंका तेल और ८० तोले बकरीका दूध और ८०तोले घमिराका रस, ये सब एक कडाहीमें डाल कर मन्दाग्निसे पकाकर तेल सिद्ध करे, फिर इस तेलकी ६ बून्द नाकमें डालाकरे तो सर्वप्रकारके शिरके रोग दूर होवें और हिलते हुए दांत मजबूत होजावें और बाल फिर जमें और शरीरमें बहुत बल बढै इसका नाम षड्बिंदुतैल है।बायबिडंग और काले तिल समभाग लेकर पीसकर लेप करे । अथवा नारियलके दूधमें शक्कर मिलाकर पीवे या निर्मलीको पानीसे घिसकर नाकमें ४ बून्द डालकर खींचे तो आधाशीशीका दर्द दूर होवे । अथवा जमालगोटेको पानीमें घिसकर सींकमें लगा कर मस्तकमें लेप करके १ मिनट बाद भीगे कपडेसे पोंछ डाले तो२० वर्षका

भी शिरदर्द केवल १ बारमें अच्छा होवे परन्तु १ मिनटसे अधिक मस्तकमें लेप न लगा रहने पावे नहीं तो वहांपर फफोला पड़ जावेगा ॥

इति शिररोग चिकित्सा ॥

अथ नेत्ररोगके लक्षण व चिकित्सा।

नेत्रमें ७८ रोग होते हैं। उनका भारी विस्तार चरकमें लिखा है। यहाँ इस छोटेसे ग्रन्थमें मुख्य मुख्य रोगोंकी आजमाई हुई चिकित्सा लिखते हैं, जो अक्सर हुआ करते हैं। नेत्रोंमें जो नसें हैं वह पैरके तलुयेमें आकर मिली हैं इस वास्ते जो अपने नेत्रोंको आरोग्य रक्खा चाहें वह पैरोंकी हमेशा रक्षा करते रहें अर्थात् पैरके तलुयेको नित्य साबुनसे धोना व तेलकी मालिश करना, मोजा पहिनना, जूता पहिनना, खड़ाऊं पहिनना, अत्यावश्यक है। और पुराने चांवल, गेहूँ, जौ, मूँग, जंगलीपक्षियोंके मांस, बैंगन, बथुआ, कालीमिर्च, चौलाई, परवल, ककोड़ा, करेला इनको घीमें पकाकर सेंधानमक डालकर खावें ये हमेशा पथ्य व हितकारक हैं। और लालमिर्चा, खटाई, तीक्ष्ण रस, बहुत गर्म वस्तु, उड़द, सोंठ, नमक, मैथुन करना, मदिरा पीना, बासी मांस, तिलकी खली, मछली खाना, चना व सरसों इत्यादिका शाक, दिनमें सोना, दूरकी वस्तुको देखना, अग्नि तापना,

बारीक अक्षरोंका पढना इतनी चीजें हमेशा नेत्रोंको हानिकारक हैं ॥ आँखोंको त्रिफलाके काढासे धोवे तो नेत्रोंके सर्वरोग दूर होवें और फिर नेत्रोंमें कोई रोग न होवे। भोजन करके पानीसे भीगे हुए दोनों हाथोंको आपसमें खूब रगड रगड़ कर आँखोंमें बारम्बार लगावे तो वह हाथोंका पानी आखोंके वास्ते अमृतके समान लाभ देवे ॥ हफ्तेमें १ बार काले तिलोंका शरीरमें उबटन लगा कर स्नान किया करे और कानोंमें तेल डाला करे और शरीरमें आमलेका उबटन लगानेसे दृष्टि बढती है ॥ आंखके भीतर घीकी दो बून्द या सरसोंके तेलकी दो बून्द या घीकुआँरके स्वरसकी दो बूँद दूरसे टपकावे तो नेत्रोंके सर्व रोग नाश होवें ॥

आमलाको बांटकर टिकिया बनाकर आंखोंके ऊपर बांधनेसे गर्मीसे उत्पन्न होनेवाले आंखोंके सर्व रोग नाश होते हैं और सहिंजनेके पत्तोंकी टिकिया उसी प्रकार बांधनेसे कफके सर्व रोग आराम होते हैं और नीमके पत्तोंकी टिकिया उसी प्रकार बांधनेसे सरदी गर्मीके नेत्रोंके सर्वरोग आराम होते हैं। अथवा त्रिफला, घमिरा, सोंठिका काढा, घी, गोमूत्र, शहद, बकरीका दूध इन हरएकमें शीशेको गर्म कर करके इक्कीस इक्कीस बार बुझाकर सलाई बनाकर आंखोंमें

फेरा करे तो आंखोंके सर्वरोग नाश होवें इसका नाम दृष्टिप्रसादिनी शलाका है। अथवा शंखनाभि, बहेडाकी मज्जा, हर्र, मनशिल, पीपरि, मिर्च, कूट, बच ये सम भाग लेकर बकरीके दूधमें महीन पीसकर जौके समान गोली बनाकर छायामें सुखालेवे फिर पानीमें घिसकर अंजन करे तो मांस बढना, तिमिर, १ वर्षका फूला, जाला, रतौंधी, दर्द, लाली, कडक इतने रोग नाश होवें इसका नाम लेखनी बटी है। अथवा रसौंत, शिला-जीत, केशर, मनशिल, शंख, कंकोल, मिर्च, मिसिरी ये सम भाग लेकर पीसकर बर्ती बनालेवे फिर छायामें सुखाकर नेत्रोंमे फेरा करे तो जाला, फूला, तिमिर, गाँठ, दर्द, लाली इतने रोग नाश होवें इसका नाम चन्द्रोदयावर्ती है । अथवा निर्मलीको शहदमें घिसकर थोडा कपूर मिलाकर अंजन करे। अथवा बडके दूधमें कपूर मिलाकर अंजन करे अथवा स्याह कांचको खूब महीन पीसकर उसमें समुद्रफेन और मिसिरी मिला-कर अंजन करे तो जाला व फूला अवश्यही नाश होवे । अथवा मुरगेके अंडेका छिलका, मनशिल, कांच नमक, शंखका पेंदा, चन्दन, सेंधा नमक इनको सम भाग लेकर अंजन बनाकर आंखोंमें लगावे तो फूला जाला अवश्यही दूर होवे । अथवा रसौंतको स्त्रीके दूधमें मिलाकर आंखोंमें रोज लगावे तो नेत्रोंके सर्वरोग

दूर होवें यह ममीराके समान लाभ देनेवाली दवा है॥ अथवा पुनर्नवाकी जडको दूधमें घिसकर अंजन करे तो नेत्रोंकी खुजली मिटै। शहदमें घिसकर अञ्जन करै तो पानी बहना दूर होवे, घीमें घिसकर लगावे तो फूला दूर होवे तेलमें घिसकर लगावे तो तिमिर दूर होवे कांजीमें घिसकर लगावे तो रतौंधी दूर होवे इसके समान नेत्रोंके रोगोंको नाश करनेवाली और दवा नहीं है। इसको देशीममीरा कहते हैं ॥

बबूलके पत्तोंके काढाको खूब गाढा करके उसमें शहद मिलाकर नेत्रोंमें अंजन करे तो ढरका दूर होवे। अथवा पीपरि, सेंधानमक, मिर्च, रसौंत, सुरमा, समुद्र-फेन, मिसिरी, लालपुनर्नवा, हल्दी, लालचन्दन, शहद, नीलाथोथा, हर्र, मनशिल, नीमके पत्ते, लोध, फिटकरी, शंखनाभि, कपूर ये सम भाग लेकर खूब बारीक पीस-कर तांबेके बर्तनमें तांबाके सोंटेसे दूध और शहद डाल डाल कर १ पहर तक खरल करे फिर नेत्रोंमें अंजन करे तो तिमिर, फूला व जाला दूर होवे इसका नाम नयनामृतअंजन है। अथवा हल्दी, नीमके पत्ते, पीपरि, मिर्च, बायबिडंग, नागरमोथा, हर्र ये सम-भाग लेकर बकरीके मूत्रमें पीस कर गोली बनाकर छायामें सुखारक्खे फिर इस गोलीको पानीमें घिसकर अंजन करे तो तिमिर दूर होवे गोमूत्रमें घिसकर

अंजन करे तो नाखूना दूर होवे। शहदमें घिसकर अञ्जन करे तो धुँदला दीखना दूर होवे। स्त्रीके दूधमें घिसकर अंजन करे तो आंखका फूला मिटै इसका नाम चन्द्रप्रभावर्ती है और श्रीमहादेवजीकी कही हुई है॥ शहदमें मिर्च या पीपरि या सोंठिको घिसकर लगावे तो रतौंधी उसी वक्त अच्छी होवे॥ इति नेत्र रोग चिकित्सा॥

अथ कर्णरोगके लक्षण व चिकित्सा।

कानमें २८ प्रकारके रोग होते हैं वे सब विस्तार-पूर्वक "सुश्रुत" में लिखे हैं इस छोटेसे ग्रन्थमें मुख्य मुख्य रोगोंकी आजमाई हुई चिकित्सा लिखते हैं।

अदरखका रस, शहद, सेंधानमक, तिलोंका तेल, ये सम भाग लेकर थोडा गर्म कर कानमें डाले तो कानकी पीडा दूर होवे। अथवा बकरेके मूत्रको थोडा गर्म कर उसमें सेंधानमक मिलाकर कानमें डाले तो कानकी घोर पीडा और आवाज आना व बहना दूर होवे। अथवा सोनापाठाकी जड तेलमें पकाकर वह तेल कानमें डाले तो घोर कानकी पीडा मिटै। अथवा बेलके गूदेको गोमूत्रमें पीसकर बकरीका दूध और पानी मिलाकर उसको तिलोंके तेलमें पकाकर तेल सिद्ध करके कानमें डाले तो बहिरापन व कान बहना व घण्टीसी बजना व कीड़ा व पीडा सब दूर होवें।

अथवा बिजोरानींबूके रसमें थोडासा सज्जीका चूर्ण डालकर कानमें डाले तो कान बहना दूर होवे और दर्द व जलन शीघ्रही मिटै अथवा फिटकरीकी खीलको कागजकी पोंगलीमें रखकर कानमें फूँक देवे तो २० वर्षका भी कान बहता हुआ उसी वक्त बन्द होवे । अगर कानमें फुंसी होवे या उसमें बहुत तेज दर्द होवे तो चोवाको रुईकी फुरेरीमें लगाकर कानमेंफेरे तो लगाते ही दर्द बन्द होवे सारी तकलीफ मिटै। यूनान-का प्रसिद्ध हकीम अरिस्तू लिखता है कि, जो पुरुष अपने कानोंको आरोग्य रखना चाहे तो हमेशा कानोंमें रुई लगाये रहा करे और हफ्तेमें एक बार कानोंमें सरसोंका तेल अथवा रौसाका तेल या गुलाबका अतर डाला करे ॥ इति कर्णरोग चिकित्सा ॥

अथ नासारोगके लक्षण व चिकित्सा ।

नाकमें ३४ प्रकारके रोग होते हैं, १पीनस (गंध का मालूम न होना), २ पूतिनाश (नाकमें बुरी गंध आना), ३ नासापाक (नाकमें फुंसियां होना),४ पूय-शोणित (नाकसे मवाद व लोहूसा गिरना), ५ बहुत छींक आना, ६ छींक बिल्कुल न आना, ७ नाकका जलना, ८ प्रतिनाह (नाकसे हवा न निकलना), ९ प्रतिस्राव(कफका बहना), १० नाकका सूख जाना, ११ प्रतिश्याय (जुखामहोना), १२वातसे नाकसूखना,

१३ पित्तसे नाक सूखना, १४ कफसे नाक सूखना, १५ रक्तदोषसे नाक सूखना, १६ वातकी बतौडी, १७ पित्तकी बतौडी, १८ कफकी बतौडी, १९ लोहूकी बतौडी, २० मांसकी बतौडी, २१ मेदकी बतौडी, २२ नसोंकी बतौडी, २३ वातकी नाककी बवासीर, २४ पित्तकी बवासीर, २५ कफकी बवासीर, २६ लोहूकी बवासीर और नाकका सूखना ४ प्रकारका और नाकका रक्तपित्त ४ प्रकारका है । इस तरह कुल ३४ रोग हुए और प्रतिश्याय यानी जुखाम ६ प्रकारकाहै॥

अथ चिकित्सा ।

पीनसरोग होते ही गुड व कालीमिर्च दहीमें मिलाकर खावे । अथवा सोंठि, मिर्च, पीपरि, चीता, तालीस, अमिली, अमिलवत, जीरा, इलायची, दालचीनी, तेजपात, ये समभाग लेकर सबके बराबर पुराना गुड मिलाकर सुपारी समान गोली बनाकर खावै तो पीनस, खांसी, श्वास दूर होवे । इसका नाम व्योषादिवटी है ॥

मोमका धुआं नाकमें लेवें तो छींके आवैं । या नकछिकनी सूघैं तो छींकैं आवें । कलौंजीका नस्य सूंघै तो जुखाम अच्छा होवे । बकरीका मांस खानेसे, वमन करनेसे, जुल्लाब लेनेसे, घी पीनेसे, चाय पीनेसे, गर्मदूध पीनेसे जुखाम दूर होवे । अदरखका रस ६

मासेमें शहद ६ मासे मिलाकर पीवे या बडी हर्रका चूर्ण ६ मासेको ६ मासे शहदमें मिलाकर चाटे तो जुखाम अवश्यही अच्छा होवे। बतौडी व बवासीर व रक्तपित्तरोगमें पीछे कहे हुए उन उन रोगोंमें कही हुई चिकित्सा करे ॥ इति नासारोग चिकित्सा ॥

अथ मुखरोगके लक्षण व चिकित्सा ।

ओंठोंमें ८ रोग, मसूढोंमें १६ रोग, दांतोंमें ८रोग, जीभमें ५ रोग, तालूमें ९ रोग, कण्ठमें १८ रोग होते हैं। ऐसे सब मिलाकर कुल ६४ रोग मुखमें हैं। और ३ रोग सारे मुखमें और होते हैं । इस प्रकार कुल ६७ रोग मुखके हुए इन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन "सुश्रुत" में लिखा है। मांस, दूध, दही, उडद, खटाई ये चीजें अधिक खानेसे मुखरोग पैदा होते हैं। अब उनकी आजमाई हुई चिकित्सा कहते हैं। ओंठोंके सर्व रोगोंमें गायके मक्खनको सौ बार धोकर कपूर मिलाकर लेप करै, मसूढोंके रोगोंमें शहदके गलगले या सरसोंके तेल या कांजीके गलगले करै। और नागरमोथा, हर्र, सोंठि, मिर्च, पीपरि, बायबिडंग, नीमके पत्ते ये सम भाग लेकर गोमूत्रमें पीसकर गोलियां बनाकर छायामें सुखाकर १ गोली मुखमें रखकर रातको सोया करे तो हिलते हुए दांत मजबूत होवें और दांतोंके सर्व रोग दूर होवें, इससे बढ़कर

हिलते दाँतोंको जमाने वाली और दवा नहीं है। हींगको दांतोंमें दबानेसे दांतोंका कीडा दूर होवे। जीभके रोगोंमें लोहू निकलानेसे बडा लाभ होता है। पीपारिको बारीक पीसकर शहदमें मिलाकर जीभपर मलै फिर लार टपकावे तो जीभके छाले वगैरह दूर होवें। हरी धनिया चाबे अथवा पोदीनाकी पत्ती और मिसरी ये दोनों चबाचबाकर थूंके तो जीभके छाले मिटैं। शीतल औषधियोंके चूर्ण या काढाको मुखमें धारण करे तो तालूके सर्वरोग दूर होवें। लोहू निकलाना, वमन करना, धुआं पीना, गर्मपानीके कुल्ले करना, बफारा लेना, दाख और फालसाको मुखमें दबाये रहना ये सर्व उपाय कंठके रोगोंको नाश करते हैं। जवाखार, तेजबल, पाढ, रसौत, दारुहल्दी, पीपारि ये सम भाग लेकर शहदमें मिलाकर जंगली बेरकी बराबर गोली बनाकर मुखमें रक्खे तो गलेके सर्वरोग दूर होवें अथवा चमेलीके पत्तोंको चाबनेसे मुखका पकना अच्छा होता है॥ बिजौराके फलको खानेसे मुखरोग अच्छा होताहै। इति मुखरोग चिकित्सा॥

अथ विषके भेद व चिकित्सा।

विष दो प्रकारका है १ स्थावर जैसे कनेर, धतूरा इत्यादि वृक्ष। दूसरा जङ्गम जैसे सांप, बिच्छू इत्यादि, अब इनकी चिकित्सा कहते हैं। सर्वप्रकारके स्थावर

विष खाये हुएको वमन करावे क्योंकि, वमनके समान लाभदायक और औषधि स्थावरविषकी नहीं है। और विषपीडितको सांठीचावल, कोदों, कांगनी और सेंधानमक ये लाभदायक हैं। और सिरसका पञ्चांग गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे सर्वप्रकारका विष दूर होता है। और धतूरेकी जड या बांसकी जडको दूधमें पीसकर पीवे तो कुत्ताका विष दूर होवे । अथवा हल्दी, दारुहल्दी, कटसैला, मँजीठ, नागकेशर ये समभाग लेकर शीतल पानीमें पीसकर लेप करे तो मकडीका विष दूर होवे। और जीरा, सेंधानमक, घी इनको पानीमें बांटकर शहद मिलाकर लेप करे । अथवा नीले फूलवाले घमिराके पत्तोंको मलकर सूंघै तो बच्छूका विष तुरन्त उतरै। अथवा नींबूके रसमें जमालगोटाको घिस कर आंखोंमें अञ्जन कर देवे तो सांपका काटा अच्छा होवे । सर्व प्रकारके स्थावर व जङ्गम विषोंके नाश करनेके लिये जहरमोहरासे बढकर और दवा नहीं है, वह जहरमोहरा तो दो तरहका होता है एक तो हवानी अर्थात् जो मेंढ़क वगैरहसे निकाला जाता है, दूसरा मादनी अर्थात् जो खानिसे निकलता है और अक्सर शहरोंमें पंसारियोंके पास एक आना तोला बिकता मिलता है यह जहरमोहरा एक किस्मका पत्थर है कुछ पीलाई लिये हुए सफेद रंगका होता है पहिचान इस-

की यह है कि, अगर नीमकी पत्तीके साथ इसको पीसे तो नीमकी कड़ुआई जाती रहे, बस इसी जहरमोहराको लेकर पत्थरपर गुलाबजलमें घिसकर चटावे तो विष खाये हुए पुरुषको वमन होगा जब वमन होजावे तब फिर चटावे तो फिर वमन होगा इसी तरहसे बार बार चटाते रहैं जब इसके चटानेसे वमन न होवे तब जानो कि, अब पेटमें जहर नहीं रहा और काटी हुई जगह पर भी लेप करे तो जहर दूर होवे मगर एक बारमें १ गेहूँसे अधिक न चाटे क्योंकि इसकी खुराक दो रत्ती है, हैजेको अवश्यही दोही खुराकमें दूर कर देता है। शिरमें दर्द हो तो गुलाबजलमें घिसकर लगा दो उसी वक्त दर्द बन्द होगा, सर्वप्रकारके विषोंको सुहागा नाश कर देता है यदि संखिया वगैरहके साथ सुहागाको पीसे तो संखियाका विष दूर होजाता है इसी वास्ते विष खाये हुए रोगीको घीके साथ सुहागा पिलाते हैं॥ इति विष चिकित्सा॥

अथ स्त्रीरोग चिकित्सा।

स्त्रीके गुप्त स्थानसे लाल, नीला, सफेद अनेक प्रकारका बदबूदार सडा पानी निकला करता है उसको प्रदररोग कहतेहैं अशोककी छालीका काढ़ा दूधमें पकाकर ठंढा करके प्रातःकाल पीवे तो अत्युग्र प्रदर दूर होवे। अथवा रसौंत, चौलाईकी जड इनको

चांवलोंके पानीसे पीसकर शहद मिलाकर पीवे तो सर्वप्रकारके प्रदर दूर होवें। अथवा बरियारीकी जड दूधके साथ पीवे तो सर्व प्रदर दूर होवें। अथवा काले गूलरके फलके रसमें शक्कर व शहद मिलाकर पीवे तो सर्वप्रकारके प्रदर दूर होवें। परन्तु शक्कर दूध भात खावे। अथवा मूसाकी मेंगनीमें सम भाग शक्कर मिलाकर मासे ६ गायके पावभर दूधसे पीवे तो सर्व प्रकारके प्रदर अतिशीघ्रही दूर होवें। बारम्बार मूत्र करनेका नाम सोमरोग है इसको मूत्रातीसार भी कहते हैं, आमलेके फलके रसमें शहद व मिसिरी मिलाकर उसके साथ केलाकी पक्की फली दो खावे तो मूत्रातीसार दूर होवे। अथवा उडदका आटा, मौरेठी, बिदारी-कन्द, शहद, मिसिरी ये सब सम भाग लेकर दूधके साथ पीवे तो मूत्रातीसार दूर होवे। अथवा आमलाके बीजोंको पानीमें पीसकर शहद, मिसिरी मिलाकर पीवे तो ३ दिनमें सफेद प्रदर व मूत्रातीसार दूर होवे। अथवा नागकेशर ६ मासे गायके मठामें पीसकर पीवे तो ३ दिनमें प्रदर व सोमरोग दूर होवें इसपर मठाके साथ भात खावे ॥ सोमरोग होनेसे सोम अर्थात् बलका नाश होजाता है चलने फिरनेकी शक्ति नहीं रहती और प्यास बहुत लगतीहै शिरमें शिथिलता रहे। मुख व तालु सूखा रहे। यह रोग बहुत प्रसंगसे

शोकसे परिश्रमसे अभिचारसे जहरविकारसे उत्पन्न होजाता है। जब यही सोमरोग बहुत दिनोंका होजावे तब मूत्रातीसार होजाता है तब इसमें बारंबार बहुतमूत्र उतरा करे और बलका नाश होजावे, सर्व शरीर सूखकर दुर्बल होजावे, प्यास बहुत लगै, मुख सूखा करै, उत्साह बिल्कुल नहीं आवै। ताडवृक्षकी जड, छुहारा, मौरेठी, बिदारीकन्द ये समभाग लेकर समभाग मिसिरी मिलाकर शहदके साथ १ तोला चाटे तो मूत्रातीसार दूर होवे। अथवा आमलेके रसमें अरूसेका खार और शहद डालकर चाटै तो मूत्रातीसार दूर होवे। अथवा पमारकी जडको चावलोंके पानीसे पीसकर दो तोला प्रतिदिन सबेरे पीवे तो मूत्रातीसार व पानी सरीखा प्रदर अतिशीघ्र दूर होवे। अथवा ताडवृक्षके फलकी मज्जा, खजूर, केलाका फल इनको दूधके साथ खावे तो मूत्रातीसार दूर होवे। स्त्रीकी भगमें वातसे५ रोग, पित्तसे ५ रोग, कफसे ५ रोग, त्रिदोषसे ५ रोग ऐसे कुल २० रोग उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्तम चिकित्सा कहते हैं। प्रथम वन्ध्याकी चिकित्सा कहते हैं। मालकांगनीके पत्ते और बिजयसार इन दोनोंको दूधमें पीसकर पीवे तो मासिक रुका हुआ जारी होवे। मछली, कांजी, तिल, उडद, दही इनका अधिकसेवन करनेसे रुका हुआ मासिक खुल जाता है। और

बरियारी, मिसिरी, गंगेरन, मौरेठी, काकडासिंगी नागकेशर इनको समभाग लेकर शहद, दूध, घीके साथ १ तोला पीवे तो वन्ध्या गर्भवती होवे। अथवा असगन्धके काढामें दूध पकाकर घी मिलाकर ऋतु-स्नान करके पीवे तो गर्भाधान होवे। अथवा पुष्य नक्षत्रमें उखाडी हुई सफेद कटाई या लक्ष्मणा बूँटी या मयूरशिखाकी जडको कुआंरी कन्याके हाथसे गायके दूधमें पीसकर ऋतुस्नान कर पीवे तो अवश्यही गर्भ धारण करे। अथवा शिवलिंगी या पारसपीपरके बीजोंको सफेद जीराके साथ मिलाकर ऋतुस्नानके बाद दूधसे पीवे। अथवा ढांकके कोमल पत्तोंको दूधमें पीसकर पीवे तो अवश्यही गर्भ धारण करे। अथवा वाराहीकन्द, कैथा, शिवलिंगीके बीज ये सब समभाग लेकर चूर्ण कर दूधके साथ ऋतुस्नान करके पीवे तो गर्भाधान अवश्यही होवे और पुत्र ही पैदा होवे॥

मूसाके मांसको काढाकी तरह पकाकर फिर तिलके तेलमें वह काढा पकाकर तेलसिद्ध करे फिर उस तेलका फोहा भगमें रक्खे तो भगके सर्वरोग दूर होवें। घीका फोहा या तेलका फोहा या शहदका फोहा भगमें रक्खे तो भगके सर्व रोग दूर होवें। अथवा मैनफल, शहद, कपूर या माजू-फल, शहद, कपूर इनको एकमें पीसकर अंगुलीसे भगके अंदर लगावे तो गिरी हुई भग आराम होवे व नसें सीधी

होवें और संकोचन भी होवे अथवा ४ मासे ईसबगोलको १ तोला शक्करमें मिलाकर शीतलपानीसे पीवे तो गिरता हुआ गर्भ रुक जावे । और पीपरि, बायबिडंग, सुहागा ये समभाग लेकर चूर्ण करके गर्म दूधके साथ ऋतुस्नान करके पीवे तो गर्भ नहीं रहे ॥

अथवा जसवन्तके १ तोला फूल कांजीमें पीसकर ऋतुसमयमें स्त्री पीवे तो गर्भ नहीं रहै । अथवा १ छटांक पुराने गुडको ऋतुसमयमें ३ दिन तक खावे तो उसके गर्भ नहीं रहे करियारीकी जड रेशमके धागेमें बांधकर स्त्री अपने बायें हाथमें बांधे तो प्रसव(लड़का पैदा होनेके समय) की पीडा व कष्ट दूर हो । अथवा सूरजमुखीकी जड और पाटलाकी जड गर्भिणीके कंठमें बांधे तो शीघ्रही सुखपूर्वक लडका पैदा होवे । अथवा पीपरि, वच इनको पानीमें बांटकर अरंडके तेलमें मिलाकर स्त्रीकी नाभि पर लेप करे तो सुखसे प्रसव होवे । बिजौराकी जड, मौरेठी इनको घीमें पीसकर पीवे तो सुखसे सन्तान पैदा होवे अथवा स्त्रीके बराबर लम्बा धागा लेकर सतलडा कर उसमें तारकी जड बांधकर कमरमें बांधे तो सुखपूर्वक प्रसव होवे सारी तकलीफ दूर होवे । इन्द्रायणकी जड भगमें रखनेसे मरा भी गर्भ अवश्यही बाहर निकल आवे ॥

लडका पैदा होजानेके बाद कुपथ्य बादी व शीतल पदार्थोंको खावे तो उसके ज्वर, खांसी, सूजन, अतीसार, आलस्य उत्पन्न होकर प्रसूत रोग होजाता है, तब देवदारु, बच, कूट, पीपरि, सोंठि, चिरायता, कायफल, नागरमोथा, कुटकी, धनियां, हर्र, गजपीपरि, धमासा, गोखरू, कटेली, अतीस, गिलोय, स्याहजीरा, काकडासिंगी ये समभाग लेकर दो तोलेका काढा बनाकर थोडासा सेंधानमक और हींग मिलाकर पीवे तो खांसी, श्वास, हिचकी, सूजन, ज्वर, अतीसार संयुक्त प्रसूतरोग अवश्यही नाश होवें इसका नाम देवदार्व्यादिकाढा है। कालाजीरा, सफेदजीरा, सौंफ, अजवाइन, अजमोद, धनियां, मेथी, सोंठि, मिर्च, पीपरि, पीपरामूल, चीतेकी जड, झाऊकी जड, बेर-कमीला ये एक एक तोले लेकर पीस छानकर २० तोले घीमें भूनकर एकसेर खोवा और दो सेर शक्करकी चाशनीमें एक एक छटांकके लड्डू बनाकर खावे तो सर्व उपद्रव सहित सूतिका रोग व पांडुरोग व पुराना ज्वर, सूजन, अतीसार, खाँसी, कफ सबका नाश होवे । इसका नाम जीरापाक है ॥

यदि स्त्रीके स्तनोंमें खाज, फोड़ा, गांठ, सूजन वगैरह कोई रोग होजावे तो शीतल औषधियोंका लेप

करे और १०८ बार धोये हुए गायके मक्खनमें मुर्दा-संग व सिन्दूर मिलाकर फिर २१ बार धोकर लगावे तो फोडा, फुंसी, घाव अच्छे होवें ॥

यदि जोंक लगाकर खराब लोहू निकाल डाले तो स्तन रोग अच्छा होवे । इन्द्रायणकी जड पानी या बैलके मूत्रमें घिसकर लेप करे तो स्तनकी सूजन व पीडा तुरन्तही मिटै । अथवा हल्दी और धतूराके पत्तोंको पीसकर लेप करै तो पीडा तुरन्तही दूर होवे। लोहेको गर्म कर पानीमें बुझाकर वही पानी पीवे तो स्तन रोग नाश होवे ॥ इति स्त्रीरोग चिकित्सा ।

अथ बालकके रोगोंके लक्षण व चिकित्सा ।

जो जो रोग मनुष्योंको होते हैं वहीवही बालकोंको भी होते हैं इस वास्ते उनउनकी चिकित्सा उस उस रोगमें जो पीछे वर्णन हो चुकी है, सो देखो अब यहां पर बालकोंके विशेषरोगोंकी आजमाई हुई चिकित्सा वर्णन करतेहैं । मुंडी और मासपर्णीका काढा बनाकर उससे बालकको स्नानकरावे तो सर्व बालग्रह दूर होवें । वच, कूट, ब्राह्मी, सरसों, अनन्तमूल, सेंधानमक पीपरि ये समभाग लेकर पानीमें पीसकर अठगुने घीमें पचाकर घी सिद्धकरे फिर उस घीको थोडा २ बालकको चटावे तो सर्व बालग्रह व सर्वउपद्रव शान्त

होवे बुद्धि बढै और भूत, प्रेत, राक्षस, माता इत्यादिके सर्व दोष दूर होवें इसका नाम अष्टमंगलघृत है ॥

बालकको कभी लंघन न करावे और न दूधपीना बंद करै।दांत निकलनेके समय जो सर्व रोग बालकको घेरते हैं वे रोग बालकको बहुत तकलीफ नही देते हैं जब दाँत निकल आते हैं तब वे रोग आपहीसे शांत हो जाते हैं, इस वास्ते उस समयके रोगोंकी विशेष चिकित्सा न करै। एक रत्ती छोटी पीपरिका चूर्ण १ मासा शहदसे चटावे तो सर्व प्रकारके ज्वर, खांसी, कफ, जुखाम दूर होवें । माजूफलको भूनकर माताके दूधमें घिसकर एक रत्तीचटावे तो अतीसार दूर होवे। सुहागा, सेंधानमक, छोटी हर्र, हल्दी इनको बहुत थोडा२ पानीमें घिसकर तीसरे दिन चटाया करे तो बालक कभी बीमार ही न होवे यदिरोज न चटावे तो तीसरेदिन तो अवश्यहीचटाया करे ।काकडासिंगीको पीसकर शहदमें मिलाकर एक एक रत्तीभर चाटै तो सर्वप्रकारकी खांसी व कफ व खरखराहट दूर होवे । जहरमोहरा या दरियाईनारियलको आधारत्तीगुलाब-जलमें घिसकर चटावे तो सर्वप्रकारकी वमन व हैजा दूर होवे, छोटी हर्रको भूनकर उसमें सेंधानमक मिलाकर दो रत्ती पानीके साथ बालकको देवे तो

अफरा, दस्त न होना, मन्दाग्नि इतने रोग दूर होवें। १ रत्तीबायबिडंगको शहदमें मिलाकर चाटै तो पेटके कीडे दूर होवें। पारा, गन्धक, राल, कपूर ये समभाग लेकर मक्खनमें मिलाकर मालिश करे तो एकही बारमें खाज, दाद दूर होवें। रसौंतको माताके दूधमें घोरकर पकी हुई नाभि या गुदामें लगावे तो वहांका पकना अच्छा होवे। घमिराके स्वरसमें रुईको ३ बार भिगोकर सुखालेवे फिर उसकी बत्ती बनाकर सरसोंके तेल या चमेलीके तेलमें काजल पाडकर आंखोंमें लगावे तो नेत्रोंके सर्व रोग दूर होवें। आवलेका रस मसूढोंमें मलैं या मौरेठीकी लकडीको छीलकर चिकनी करके बालकके हाथमें देवे बालक उसको मुखमें चूसा करे तो दाँत सुखसे निकले। अथवा सिरसके बीजोंकी माला बनाकर गलेमें पहिनावे तो दाँत सुखपूर्वक निकलें कोई कष्ट न व्यापै और शहदमें बचको घिसकर चटावे तो बुद्धि बढै॥

इति बालरोग चिकित्सा॥

अथ वाजीकरन विधि।

वाज नाम वीर्य व पराक्रमका है वह वीर्य व पराक्रम जिसमें होवे उसको वाजी कहते हैं। जो पुरुष हीनवीर्य व हीनपराक्रम होगये हों उनको फिरसे वीर्यवान्

व पराक्रमसंयुक्त करके घोडेके समान पराक्रम सम्पन्न करनेको वाजीकरन कहते हैं। इस वास्ते यहां पर उसी प्रकारकी परीक्षितउत्तम औषधियाँ वर्णन करते, हैं। जिनसे पुरुषके शरीरमें उक्त प्रकारका सामर्थ्य उत्पन्न होवे। पुराने सेमरकी जडको पीसकर समभाग शक्कर मिलाकर १ तोला गायके दूधसे पीवे। अथवा कौंछकी जडको पीस छानकर समभाग शक्कर मिला-करदूधसे पीवे तो निर्वीर्य वीर्यवान् होवे। यदिदो मही-नातक दोनों समय इस औषधिको खावे तो शरीरमें समुद्रके समान वीर्य बढै और इसका चमत्कार लिखनेमें नहीं आवे परन्तु खटाई, मिर्चा, तेल, गुड, न खावे, वीर्य बढानेवाली इसके समान कोई औषधि नहीं है। अथवा बिदारीकन्दके चूर्णमें गूलरका रस मिलाकर घी और दूधके साथ पीवे तो बूढा भी जवानके समान वीर्यवान् होवे। बकराके अंडकोशोमें पीपरि और नमक मिलाकर दूध व घीमें मिलाकर खावे। अथवा आमलाके चूर्णमें आमलाके रसकी सात भावना देकर छायामें सुखाकर पीसकर चूर्ण बनाकर घी और शहदमें मिलाकर चाटकर ऊपरसे दूध पीवे तो बूढा भी युवाके समान वीर्यवान् व पराक्रमसम्पन्न होवे। शतावरि ३२ तोले, गोखरू ३२ तोले, बाराहीकन्द ८० तोले, गिलोय १०० तोले

भिलावाँ १२८ तोले, चीतेकी जड ४० तोले, काले तिल ६४ तोले, पीपरि ११ तोले, मिर्च ११ तोले, सोंठि ११ तोले, शक्कर २८० तोले, शहद १४० तोले, घी ७० तोले लेवे फिर शतावरीके समान बिदारीकंद लेकर चूर्ण बनाकर चिकने बर्तनमें रखछोडे फिर १ या २ तोला नित्य दूधसे खावे तो बूढा भी जवान होवे। १८कोढ, भगन्दर, सुजाक, प्रमेह, राजयक्ष्मा, पाचों प्रकारकी खांसी, वातके ८० रोग, पित्तके ४० रोग, कफके २० रोग, छओंप्रकारकी बवासीर, सन्निपात, पांडुरोग, पीनस इतने रोग अवश्यही दूर होवें, शरीरमें मांस व खून खूब बढै। सफेद बाल काले निकलें. धातुके सर्वरोग दूर होवें, वीर्य अत्यन्त बढै, सोनेके समान शरीरकी कांति होवे।घोडेके समान वेगवान्और सिंहके समान पराक्रम उपजे। बूढा भी प्रतिदिन सौ स्त्री भोगै वंध्याके पुत्र होवे जैसे वृक्षोंको बिजली गिरा कर नाश करदेती है वैसे ही यह औषधि संसारके सर्व ही रोगोंका नाश करदेती है।इसका नाम नरसिंह चूर्ण है इस नुस्खेमें भिलावाँको शुद्ध करके डाले। अथवा शोधा हुआ आमलासारगन्धक १० तोले, सेमरकी ज-डका चूर्ण १० तोले लेकर पीस छानकर उसमें सेमरकी छालीके रसकी ३ भावना देवे फिर छायामें सुखाकर १ मासा नित्य दूधसे खावे तो महादेवजी पार्वतीजीसे

कहते हैं कि, इसके कुछदिन सेवन करनेसे कामदेवके समान सुन्दररूप होवे और सौ वर्षतक आरोग्य रहकर आनन्दसे जीवे। शरीरमें रुधिर व मांस बढै। बाल काले होवें। घोडेके समान बल व सिंहके समान ताकत आवे। महादेवजी फिर भी कहते हैं कि, हे पार्वतीजी! जो इसका सेवन करै वह १० स्त्री रोज भोगैं और उसकी कभी अकालमृत्यु न होवे इसका नाम हरशशांक चूर्ण है।

अथवा शोधा हुआ आमलासारगंधक और आमला ये दोनों समभाग लेकर चूर्ण बनाकर उसमें आमलेके रसकी ३ भावना देदेकर छायामें सुखालेवे फिर सेमरके रसकी७भावना देदेकर छायामें सुखाकर समभाग शक्कर मिलाकर शहदसे दो मासे प्रतिदिन चाटे और ऊपरसे दूध पीवे तो बूढेमें भी तरुणके समान पुरुषार्थ आवे इसका नाम कामधेनुरसहै।अथवा नया गुड४०० तोले, बावरी और बेरीकी छाली१००तोले, चिकिनी सुपारी५०तोले, लोध२५ तोले, अदरख ८ तोले लेवे फिर १ मिट्टीके बर्तनमें गुडको डालकर गुडसे आठगुना जल उसमें डालकर घोलदेवे पहिली बार अदरख दूसरी बार बावरीकी छाली तीसरी बार बेरकी छाली मिलाकर मुखपर ढक्कन ढककर मिट्टीसे निस्संधि कर २०दिन तक रक्खा रहने दे,फिर इक्कीसवें दिन भट्टी-

पर चढाकर मिट्टीके बर्तनमें अर्क चुआवे और उसी समय ये औषधियाँ सुपारी, एलवालुक (मुसब्बर), देवदारु, लौंग, पद्माख, खस, चन्दन, सौंफ, अजवाइन, मिर्च, सफेदजीरा, कचूर, जटामांसी, दालचीनी, इलायची, जायफल, नागरमोथा, पिपरामूल, सोंठि, मेथी, मेषी (मेढासिंगी), चन्दन ये हरएक दो दो तोले लेकर दरदरी कूटकर उसीमें खूब मिलाय देवे फिर सुरायन्त्रसे आसव तैयार करै फिर ३ तोले या ७ तोले या १० तोले एक बार या दो बार या ३ बार पीवे तो शरीर बलवान् व ताकतवर होवे, शरीरमें महान् उत्साह पैदा होवे, क्षुधा अत्यन्त बढै, बुद्धि व स्मृति बहुत बढै, सर्ववातव्याधि दूर होवें, १० स्त्रीसे नित्य रमनेकी शक्ति उत्पन्न होवे, भीमसेनके समान पराक्रम प्राप्त होवे, उत्साह व पुरुषार्थको बढानेवाली इससे बढ़कर और औषधि नहीं है, वीर्यके सर्वदोष दूर करै देवता व असुरोंके युद्ध समयमें राक्षसोंके बल व उत्साहके बढानेके निमित्त राक्षसोंके आचार्य गुरु भगवान् शुक्राचार्यजीने इसको बनाया था। इसका नाम मृतसंजीवनी सुरा है।

अथवा अच्छी बीजोंसहित भांग लेकर घीमें भूनकर महीन चूर्ण पीस लेवे फिर सोंठि, मिर्च, पीपरि, आमला, हर्र, बहेडा, काकडासिंगी, कूट, सेंधानमक धनियाँ, कचूर, तालीस, कायफल, नागकेशर, मेथी

दोनों जीरे ये सब समभाग लेकर थोड़ा भूनकर पीस लेवे फिर जितना इन सबका चूर्ण होवे उतनाही भाँगका भी चूर्ण लेवे फिर सबको एकत्र पीस छानकर सबके बराबर शक्कर मिलाकर घी और शहदमें सानकर दो दो तोलाके लड्डू बनालेवे फिर एक चिकने बर्तनमें खुशबूके वास्ते दालचीनी, इलायची, तेजपात, कपूर, इनका चूर्ण डालकर उसीमें उक्त लड्डू भरदेवे और उक्त चूर्ण थोडासा उन लड्डुओंके ऊपर बुरक देवें फिर प्रातःकाल या रात्रिको एक लड्डू खावे तो वात, कफ, खांसी, शूल, आमवात, घोर संग्रहणीका नाश होवे और कुछ दिनतक इस औषधिका सेवन करे तो बूढा पुरुष भी तरुणके समान वीर्य व पराक्रमसे युक्त होवे धातुके सर्व दोष नाश होवें । इसका नाम मदनमोदक है इसको नारदमहर्षिने श्रीब्रह्माजीके मुखसे सुनकर कामदेवकी वृद्धिके लिये संसारके सुख देनेवाले भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीसे कहा था । इसी औषधिको सेवन कर भगवान् वासुदेवजी सोलह हजार एकसौ आठ रानियोंसे रमण करते थे ॥

अथवा कौंचके बीज १०० तोले दूधमें औंटाकर या कूटकर छिलका निकाल डाले फिर महीन पीस छान कर दूधमें माडकर घीमें फुलौरी पकाकर मिसिरीकी खूब गाढ़ी चाशनीमें भिगोदेवे फिर निकालकर

शहदमें डुबादेवे फिर दो तोला प्रतिदिन सबेरे और दो तोला शामको खावे तो नामर्द भी मर्द होवे और निर्वीर्य भी महान् वीर्यसम्पन्न होवे इसके खानेसे रतिमें घोडेके समान पराक्रम प्राप्त होवे इसका नाम वानरी गुटिकाहै इसके समान अन्यवाजीकरणऔषधि नहींहै।

अकरकरा, सोंठि, लौंग, केशर, पीपरि, जायफल, जावित्री, सफेद चंदन ये सब एक एक तोला लेवे और अफीम ४ तोले लेवे फिर सबको एकमें बारीक पीसकर शहदसे उडद समान गोली बनाकर १ गोली रात्रिको खावे तो वीर्यका स्तम्भन होवे। उत्तम गाना सुनना, नाच देखना, बगीचेकी शैर, जलविहार, रूपवती युवा स्त्रीसे प्रेम, उत्तम खुशबू सूंघना, खुशबूदार फूलोंके हार पहिनना, मीठे व चरपरे भोजन, मदिरा पीना, पान खाना, मांस खाना ये सब नपुंसकपनाको नाशकर वाजीकरण करनेवाले हैं। असगंध और बिधाराको समभाग लेकर चूर्ण बनाकर मिसिरी, शहद, घीसे १ तोला रोज खावे तो शरीरमें अत्यन्त बल व वीर्य बढै। गोखरू, तालमखाना, शतावरि, कौंचके बीज, बरियारी, मूसली, मौरेंठी, असगंध, उटंगनके बीज ये समभाग लेकर पीस छान कर चूर्ण करै फिर सबके बराबर मिसिरी मिलाकर १ तोला

रोज खावे ऊपरसे गायका दूध पीवे तो निर्वीर्य भी वीर्यवान होवे बूढा भी युवाके समान अनेक बार रमण करै इसका नाम कामविलास चूर्ण है ॥

इतिवाजीकरण चिकित्सा ।

अथ रसायनविधि ।

शीतलपानी, दूध, शहद, घी इनमेंसे १ या २ या ३ चारोंको एकमें मिलाकर मैथुनके पहिले खावे तो पराक्रम घटै नहीं, जो औषधियां बुढ़ापाकी निर्बलताको नाश करनेवाली हैं उनको रसायन कहते हैं जो पुरुष ऐसी रसायन औषधिको खाता रहे वह बुढापेमें भी युवाके समान वीर्य व बलसंयुक्त बना रहे और आंख, कान, दांत इत्यादि शरीरकी कोई वस्तु शक्तिहीन न होवैं परन्तु जो पुरुष उक्त प्रकारकी औषधि सेवन किया चाहे वह प्रथम वमन विरेचन लेकर शरीरको शुद्ध कर लेवे तब रसायन औषधि पथ्य सहित खावे तो शीघ्रही अपना पूर्ण चमत्कार दिखावे । शरीरको बिना शुद्ध किये हुए जो रसायन खाता है उसको कुछ भी लाभ नहीं होता जैसे मैले कपडे पर रंग नहीं चढ़ता । इसी वास्ते अब हम यहांपर उत्तम २ रसायनके प्रयोग लिखते हैं । ब्राह्मीके १ तोला रसमें

मौरेठीका चूर्ण मिलाकर पीवे या गिलोयके २ तोले स्वरसमें शंखाहूलीकी जड और फूलोंका चूर्ण १तोला मिलाकर पीवे तो आयु बढै और सर्वरोग नाश होवें बल, बुद्धि और अग्नि बढै। २ तोले शहदमें ६ मासे वंशलोचन मिलाकर खावे। अथवा छोटी पीपरिके १ मासा चूर्णमें ३ मासा सेंधानमक मिलाकर खावे। अथवा त्रिफलाके चूर्णमें मिसिरी मिलाकर खावे तो रसायनका फल प्राप्त होवे परंतु कुछ दिनतक सेवन करे। अथवा घमिराका स्वरस ३ तोलेमें समभाग गायका दूध मिलाकर १ महीनातक नित्य प्रातःकाल पीवे परन्तु केवल दूधहीका आहार करे तो बूढा भी बल व वीर्य सम्पन्न होकर १०० वर्ष जीवे और उसके सर्वरोग नाश होवें। अथवा १ तोला असगन्धका चूर्ण १ महीनातक दूध या घी या तेल या जलहीसे खावे तो दुर्बलपुरुष मोटा होवे। अथवा आमला, काले तिल, घमिरा ये तीनों समभाग लेकर चूर्ण बनाकर १ तोला प्रतिदिन दूधके साथ १ महीना खावे तो १०० वर्ष जीवे और बाल, दांत, कान व नेत्रोंकी दृष्टि सदा युवाके समान बनी रहै। अथवा बिधाराकी जडके चूर्णमें शतावरीके स्वरसकी ७ भावना देकर छायामें सुखालेवे फिर १ तोला इस चूर्णको घीके

साथ चाटै तो १ महीनेमें बुद्धि व स्मृति व बल बहुत बढै, सफेद बाल काले होवें । अथवा हस्तिकर्णकी जडका चूर्ण १ तोला प्रतिदिन घी या शक्कर या शहदके साथ २ महीनेतक खावे और जो इच्छा आवे वही भोजन करे तो बल व बुद्धि व वीर्य अत्यन्त बढै बडी शक्ति उत्पन्न होवे । अगर कई वर्ष तक इस औषधिका सेवन करे तो निस्सन्देह आयु बहुत बढै परन्तु इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर उक्त औषधि खावे ॥

मन्त्र ।

(ओं नमो महाविनायकाय अमृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि रुद्रवचनेन स्वाहा) ॥ अथवा आमलाके चूर्णमें आमलाके स्वरसकी भावना देकर उसके समान शहद और घी मिलाकर शहदसे आधी पीपरि और पीपरिसे आधी मिसिरी मिलाकर एक मिट्टीके बर्तनमें भरकर उस बर्तनका मुख बन्द कर४महीने या १२ महीने राखमें गाड देवे फिर निकालकर १ तोला प्रतिदिन खावे तो बाल कभी सफेद न होवें और दांत न हालें, दृष्टि कमजोर न होवे, शरीरमें युवाके समान सदा बल बना रहे,बुद्धि व बल बहुत बढै,सम्पूर्ण रोगोंका नाश होवे।अथवा गिलोय, चिरचिरा,बायबिडंग, शखाहूली, बच, हर्र, सोंठि, शतावरि ये समभाग

लेकर पीस छानकर ६ मासे प्रतिदिन घीके साथ चाटै तो दिनमें १ हजार श्लोक नित्य कण्ठ करनेकी शक्ति उत्पन्न होवे, सफेद बाल काले निकलें, सर्वरोग दूर होवें, बल वीर्य बहुत बढै। यदि सूर्योदयके १ घण्टा पहिले डेढसेर जल नित्य पिया करे तो वात, पित्तके सर्वरोग नाश होवें और वह पुरुष १०० वर्ष तक आनन्दसे जीवे। अथवा निर्गुण्डीकी जडका चूर्ण बनाकर दोगुने शहदमें मिलाकर चिकने बर्तनमें रखकर मुख बन्द करके एक महीना तक धान्यकी ढेरीमें गाड देवे फिर निकालकर प्रतिदिन ३ मासा या १ तोला भर एक वर्षतक खावे तो सुवर्णका सा शरीरका रंग होवे सर्वरोगोंका नाश होवे, गिद्धके समान दृष्टि होवे, बाल कभी सफेद नहीं होवें, बल व बुद्धि अत्यन्त बढें, अगर २ वर्ष खावे तो आयु बहुत बढै और मरने पर्यंत महा वीर्यवान् रहे, इसपर खट्टी वस्तुओंको छोडकर यथेच्छ भोजन करे, अगर इसीको गोमूत्रसे खावे तो १८ प्रकारके कोढ, फोडा, फुंसी, शूल, प्लीहा, गुल्म इतने रोग दूर होवें। अगर मट्ठाके साथ खावे तो सर्व रोगोंका नाश होवे, गिद्धकी सी दृष्टि, शूकरकी सी श्रवणशक्ति, पवनका सा वेग और कामदेवके समान दिव्य सूरत होजावे। तीन महीनेतक इसके खानेसे वह पुरुष परम विद्वान् व पंडित होवे इसका नाम निर्गुंडी-

कल्प है, यह पिंगलायोगिनीका कहा हुआ है अथवा घमिरा २० तोले, कालेतिल १० तोले, आमला १० तोले लेवे फिर सबको पीस छान कर ४० तोले शक्कर या गुड मिलाकर प्रतिदिन १ तोला या अधिक खावे तो सर्वरोग दूर होवें अगर १ वर्षतक खावे तो अंधा भी देखने लगै गूंगा बोलने लगै बहिरा सुनने लगै और सफेद बाल गिरकर मेघके समान काले बाल जमैं जिसके दांत गिर गये हों उसके फिरसे दांत जमैं सर्वरोग नाश होवें २०० वर्षकी आयु होवे बल व वीर्य व बुद्धि अत्यन्त बढै ॥

अथवा हर्र, बहेडा, आमला, सोंठि, मिर्च, पीपरि, गिलोय, ब्राह्मी, लालचीता, नागकेशर, अदरख, घमिरा, निर्गुंडी, हल्दी, दारुहल्दी, इंद्रजौ, दालचीनी, इलायची, खम्हारी, बायबिडंग बच ये प्रत्येक आठ २ तोले लेकर महीन पीस छान कर चूर्ण करके २०० तोले गुड़में मिलाकर ३६० गोलियां बनावे फिर नित्य १ गोली खाकर ऊपरसे ३ या ५ चुल्लू ठंढा पानी पीवे और कडुआ, खट्टा, नमक ये न खावे तो एक वर्षमें पेटकी अग्नि वडवानलके समान तेज होवे और चन्द्रमाके समान शरीर चमकने लगै, सफेद बाल काले होवें हीनदृष्टिवाला दूरदृष्टि होवे, बूढा व सुस्त, कम-

जोर, असाध्य भी महाबल व पराक्रमसे युक्त होवे, लंगडा अच्छा होकर उच्चैःश्रवा घोडेके समान वेगगामी होवे। सूरजका सा तेज, कामदेवका सा रूप, गन्धर्वका सा स्वर होवे १००० वर्षकी आयु होवे। अनेक स्त्रियों-से नित्य रमण करै, परन्तु तिसपर भी हारै नहीं और न इस दवाके खानेवालेको किसी प्रकारकी आपत्ति आवे। दांत, नख, बाल इत्यादि जो बुढापेके कारण गिरगये होवें वे फिरसे नवीन जमैं। इसका खानेवाला पुष्ट, बलिष्ठ, पापोंका नाश करनेवाला, शान्त ऐसा मनुष्य होजाता है। यह अमृतवर्तिकानामकी गोली श्रीमृत्युंजय महाराजने कही है सम्पूर्ण रसायनकी औषधियोंमें यह औषधि मुकुटमणि है और सर्व रोगोंको अवश्य नाश करती है॥

अथवा सोंठि, मिर्च, पीपरि, हर्र, बहेडा, आमला ये बारह बारह तोले गिलोय, बायबिडंग, पीपरामूल, गठिवन, लालचीताकी जड़ ये आठ आठ तोले, असगंध २० तोले लेवे फिर सबको पीस छान कर २०० तोले गुड मिलाकर ३६० गोलियाँ बनावे फिर प्रातःकाल नित्य १ गोली शीतलपानीसे १ वर्षतक खावे तो १ महीनेमें अच्छी वाणी होवे, दो महीनेमें बल व वर्ण अच्छा होवे, तीन महीनेमें १८ कोढ दूर

होवें, ४ महीनेमें खांसी, कफ, व दमा दूर होवे, ५ महीनेमें अत्यन्त कामी होवे, ६ महीनेमें सफेदबाल काले निकलें, ७ महीनेमें सर्व अंग सुन्दर होवें, ८ महीनेमें अत्यन्त बल बढे, ९ महीनेमें १०० वर्षकी आयु होवे, १० महीनेमें वाणी निर्मल होवे, ११ महीनेमें महान् पराक्रम प्राप्त होवे, १२ महीनेमें अदृश्य होवे। मनोवांछित भोजन करै, स्वेच्छाचारी होवे जहां इच्छा आवे वहां गमन करै और वह पुरुष देवताके समान सिद्ध होजावे सर्व आपत्तियों तथा ६ उर्मियोंसे बचा रहे और हमेशा युवा अवस्था बनी रहे। इसका नाम श्रीसिद्धमोदक है। यह सिद्धान्ती तपस्वियोंका सेवन किया हुआ है जो पुरुष इसको सेवन करता है उसको आठों सिद्धि आनकर प्राप्त होती हैं। अथवा जड़सहित ब्राह्मी बूँटीको ब्राह्ममुहूर्त्तमें ८० तोले लेवे और पुष्ययोगमें शतावरि, बिदारीकंद, हर्र, खस, अदरख, सौंफ ये बीस बीस तोले लेवे फिर सबको १०२ तोले जलमें काढा करे जब चौथाई पानी बाकी रहे तब छानकर मिट्टीके बर्त्तनमें रखकर उसमें शहद ४० तोले, मिसिरी १०० तोले, धवईके फूल २० तोले, रेनुका, निसोत, पीपरि, लौंग, वच, कूट, असगंध, बहेडा, गिलोय, इलायची, बायबिडंग,

दालचीनी ये सब एक एक कर्ष लेकर पीसकर उसीमें मिला देवे फिर उसमें १ कर्ष सोनेके वरक मिलावे फिर उस बर्तनका मुख बन्द कर १ महीना रक्खा रहने देवे फिर निकाल कर छान लेवे फिर उस छनेहुए रसको चिकने बर्तनमें रखदेवे फिर ४ या ८ मासे प्रतिदिन दूधसे सेवन करै तो बल, वर्ण, बुद्धि, कान्ति और आयुर्दाय बढै, वाणी शुद्ध होवे, स्त्रियोंके सर्वरोग दूर होवें वीर्यके सर्वदोष नाश होवें, इस औष-धिके सेवनसे चित्तमें सन्तोष उत्पन्न होवे, बुद्धि व स्मरणशक्ति अत्यन्त बढै, दो महीने सेवन करनेसे संसारके सर्वरोग नाश होवें अगर १ साल सेवन करै तो सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होवें, जो पुरुष अपनी अरो-गता चाहे और अकालमृत्युको नाश किया चाहे और स्त्रियोंका प्यारा हुआ चाहे तथा वाणीकी शुद्धि व स्मरणशक्ति प्राप्त करना चाहे और बडा कवीश्वर होना चाहे वह इस अवलेहको अवश्यही सेवन करै इसका नाम सारस्वतारिष्ट है, इस अवलेहको श्रीभगवान धन्वन्तरिजीने अपने शिष्योंके लिये बनाया था इसी अवलेहको सेवन करके महर्षि विश्वामित्रजीके पुत्र सुश्रुतजी कवीश्वर होकर सुश्रुतसंहिता रचते भये ॥

रसायन औषधिके सेवनसे सर्वरोग तो नाश होते हीहैं परन्तु उस पुरुषको ऋद्धि व सिद्धि भी अवश्यही

प्राप्त होती हैं, इसमें किंचित् भी सन्देह नहीं; ऐसा अनेकसिद्ध, तपस्वी, महर्षियोंने अनुभव कर लिखा है कि, औषधि के प्रतापसे परब्रह्म भी प्राप्त होसकता है॥

इति रसायनविधि ॥

इति श्रीवैद्य शास्त्री पं० गौरीशंकर त्रिपाठी ढाढिया-कन्नोज निवासी हाल मुकाम जिला रायपुर सी०पी०-रचित रसराजमहोदधि चतुर्थ ४ भाग समाप्त ॥

इति शम् ।

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

वैद्यक रसराजमहोदधि भाषा

पाँचवाँ भाग ५

मुन्शी भगवानप्रसाद के शिष्य भगतभगवानदास वल्द
सुबराज मुराई गाँव चकवढ़वल (जिला जौनपुर)
निवासी द्वारा निर्मित

खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन,
बम्बई

संस्करण : मार्च २०१९, संवत् २०७५

मूल्य : २०० रुपये मात्र।

मुद्रक एवं प्रकाशकः
खेमराज श्रीकृष्णदास,™
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,
मुंबई - ४०० ००४.

© सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

Printers & Publishers :
Khemraj Shrikrishnadass,
Prop: Shri Venkateshwar Press,
Khemraj Shrikrishnadass Marg, 7th Khetwadi,
Mumbai - 400 004.

Web Site : http://www.Khe-shri.com
Email : khemraj@vsnl.com

Printed by Sanjay Bajaj For M/s. Khemraj Shrikrishnadass Proprietors Shri Venkateshwar Press, Mumbai - 400 004, at their Shri Venkateshwar Press, 66 Hadapsar Industrial Estate, Pune 411 013.

भूमिका।

प्रिय पाठकगण !

परब्रह्म परमेश्वर निराकार निरंजनकी कृपासे वैद्यक रसराजमहोदधिभाषाका पांचवाँ भाग आज तैयार होगयाहै, सब सज्जन विद्यावान् गुणवान् शीलवान् वैद्यजन बुद्धिमान् भारतवासियोंको विदित हो कि इसके चार खंड पूर्वही पूर्ण होगये थे तिनमें पहला भाग संवत् १९४९ में बना, दूसरा भाग संवत् १९५२ में बना, तीसरा भाग संवत् १९५९ में बना, पाचवां भाग मिति कार्त्तिक वदी १० मी संवत् १९६६ में बना, हमारा बनायाहुआ "वैद्यकरस-राज महोदधिभाषा" स्पष्ट हिन्दी भाषामें है, यूनानी मिश्रानी दवा मिली हैं, हमारे मित्र रामअधार मिश्र दानापुरने पांचवें भागमें बहुत सहायता दी है और हमारे बनाये हुए वैद्यक रसराजमहोदधिभाषाके पांचों भागोंका सेठ श्रीखेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष "श्रीवेंकटेश्वर" स्टीम् प्रेस बम्बई को सब हक दियाहै, असल इन्हींके पास मिलेगा, जो नकल करिके छापैगा उसे हानि उठानी पडेगी, इस पांचवें भागमें जो भूल चूक होय तो कृपादृष्टिसे शुद्ध कर लेवें हमारे अपराधको क्षमा करें, धर्म समुझके मुन्शी भगवानप्रसादका शिष्य भगत भग-वानदास शुबराज मुराई मुकाम चकबढवल जिला जौनपुरने विरचित किया.

कार्तिक वदी १०
संवत् १९६६
७।११।०९ ई.

आपका कृपाभिलाषी-
भगत भगवानदास.

अथ रसराजमहोदधिपञ्चमभागविषयानुक्रमणिका।

विषय.	पृष्ठाङ्क.
अथ प्रथम खण्ड १.	
अन्दना	१
दूतपरीक्षा	२
दूतलक्षण	३
दूतके कहे अक्षर शुभाशुभ	,,
वैद्यगमनमें निषिद्ध काल	,,
वैद्यकेलिये शुभवाक्य	,,
रोगकी आठ परीक्षा	४
स्नेहपानका वर्णन	,,
वमनका वर्णन	,,
जुलाबका वर्णन	५
वैद्यलक्षण	,,
रोगीलक्षण	६
निषिद्धवैद्यलक्षण	,,
निषिद्ध रोगीलक्षण	,,
वैद्यके हितकी बात	७
गुणकी बात	,,
समुझकी बात	९
स्वप्नविचार	१०
चिकित्सालक्षण	११
वात, पित्त कफके महीना	१२
नेत्ररोगकी दवा	,,
शिरदर्द आँखपीडाकी दवा	१३
शिरदर्दकी दवा लेप	,,
आँख, शिरपीडाको नास	,,
लकवा अर्द्धाङ्गकी दवा	,,
गर्भिणी स्त्रीकी दवा	१४
दूसरी दवा	,,
तीसरी ,, ...	,,
चौथी दवा पित्तज्वरपर	,,
विषमज्वरपर	,,
गर्भिणीको संग्रहणी पर दवा....	,,
पुनः संग्रहणी पर दवा	१५
छर्दिपर दवा	,,
कास श्वासपर दवा	,,
गर्भिणीकी छर्दि पर दवा	,,
गर्भिणी स्त्रीके सर्वज्वरपर दवा	,,
बालकके ज्वरकी दवा	१६
दूसरी दवा	,,
बालककी बाबत बयान	,,
बालककी फिर दवा	,,
फिर दवा	१७

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
सर्वज्वरको रस	१७	गर्भिणीनियम	२५
" दूसरा रस	"	" " शय्या	"
तीसरा रस	"	" " अन्न	२६
प्रथम महीनाकी दवा	१८	ऋतुकालमें उपचार	"
दूसरी दवा	"	गर्भरहनेका दिन	२७
दूसरे महीनाकी दवा	१९	प्रथम मास	"
तीसरे " "	"	दूसरा मास	२७
चौथे " "	"	तीसरा "	२८
पांचवें " "	"	चौथा "	"
छठे " "	२०	पाँचवाँ छठवाँ "	"
सातवें " "	"	सातवाँ "	"
आठवें " "	"	अष्टम "	"
नववें " "	"	गर्भका कारण	२९
जवारीश संग्रहणी पर	"	" " सेवन	"
जवारीश दूसरी ज्वर पर	२१	बालकका जन्मसे पोषण	"
शर्बत पित्तज्वरपर	"	अजीर्णका वर्णन	३०
" " दूसरा	"	लक्षण	"
सर्वज्वरकी दवा	२२	अजीर्णपचनकी अवधि	"
सर्वज्वर पर गोली	"	उपचार	"
सर्वज्वरपर वनस्पती	२३	सर्वजगत्कारण	३४
" " दवा दूसरी	"	इन्द्रियोंके नाम	"
" " तीसरी दवा	"	भूतोंकी उत्पत्ति	३५
जीर्णज्वरपाचक	२४	कर्मेन्द्रियोंके विषय	"
ज्वररोगीको जुलाब	"	चौबीस तत्त्वोंका वर्णन	"
दूसरी दवा	२५	अधिभूत	"

विषय.	पृष्ठांक.
कर्म्मकी बात	३६
बालकोंके शीतपूतनारोगकी दवा	,,
,, ,, दूसरी दवा	३७
,, ,, तीसरी दवा	,,
सर्वपूतनानाशक टोटका	,,
द्वितीय पूतनाग्रह पर धूप	३८
शीतपूतनाग्रहजुष्ट लक्षण	,,
शीतपूतनाकी दवा	,,
सर्वबालग्रहों पर धूप	,,
वातज्वरांकुश	,,
पद्मादिकाढा	३९
मधुयष्टयादिलेह....	,,
सर्वरोग पर दवा ...	,,
दश महीनोंमें ग्रहपीडित बालकके लक्षण	,,
अथ द्वितीयखण्ड २.	
कालज्वर (कालमृत्यु) का वर्णन	४१
ज्वरोंका कारण आदिका वर्णन	४२
तेरह प्रकारके सन्निपातका वर्णन	,,
सन्निपातज्वरके नाम	४३
सन्निपातज्वरका वर्णन	,,
सन्धिक सन्निपातज्वरका वर्णन	४४
सन्धिक० दवा....	,,

विषय.	पृष्ठांक.
दूसरी दवा	४४
अन्तक सन्निपातज्वरका लक्षण	४५
दाहसन्निपातका लक्षण	,,
,, ,, दवा	,,
दूसरी दवा	,,
चित्तभ्रमसन्निपातका लक्षण....	,,
,, ,, दवा	४६
शीताङ्गसन्निपातज्वरका लक्षण	,,
,, ,, दवा	,,
कंटक सन्निपातज्वरका लक्षण	४७
,, ,, दवा	,,
तन्द्रिकसन्निपातज्वरका लक्षण	,,
,, ,, दवा	,,
भग्ननेत्रसन्निपातज्वरका लक्षण	४८
,, ,, दवा	,,
दूसरी दवा	,,
कर्णिक सन्निपातज्वरका लक्षण	४९
,, ,, दवा	,,
दूसरी दवा	,,
रक्तस्रावसन्निपातज्वरका लक्षण	,,
,, ,, दवा	,,
प्रलापसन्निपातज्वरका लक्षण....	,,
,, ,, दवा	५०
जिह्वक (जीभक) सन्निपात	

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
ज्वरका लक्षण	५०	वायुविकारज ज्वरका उपाय	५९
" " दवा	५१	जलविकारसे उत्पन्नहुए ज्वरका वर्णन	"
दूसरी दवा	"	जलविकारज ज्वरकी निवृत्तिका उपाय	"
अभिन्नसन्निपातज्वरका लक्षण	"	मलविकारज ज्वरका वर्णन	६०
" " दवा	"	मल विकारज ज्वरकी निवृत्तिका उपाय	"
पञ्चवक्त्ररस	"	आकस्मिकज्वरका वर्णन	"
आनन्दभैरवरस	५२	सन्निपातज्वरका कारण	६१
रात्रिज्वरका उपाय	"	सूर्यकी गरमी आदिसे उत्पन्नहुए ज्वरकी दवा	"
विषमज्वरकी दवा	५३	ज्वरपर गोली औषध	६२
चार प्रकारके ज्वरका लक्षण....	"	ज्वरसे आठ रोगोंकी उत्पत्ति	६३
सर्वज्वरपर उपाय	"	सन्निपातज्वरका दूसरा वर्णन....	६४
ऐकाहिकज्वरकी दवा	"	सन्निपातज्वरकी दवा	६५
द्व्याहिक " दवा	"	सर्वज्वरपर रस	"
त्र्याहिक " दवा	"	मृत्युञ्जयरस	६६
चातुर्थिक " दवा	५४	सन्निपातज्वरकी दवा	"
दूसरी दवा	"	जीर्णज्वर पर भैरवरस	६७
चातुर्थिकज्वरका तन्त्र	"	संजीवनी गोली....	"
सर्वरोगोंके भेदोंका वर्णन	"	मृतसंजीवनरस	"
ज्वरका वर्णन	"	सन्निपातज्वरपर लेप	६८
सूर्यकी गरमीसे उत्पन्नहुए ज्वरका वर्णन	५७	बृहत्सुदर्शन चूर्ण	६९
सूर्यतापज्वरकी निवृत्तिका उपाय	५८	दूसरा सुदर्शनचूर्ण	७०
वायुविकारसे उत्पन्नहुए ज्वरका वर्णन	"		

विषय.	पृष्ठाङ्क.	विषय.	पृष्ठाङ्क.
लघुसुदर्शनचूर्ण	७१	दांतपीडापर तैल	८४
वैद्यके लिये शिक्षा	”	कानके दर्दपर तैल	८५
महाज्वरांकुशरस....	७२	सेहुवाँपर तैल	”
लोकसुदर्शनरस सर्वरोगोंपर	”	लकवा झोलापर तैल	८६
तेरहों सन्निपातज्वरोंपर दवा	७३	विषमज्वर तपेदिकका वर्णन	८७
दूसरी दवा	”	तरबूजका शर्बत	”
जीर्णज्वरांकुशरस	७४	नीलोफलका ”	”
धातुज्वरांकुशरस	७५	मीठे कद्दूका ”	८८
लाक्षादितैल	”	क्षुधासागर गोली	”
नारायणतैल	७५	अजीर्णहरमहोदधि गोली	८९
वासादितैल	७६	क्षुधासागर दूसरा	”
शतावर्यादितैल	७७	लौकीका शर्बत	९०
मुखरोगपर तैल	७८	जीर्णज्वरपर शर्बत	”
बिल्वादितैल बधिरता पर	”	विषमज्वरपर शर्बत	९१
हिंग्वादितैल कर्णरोगपर	७९	कनकसुन्दररस	”
पाठादितैल पीनसरोगपर	”	सर्वज्वरपर गोली	९२
दशमूलादियोग	”	” ” शर्बत	”
कानरोगपर दवा	८०	बायुशूलपर शर्बत	९३
दूसरी दवा....	”	तापतिल्लीपर ”	”
नामर्दीपर तैल	८१	सर्व प्रमेहपर ”	”
लाक्षादितैल....	”	उदररोगपर ”	९४
दूसरा लाक्षादितैल	८२	पुष्टिकरण ”	”
सर्ववातरोगोंपर तैल....	”	स्त्रीरोगका वर्णन	९५
पित्तकी जलनपर तैल ..	८३	प्रसूतिरोगपर दवा	९६
पुराने घावपर तैल	८४	प्रसूतिज्वरपर पुनः औषध	”

विषय.	पृष्ठाङ्क.	विषय.	पृष्ठाङ्क.
प्रसूतिज्वरपर शर्बत	९७	पीपरिपाक	१०९
दूसरा शर्बत....	"	सुपारीपाक	११०
अथ तृतीयखण्ड ३.		चोबचीनीपाक	११२
नामर्दोंको दवा सेवन		अदरखपाक	११३
करनेकी विधि	९८	आम्रपाक	११४
मुंजिश	"	दाडिमपाक	"
जुलाब यूनानी	"	हरिद्रापाक	११५
इच्छाभेदी जुलाब	९९	नारियलपाक	११६
नामर्दी पर तैल	"	कुचिलापाक	"
नामर्दीपर लेप	१००	भिलावाँपाक	११७
दूसरी मालिश	"	गोखरूपाक	११८
बृहत्पाक अनेक रोगोंपर	१०१	कुम्हडापाक	११९
प्रमेहनाशक दवा	१०२	पुष्टिमधुपाक	१२०
उदररोगपर दवा	"	महापाक	१२१
कामदेवमंजरी मोदक	१०३	प्रथम पाक नामर्दीपर	१२२
कामदेवमोदक रसायन	"	द्वितीय पाक "	१२३
कामसंदीपनमोदक ...	१०४	तृतीय पाक "	१२४
कामदेवपञ्चरत्न चूर्ण	१०५	चतुर्थ पाक "	१२५
प्रथम पुष्टिकरण चूर्ण	"	आँवलापाक	१२६
द्वितीय " "	१०६	एरण्ड (अण्ड) पाक	१२७
तृतीय " "	"	खण्डघृतपाक	१२८
चतुर्थ " "	१०७	पिस्तापाक	१२९
पञ्चम " "	"	नामर्दको पुष्टिकरण	"
धातुबलवर्द्धक योगराज	"	त्रिफलादियोग	१३०
कामदेव गुटिका	१०८		

विषय.	पृष्ठांक.
पुष्टिकी दवा	१३१
महापुष्टिकी दवा	,,
अवलेहविधि	१३२
कण्टकारीअवलेह	,,
,, ,, दूसरा	१३३
कुम्हडा अवलेह	१३४
शमूलादि अवलेह	,,
अष्टोत्तरीकुरैयादि अवलेह	१३५
घृत कल्याण	,,
लकी विधि (पिप्पल्यादि घृत)	१३६
क्षीरषट्पलघृत	१३७
चांगेरीघृत. (मूसलीघृत)	,,
कामदेवघृत	१३७
नीरकल्पनाघृत(त्रिफलादिघृत १)	१३८
महीत्रकृत प्रातघृत	१३९
कौशीशघृत	,,
जातीफलादिघृत	१४०
बन्दघृत (चित्रकादिघृत)....	,,
त्रीफलाघृत	१४१
मौरादघृत (हरिद्रादिघृत)....	,,
मशुरादघृत (यष्ट्यादिघृत)	१४२
त्रिफलादिघृत (२)	,,
पञ्चतक्रघृत	१४३
त्रिफलादिघृत (३)	,,
गर्भकरणयोग	,,

विषय.	पृष्ठांक.
अमृतयोग प्रदरादिरोगपर	१४४
धान्यादिविजययोग	,,
खर्जूरामृतकल्प	१४५
विजयादिमोदक	,,
हरिद्रादिमोदक	१४६
गुडूच्याद्यमृतयोग	१४७
सर्जरसादियोग	१४८
धातुओंके फूकनेसे वंशक्षय– होनेन होनेका विचार	,,
अथ चतुर्थखण्ड ४.	
नाडीपरीक्षा	१५०
शरीर कथन	१५१
सप्त त्वचा	१५३
मेद पांच....	१५४
भोजन परिणाम	१५७
वारतोरकीरनके नाम	१६०
पाण्डुरोगके पांच भेद	,,
कामलारोगके भेद....	,,
हलीमक	१६१
रक्तपित्तके चार भेद	,,
कासरोगके पांच भेद	,,
शोषरोगके छः भेद	,,
श्वासके पांच भेद	,,
हिक्काके पांच भेद....	,,
अरोचकके ,, ,, ...	,,

विषय.	पृष्ठांक.
छर्दि (वमन) के पांच भेद	१६२
स्वरभङ्गके छः भेद	,,
मूर्च्छाके छः भेद	,,
मदात्ययके चार भेद	,,
दाहरोगके सात भेद	,,
उन्मादरोगके छः भेद	,,
,, ,, पन्द्रह भेद	१६३
पित्तप्रकृति (लक्षण)	,,
कफप्रकृति ,, ...	१६४
तीनों दोषप्रकृति	,,
रोगोत्पत्तिवर्णन	,,
अतीसारके छः भेद	१६५
संग्रहणीके चार भेद	,,
प्रवाहिका (मुर्री) के चार भेद	,,
अजीर्णके छः भेद	,,
अपस्मार (मृगी) के चार भेद	१६६
आमवातके चार भेद	,,
उदावर्त १३ प्रकार	,,
हृदयरोग ८ प्रकार	,,
मूत्रापात १३ प्रकार	,,
मूत्रकृच्छ्र ८ प्रकार	१६७
प्रमेह २० प्रकार	,,
प्रमेहसे उत्पन्न १० प्रकारकी फुन्सी	,,
हाला धात ८ प्रकार	,,

विषय.	पृष्ठांक.
अंड भग ८ प्रकार	१६७
अग्निदग्धके चार भेद	१६८
भगन्दरके पांच भेद	,,
शूकरोगके १८ भेद	,,
कुष्ठरोगके १८ भेद	,,
वातरक्तके पांच भेद	,,
वातरोगके चौरासी भेद	१६९
रक्तके १० रोग	१७०
मुखरोगके ६७ भेद	,,
ओष्ठरोग ८	,,
दन्तमूलरोग १६....	,,
दन्तरोग ८	१७१
जिह्वारोग ५	,,
तालुरोग ९	,,
कण्ठरोग १८	,,
सर्वमुखरोग ३	१७२
शिरोरोगके ११ भेद	,,
नेत्ररोगके ७८ भेद	,,
दृष्टिरोग १४	,,
कृष्णभागरोग ४	,,
श्वेतभागरोग ११....	१७३
नेत्रवर्त्मरोग २१	,,
नेत्रयक्ष्मरोग २	,,
नेत्रसन्धिरोग ९	,,
समस्तनेत्ररोग १७	,,

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
औषधप्रकरणप्रारम्भ.	१७४	लवन्यादिकाथ	१८५
पुटपाकविधि.	१७६	चातुर्भद्रककाथ	,,
काथविधि....	१७७	धनापञ्चककाथ	,,
छर्दिदवा	१७८	रास्नादिपञ्चककाथ	१८६
बिजौरादिकाथ	,,	एरण्डसप्तककाथ	१८७
भूनिम्बादिकाथ	१७९	हरीतक्यादिकाथ	,,
पटोलादिकाथ	,,	वीरतर्वादिकाथ	१८८
पञ्चभद्रकाथ	,,	एलादिकाथ	,,
लघुद्राक्षादिकाथ	,,	गोक्षुरादिकाथ	,,
अमलवस्या (अमृताष्टककाथ)	१८०	दार्व्यादिकाथ	१८९
दशमूलादिकाथ	,,	न्यग्रोधादिकाथ	,,
दशमूलादिकाथ हृदयरोगपर	१८१	वेस्यादपंचन (वेसवार पाचक)	,,
कण्ठफलादिकाथ	,,	वरुणादिकाथ	१९१
नगोपाहि जीर्णज्वर	१८२	लघुम ञ्जष्ठादिकाथ	१९२
मुस्तादिकाथ	,,	पथ्यादिकाथ	१९३
कुष्ठादिकाथ विषमज्वरपर	,,	वासादिकाथ	,,
गुडूच्यादिकाथ तृतीयज्वरपर	१८३	पटोलादिकाथ	१९४
देवदार्वादिकाथ चातुर्थिक ज्वरपर	,,	यवागूविधि	,,
भूनिम्बादिकाथ रक्तपित्तज्वरपर	,,	यूषविधि	,,
धान्यादिकाथ आमवातपर	,,	मुजथा	,,
कुटजादिकाथ अतीसारपर	,,	उष्णोदकविधि	१९५
कुटजाष्टककाथ अतिसारपर	१८४	यवागूखिचडी	,,
लोट्टहरादिकाथ	,,	क्षीरपाकविधि	,,
गजपीपलादिकाथ	,,	विलेपीविधि	,,
		पेया (मर्ण्ड) विधि	१९६

विषय.	पृष्ठाङ्क.	विषय.	पृष्ठाङ्क.
मातकी विधि	.... १९६	निम्बकल्क	.... २०३
शोधनदीपनपाचानादियोग	”	महानिम्बकल्क	.... २०४
मण्डविधि ...	.... १९७	लशुनकल्क	.... ”
फाण्टविधि	.... ”	शूलनाशकयोग	.... २०५
मधुपुष्पादिफाण्टविधि	.... ”	रक्तार्श (खूनीबवाशीर) की दवा	.... ”
मन्थविधि	.... १९८	दूसरी दवा	.... ”
खर्जूरादिमन्थ	.... ”	अतीसारकी दवा	.... ”
मसूरादिमन्थ	.... ”	त्रिदोषहरकल्क	.... २०६
हिमविधि	.... १९९	दीपनपाचनकल्क	.... ”
तालीसादिचूर्ण	.... ”	कृमिरोगकी दवा	.... ”
सितोपलादिचूर्ण	.... ”	रक्तार्शहरकल्क	.... ”
पञ्चनिम्बचूर्ण	.... २००	संग्रहणीहरयोग	.... ”
पुष्करमूलचूर्ण हृदयरोगपर	”	चूर्णबनानेकी विधि	.... २०७
यवक्षारादिचूर्ण उदररोगपर	”	भावनाका अर्थ	.... ”
गोक्षुरादिक्काथ मूत्रकृच्छ्रपर....	२०१	त्रिफलादिचूर्ण	.... ”
दूसरी दवा	... ”	परूषकादिचूर्ण	.... २०८
तीसरी दवा	.... ”	त्र्यूषणादिचूर्ण	.... ”
इन्द्रियविरेचन	.... ”	पञ्चकोलचूर्ण	.... ”
रक्तपित्तहरयोग	.... २०२	जीर्णज्वरहरचूर्ण	.... २०९
मरिचादियोग छर्दिरोगपर	”	अष्टवर्गचूर्ण	.... ”
नीलोत्पलादिहिम	.... ”	पञ्चलवणचूर्ण	.... ”
गुडहिम-वासाहिम	... ”	क्षारचूर्ण	.... २१०
धान्यहिम. १	.... ”	त्रिफलादिचूर्ण	.... ”
धान्यहिम. २	... ”	कट्फलादिचूर्ण	.... ”
पिप्पलीकल्क	.... २०३		

विषय	पृष्ठांक.
शृङ्ग्यादिचूर्ण	....२११
आंव-अतिसार पर चूर्ण	,,
गङ्गाधरचूर्ण	,,
शुण्ठयादिगुटिका वादीबवाशीरपर	,,
अतीसारहरगुटिका	२१२
दूसरा योग	,,
मरिचादिचूर्ण उदरव्याधिपर	,,
कपित्थाष्टकचूर्ण	२१३
दाडिमादिचूर्ण कासश्वासपर	,,
लवङ्गादिचूर्ण	,,
जातीफलादिचूर्ण कासश्वासपर	२१४
महावडवानलचूर्ण	२१४
महाचित्रकादिचूर्ण अनेक रोगोंपर	२१५
अनुपानवर्णन	२१६
हबुषादिचूर्ण	,,
उदररोगहरचूर्ण	२१७
पञ्चसमचूर्ण	,,
नाराचचूर्ण	,,
चित्रकादिचूर्ण....	२१८
क्षुधावर्द्धकगुटिका	,,
अग्निसन्दीपनचूर्ण	२१९
अजा दादिचूर्ण	,,

इति रसराजमहोदधिके पञ्चम भागकी विषया-
नुक्रमणिका समाप्त ।

इति

रसराजमहोदधि-पञ्चमभाग-

विषयानुक्रमणिका

समाप्त ।

श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ अथ कालज्वर स्तुति ॥

विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात् ॥ अभ्यपद्यत दाशार्हं दहन्निव दिशो दश॥ अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा व्यसृजज्ज्वरम् ॥ १ ॥ माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभौ ॥ माहेश्वरः समाक्रंदन्वैष्णवेन बलार्दितः ॥ २ ॥ अलब्ध्वाऽभयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः ॥ शरणार्थी हृषीकेशं तुष्टाव प्रयतांजलिः ॥ ३ ॥ ज्वर उवाच ॥ नमामि त्वानंतशक्ति परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम् ॥ विश्वोत्पत्तिस्थानसरोधहेतु यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम् ॥ ४ ॥ कालो दैवं कर्म जीवस्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः॥ तत्संघातो बीजरोहप्रवाहस्त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये ॥ ५ ॥ नानाभावैर्लीलयैवोपपन्नैर्देवान्साधून् लोकसेतून्विभर्षि ॥ हन्स्युन्मार्गान् हिंसया वर्तमानाजन्मैतत्ते भारहाराय भूमेः ॥ ६ ॥ तप्तोऽहंते तेजसा दुःसहेन शांतो प्रेम्णात्युल्वणेन ज्वरेण ॥ तावत्तापो देहिनां तेंघ्रिमूलं नो सेवेरन्यावदाशानुबद्धाः ॥ ७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ त्रिशिरस्ते प्रसन्नोस्मि व्येतु ते मज्ज्वराद्भयम् ॥ यो नौ स्मरति संवाद तस्य त्वन्नभवेद्भयम् ॥८॥ इत्युक्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः ॥ बाणस्तु रथमारूढ; प्रागायोत्स्यजनार्दनम् ॥८॥

इति ज्वरस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

अथ कालज्वर श्रीभगवान् संवाद.


महारोगीकोसजा होतीहै. यमदूत
मारतेहैं. यमराजकेरव म्भसे बांधकर
मारतेहैं.
कुकर्मीरोगीके डंड यमदूत देतेहैं
कहतेहैंकि सोच

अथआठग्रहजन्मतेबारहवर्षतकदुःखदेतेहैं
हाथमें मुसल
हाथमें चलनीं
आदि पूतना ग्रह. गन्धपूतना ग्रह. स्वेत ग्रह. शीत पूतना ग्रह. अहिपूतना ग्रह. रेवती ग्रह. नैगमेय ग्रह. मुखमंडिका ग्रह.
यह आठोंग्रह जन्मसेबारह वर्षतक क्लेश देतेहैं सोइसका उपाय करना चाहिये.

अथ जन्मसे दश दिनमें दश ग्रहों का चित्र. जन्मके पहिले दिनमें वालकके नंदिनी देवीग्रहण करेहैं. दुसरे दिन सुनंदन ग्रह ग्रहण करेहैं. तिसरे दिन घंटाली ग्रहण करेहैं. चौथे दिन कंठकाली ग्रहण करेहैं. पंचमें दिन अहंकारी दवी ग्रहण करेहैं. छटवें दिन षष्ठिका देवी ग्रहण करेहैं. सप्तमें दिन



सिंहिका ग्रहण करेहैं. अष्टमें दिन देवी ग्रहण करेहैं. नवें दिन मेषी ग्रहण करेहैं. दशमें दिन रोदनी ग्रहण करेहैं. इसीको पूतना ग्रहका जमुहा कहतेहैं. इसी ग्रहसे वालकको नाना प्रकारका रोग होताहै बलकिन मार देताहैं इसका शीघ्र उपाय करना चाहिये.



-कके दश ग्रह नाना प्रकारके रोगद्वारा क्लेश देतेहैं. अथ सर्व पूतनाके दूर करनेका
मंत्र इस मंत्रमे हवन करे-ॐ हुं फट् स्वाहा विधिः-सांपकी काचली, लहसुन, मूर्वा,
सिरसम, नीवके पत्ता, विलावकामैल बकराका बाल मेढासिंगी वच, शहद, इन्होंका धूप
ऊपरके मंत्रसे होम करे तो बालकके सर्व ग्रहका नाश होवे

अथ देवकृतगर्भस्तुति प्रारंभ.

श्रीगणेशाय नमः ॥ देवा ऊचुः ॥ जगद्योनिरयोनिस्त्वमनंतोऽव्यय एव च ॥ ज्योतिःस्वरूपो ह्यनशः सगुणो निर्गुणो महान् ॥ १ ॥ भक्तानुरोधात्साकारो निराकारो निरंकुशः ॥ निर्व्यूहो निखिलाधारो निःशंको निरुपद्रवः ॥ २ ॥ निरुपाधिश्च निर्लिप्तो निरीहो निर्जितांतकः ॥ स्वात्मारामः पूर्णकामोनिमिषो नित्य एव च ॥ ३ ॥ स्वेच्छामयः सर्वहेतुः सर्वः सर्वगुणाश्रयः ॥ सर्वदो दुःखदो दुर्गो दुर्जनांतक एव च ॥४॥ सुभगो दुर्भगो बाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः ॥ वेदहेतुश्च वेदांगो सर्वात्मा वेदविद्विभुः ॥ ॥ ५ ॥ इत्येवमुक्त्वा देवाश्च प्रणेमुश्च मुहुर्मुहुः ॥ हर्षाश्रुलोचनाः सर्वे ववर्षुः कुसुमानि च ॥ ६ ॥ द्विचत्वारिंशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् ॥ दृढां भक्तिं हरेर्दास्यं लभते वाञ्छितं फलम् ॥ ७ ॥ इत्येवं स्तवनं कृत्वा देवास्ते स्वालय ययुः ॥ बभूव जलवृष्टिश्च निश्चेष्टा मथुरा पुरी ॥ ८ ॥

इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुरा.





BHAGAT BHAGWANDAS

अथ अश्विनीसे लेकर रेवती पर्यन्त नक्षत्रोंमें बीमार.

अश्विनी	९	१०	७	७	स्वाती	११	२१	२	२३
भरणी	५	७	१५	५	विशाखा	१५	१४	१	५
कृत्तिका	१५	०	१५	५	अनुराधा	१०	११	१२	१५
रोहिणी	१७	१८	२६	२०	ज्येष्ठा.	१	५	११	१८
मृगशिरा.	१५	१७	२१	८	मूल.	१६	१५	१८	८
आर्द्रा.	०	२	७	२	पूर्वाषाढ	०	९	०	३०
पुनर्वसु	७	१२	२०	८	उत्तराषाढ	७	११	१०	०
पुष्य.	७	११	१०	०	अभिजित्	७	८	५	१५
आश्लेषा	७	०	०	०	श्रवण.	११	१८	१७	९
मघा	२१	१५	१७	७	धनिष्ठा	१०	११	१५	७
पूर्वा०फा०	१५	५	९	९	शततारका	१६	२	२०	९
उत्त०फा०	७	१४	८	८	पू० भा०	०	७	८	७
हस्त	१७	८	२०	२	उ०भा०	७	११	१०	०
चित्रा	११	२१	२	१	रेवती.	२	४७	०	०

होय जिस चरणमें बीमार होय इसीसे साध्य असाध्यसे सब रोगको जानना। केदिनमें अच्छा होगा.

१ रवि
२ चन्द्र
३ मंगल
४ बुध
५ गुरु
६ शुक्र
७ शनि
८ राहु
९ केतु.

अथ द्वादश राशि.



अथ अठ्ठाईस नक्षत्रसे बारह राशिसे नवग्रहसे मनुष्यके शरीरमे नाना प्रकारका रोग कष्ट प्रगट होता है सो इस रोग कष्टके दूर करनेके सहज उपाय हैं. पूजा पाठ जप तप दान उपदान गोदान इत्यादि कराना चाहिये तब पाप रोग छूटता है कर्मविपाक कराना तब निदान लक्षणदिखाना अच्छे वैद्य की दवा करे ॥

॥ श्रीः ॥

अथ वैद्यक रसराजमहोदधि ।

पाँचवाँ भाग.

वन्दना ।

गणनायक सिधिदायक, सिद्धि करत सब काम ।
सकल मनोरथ जानहूँ, जपत तिहारो नाम ॥
ब्रह्मा श्रीपति उमापति, रचित सकल संसार ।
स्वर्ग पताल मृत्युलोकको, पालत जन्म संहार ॥
तिनकी मैं अस्तुति करत, बारबार कर जोरि ।
सुभग ग्रंथ सुन्दर बनै, विनय सुनो प्रभु मोरि ॥
बजरंगी काली कालभैरो, दासकर करत सहाय ।
बल रु बुद्धि देवें सदा, संकट हरत बनाय ॥
बन्दों दुर्गा सरस्वति, विद्यागुणकी खाति ।
वैद्यकग्रन्थ पूरणकरो, मूरख बालक जानि ॥
चरक बागभट्ट धन्वंतरी, सुश्रुत अश्विनीकुमार ।
व्यास आदि मुनीश सब, वैद्यक करो तैयार ॥
मुन्शी भगवानप्रसादके, पद बन्दों धरि ध्यान ।
यूनानी मिश्रानी औषधी, दोनों वैद्यक ज्ञान ॥
सब ही देव मनायके, मातु पिता पद बन्द ।

ना करनी ना बुद्धिबल, नहिं पिंगल नहिं छन्द ॥
और भाग पहिले बना, पञ्चम कहूँ तैयार ।
सब मिलिकर रक्षा करो, वैद्यक अगम अपार ॥
जिला जौनपुर मोर है, चकबढबल है ग्राम ।
सुबराजभक्तके पुत्र हम, भगवान्दास है नाम ॥
उभय पुत्र जन्मत भये, मनीराम बलिराम ।
आद्यु देव सब देवता, भक्त देव श्रीराम ॥
सेठ खेमराज शुभ नाम है, पिता श्रीकृष्णदास ।
परमार्थके काज यह, दिया सेठके पास ॥
कार्तिक मास पुनीत है, दशमी वदि गुरुवार ।
संवत् वोनइशसौ छांछठ, भयो ग्रन्थ तैयार ॥
साधु संत अरु सुजन जन, सबके पद नावों माथ ।
भूले शब्द सुधारिये, फिरसे जोड़ों हाथ ॥
पांचवाँ भाग ग्रन्थके, जो दवा करे विधि जानि ।
यश होवे तिहिके सदा, जगमें होवे मानि ॥

इति ।

अथ दूत परीक्षा ।

दोहा–दूतकी चेष्टासे साध्य, असाध्य देय जनाय ।
सकल रोग रोगीका, वैद्यके देवै बताय ॥
जैसे दूरसे धूमको देखि, अग्निकरै अनुमान ।
तैसे रोगी रोगको, वैद्य करै पहचान ॥

अथ दूत लक्षण ।

दोहा–दूत रोगी जातिका, पहिने वस्त्र सफेद ।
ब्राह्मण क्षत्री जातिका, पान खात शुभ भेद ॥
एही दूत श्रेष्ठ लक्षण, और निकृष्ट दूतको मान ।
चतुर वैद्य अनुमानसे, सकल रोगको जान ॥

अथ दूतके कहे अक्षर शुभाशुभ ।

दोहा–दूत मुखसे निकले अक्षर, दुगुने तब करि लेय ।
तीन करि देवै भाग जो, बाकी देय अलगाय ॥
शून्य बचै रोगी मरै, अंक बचै आरोग्य होय ।
वैद्यक पढै जो विधिसे, साध्य असाध्य जनाय ॥

अथ वैद्य गमन निषिद्ध काल ।

दोहा-सन्ध्यारात्रिभोजनसमय, विपरीतकालकोजान ।
बुद्धिमान गमन करे नहीं, सुनहुं वैद्य सुजान ॥

अथ वैद्यकी शुभ बात ।

दोहा--रोगिके घरपर जायके, शयनकरै नहिं रात्रि ।
घरका भोजन त्यागही, जो जाय भूलि कलात्रि ॥
विना बुलाये जाय नहीं, रोगीके मकान ।
मुखपर मृत्यु कहे नहीं, सुन्हु वैद्य सुजान ॥
वैद्यक शास्त्र गुरुसे पढै, कर्मक्रिया सब जान ।
अपन हाथ औषध करै, वैद्य सो जगमें मान ॥

अथ रोगकी आठ परीक्षा ।

दोहा--प्रथम नाड़िपहचानिये, दूजे मूत्र कटोरा देखि ।
तीजे चेष्टा देखिके, सकलरोगको पेखि ॥
मल जीभ नेत्र स्पर्शको, देखै शरीरका अकार ।
आठ परीक्षा आदिहैं, लक्षण नहीं शुमार ॥
रोगपरीक्षा जानिये, लक्षण और निदान ।
साध्य असाध्य विचारिके, दवाकरै गुणवान ॥

अथ स्नेहपान वर्णन।

सनेह पान नरम चीजको कहतेहैं दूध पकाया-हुवा मिश्री मिलायके पीवै दूध मिश्री चावलकी खीर बनायके खावै घी पीवै तब रेड़ीका तेल थोरा थोरा पीवै रोगी रोग बल अवस्था देखिके पीवै तब सब शरीरकी नश नरम परजाय मादा नरम होय और भी बहुत चीजको सनेह पान कहतेहैं सो जानना।

अथ बमनका वर्णन ।

मनुष्यको चाहिये कि बारह महीनोंमें दो दफे बमन करे सनेह पान करिके तब बमनका समान जुहायके बमन लेवै शुद्ध फिटकरी ३ मासे शुद्ध नीला-थोथा २ मासे माजुफल ४ मासे एकमें मिलायके गरम पानीके साथ खावै ठेगुनी मोरके बैठै ऊंट बैठावसे बहुत उत्तम बमन होगा जो बमन खूब होय तो फिर

न खावे नहीं फिर इसीबिधि प्रमाने दूसरे दिन खावे जब बमन होय तो शरीर हलकी होजाय सब इन्द्री प्रकाश होंय और शरीरकी गरमी सब जाती रहै सब इन्द्रियें शुद्ध हों ज्वरका भय जातारहे खून बेकार लगे आवै नहीं दिनपरदिन शरीरमें ताकत बनीरहे भूख लागै मन्द अग्नि नीयरे आवे नहीं आलस जातारहे चैत्रमास और आश्विन मासमें बमन लेवै।

अथजुलाबका वर्णन।

मनुष्यको चाहिये कि बारह महीनोंमें दो बार जुलाब लेवे वमन करके तब मुनसिज पीवै तब जुलाब इच्छाभेदी लेवै तो बहुत अच्छाजुलाब होय जुलाब लिये पर सब वस्तुका परहेज राखै दो महीनातक तो सब इन्द्रीकी गरमी दूर होय दिनपर दिन चेष्टा बढ़ती जावै शरीर पुष्टि होके धातु बढ़ायके बलवीर्य पुष्ट होय रोग कोई पास आवै नहीं ज्वर सपनेमें न आवै भूख लागै शरीरकी सुस्ती जातीरहे फोड़ाफुन्सी होवै नहीं चैत कुवार महीनामें जुलाब लेवै।

अथ वैद्यलक्षण।

धनवाला गुणवाला शीलवाला बुद्धिवाला वैद्यककी सबक्रिया जाननेवाला रोगका निदान लक्षण जानने वाला वैद्यक शास्त्रविषे निश्चयवाला उपकारी परमार्थी

भक्तिमान् वैद्य दयालु शुद्धाचारवाला यशस्वी वैद्य उत्तम श्रेष्ठ है ।

अथ रोगीलक्षण ।

रोगी धनवान् विश्वासका करनेवाला झूठ न बोलनेवाला पथ्यका करनेवाला वैद्यको ईश्वरके समान समुझनेवाला दवा बतायेपरमाने खानेवाला सदाचारी भक्तिमान् होय तब रोग छूटिके निरोग होताहै फिर रोग नहीं होताहै सब शरीर शुद्ध रहताहै ।

अथ निषिद्ध वैद्य लक्षण ।

बिना बुलाये घरघर गांव गांव फिरै रोगीके घरपर जायकर झूठी बातें बनायके अमृत ऐसी बातें बोलै शंख जीरा पत्थर फिटकरी गेरू ईंट कोयला बूकिके सोना चांदी तांबा वंग लोहा मोती मूँगा चन्द्रोदय मालतीबसंत अनेकन रस झूठा बतायके भोला गरीब रोगीको बगदायके मुहमें थपरा मारिके रुपैया लेकर चल देतेहैं रोगी मरै चाहे जीवै उनसे का वास्ताहै वह तो रूपैयाका साथी है आप दूसरी जगह चलदिये इनको त्यागो इससेबिना दवा अच्छा होयँगे परमेश्वरकीकृपासे।

अथ निषिद्ध रोगी लक्षण ।

मैला कुचैला झूठीबात बोलनेवाला जो पाये तो चोरायके मांगिके खावै दिनभर ध्यान लगायेरहे कुपथ्य

करनेको वैद्य कहै तुम पक्का पानी पीलो तब वह कच्चा पीवे वैद्य कहै कि दवा खायेहो तो कहै कि खायेहैं दवा न खायेरहे तब कहै सब क्रिया झूठ कहै इस रोगीको अच्छा वैद्य त्यागकरै।

अथ वैद्यके हितकी बात।

वैद्य नाड़ीका भेद जानिके रोगीका बात पित्त कफ त्रिदोष इत्यादि सब जाने तब मूत्रका कटोरा देखिके बात पित्त कफ त्रिदोष इत्यादि सब जाने तब जीभकी परीक्षा करिके बात पित्त कफ त्रिदोषको जाने सब परीक्षा करना चाहिये जो सब न करे तो तीन परीक्षा अवश्य करे नाड़ी मूत्र और जिह्वाकी परीक्षा अवश्य करे रोगका निश्चयकर तब औषधिका उष्ण शीतल समुझके औषधि करे यही हितकी बातहै।

अथ गुणकी बात।

(१) मनुष्यको चाहिये कि झूठ न बोले (२) सच बोले (३) सबका विश्वास करे (४) धूर्त्त पाखंडी और स्त्रीका विश्वास न करे (५) अधर्म न करे (६) धर्म सदैव करे (७) अपवित्र न रहै (८) मन वाणी और कायासे पवित्र रहै. (९) बहुत भूखा न रहै (१०) अधिक भोजन न करै (११) मार्ग अधिक न चलै (१२) एक स्थान परही न बैठारहै इधर उधर भ्रमण अवश्य

करे (१३) दुष्ट और वैरीका त्यागकरै (१४) सज्जन बुद्धिमान् धर्मात्मा पुरुषका संगकरै (१५) लवण कम न खावै (१६) लवण अत्यधिक न खावै (१७) भोजन कच्चा न खावै (१८) अच्छीतरहसे पकाके खावे (१९) गरीबको दुरियावे नहीं (२०) दया गरीबमात्र पर करै (२१) शिरपर बाल न राखे (२२) बार आठ दिनपर बनवावे (२३) शिरपर छतुरी देइके चलै (२४) जूता पहिनकर चलै (२५) कुटेमसे न खावे (२६) दशबजे दिनके दशबजे रातके खावे (२७) मैले कपडे न पहने (२८) धोवाइके स्वच्छ वस्त्र पहिनै (२९) बासी भोजन न करै (३०) ताजा टटका बनवायके खाय (३१) राक्षसका नाम न लेवे(३२) परमेश्वरका नाम हमेशालेवै(३३)बुराकामनकरै(३४)अच्छाकामकरै(३५) बिगाड किसीसे न करै (३६) प्रीति सबसे करै (३७) धनको बुरे काममें न लगावै (३८) धनको अच्छे काममें लगावे (३९) विवाहमें व्यर्थ खरच न करै (४०) विवाहमें खरच समुझिके करै (४१) विवाहमें व्यर्थ गहना धरनेवाला न बनवावे (४२) गहना उतना बनवावे जितना स्त्री हमेशा पहिरै जमीनमें गाड़नेके वास्ते रुपैया खराब न करै(४३) बरात बहुत न लेइजाय (४४)बरात जितनी बुलावे उसका आधा लेइजाय अपना खानेवाला एक पंक्तिका समुझिके (४५ छः वर्षकी

कन्याका विवाह न करै (४६) सात वर्षसे दस वर्षतक धर्म विवाह है (४७) बराबर वर कन्याका विवाह न करै (४८) कन्यासे वर दूना तिगुना डेढगुणा करे (४९) कन्यापर रुपैया न लेवै बेचै न (५०) धर्म विवाह कर देवे उत्तम बरसे विवाह देवै (५१) जियादा बोझा न उठावै (५२) जितना बोझा अपनेसे उठै उतना उठावै (५३) दुष्ट चण्डाल वैद्यको त्याग करै और उसकी दवा न करै (५४) क्रियावान धर्मी यशस्वी सुशील वैद्यकशास्त्र जाननेवालेकी दवा करै (५५) क्रोध किसीपर न करै (५६) शील दया सबपर राखै (५७) साधु सन्तसे गृहस्थीमनुष्य मित्रता दोस्ती न करै (५८) साधु सन्तको गृहस्थसे जो बनै अन्न कपड़ा देकर पृथक् रहै (५९) जियादा न बोलै (६०) अपना प्रयोजन मात्र बोलै, भाइयो परमार्थ करो यह तन चार दिनका संगी है किसीका कोई नहीं है न बेटा बापका न बाप बेटाका है ।

अथ समुझकी बात ।

संतोष सबपर करै धीर्ज रखै समुझकर कामकाज करै विना समझे कोई काम न करै परमेश्वरपर ध्यान विश्वास रखै गुरूकी बातको मानै शरीरपर तेललगावे कानमें महीनामें चार दफे छोडै शिरपर चार दिनपर तेल लगावे मकान अपना शरीर और

जो कपडा हमेशा पहिरे साफ रखे और अपना उदर साफ करे हमेसा इससे रोग होता है आंखमें अंजन लगावै और नाकके रास्तेसे नास पानीका तो रोज लेवै सबेरेको दांतमें मंजन करे रोज दांतको लकड़ीसे न खोदे कच्चा वस्तु न खाय समुझिके खाय अथाह पानीमें प्रवेश न करे कीरा नाम सर्प वा हाथी सेर भय कारक प्राणियोंसे दूर रहै पराये घर पानी दाना विचारके खाय बहुत कर मोह लालच न करे लालच मूल जोखीम लोक परलोक दोनोंका हानिकारक है।

अथ स्वप्नविचार।

दीपक फल वृक्ष कन्या चक्र ध्वजा रथ बैल गौ हस्तीपर असवार रोता हुआ अपनेको मराजाने अयोग्य स्त्रीसे भोग करे राजाका दर्शन घोड़ा सोना मनुष्यका मांस भोजन सफेद फूल सफेद कपडा दही मछरी ब्राह्मण दर्शन जीयतमित्र संगी तीर्थ जलतीअग्नि विष्ठा लेपन देवता मंदिर कमलके पत्रमें दूध दही खाय वो नवीन चावल आसन शय्या रथ पालकी शरीर अश्वादिक अग्निसे जलती देखै दही तलावमें कमलपत्तापर खावै शरीरकाट जाय शरीरमेंसे खून निकले सफेद सर्प डसलेवै यह सब सपनामें देखै तो शुभ है कुल परवारभर आनन्द होय यह सपना धन देनेवाला

है रोगी देखे तो बहुत जल्द आराम होय वो धन प्राप्त होय और बुरा सपना यह है चमाइन मुसहीन नीच जात मैलाकपडा पहिने नाचत गावत मिले ऊंट गदहा बैल शींगवाला जानवर एकमें जोड़ा दक्खिनको जाय तो अशुभ है काले कपडे काले फूल काले तिलक लगाये देखे तो मृत्यु होय नंगे मूड़मुडाये लँगड़े लूले अन्धे काना गदहा भैंसा ऊँटपर सवार होयके दक्खिन जाय दीपक बुझजाय पकवान भोजन कुवामें गिरजाय यह सपना बुरा है अशुभ है बीमार देखे तो मृत्यु होय अच्छा आदमी देखै तो बीमार होय ये सब सपना देखै तो किसीसे कहै नहीं देवताका दर्शन तीन दिन करै तो थोड़े दोषसे रहित होय।

अथ चिकित्सा लक्षण।

मनुष्यकी १०१ मृत्यु हैं जिनमें १०० मृत्यु तो आगन्तुक हैं १ कालयुत है दवाविना आगंतुक मृत्यु भी मार देवै है जैसे दीपक बत्ती और तेलसे पूरित है पर वायु उसे बुझाय देवै है इसी प्रकारसे आयुक्षतको रोग मारदेवै है दीपकको पवनका बन्दोबस्त करै पवन दीपकपर लगने न पावै और इसीके मुताविक रोगकी दवा न करै तो रोग मारदेवे तो रोगके दूर होनेके वास्ते अनेक प्रकारकी गोली चूर्ण भस्म रसायन दवा

तैयार हैं लिखा है करे करावे तो परमेश्वरकी कृपासे सब रोग दूर होजाय और वैद्य रोगका मालिक है उमर आयुका मालिक नहीं उमर आयुका मालिक परमेश्वर है ।

अथ बात पित्त कफका महीना ।

मार्गशिर १ पौष २ माघ ३ अषाढ ४ श्रावण ५ भाद्रपद ६ इन छः महीनामें बातका राज्य है आश्विन १ कार्तिक २ बैशाख ३ ज्येष्ठ ४ इन चार महीनोंमें पित्तका राज्य है फाल्गुण और चैतमें शीतलजलसे उपजा हुआ पीड़ाकारक कफका राज्यहै कफको तीक्ष्ण औषधसे बैरी समान दूरकरै और बातको सचिक्कण औषधसे मित्र समान जीते पित्तको जमाई समान मधुर व शीतलसे जीते कफकोपमें बमन व हुलास देवै पित्त कोपमें विरेचन करावे बातको शोधन करै सबके मिलापमें सब कर्म करै बातकोप कारण दिव्य विचारके समुझिके यत्न करै ।

अथ नेत्ररोगकी दवा ।

हीराकौशीश सेन्धानोन रसौत घी सहत बरोबर लेकर अंजन बनाय लेवै थोरा अंजन स्त्रीके दूधमें मिलायके आंखमें अंजन करै रोज साम सबेरेको तो सबलबायुरोग दूर होय पानीका गिरना ललाई सबको नाश करै ।

अथ शिरदर्द आंखपीडाकी दवा।

त्रिफला दालचीनी मुलहठी महुवाफूल सब बराबर लेकर कूटि कपड़छान करके यह दवा १ तोले घी १ तोले सहत १ तोले मिलायके खावै तो शिरपीड़ा नेत्र रोग सब दूर होयँ महा बल बुद्धि होय छः महीना सेवै।

अथ शिर दर्दकी दवा लेप।

तितलौकी पुराने अण्डकी जड़ सोंठि आकासबँवर तिह्नी पानीमें पीसि गायकी दही मिलायके रखदेवै रोज साम सबेरे शिरपर लेप करै सातरोज तो फिर बनावै इसी बिधिप्रमाने तब लेप करै तो शिरपीड़ाका नाश होय।

अथ आंख शिर पीड़ाको नास।

भांगराका रस केसर छेरीका दूध मिलाय १५ मिनट सूर्यके सामने रक्खै तब नाश लेय साम सबेरेको रोज तो परमेश्वरकी कृपासे सब कष्ट दूर होय।

अथ लकवाअर्धाङ्गकी दवा।

सोंठि बच केसर सनईबीआ पांच पांच तोले लेकर कूटि कपड़छान करिके सात भावना ब्रह्मडंडीके रसमें देवै सात भावना ब्रह्मीके रसमें देवै सात भावना भटकटैयाके रसमें देवै सुखायके २ मासे सबेरे साम खावे गायका दूध पीवै शहतके साथ तो परमेश्वरकी कृपासे अपस्मार उन्माद लकवा अर्धांग सब दूर होय जीभपर अकडकढ़ा सोंठि मिर्च घीके साथ मलै रोगी पथ्यसे रहै और विकारी चीजोंको न खावे।

अथ गर्भिणी स्त्रीकी दवा ।

महुवा चन्दन बाला सारिवा मुलहठी पद्माख इनके काढ़ामें मिश्री और सहत मिलाय पीनेसे गर्भिणाका ज्वर शान्त होताहै ज्वरका उपद्रव देखिके देवै ।

अथ दूसरी दवा ।

चन्दन सारिवा लोध मुनक्का दाख इनके काढ़ामें मिश्री मिलाकर पीनेसे गर्भिणीका ज्वर जाताहै ।

अथ तीसरी दवा ।

दूधी सारिवा पाढा बाला नागरमोथा इनका काढ़ा पीनेसे गर्भिणी स्त्रीका ज्वर जावै ।

अथ चौथी दवा पित्तज्वर पर ।

मुनक्का दाख बाला पद्माख शालपर्णी चन्दन मुलेहठी दूधी सारिवा आँवला इनका काढ़ा पीनेसे गर्भिणी स्त्रीका पित्तज्वर जावै ।

अथ विषमज्वर पर ।

सोंठिको बकरीके दूधके साथ पीनेसे गर्भिणीका विषमज्वर जावै पथ्यसे रहे खट्टा तीतामीठा त्यागकरे ।

अथ गर्भिणीको संग्रहणी पर दवा।

मजीठ लोध मुलहठी इनका चूर्ण मिश्री मिलायकर खानेसे ज्वरातिसार प्रवाहिका आमातिसार रक्तातिसार संग्रहणी गर्भिणीके इन रोगोंको नाशै है ।

अथ पुनः संग्रहणीपर दवा।

आम जामुन आँवला तीनोंको थोडा चूर्णकर काढ़ा मिश्रीमिलाय पीनेसे गर्भिणीकी संग्रहणी जावे।

अथ छर्दिपर दवा।

शुंठके काढ़ामें यवोंका सत्तू मिलाय पीनेसे गर्भिणीका छर्दि जावे अतीसारभी जावे पथ्यसे खावे।

अथ कासश्वास पर दवा।

पृष्टि खरैहटी बाँसा इन्होंका रस पीनेसे गर्भिणीका कामला सोजा खाँसी श्वास ज्वर रक्तपित्त ये जावैं।

अथ गर्भिणीके छर्दि पर दवा।

धनियाँको चावलोंके पानीमें पीस कलक बनाय मिश्रीमिलाय खानेसे गर्भिणीकी छर्दि जावे।

अथ गर्भिणीस्त्रीके सर्वज्वरपर।

एक पाव धनियाँको चार सेर पानीमें चुरावै जब पानी डेढसेर रहै तब धनियाँको कूटिके पानीमें छोड़के बरतनका मुहु बन्द करै एक प्रहरके बाद नीरापानीको छानके रख देवै उसी रसमें मिश्री छोड़के पीवै तब सर्वज्वर छोड़ देवै लेकिन साम सबेरे देवै जो सर्दी मालूम होय तो सामके बखतमें न देवै।

अथ बालकके ज्वरकी दवा ।

एकमहीनाके जन्मेहुए बालकको लेकर एकवर्षतकके बालकको पहिले इस दवाको देवै पीपरी सेन्धानोंन मिसरी बूँकिके बालककी अवस्था तजवीजके सहत घीके साथ देवै तो बालककी अनेकन बीमारियोंको नाशै ज्वर दूर होय ॥

अथ दूसरी दवा ।

जामुनका शिर्का सेन्धानोंन आदीका रस पीपरी सहत मिलायके देनेसे बालकका सब किस्मका ज्वर पेटदर्द शूल शरदी मलका विकार सबको नाशै दूध न पीयता होय तो पीवै ।

अथ बालकके बाबत बयान ।

जो पूरी अवस्था २५ वर्षके सब बीमारीमें दवा लिखी है सो दवा बालकको देवै लेकिन बालककी अवस्था बल तजवीज करके दवाका मोताद तजवीज करके समुझिके दवा देवै ।

अथ बालककी फिर दवा ।

भांग २ तोले पीपरि २ तोले सोंठि २ तोले इन्होंको कूटि कपड़छान करिके सहतके साथ देनेसे बालकका अतीसारज्वर नाशै ।

अथ फिर दवा ।

मुलहठी बड़ीइलायची पीपरि मिश्री बराबर बूँकिके सहतमें बालकको देवै तो रोज (सतत) ज्वरको नाशै ।

अथ सर्वज्वरको रस ।

चाँदीरस सोनारस लोहारस बराबर भाग लेकर एकमें खरल करके एक चावलभर पानके बीड़ामें साम सबेरे खाय तो सर्वज्वरको नाशै तेरहसन्निपातको नाशै यह राजत्रिबंगरस है वैद्यको धन यश देनेवाला है रोगीका रोगनाश करै शरीरकी कांति बल बुद्धिको बढ़ावै पथ्यसे खावै ।

अथ सर्वज्वरको दूसरा रस ।

मूंगारस हरतालरस चाँदीरस मोतीरस सोनारस सबको बराबर लेकर रुद्रवन्तीके रसमें ब्रह्मडंडीके रसमें काकजंघाके रसमें काकमाचीके रसमें खरल करिके सर्वज्वरपर देवै बालक ज्वान वृद्ध स्त्री सबको रोग माफिक देवै बल विचार मोताद देखिके देवै यह रस पञ्चरसायनरस है ।

अथ सर्वज्वरको तीसरा रस ।

मूंगा मोती शंख बांघी कौड़ी छीप यह पांचो बीस तोले लेकर बिधि प्रमाणे शुद्ध करै तब घीकुमारिके रसमें मिलायके अध गजपुटमें फूंकि देवै तब निका-

लके निंबूके रसमें खरल करके पांच दफे फूंकै तब तुलसीके रसमें खरल करिकै पांचदफे फूंकै कमलके रसमें खरल करके एक दफे फूंकै तब पारा भस्म ५ तोले मिलायके रुद्रवंतीके रसमें खरल करै एक गजपुट आंच देवै तब घीकुमारिके रसमें खरल करै तब पांच सेर कण्डाकी आंच देवै तब घीकुमारि रसमें खरल करै तब पांच सेर कण्डाकी आंच देवै यह रस एक प्रकार अमृतरस सर्व प्रकारके ज्वरको तेरहो प्रकारके ज्वरको नाशै जितना ज्वर शरीरमें है जितना रोग है सब पर यह रस देवै अनुपान विचार रोग विचार रोगीकी अवस्था विचारके देवै सब किसमका पथ्य करै जैसारोग होय वैसा गायका घृत दूध सेवै दालमूंगकी पुराना चावल गेहूँकी रोटी खावै सर्व रोग जावै ।

अथ प्रथम महीनाकी दवा ।

मुनक्का दाख मुलहठी चन्दनसफेद चन्दनलाल इन्होंको गायके दूधमें पीसि पीनेसे प्रथम महीनाका गर्भ स्थिर रहै शूल शांति होय ।

अथ दूसरी दवा ।

नीला कमल बालासिंगाडा कचरा इन्होंको ठंढे पानीके संग पीनेसे व गायका दूध मिलाय पीनेसे प्रथम महीनाका गर्भ स्थिर रहै ।

अथ दूसरे महीनाकी दवा।

जो दूसरे महीनामें गर्भ चलायमान होय तो कमलकी डंडी और नागकेसर गायके दूधमें पीसके पीवे तो दूसरे महीनाका गर्भ स्थिर रहै जो शूल चलै तौ तगर कमल बेलफल कपूर इन्होंको बकरीके मूत्रमें पीसि गायका दूध मिलाय पीनेसे शांति होय।

अथ तीसरे महीनाकी दवा।

जो तीसरे महीनामें गर्भ चलायमान होय तो नागकेसरको दूधके संग पीसि पीनेसे गर्भ स्थिर रहै लेकिन मगरा खाँड़ मिलाय पीवै जो शूल उपजै तो पद्माख चन्दन बाला कमलकी नाल इन्होंको शीतल पानीमें पीस गायका दूध मिलायके पीवै तो गर्भ पडे नहीं, शूल शांति होय।

अथ चौथे महीनाकी दवा।

जो चौथे महीनामें गर्भ चलायमान होय और तृषा शूल दाहज्वर होय तो केलाकन्द नीला कमल बाला इन्होंको गायके दूधके संग पीनेसे सबरोग शांत होय।

अथ पांचवें महीनाकी दवा।

पांचवें महीनामें गर्भ चलायमान होय तो अनारके पत्ते चन्दन इनको दूध व दहीमें पीसकर पीनेसे शान्त होय।

अथ छठे महीनाकी दवा।

जो छठेमहीनामें गर्भ चलायमान होय तो गेहू गौके गोबरकी राख कालीमट्टी इन्हनका काढा कर दूध मिश्री मिलाय चन्दन पीनेसे गर्भ स्थिर रहै।

अथ सातवें महीनाकी दवा।

जो सातवें महीनामें गर्भचलायमान होय तो बाला गोखरू नागरमोथा लजवंती नागकेसर पद्माख इन्हनका काढा करे खांड़ मिलायके पीवै तो गर्भ स्थिर रहै।

अथ आठवें महीनाकी दवा।

जो आठवें महीनामें गर्भ चलायमान होय तो लोध और पीपलीका चूर्ण मिलाय सहतके साथ चाटनेसे गर्भ स्थिर रहै।

अथ नववें महीनाकी दवा।

जो नौवें महीनामें गर्भ चलायमान होय तो दूध गायके घीसे पोषण करावै दशवेंमेंभी इसी बिधि प्रमाने करावै दशवेंमें लड़का पैदा होवै ग्यारहवें और बारहवें महीनामें भी लड़का पैदा होय है।

अथ जवारीश संग्रहणीपर।

बालछड़ अजवायन सोंफ सोंठ नागरमोथा माई गुलाबफूल बड़ी इलायची सब डेढ डेढ तोले अमल-

तास २ तोले लेवे सौंफ अजवायन भून लेवै सबको कूटि कपड़छान करिके २२ तोले मिश्रीकी चासनी करके उसमें मिलायके खावै तो अजीर्ण पेटका फूलना अरुचि संग्रहणी पुरानाज्वर सबको नाशै मन्द अग्निको नाशै भूँखको लगावे ।

अथ जवारीश दूसरी ज्वरपर ।

मुलहठी सौंफ बड़ी इलायची आठ आठ तोले लेवै सौंफ थोग भून लेवै कूटि कपडछान करके मिश्री २७ तोलेकी चासनी करके इसीमें ऊपरकी दवा मिलाय देवै खुराक ६ मासे तो जीर्णज्वर मन्दाग्निको नाशै शरीरमें ताकतदेवै सुस्तीको मिटावै भूखको बढावै।

अथ शर्बत पित्तज्वरपर ।

इमली १ तोला ईसबगोल १ तोला दोनोंको एक पाव पानीमें सामको भिगोय देवै सबेरे हाथसे मसलके छानके ३ तोले मिश्री मिलायके पीवै तो पित्तज्वर पुराने ज्वरको नाशै कलेजेकी गरमी दूर होय पेसाबकी जलनको नाशै भूख लागै मन बिगड़ेको साफ करै ।

अथ शर्बत पित्तज्वरपर दूसरा ।

सौंफ ३ मासे मुलहठी १ मासे बड़ी इलायची आधा मासे कमलगट्टा १ मासे तीन छटाक पानीमें

पीसिके ३ तोले मिश्री छोड़के पीवै तो पित्तज्वर पुराना ज्वर कलेजेकी गरमीको नाशै है ।

अथ सर्वज्वरकी दवा ।

गुलाबका अर्क मकोयका अर्क सौंफका अर्क तीनों अर्क मिलायके पीवै तो वातज्वरको नाशै मिश्रीके संग अर्क पीनेसे पित्तज्वर नाश होय आदीरसके संग अर्क देनेसे कफज्वर नाश होय और ज्वरको जैसा गरम शीतल देखै वैसा गरम सरद अनुपान तजवीज करके अर्क देवै ।

अथ सर्वज्वरपर गोली ।

पांचो खार ५ तोले पांचो नमक ५ तोले सोंठ २ तोले मिरच २ तोले पीपल २ तोले हरताल २ तोले फिटकरी २ तोले नौसादर २ तोले इन सबको कूटि कपड़छान करै और पारा शुद्ध ४ तोले शुद्ध गन्धक ४ तोले खरल करिके सब एकमें मिलायके आकके दूध और पत्ताके रसमें खरल करै फिर नींबूरसमें खरल करै फिर गजपुट आंच देवै फिर घीकुमारके रसमें खरल करके फिर फूँकै फिर रुदवंतीके रसमें खरल करके फूंकै त्रिफला ७ तोले मिरच २ तोले कूट कपडछान करके एकमें मिलायके ब्रह्मडंडीके रसमें एक दिन खरल करै सहदेइयामें एक दिन खरल करै आदीरसमें

एक दिन खरल करै ब्राह्मीमें एक दिन खरल करै भंगराके रसमें खरल करै छोटी मटर बराबर गोली बनायके जिस रोगीको दिया जायगा उस रोगीको गुण होगा, वातज्वर पित्तज्वर कफज्वर सबज्वरको अनुपानके साथ नाश करै श्वास कास दमा उदररोग पाण्डु अजीर्णरोग अरुचि सब रोगको नाशै पेटका कृमि झीलीमेंका कृमि सब दूर होय भूख लागै ।

अथ सर्वज्वरपर वनस्पती ।

कुकुरभंगरा और भृगराज हारसिंगारकी पत्ती सहदेइया सब बराबर ले पानीमें पीस काली मिर्च पीसी छोड़के पीवै तो सब ज्वर नाश होय ।

अथ सर्वज्वरपर दवा दूसरी ।

तुलसीपत्र ब्रह्मडंडी काली मिरच बराबर लेकर पानीमें पीसके रोग बल देखिके देवै तो वातज्वर पित्तज्वर कफज्वर आठों ज्वरको नाशै बलकिन सन्निपातज्वर, अजीर्णज्वरको नाशै पेटकी वातको मन्दाग्निको सबको दूर करै भूख लागै शरीरका सूजन जलन दूर होय ।

अथ सर्वज्वरकी तीसरी दवा ।

कूट मिरच हुरहुरकी पत्ती सांठिकी जड भरभरवाकी

जड़ बराबर ले पीस छानके पीवै सर्वज्वरको नाशै जीर्णज्वरको नाशै तापतिल्ली उदररोग सबको नाशै ।

अथ जीर्णज्वरपाचक ।

नौसादर कलमीसोरा फिटकरी जवाखार सज्जीखार पापरखार टङ्कनखार बंजरखार बिडनोन खारीनोन कटीलानोन सांभरनोन सेन्धानोन पारा गंधक इन सबको एक एक तोला लेकर कूटके निम्बूके रसमें खरल करके मूसाके अन्दर भर कपड़मिट्टी करके हाथ भर गड़हाके अन्दर फूँकि देवै तब निकालके बच्छनाग विष शुद्ध २ तोले मिरच ५ तोले सोंठ ५ तोले सबको एकमें खरल करके एक दिन निंबूके रसमें खरल करै एक दिन आदीके रसमें खरल करै जैसा रोगी देखै तैसा विचारके अनुपानके संग देवै सो मंदाग्निको हरै भूँखको बढावे शरीरकी सुस्ती मिटावै अजीर्ण नाश होय ।

अथ ज्वररोगीको जुलाब ।

सनायपत्ती १॥ तोले सोंफ १॥ तोले हर्रैछोटी ५ मासे गुलाबफूल ५ मासे मुनक्का ५ मासे इन सबको थोडा कूटकर एकसेर पानीमें सामको भिगोयदेवे सबेरे अग्नि पर चुरावै जब तीन छटाक रहजाय तो रोगके बलाबल देकर मिश्री सहित सेन्धानमक व कालानमक गुल-

कंदके साथ देवे तो दो दस्त होनेसे पेट साफ हो जावेगा। और शरीरकी गर्मी शांत हो और पेट फूलना बन्दहो।

अथ दूसरी दवा।

सनायपत्ती सौंफ उसषा मगरबी मुनक्का मिश्री इन सबको बराबर लेकर कूट कपडछान करके सोपारी बराबर रोगीको देवे तो एक दस्त होय भूँख लागै।

अथ गर्भिणीनियम।

गर्भिणी स्त्री गर्भ धारणदिनसे प्रसवपर्यंत प्रसन्नचित्त पवित्र रहै आभूषणोंको पहिने रहै विशेषकर श्वेत वस्त्र पहिने संत मंगल देवता गुरू ब्राह्मण इनमें प्रीतिको बढावै मलिन विकृत हीनगात्र इनका स्पर्श न करे व्यर्थ कथा आदि न कहै और सूखा बासी क्वथित भीजाहुआ ऐसे अन्नोंको भोजन न करे अधिक इतस्ततः भ्रमण न करे। शून्यगृहमें न रहै वृक्षके नीचे न बैठे चैत्य और श्मशान भूमिमें न जावै क्रोध आदि संस्कारोंको त्याग देवै और उच्चस्वरसे भाषण न करै सत्य बोलै झूठ न बोलै और पथ्यसे रहै निषिद्ध वस्तुका त्याग करै।

अथ गर्भिणीको शय्या।

आसन बहुत कोमल और स्वच्छ रहना चाहिये और अधिक ऊंचीशय्या और आसनपर गर्भिणी न बैठे

प्रिय मनोहर विशेष कर चिकना दीपनीय गुणसंयुक्त ऐसा भोजन गर्भिणी करै ।

अथ गर्भिणीको अन्न ।

गर्भिणीको प्रथमके दो मासोंमें साठीके चावलका भात गायके दूधके साथ खानेको देवै और तीसरे महीनामें गर्भिणीको हलका भोजन देवै चौथे पाँचवें महीनामें गर्भिणीको दहीके संग चावलोंका भोजन देवे । छठवें महीनामें गर्भिणीको घृतमिलायके भोजन देवै सातवें महीनामें बिदारीकंद और घृतमिलाय भोजन देवै और आठवें महीनामें गर्भिणीको नरम चिकना अन्न दूधमें मिलायके देवै इसी विधि प्रमाने नवें महीनामें देवे लेकिन् नववें महीनासे लगायत बालकका जन्म होताहै ।

अथ ऋतुकालमें उपचार ।

कपडे आनेमें अर्थात् रजोधर्ममें स्त्रीके नियम कहते हैं । प्रथम दिनसे तीनदिनतक नारी ब्रह्मचर्यसे रहै और दिनमें सोवै नहीं नेत्रोंमें अंजन आंजे नहीं और रोदन करै नहीं औ नहाना अनुलेपन उबटना नखच्छेदन बाहर गमन हँसना अधिक बोलना वायुका सेवना परिश्रम इनको त्यागदेवै जो नारी दिनमें सोवै तो तन्द्रारोग गर्भस्थ बालकको उपजेहै नेत्रोंमें काजल आँजे तो गर्भ अंधा उपजे रोदन करै तो गर्भका दन्त ओष्ठ जीभ ये

श्याम रंग होजावें अधिक बोले तो बालक प्रलाप कर नेवाला उपजे पवनके परिश्रमसे बालक उन्मत्त उपजे और जब स्त्री रजोधर्मवती होवे तो तीन दिन तक अपने पतिका मुख देखे नहीं यह सब नियम तीन दिन तक धारण करे पीछे चौथेदिन शुद्ध जलसे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पतिके संगमें भोगविलास करे।

अथ गर्भरहनेका दिन।

कपड़े आनेसे चार दिन तक तो स्त्री अशुद्ध रहतीहै जब चौथे दिन स्नान करे तो शुद्ध होतीहै उस दिनसे चौथे दिन छठे दिन आठवें दिन दशवें दिन बारहवें दिनमें भोग करनेसे पुत्र उत्पन्न होताहै पांचवें दिन सातवें दिन नवें दिन एकादशवें दिन त्रयोदशवें दिन भोगनेसे कन्या उत्पन्न होती है और परमेश्वरकी गति अलेख है राईसे पर्वत पर्वतसे राई बनाते हैं।

अथ प्रथम मास।

पहिले महीनामें गर्भाशयमें कलीला सरीखा गर्भ होताहै।

अथ दूसरा मास।

दूसरे महीनामें शीत उष्ण बायु इन्होंसे पच्यमान महाभूतोंसे गर्भ घनरूप होजावै है जो पिंड सरीखा

गोल गर्भ होनेसे पुत्र जानो जो लम्बासरीखा होय तो कन्या जानो जो अर्बुद सरीखा गर्भ होय तो नपुंसक जानो ।

अथ तीसरा मास ।

तीसरे मासमें गर्भके दो हाथ दो पैर माथा ये पांच पिंड उपजैहैं और अंग प्रत्यंगका सूक्ष्मविभाग भी हो जाताहै ।

अथ चौथा मास ।

चौथे महीनामें सब अंग प्रत्यंगोंका विभाग प्रगट होता है इसवास्ते चौथे महीनामें गर्भ शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे युक्त होताहै ।

अथ पांचवां तथा छठवां मास ।

पांचवां छठवां महीनामें गर्भके बुद्धि उपजेहै चेतन्य होताहै ।

अथ सातवां मास ।

सातवें महीनामें सब अंग प्रत्यंगका विभाग गर्भके प्रगट होवैहै ।

अथ अष्टम मास ।

आठवें महीनामें गर्भके बल स्थिर होवे है और इस महीनामें जन्मै तो बालक जीवे नहीं बलहीन होनेसे अथवा राक्षसोंका भागवाला होनेसे इसवास्ते

आठवाँ महीनामें उड़द चावलका बलिदान करना चाहिये पश्चात् नवमें दशवें एकादशमें तथा बारहवें मासमें बालक जन्मे है यह वैद्यकका सिद्धान्त है।

अथ गर्भका कारण।

गर्भके अंगप्रत्यंग विभागकालमें जैसे गुण अवगुण पाप पुण्य नारीके शरीरमें होतेहैं वैसेही बालकके उपजतेहैं और धर्म सर्वसुखका हेतुहै इस लोक तथा परलोकमें धर्मही सहाय करता है। चौरासी लक्ष योनियोंसे पार करनेवाला एक धर्मही है।

अथ गर्भवतीका सेवन।

जिस दिनसे स्त्रीको गर्भरहे उसी दिनसे गरम शीतल वस्तुका परहेज रक्खे स्त्रीको जो भोजन नुकसान करे वही विकार बालकको करेहै इसमें कोई सन्देह नहीं है इसलिये पुष्टिकारक चिकना घी दूधका भोजन करे।

अथ बालकजन्मसे पोसन।

जब स्त्रीको बालक जन्मे उसीदिनसे स्त्रीको अछवानी बबोरि बनायके खिलावै पुष्टिदायक हलुवा मोदक खिलावै बहुत तरहसे पथ्य करावै शीतल वस्तुका पथ्य राखै क्योंकि गर्म शीत दोनों मिलनेसे धातु विकार उत्पन्न होताहै उससे दूध विकृत होकर बाल-

कको पूतना रोग होजाताहै अतः सर्दीसे रक्षा करना आवश्यक है।

अथ अजीर्णका वर्णन।

शरीरमें बहुत रोग अजीर्णसे प्रगट होते हैं अजीर्ण चार प्रकारका होताहै आमाजीर्ण १ विदग्धाजीर्ण २ विष्टब्धाजीर्ण ३ रसाजीर्ण ४ ऐसे चार प्रकारके हैं।

अथ लक्षण।

जामें जल्द डकार आवे उसे आमाजीर्ण कहतेहैं, जामें पेटमें पीड़ा हो उसे विदग्धाजीर्ण कहते हैं, जामें अंगका भंग होजावे उसे विष्टब्धाजीर्ण कहते हैं, जामें बहुत जंभाई आवें उसे रसाजीर्ण कहते हैं। आमाजीर्णमें गरम पानी पीना हित है, बिदग्धाजीर्णमें पेटका पसीना (बफारा) देना हित है, बिष्टब्धाजीर्णमें जुलाबलेना हित है, रसशेषाजीर्णमें शयन करना हित है।

अथ अजीर्ण पाचनकी अवधि।

घृतका अजीर्ण ८ दिनमें, तेलका अजीर्ण १२ दिनमें, दूधका अजीर्ण १८ दिनमें, दहीका अजीर्ण २० दिनमें, मांसका अजीर्ण १ महीनामें पकता है।

अथ उपचार।

घृतके अजीर्णमें गरम पानी पीना, तेलके अजीर्णमें कांजी पीना हित है, गेहूँके अजीर्णमें ककड़ी

खाना, केलाफल; आम इनके अजीर्णमें घृत पीना, नारियरके अजीर्णमें चावलका खाना, आंबके अजीर्णमें दूधका पीना, घृतके अजीर्णमें निंबू खाना, केलाके अजीर्णमें घृतपीना, आमाजीर्णमें कांजीपीना, नारंगीके अजीर्णमें गुड़ खाना, कद्दूके अजीर्णमें रतालूका खाना, पीसेहुए अन्नके अजीर्णमें पानी पीना, पिस्ताके अजीर्णमें छोटी हर्र खाना, उर्दके अजीर्णमें खांड़ खाना, मनियारीनोनके अजीर्णमें ताक पीना, दूधके अजीर्णमें ताक पीना, तरबूजके अजीर्णमें अल्प गरम पानी पीना, मछलीके अजीर्णमें आमका रस पीना, मदिराके अजीर्णमें सहत पीना, पानीके अजी-र्णमें सिरसमका तेल पीना, पनसके अजीर्णमें जुलाब लेना, निम्बूरसके अजीर्णमें नोन खाना, नोनके अजीर्णमें चावलका धोवन पीना, बेल, महुवा, खजूर, फालसा इनके अजीर्णमें नीमकी नीबोली खाना, बीजौराके अजीर्णमें सिरसम खाना, कमलकी डंडी, खजूर, दाख, सिंघाडा, खाँड़ इनके अजीर्णमें भद्रमो-थाका रस पीना, लहशुनके अजीर्णमें दूध पीना हित है, आंवला, गूलर, पीपली, इमली, पिप्पलफल, बड़ फल, इनके अजीर्णमें शुंठी भिगोयके सबेरे पीना हित है, बडे आंबके गूदेके अजीर्णमें संधानोन खाना हित

है; बेरोंके अजीर्णमें गरम पानी पीना हित है, आमलाके अजीर्णमें राई खाना हित है, बेल, जामनके अजीर्णमें सोंठ खाना हित है, कैथफलके अजीर्णमें सौंफका खाना हित है, बहुत वृक्षफलके अजीर्णमें कौंचबीज खाना हित है, आमके अजीर्णमें चौलाई खाना हित है, मालपुवाके अजीर्णमें पानीके संग अजवाइन खाना हित है, पालकशाक, केशू, करेला, बैंगन, बासीमूली, चूक, परवल, सफेदतूंबीफल, मोरमांस इनके अजीर्णमें राई खाना हित है, खिचड़ी, भैंसके दूधके अजीर्णमें सेंधानोनका खाना हित है, सब प्रकारके अन्नकी दालके अजीर्णमें पीपली अजवायन खाना हित है; बथुआके अजीर्णमें पानी पीना हित है, आलूके कजीर्णमें चावलका धोवन पीना हित है, सब पत्र, साग फल, जडके अजीर्णमें तिलका खार खाना हित है, घृत, सत्तू, पीठी, मांस, इनके अजीर्णोंमें गरम पानी हित है, गेहूँ चना उड़द मूँग यव मटर इनके अजीर्णमें सेंधानोन निंबूका रस देना हित है, कपूर सुपारी नागरपान केसर जायफल जावित्री कस्तूरी नारियल इनके अजीर्णोंमें समुद्रझाग खाना हित है, सब प्रकारके तेलके अजीर्णमें कांजी पीना हित है, मछरीके म सके अजीर्णमें मूली गुड़ खाना हित है, सब प्रकारके दूधके अजीर्णमें गरम मांड पीना हित है,

सब प्रकारके आंबके फलके अजीर्णमें शुंठी मिरच पीपरि खाना हित है, भैंसके घृत दूध दही ताकके अजीर्णमें शंखभस्म खाना हित है, मटरके अजीर्णमें शुंठी खाना हित है, सब प्रकारके रोटी दालके अजीर्णमें निंबूका रस नोन छोटी हरड खाना हित है, पापड़के अजीर्णमें सहिंजनेका बीज खाना हित है, लड्डूके अजीर्णमें पीपलामूल खाना हित है, शूकर कछुवाके मांसके अजीर्णमें जवाखार खाना हित है, खीरके अजीर्णमें मूँगका पुआ खाना हित है, सब प्रकारका अजीर्ण पुराना होय तो सोना चाँदी गर्म कर पानीमें बुझायके पानी पीवे तो हित है, परिश्रमके अजीर्णमें मृगका मांस खाना हित है, स्त्री भोगके अजीर्णमें पवनयुक्त स्थानमें शयन करना हित है, मिरच सेंधानोन बकरेका अंडकोष तलके खाना स्त्रीके भोगके अजीर्णमें हित है, रेचकपदार्थके अजीर्णमें नागरमोथा खाना हित है, अधिक छर्दिके अजीर्णमें मिश्री देना हित है, बहुत जुलाब होनेके अजीर्णमें आंवलाका पानी देना हित है, वमन बस्ति जुलाब देना होय तो पहिले शुंठी, धमासा, इनका काढा देना हित है, सब अजीर्णमें हिंगु कालानोन खाना हित है, अजीर्णसे सब प्रकारका रोग होता है सो अजीर्ण मलको रोकके रोगको उत्पन्न

करता है सो पहिले अजीर्णका उपाय करे तुरत जुलाब वमन कराना चाहिये, जब अजीर्ण पुराना होता है तो सब शरीरका खून बिगड़ जाता है और अजीर्णमें जबतक क्षुधा न लगै तबतक भोजन न देवै भाजी साग बनावै तो पहिले उबालके बनावे तो रुचिकारी होंगे।

अथ सर्वजगत् कारण।

सब भूतोंका कारण और अपना अकारणरूप मूलप्रकृति है सो रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुण, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन भेदोंसे आठ प्रकारका है, यही सब जगत्की उत्पत्तिका हेतु है इनको व्यक्त कहते हैं। अव्यक्त सब प्रकारके क्षेत्रज्ञोंका अधिष्ठान है जैसे समुद्र जलोंका अधिष्ठान है और उसी अव्यक्तसे सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण महत्तत्त्व उपजे हैं और महत्तत्त्वसे रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुणरूप अहंकार उत्पन्न होता है, सो अहंकार वैकारिक तैजस तामस इन भेदोंसे ३ प्रकारका है और वैकारिक अहंकारसे सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणरूप एकादश इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं।

अथ इन्द्रियोंका नाम।

१ कान, २ त्वचा, ३ नेत्र, ४ जिह्वा, ५ नासिका, ६ वाणी, ७ हाथ, ८ पैर, ९ गुदा, १० लिंग, ११ मन

ऐसे एकादश इन्द्रियाँ हैं। तन्मात्राकी उत्पत्ति कहतेहैं, तैजस विकारसे रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुणरूप पचतन्मात्रा अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये उत्पन्न होते हैं।

अथ भूतोंकी उत्पत्ति।

शब्द आदि तन्मात्राओंसे १ आकाश २ वायु ३ अग्नि ४ जल ५ पृथ्वी ये उपजतेभये ऐसे चौबीस तत्त्व कहातेहैं और श्रवण आदि इंद्रियोंके शब्द आदि विषयहैं।

अथ कर्मेन्द्रियोंके विषय।

बाणीका बोलना विषय है, हाथोंका उठाना ग्रहण करना विषय है, लिंगका आनन्द होना विषय है, गुदाका मेलको त्यागना विषय है, पैरोंका गमन करना विषय है।

अथ चौबीस तत्त्वोंका वर्णन।

१ अव्यक्त, २ महान्, ३ अहंकार, ५ पंचतन्मात्रा, ११ एकादश इंद्रियाँ, ५ पञ्चमहाभूत इन सबोंको २४ तत्त्व कहते हैं।

अथ अधिभूत।

बुद्धिका निश्चय करना विषय है, अहंकारका अभिमान करना विषय है, मनका संकल्प विकल्प करना विषय है, ऐसे सब तत्त्व अपने अपने विषयोंको ग्रहण

करते हैं और बुद्धि आदि अपने विषयके भोगका साधन हैं तिसको अधिभूत कहतेहैं और बुद्धि आदि शरीरके आश्रयमें रहतेहैं इस वास्ते इनको अध्यात्म कहते हैं।

अथ धर्मकी बात।

सब मनुष्योंको चाहिये कि परमेश्वरकी पूजा तथा ध्यान सदा करते रहैं, देखिये परमेश्वरने कैसा सुन्दर शरीर बनाया है जिसके द्वारा मनुष्य सहजमें साधन करके मोक्ष सुखको प्राप्त करसकताहै, ईश्वरने कैसी बुद्धि दी है जिससे सत्य असत्यके विवेक द्वारा इस लोक और परलोकके सुख भोग लाभ कर सकता है। ऐसे कृपालु परमात्माका श्रद्धा और विश्वाससे सदा जप करता हुआ उसका आश्रय लेवे उसकी महिमाका पार नहीं वह अनन्त और अनादि है, उसकी भक्ति करनाही एकमात्र श्रेयस्कर है, उसका भक्त कभी निराश नहीं होता, न वह अपने भक्तका तिरस्कार सहता है, अतः भगवानकी भक्ति करनाही धर्म है।

अथ बालकोंके शीत पूतनारोगकी दवा।

सोंठ ४ मासे, जायफल ४ मासे, हींग २ मासे, कालीमिर्च २ मासे, अफीम पांच मासे लेवै और सबको एकमें मिलाय ईखका शिरका डालके खरल करे और

उर्दप्रमाण गोली बनायके बालकका बालरोग आदि विचारके देवै तो दस्त, शीतज्वर, चिहुकउठना, बहुत रोना, बन्द होय, पथ्यसे देवै तो बालकके अनेकन रोग नाश होयँ।

दूसरी दवा।

पीपरि, सोंठि, भांग, समभाग ले कूट कपड़छान करिके मात्रा तजबीजकर सहतके संग देवै तो ज्वर और दस्त होना बन्द हो, सर्दी भी नाश होय।

तीसरी दवा।

जामुनका शिरका ईखका शिरका, अदरखका रस, कालानोन, सहत मिलायके मात्रा एक सुतुहीभर बालकको देवे तो वमनका होना, दस्तका होना, ज्वर, पेटका फूलना, दूधका डालना सब नाश होय यह अमृतके तुल्य है बालकके सर्वरोगोंका नाशक है।

अथ सर्व पूतनाग्रहनाशक टोटका।

रविवार वा मंगलवारको साम और सबेरेके समय गोबरसे लिपवायके मुरगाका पर, मुरगाका मैला, सर्पकी केचुली, पुराना कपडा यह एकमें मिलायके अग्निमें छाड़ै जब धुआँ होय तो बालकको उसीमें सेंकै वा धुआँ देय यह टोटका तीन दिनतक करनेसे सर्व पूतनाग्रहको नाश करै है।

अथ द्वितीय पूतनाग्रहपर धूप ।

केसर, अगर, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, ये सब एकमें मिलाकर धूप देवै, उसीको सर्वगन्ध कहतेहैं यह गन्ध पूतनाग्रहको नाश करतीहै ।

अथ शीतपूतनाग्रहजुष्टलक्षण ।

बालक कांपै और खांसै दुर्बल होजाय और नेत्र-रोग हो बुरी गंध आवै छर्दि अतीसार होय तो इसको शीतपूतना कहते हैं ।

अथ शीतपूतनाकी दवा ।

बच कूट राल इनको पीसकर घृत मिलाकर धूप देवै तो पूर्वोक्त रोग दूर होय ।

अथ सर्व बालग्रहों पर धूप ।

सांपकी केंचुली, लहशुन, मूर्वा, मेढाशिंगी, बच, सिरसम, निंबूकी पत्ती, बिलावकी विष्ठा, बकराके बाल, सहत, इनको बराबर मिलाकर धूप देनेसे सर्व बाल-ग्रहदोष दूर होयँ इतवार मंगलके दिन सायं प्रातः धूप देवै ।

अथ बालज्वरांकुश ।

पारदभस्म, अभ्रकभस्म, बंगभस्म, चांदीभस्म, एक एक भाग लेवै ताम्रभस्म, लोहभस्म, यह दोदो भाग

लेवै सोंठ, मिर्च, पीपली, बहेड़ा, हीराकशीशकी भस्म यह एक एक भाग लेकर नागरपानके रसमें खरलकर पीछे एक रत्ती व दो रत्ती बराबर गोली बनावे बालककी अवस्था देखकर गोली देवे तो ज्वर नाश होवे। गर्भिणीका भी ज्वर नाश होवे॥

अथ पद्माादि काढा।

पद्माख, नींब, धनियां, गिलोय, लालचन्दनका काढ़ा करके बालकको देवे तो ज्वर नाश होवे, गर्भिणी स्त्रीको देवे तो ज्वरको नाशै।

मधुयष्ट्यादि लेह।

मुलहटी, वंशलोचन, धानकी खील, रसौत इनका लेह बनाय बालकको देनेसे सर्द ज्वर दूर होते हैं।

अथ सर्वरोगपर दवा।

पीपरि, अदरखका रस, सैंधानोन, शिरका, मिश्री यह एकमें मिलाय पीस छानकर बालकको साम सबेरे देनेसे उदररोग, बमन होना, दस्त होना, बन्द होजाताहै।

अथ दशमहीनोंमें ग्रहपीडित बालकके लक्षण।

प्रथम महीनामें बालकको कुमारी योगिनी ग्रहण करैहै तब बालकको उद्वेगज्वर होताहै. दूसरे महीनामें

बालकको कुक्कुटग्रह ग्रहण करैहै तो बालक गलेको कँपावै, शरीरका रंग पीला होजाय, शीतल होय, मुख सूखा रहै, अरुचि होय, तीसरे महीनामें बालकको गोमुखी ग्रह ग्रहण करैहै तब बालक रोवै और निद्रा न आवै, मूत्र बन्द होजाय, नेत्र खोलैं, देहमें दुष्ट गन्ध आवै, चौथे महीनामें बालकको पिंगला ग्रह ग्रहण करैहै तब दूध नहीं पीवै, पीते समयमें भयंकर श्वास लेवै, हाथोंको कँपावे और बालकके देहमें दुर्गन्ध आवै इसका उपाय नहीं है, पांचवें महीनामें बालकको बलबाहिनी ग्रह ग्रहण करै है तब बालकको अरुचि खांसी मुखशोष उपजे है, बालक रुदन करै ठहर ठहरके दूध पीवै, छठे महीनामें बालकको पद्मनाभा ग्रह ग्रहण करैहै तब बालकको रोवावैहै, शूल चलावै, स्वरभंगरोग होय, सातवें महीनामें बालकको कुमारीग्रह ग्रहण करैहै तब बालक ठहर ठहरके दूध पीवै और रोवै क्षण-क्षणमें छर्दि होय, आठवें महीनामें बालकको आंगिका ग्रह ग्रहण करैहै तब बालकके गात्रभंग ज्वर हो, नेत्ररोग, प्रलाप और छर्दिरोग उपजे है, नवम महीनामें बालकको कुम्भकर्णिकाग्रह ग्रहण करै है तब बालकको अरुचि, छर्दि, ज्वर, शरीरमें हरतालसी गंध आवै, दशम महीनामें बालकको तापसीग्रह ग्रहण

करे है तब बालक गात्रोंको विक्षेप करे और दूध नही पीवे, नेत्रोंको मीचै है सो इन दशों महीनोंमें बालकको पथ्यसे राखे, पूजा नैवेद्य करावे, बालग्रहको दान और उपदान करावे और माता पिता परमेश्वरकी पूजा करे तो ग्रहव्याधि शान्त होवे।

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास विरचित वैद्यक रसराजमहोदधिभाषाके पांचवें भागका प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

अथ द्वितीय खण्ड।

अथ कालज्वर-(कालमृत्यु) का वर्णन।

बेहोश रहना, तन्द्रा होना, शिर, आंख, कान, हाथ, पैर तथा सब शरीरमें पीड़ा, चिल्क, रोमरोममें दर्द, कम सुनना, प्रलाप, बारबार रोना, पुकारना, अपने मुँहसे अपनी मृत्यु कहना, दश मिनटमें अच्छा रहना, फिर ज्यों का त्यों होना, ज्वरका वेग होना, दवा देनेसे अधिक होना यह कालज्वरके लक्षण हैं, वैद्यकशास्त्रमें मृत्युके १०१ एकसौएक भेद वर्णन किये गये हैं उनमेंसे १०० सौ मृत्यु आगन्तुक हैं शेष एक मृत्यु कालसंज्ञक है, आगन्तुक चिकित्सासाध्य हैं

परन्तु कालमृत्यु सर्वथा असाध्य है इसमें ईश्वरकी आराधना ही एकमात्र शरण है।

अथ ज्वरोंके कारण आदिका वर्णन।

अनेक प्रकारका अपथ्य करनेसे वातज्वर, पित्तज्वर और कफज्वर होता है, ज्वर सन्तापसे रक्तपित्त होय, रक्तपित्तसे ज्वर होय, इन दोनोंसे श्वास होय और तिल्लीके बढनेसे उदररोग होय, सूजन और अर्श रोगसे उदरगुल्म होय, दिनमें शयन करनेसे प्रतिश्याय याने खेहर होय, प्रतिश्यायसे खांसी, खाँसीसे क्षयी होय, ऐसे रोगसे कुपथ्य सेवनसे आठ प्रकारका ज्वर होय जैसे १ वातज्वर, २ पित्तज्वर, ३ कफज्वर, ४ वातपित्तज्वर, ५ वातकफज्वर, ६ पित्तकफज्वर, ७ सन्निपातज्वर और ८ आगंतुकज्वर यह ज्वर मनुष्योंके आहार विहारके बिगड़जानेसे मलकी गरमीसे शरीरको अग्निरूप करै हैं, वही ज्वररूपहोकर शरीरके पराक्रमको खाय जाय हैं जिसके शरीरमें एक साथही ये लक्षण हों उसमें ज्वर कहिये शरीर गरम हो और पसीना भी नहीं आवे, भूख जाती रहे, सब अंग कड़े होजावैं, हाथ पावोंमें हडफूटन होय यह सब ज्वरकेही उपद्रव हैं।

अथ तेरहप्रकारके सन्निपातज्वरका वर्णन।

सन्निपातज्वर १३ प्रकारका है, इन तेरहों सन्निपातज्व-

रोंमें सहत न देवे क्योंकि सहत शीतल है, सन्निपातज्वरमें यह विषके समान होता है, वैद्यजन दवा देते हैं तो सहत मिलायके देते हैं इसीसे ज्वर बिगड़ जाता है, रोगीको मार देता है, सन्निपातज्वरमें सर्पके काटनेके बराबर गरमीरूप विष होता है, तो गरमसंग शीतल बस्तु बिष समान होता है, वैद्यजन सन्निपातज्वरमें सहत न देवैं, जो देवैंगे तो रोगीको यमपुरको भेज देवैंगे और नवीन ज्वरमें दूध न देवैं यह भी सहतके समान नुकसान करता है परन्तु पुराना ज्वर और विषमज्वरमें दूध देवैं इसको वैद्य पहिले समझ लेवे। रोगका अच्छे प्रकार पहचानकरें तब निदान, लक्षण, देशकाल, आदि और रोगीकी चेष्टा तथा बलाबल आदिको भलीभाँति देखभालकर उत्तम और उचित दवा देना चाहिये।

अथ सन्निपातज्वरके नाम।

दोहा—संधक अंतिक दाह पुनि, चित्तभ्रम शीतांग।
तंद्रिक कंठ सुकुब्जअरु, कर्णिक भग्न अनांग॥
रक्तस्रवपरलाप अरु, जिह्वक अरु अभिन्यास।
वैद्य धन्वंतरिने कही, तेरह सन्निप्रकाश॥

अथ सन्निपातज्वरका वर्णन।

दोहा—सप्तदिवससन्धिक दिवस, पंद्रह अन्तकजानि।
दाह बीसदिनचितभ्रम, पुनिदशदिन पहिचानि॥

पंद्रहदिन शीतांगपुनि, दिन पचीस तंद्रीक ॥
कण्ठकुब्जकी जानिये, दिन तेरहभरि लीक ॥
तीनिमास कर्णिक दिवस, आठ भग्नके होय ॥
रक्त स्रवै बारह दिना, कह्यो है सोरह सोय ॥
चौदह दिन परलाप पुनि, अभिन्यास दशपांच ॥
अब लक्षणयुत औषधी,कहौं ग्रंथ लखि सांच ॥

अथ सन्धिक सन्निपातज्वर लक्षण ।

दोहा–वायु सोथ तनुशूल डर,होइ जो कफको नाश ।
ताप होय ता पुरुषको, संधिक सन्नि प्रकाश ॥
सन्निपात सन्धिक विषे, लंघन कहौं प्रमान ।
तेल संभालू मर्दिये, भोजन विषदै खान ॥

अथ संधिक सन्निपातज्वरकी दवा ।

सोरठा–प्रथम बिधारो लेय,देवदारु शुंठी बहुरि ॥
और शतावर देय,लहशुन विश्वा जायफल ॥
पुनि गुग्गुल मुरकाय,सब सम काढो कीजिये ॥
चौदहदिनलों प्याय,याहीबिधिकरि क्वाथनित ॥

दूसरी दवा ।

दोहा–बांसाको करि क्वाथ पुनि, ग्रंथक अरु किरमाल ।
आठ तेल अवलेहते, वात व्याधिको टाल ॥

२ अथ अन्तकसन्निपातज्वरका लक्षण ।

दोहा-अन्दर बाहर दाहज्वर, व्याकुल देही होय ।
हिचकी खांसी कम्पशिर, सर्प डसो जनुसोय ॥
अति असाध्य यह रोगहै, अन्तक अतिबलवान ।
याको नाहिं उपाय कछु, भेषज धर्म्म प्रधान ॥

३ अथ दाहसन्निपातज्वरका लक्षण ।

दोहा-कंठ अंग पीडा अधिक, दाह श्वास ज्वर शूल ।
चलिबोले अतिप्यास जिहि, यहै दाह दुखमूल ॥

अथ दाहसन्निपातज्वरकी दवा ।

दोहा-अभया परपट मोथरा, कुटकी पुनि गिरिमाल ।
दाख क्वाथ करि पीयही, दाह वमनको टाल ॥

दूसरी दवा ।

दोहा-चन्दन मोथा अगर नख, लै कपूर नवनीत ॥
धूप दीजिये अंगपर, मिटै दाह विपरीत ॥

४ अथ चित्तभ्रमसन्निपातज्वर लक्षण।

अरिल्ल-पीड़ा भ्रम अतिदाह ताप उन्मादही ॥
विकट नयन मुख हास्य गीत नित बादही ॥
विकल शीश परलाप जासुकै जानिये ॥
चित्तभ्रम यह सन्निपात पहिचानिये ॥

अथ चित्तभ्रमसन्निपात ज्वरकी दवा ।

दोहा–क्षुद्रा निम्ब पटोल पुनि, मोथा चन्दनलाल ।
तिक्ताभ्रम पद्माक लै, पर्पट घमहा डाल ॥
नैपाली शुंठी कही, और बहेड़ा लेय ।
पुष्करमूल मंगायकै, इन्द्रयवा सँग देय ॥
भारंगी बेसन सहित, करै पान परभात ।
आठौ ज्वर मूर्च्छा वमन, दांत समेत नशात ॥
कासश्वास पुनि चित्तभ्रम, तृष्णा हिचकी शूल ।
इते रोग या क्काथते, तनुमें रहैं न मूल ॥

५ अथ शीतांग सन्निपातज्वरलक्षण ।

अश्लेषम–अंगशिथिल अतिश्वास कास बहुशीत ॥
अतिपियास पुनि छर्दिकफ ये लक्षणहैं मीत ॥

अथ शीतांगसन्निपातज्वरकी दवा ।

गीतिका-तजलौंगकेसरित्रिकुटब्राह्मीग्रन्थीसोवाचित्रका ।
पुष्करी शतावरि शंखाहोली जायफल जावित्रिका॥
अकरकरा अरुसार अभ्रक तेजबल सुकुलंजनं ॥
यह सर्व औषध शुद्ध लीजे और लीजे जो भनं ॥
नागकेसरि अरु जवायनि गुरुच ये सम लीजिये॥
दूनी मुनक्का दाख कूटै टंक गुटिका कीजिये ॥
खाय प्रात जु कुष्ठवृन्द मिटाय शक कफकासनं ॥
रोगी लहैं सुख चित्तभ्रम शीतांगसन्निविनाशनं ॥

६ अथ कंटकसन्निपातज्वरलक्षण ।

दोहा—देह कम्प पुनि ताप बहु, शीश कण्ठ अतिपीर ।
जिह्वा कृश प्रस्वेद अति, मुर्च्छा मोह अधीर ॥

अथ कंटकसन्निपातज्वरकी दवा ।

चौपाई ।

मोथा पग्वर त्रिफला आनो।देवदारु शुंठी सम जानो॥
पीलूछालि नीबकी आनो।कुटकीत्रयी रासना जानो॥
ले उशीर घमहा सम भाई । नेत्रबाला अभया ल्याई ॥
पाठ पीपरामूलही लेय । मुलहठी पुनि आनहु तेय ॥
ये सम सब काढ़ो खा प्रात।कंटककुब्जकी होय जु घात ॥

७ अथ तन्द्रिकसन्निपातज्वरलक्षण ।

दोहा—अतीसार कफ छर्दि भ्रम, जिह्वा श्याम कठोर ।
श्वासकास तनु ताप बहु,नयन द्रवै नहिं जोर ॥
कंडू तन्द्रा भ्रम वचन, ये तन्द्रिक गुण जान ।
अब ताकी औषधि सुनो, यथायोग्य परमान ॥

अथ तन्द्रिक सन्निपातज्वरकी दवा ।

दोहा—अभयापुष्करमूलपुनि, बृहती लेय मँगाय ।
विश्वामृता भरंगिनी, ककरासिंगी ल्याय ॥
पान करत परभातही, तन्द्रिक दूरि पराय ।
और वायु कफ नाशकै, दालि मोठकी खाय ॥

८ अथ भग्ननेत्रसन्निपातज्वरका लक्षण ।

दोहा-ज्वर विलाप परलाप बहु, अरु अचेत पुनि श्वास ।
कंठसोज पीडा अधिक, भ्रम पुनि मोह उदास ॥
दृष्टिभंग इन लक्षणहिं, जानहु वैद्य सुजान ।
ताकी अब औषधि यथा, सो पुनि कहौं प्रमान ॥

अथ भग्ननेत्रसन्निपातज्वरकी दवा ।

चौबोला-त्रिफला मोथा कुट कंटकी रजनी दोनो लीजे॥
जड़ पटोल अरु नींबआनिसम काढ़ो करिके दीजे॥
दृष्टिभंगको नाश होय पुनि कासश्वास भ्रम जायँ॥
कंठसोज परलाप मोहभ्रम एते रोग नशायँ ॥

दूसरी दवा ।

दोहा-कणा मिरच मनसिल सहित, जलसों नयन निआंजि।
तुरत देहको सुखबढ़े, भग्नदको दुखभाजि ॥

९ अथ कर्णिकसन्निपातज्वर लक्षण ।

अरिल्ल-काँपै बहुत तनु पीर बकै बकबादही ॥
कर्णग्रंथि दुख दीह कंटक पूछावही ॥
मोह श्वास परलाप स्वल्पता जासुको ॥
उर उत्कर्णिकसन्नि विचारो तासुको ॥

अथ कर्णिकसन्निपातज्वरकी दवा ।

दोहा-देवदारुको बांटिकै, चुरै आँचपै लेय ।
कर्णिकके सब सूजको, तुरत बिदा करिदेय ॥

दूसरी दवा ।

दारुहरद शुंठी अरणि, चीता रास निवास ॥
बीजपूर जल लेपते, शोथ व्यथाको नास ॥

१० अथ रक्तस्रावसन्निपातज्वरलक्षण ।

दोहा—रक्त स्रवै मुख नासिका, छर्दि ताप उर शूल ॥
अरुचि होय परलाप पुनि, अतीसार दुखमूल ॥
हिचकी जमा कास पुनि, श्वासहोय मुख ताहि ॥
रक्तस्रावको जानिबा, इन लक्षणते आहि ॥

अथ रक्तस्रावसन्निपातज्वरकी दवा ।

दोहा चंदन लै पद्माख पुनि, नेत्रबालको ल्याहि ।
तज इलायची कायफल, नन्हीजड सम ताहि ॥
बाल्यो और प्रियंगु लै, धवै फूल सम आन ।
मिश्री सोरटभाग लै, करि पूरण परिमान ॥
पञ्चटका परभातही, खाते रक्त थँमाय ।
रसराजमहोदयग्रंथमें, भाषी रूचि बनाय ॥

११ अथ प्रलापसन्निपातज्वरलक्षण ।

अरिल्ल—अन्तर बाहर दाह कंप परलापहु ॥
कण्ठ पीर बहु होय सोज पुनि दायहु ॥
बहु चिन्ता सो करै सुरति नहीं थिर रहै ॥
सन्निपात प्रलापके यह लक्षण कहै ॥

अथ प्रलापसन्निपातज्वरकी दवा ।

पद्धरी—लै शुंठि हींग चिचा बिडंग, सैन्धव जीरौ चित्रक भरंग ॥ पीपरै कूट मिरचै मँगाय, अजमोद चिरायता शिवा ल्याय ॥ एक एक चिरायता भाग लेय, गुरू दूनौ सबते तौली लेय ॥ गोलीकर पूगीफल समान, तब प्रात रोगि ये देय खान ॥ जैहैं चौरासी वायु अंग, परलाप सन्नि दुख होय भंग ॥ पुनि वायु गुल्म नानाप्रकार, सब रस भगन्दरको विकार ॥ कफ वात पित्तको दोष जाय,अरु कंठरोग जैहै पराय ॥ विस्फो-टक मन्त्र अरु यन्त्र तन्त्र, राक्षस पिशाच भूतौ परत ॥ स्थावर जंगम विष करणमूल, अजीरण विसूची हरण-शूल ॥ एते शरीरते रोग जायँ, ज्यों सिंह देखि गज-गण परायँ ॥ कारि नेम नित्य बन्ध्या जुखाय, तो पुत्र होय सब सुक्खदाय ॥ यह वैद्य धन्वन्तारि भाषिदीन, करि देय रुचिर औषध प्रबीन ॥

१२ अथ जिभकसन्निपातज्वरलक्षण ।

अरिल्ल—कंठ सुहोय कठोर जीभ तालू लगै ॥
कास श्वास परकाश नयन निशिदिन लगै ॥
नयन लाल ज्वर जोर इते लक्षण गिनै ॥
ऐसी विधि सन्निपात कहै जिभक भनै ॥

अथ जिभकसन्निपात ज्वरकी दवा।

दोहा–त्रिकुटा तिक्ता पीपरा, लेकर मेलि समान।
घृतसों चूरण खाइयो, जिभक सन्नि परान ॥

दूसरी दवा।

दोहा–पीपरि मिरच चिरायतौ, सेंधवनोन पिसाय।
बीजपूर रस डारिकै, खावै सन्नि नशाय ॥

१३ अथ अभिन्नसन्निपातज्वरका लक्षण।

अरिल्ल–वात पित्त कफ नींद बहुत जेहि आवही ॥
वदन चीकनो होय विकलता भावही ॥
बोलै वचन कठोर कछू नहिं जानिये ॥
इन लक्षणते वैद्य अभिन्नहि मानिये ॥

अभिन्नसन्निपातज्वरकी दवा।

दोहा–गुरच भरंगी अण्डजड़, बासा लेप कचूर।
लेप कलौंजी सम सबै, कल्क करै यह मूर ॥
टंक दोय गोमूत्रसे, प्रात नियमसों देय।
भिन्नसन्निको बल हरै, अङ्ग पीरहारि लेय ॥

अथ पञ्चवक्र रस।

दोहा–टांकखार पारा मरिच, गन्धक विषहि समान।
सबको कूटि छानिकै, खलै एक मिलान ॥
कनक पत्रके रसमें, घोटै निशिदिन एक।

बल बिचारि खावै तब, करै पथ्य अनेक ॥
सब ज्वर सन्निपातको, तुरतै देय नशाय ।
साम सबेरे नेमसों, आदीरससों खाय ॥

अथ आनन्दभैरव रस ।

दोहा–मिरच सोहागा पीपरी, शिंगरफ सम सब जान ।
बच्छनाग शुद्ध डारिके, अदरखरसमें सान ॥
दिवस एक तब खल करै, सिद्धि होय रसजान ।
बल विचारितो देखिके, देवै वैद्य सुजान ॥
सन्निपातज्वर सबनको, नाशै रोग अतिसार ।
वायु चौरासी उदरको, कास श्वाश बेकार ॥
सब प्रमेहके दुख हरै, पथ्यसो करै विचार ।
आनन्दभैरो आनन्द करै, जानत है संसार ॥

अथ रात्रिज्वरका उपाय ।

दोहा–भंगराकी जड़ कानमें, बाँधे डोरा डारि ।
ज्वर आवत है रातिको, ताको देहि बिडारि ॥
काली मकोय जड़ लैके, रविदिन मंगलवार ।
युक्ति फकीरी जानिये, रात्रिज्वरको सार ॥
काला सूत लपेटिके, दहिने हाथसों बांधि ।
गुड़ घी धूप दीपकसे, प्रातकाल उठि साधि ॥

अथ विषमज्वरकी दवा ।

दोहा-पुष्करमूल गिलोय ले, सोंठि कटाई आनि ।
क्वाथपियतकफकासअरु, श्वासविषमकीहानि ॥

अथ चार प्रकारके ज्वरका लक्षण ।

दोहा-इकहिक द्वाहिक तृतीय अरु, पुनि चतुर्थकी टेक।
ये ज्वर अरु ज्वर कामके, लक्षण जानो एक॥
कण्ठशोष शीतल भ्रम, मुखकषायशिरपीर ।
रोमहर्ष तनु ताम सह, सहित कामज्वर भीर ॥

अथ सर्वज्वरपर उपाय ।

दोहा-तीनिटंक त्रिफला कहो, त्रिकुटी टंक सुतीन ।
द्वादश टंक सुनींब ले, पांच नोन सम कीन॥
पांचटंक अजवायनै, सब सङ्ग बांटि छनाउ ।
चूरण पीजे तप्त जल, ये ज्वर तप्त भजाउ ॥

अथ ऐकाहिकज्वरकी दवा ।

दोहा-कुटकी लीजो इन्द्रयव, अरु पटोलके पान ।
क्वाथ प्रातकरि पीजिये, ऐकाहिक ज्वरहान ॥

अथ द्व्याहिकज्वरकी दवा ।

दोहा-मोथा पाढा दाख पुनि, अरु पटोल मँगवाय ।
करै पान परभात ही, द्वितिय ताप मिटि जाय॥

अथ त्र्याहिकज्वरकी दवा ।

दोहा-त्रिफला त्रिकुटा मुस्तको,दाख पटोलहि आनि ।
पियै क्वाथ मिश्री सहित,होय तृतियज्वरहानि ॥

अथ चातुर्थिकज्वरकी दवा।

चन्दन कटुक चिरायतो, मोथा सोंठि गिलोय।
संग आवरे क्वाथते, चातुर्थिकज्वर खोय॥

अथ दूसरी दवा।

दोहा-रस अगस्तके पातको, नास नाकसों लेय।
ज्वर चातुर्थिक जातहै, छांड़ि तासुको देय॥

अथ चातुर्थिकज्वरका तन्त्र।

दोहा-रविदिन पूजै श्याहधतुर, विधिपूर्वक संयोग।
महादेवकी कृपासे, हरै चतुर्थिक रोग॥
रविदिन प्रातःकालही, तोरै पात फल फूल॥
बांधै हाथ नर नारिको, रहै न चातुर्थिक मूल॥

अथ सर्वरोगोंके भेदोंका वर्णन।

अपस्माररोग (मृगी) चार प्रकारका होताहै। अजीर्णरोग चार प्रकारका, अर्शरोग (बवाशीर) छः प्रकारका, अजीर्णशूल आठ प्रकारका, अरुचि-रोग आठ प्रकारका, अनाह-उदावर्त तीन प्रकारका, आमवात पाँचप्रकारका, अतीसार छे प्रकारका, अण्डवृद्धिरोग सात प्रकारका, अन्त्रवृद्धिरोग दश प्रकारका और अम्लपित्त चार प्रकारका होताहै। उदररोग आठ प्रकारके होतेहैं। ऊरुस्तंभ तीन प्रकारका, उपदंश बीस प्रकारका और उन्मादरोग

चौदह प्रकारका होताहै । कर्णरोग अट्ठाईस प्रकारके होतेहैं । कमलरोग एक प्रकारका होताहै । कृमिरोग सात प्रकारका, कास (खाँसी) रोग पांच प्रकारके होतेहैं । कुष्ठरोगके अठारह भेद और पांडुरोगके पांच भेद होते हैं, संग्रहणी रोगके चार भेद और पांडुरोगके पांच भेद होतेहैं । रक्तपित्तरोग एकही प्रकारका होता है, राजयक्ष्मा (क्षयी) सात प्रकारका होता है, हिक्का (हिचकी) रोग पांच प्रकारका है, श्वासरोग पाँच प्रकारका है, छर्दि (वमन) रोग भी पाँच ही प्रकारका है, तृषारोग सात प्रकारका, मूर्च्छा-भ्रम छः प्रकारका है । वातरक्त तीन प्रकारका है । दाहरोगके अनेक भेद होतेहैं । गुल्मरोग पाँच प्रकारका है । हृदयरोग भी पाँच प्रकारके होतेहैं । वातसे उत्पन्न व्याधियोंके चौरासी भेद होते हैं । मूत्रकृच्छ्र चार प्रकारका, मूत्राघात बारह प्रकारका, मूत्राश्मरी (मूत्र-पथरी) रोग चार प्रकारका और प्रमेह बीस प्रकारका होताहै । मेदोरोग चार प्रकारके होतेहैं । शोथरोग नव प्रकारका होताहै । गलगण्ड तीन प्रकारका, श्लीपद (हाथीपाँव) तीन प्रकारका, व्रणशोथ छः प्रकारका और भगन्दर पांच प्रकारका होताहै । शुक्ररोग अठारह प्रकारके हैं शीतपित्त तीन प्रकारका, विसर्परोग सात प्रकारका है । क्षुद्ररोग सात प्रकारके होते हैं, मुखरोग पैंसठ

प्रकारके होतेहैं। नासारोग चौबीस प्रकारके होतेहैं नेत्ररोग अठहत्तर प्रकारके हैं, शिरोरोग ग्यारह प्रकारके हैं। सोमरोगके अठारह और प्रदररोगके चौदह भेद होते हैं, बालरोग अट्ठाईस प्रकारके होतेहैं, विषरोग चौदह प्रकारके हैं, स्नायुरोग चार प्रकारके हैं, व्रण (घाव) अनेक प्रकारके होते हैं, अग्निदग्धभी कई प्रकारका होताहै, इत्यादि। यहाँ तक जितने रोग और उनके भेदोंका वर्णन कियागया उन सबमें और जो वर्णन करनेसे शेष हैं उनमें भी ज्वरकी उत्पत्ति अवश्यमेव होतीहै। मिथ्या आहार विहारके करनेसे बड़े बडे भयंकर ज्वर और रोगोंकी उत्पत्ति होजाती है जिनमेंसे कि, यहाँ संक्षेपसे कुछ रोगोंका कथन कियागया है। वैद्यको उचित है, कि प्राचीन तथा आधुनिक वैद्यकग्रन्थोंको अच्छीप्रकार देखभाल कर चिकित्सा करें और रोगी मनुष्यको भी योग्य है कि, हित तथा मित भोजन करनेवाला और जितेन्द्रिय होवे। वैद्य और रोगीके भी कर्तव्योंको विशेष देखना हो तो वैद्यकशास्त्रकी दिनचर्य्या और रात्रिचर्य्या तथा वैद्यकर्तव्योंको देखो।

अथ ज्वरका वर्णन।

ज्वर कई प्रकारका होता है पुस्तक बढजानेके भयसे

यहाँ उनका सविस्तर वर्णन नहीं होसकता। ज्वरकी उत्पत्ति विना किसी आहार विहारके बिगड़े होना सम्भव नहीं है। रोगी चाहे निर्बल भी हो पर यदि उसकी निर्बलता किसी प्रकारके रोगसे नहीं पैदा हुई तो वह रोगी असाध्य नहीं है। जिन रोगोंमें ज्वर नहीं होता उन रोगोंकी उत्तम चिकित्सा होने पर प्रायः शीघ्रही आरामी होजातीहै और जिन रोगोंमें साथही ज्वर उत्पन्न हो अथवा रोगोत्पत्तिके कुछ काल पीछे उत्पन्न हो और उसकी उत्तम चिकित्सा न की जावे तो वह रोगी बलरहित होकर कष्टसाध्य और फिर असाध्य होजाताहै, ज्वरकी उत्पत्तिके प्रधान कारण चार हैं उनमेंसे पहला सूर्य्यकी गरमीका अधिक सेवन करना है, दूसरा दुष्ट वायुका सेवन, तीसरा विकारयुक्त पानीका पीना और चौथा मलका बिगड़जाना है। आगे प्रत्येकके लक्षण लिखते हैं।

अथ सूर्यकी गरमीसे उत्पन्न हुए ज्वरका वर्णन।

सूर्यकी गरमीके ज्वरमें ऐसी जलन कलेजेपर होतीहै कि, जानों अभी गरमीसे कलेजा जल जायगा, जो पानी रोगी पीताहै सो कलेजेकी गरमीसे वह नहीं पचता उसी दम वमन होताहै कोई तरहसे रोगीको

चैन नहीं पड़ताहै कलेजेपर गरमीके सबबसे गोदना पडजाताहै, शीतलपानी पीनेसे चैन होताहै, लेकिन शीतल पानी पीना ज्वरमें विषके समान है ज्वरके विकारमें शीतल पानीका त्याग करै और जो पानी पीवै तो अधचुरा पानी पीवै और सन्निपातज्वरमें पकते २ जब चौथाई भाग बांकी रहजाय तब उसे ठंढा करके पीवै, सर्व ज्वरमें गरम पानी पीवै तो सन्निपातज्वरका भय नहीं होता। शीतल पानी पीने तथा शीतल वस्तु खानेसे साधारण ज्वरसे सन्निपातज्वर उत्पन्न होजाताहै इस वास्ते शीतल वस्तुको त्याग करना गरमको सेवना चाहिये।

अथ सूर्य्यतापज ज्वरकी निवृत्तिका उपाय।

पहिले अधचुरा पानी बनावै तब शीतल करके पीवै सब तरहसे पथ्य करै ऐसी दवा तजबीज करके खावै जो गरम और शरद न हो किन्तु मध्यम हो।

अथ वायुविकारसे उत्पन्नहुए ज्वरका वर्णन।

सब शरीरमें ज्वरांश, पीड़ा, तृषा और हड़फूटन हो, शीतल पानी पीनेसे ज्वर और शरीरमें पीड़ा अधिक होवे। शरीरमें सरदी और गरमी दोनों बनी

रहती हैं, मुख कसेला रहता है, पेशाबमें जलन होती है, मल भी साफ नहीं होता है।

अथ वायु विकारज वरका उपाय।

पहिले इस ज्वरमें ऊपरसे धुरा करना, बालूकी पोटरी बनायके सब शरीर सेंके, तीन हिस्सा जलाहुआ पानी पीनेको देवै, सब वस्तुका पथ्य करे, वात नाशक दवा करे, बाहरकी हवाको त्याग करे, एकान्तमें रोगीको रक्खे, पंखाकी हवा बराबर करता रहे।

अथ जलविकारसे उत्पन्न हुए ज्वरका वर्णन।

जो पानी बिगड़ा रहता है उसके पीनेसे ऐसा ज्वर चढ़ता है कि रोगीको अचेत करदेता है ऐसा मालूम होता है कि मानो विष खाया है सो इस रोगीको चार कोसका पानी पीनेको देवै वह पानीको छोड़वाय देवै तब दवा करै पथ्य करे तब रोगीका ज्वर छूटता है।

अथ जलविकारजज्वरकी निवृत्तिका उपाय।

पहिले रोगीको वह जगह छोड़ाय देना पांच या दश कोसपर कर देना चाहिये जिसमें हवा पानी दोनों छोड़ने और पथ्य भोजन करनेसे ज्वर बहुत जल्दी छूटजाता है।

अथ मल विकारज ज्वरका वर्णन ।

मलके विकारसे ज्वर ऐसा धीरे धीरे शरीरमें प्रवेश करता है कि समस्त शरीरका खून बिगड़ जाता है पानी खाना दोनों फीका लगता है शरीर पहाड़ मालूम होताहै मल पेशाब बराबर नहीं होता है, ज्वर कुँभारके आँवाँके सदृश भीतर सुलगताहै, जीभ मोटी होती है जीभके ऊपर चूनेकी सफेदी छाई रहती है ।

अथ मलविकारज ज्वरकी निवृत्तिका उपाय ।

पहिले तो इसरोगीको स्नेहपान कराना तब मुंजिस पिलाना तब रोगीका बल बिचारिके जुलाब देना तब दवा देना । दवा ऐसी देवे कि, जिसमें खून साफ होय सब चीजका परहेज रक्खे दस्तावर दवा करै, नित्य दस्त साफ होना चाहिये, पथ्यसे रहै, कुपथ्यके पास न जावे ।

अथ आकस्मिक ज्वरका वर्णन ।

जो अकस्मात् चलते फिरते खाते पीते ज्वर आवै तब वैद्य अनुमानसे रोगको निश्चय करै कि यह ज्वर किस कारणसे हुआ है, शीतसे गर्मीसे अथवा समभावसे, इस ज्वरमें एक दिन दवा नहीं करै, पहिले अच्छी

तरहसे समुझ लेवै तब जैसा रोग होय तैसी दवा करै और ज्वरकी बाबतमें पहिले शीत नाशक क्रिया करै ।

अथ सन्निपातज्वरका कारण ।

वातज्वर बिगड़ेसे पित्तज्वर शामिल हो कोप करता है तब कफज्वर जोर देता है तब त्रिदोष प्रगट होताहै सन्निपातकी जड़ जम जाती है, सन्निपातज्वर बिगड़नेसे जानकी जोखिम करदेता है, सन्निपात ज्वर कालज्वरका छोटा भाई है, सन्निपातज्वरमें बड़ी भाग्यसे रोगी जीता है, अनेक उपाय करो पर कुछभी काम नहीं आताहै, जैसे अथाह पानीमें कुछ बल नहीं काम करता उसी तरह रोग बढ़नेसे दवा काम नहीं करती है ।

अथ सूर्यकी गरमीआदिसे उत्पन्नहुए ज्वरकी दवा ।

रोगीका बल देख पहिले दिन लंघन कराय दूसरे दिन प्रातःकाल अदरख और पीपरको पानीमें पीस छानिके थोडा गरम करके आधा चावलभर अभ्रकरस वा चांदीरस छोड़के पीनेको देवै और इसी विधिसे सामको देवै और वातके जोरसे पियास लगै तो पकानेसे चतुर्थांश शेष रहे पानीमें गेहू डाल करके पानीको छौंकै और सब शरीरको बालूकी पोटरीसे थोडा २गरम

करके शिरसे पांव तक सेंकै, पथ्यसे पंखीकी हवा करै तो ईश्वरकी कृपासे सूर्यकी गरमी विकृत वायु और जलके सेवन तथा मलके विकारसे उत्पन्नहुए ज्वर शीघ्रही दूर होयँ और मल साफ न होय तो कोई दूसरा उपाय करै जिससे दस्त साफ होय गोला बनायके देवै, सो नीचे लिखते हैं।

अथ ज्वरपर गोला औषध।

छोटी हरैं, हींग, मूरी, काला नोन, सैंधा नोन, धनियाँ, मिर्च, अदरख, काली जीरी इन सबको एक एक मासे लेकर एक पत्तामें लपेटिके ऊपरसे पोतनी मिट्टी लपेटिकै डेढ़ पाव गोबरीमें फूँकदेवै, शीतल होने पर निकालकर पीसलेवै और रोगीका बल देखकर मात्रासे देवै, तीन दिनतक देनेसे दस्त साफ होगा और पेटका गोटा गिर जायगा, रोगीका शरीर सब हलका होय और ज्वर पचि जाय और जब भूख लगै तब थोडा थोडा जूस देवै तब फंकी देवै, जिसमें अजीर्ण न होय और कुछ नहीं देवै, बहुत लोग यवका चर्बण दवाके ऊपर देतेहैं, यह शीतल है, शीतलतासे मल बँधजाताहै मलमें कीडे पड़जाते हैं तो जीर्णज्वर होता है इसी जीर्णज्वरसे विषमज्वर उत्पन्न होजाता है. रोगीके मलका विकार होय तो एक दो दस्त करावै।

अथ ज्वरसे आठ रोगोंकी उत्पत्ति ।

बरवट, वायुगोला, तापतिल्ली, कठोदर, शोफोदर, पिलही, यकृत, जलंधर और गुल्मरोग यह सब ज्वरकी गरमी और कुपथ्यसे होतेहैं । रोगी परहेज नहीं करताहै, जो मिला सो खायलिया तब पेटमें मल रुक जाताहै, उसी मलकी गरमीसे उदर रोगको पैदा करैहै, नसोंके रोगका नाम है बरवट, वायुगोला रोगभी इसी तरहसे जानो, यही ज्वरकी जड़ है, ऊपरसे दबकर नसमें प्रवेशकरके नसके ऊपर गांठ उत्पन्न करके पीर सूजन करदेताहै, दिनपर दिन रोगी जितना कुपथ्य करै उतनाही बढ़ता है, दिनपर दिन रोगी जो कुछ खाताहै सो अन्नके जोरसे वह नसोंमें बल देताहै और शरीर निर्बल होजाताहै, पेटको चिकना करताहै, मल, पेशाबको रोकताहै, शरीरका खून पानी जैसा होताहै, हाथ पाँवमें कुपथ्य करनेसे सूजन आजातीहै तब रोगीको निर्बल करके शरीरमें रोग आप मालिक बनके मारनेको तैयार होताहै, जो उस समय पर कोई दवासे भेंट न हुई तो फिर बचना कठिन है इसपर भी यदि वह रोगी पथ्य नहीं करे, वैद्यके कहे प्रमाणसे न चलै तो उदररोग बढकर असाध्य होके मारडालताहै, कोई उपाय नहीं चलताहै, मित्र परिवार आदि कोई काम

नहीं आता है उस समयमें दवा अच्छी और पथ्य काम करताहै, आयु बांकी रहतीहै पर रोग कुपथ्यसे मारदेताहै, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, झार, फूँक, रुपया, पैसा कोई काम नहीं आताहै, इसी वास्ते रोगीको हित सुखके वास्ते पथ्य बनाहै, पथ्य करो, पथ्यसे आयु बढ़ती है शरीर निरोग रहताहै, सब इन्द्रियाँ सुखको प्राप्त होतीहैं आयुतक बल बनारहताहै ।

अथ सन्निपातज्वरका दूसरा वर्णन ।

जिस मनुष्यको ज्वर किसी कारणसे आने लगा उसमें कुपथ्य करनेसे ज्वर बिगड़ जाता है तो त्रिदोष जल्द होकर सन्निपातज्वर होताहै उस सन्निपातज्वरमें पहिले पानीकी तजबीज करै, चतुर्थांश पानीको पकाकर रोगीको देवै अथवा पाँचभाग जल जरिजाय उस पानीको रोगीको देवै अथवा छःभाग पानी जरिजाय उसको देवै अथवा सात भाग जल जरिजाय तो वह पानी सन्निपातज्वरमें रोगीको देवे तो अमृतके समान गुण करता है यही दवा समझना चाहिये । जिसदिन सन्निपातज्वरकी अवधि पहुँचेगी उसीदिन वह ज्वर बन्द होजायगा रोगी तुरत अच्छा होगा, सन्निपातज्वरमें पथ्य काम करता है ।

अथ सन्निपातज्वरकी दवा ।

तेरहों सन्निपातज्वरकी दवा-पहिले शीतनाशक दवा करै तब कफनाशक दवा करै, सुवर्णरस, चाँदीरस, ताम्ररस, लोहरस, शीशारस, जस्तारस, अभ्रकरस, पारा-रस अनुपानके साथ देवै और सातों उपधातु मारिके शुद्धकरके देवै इसपर पथ्य खूब करावे। रोगीका विश्वास कोई तरहसे न करै जैसे चोरलोग चोरी करनेमें रातदिन प्रवृत्त रहते हैं इसी तरह रोगीभी ध्यान लगाये रहते हैं कि, कब कोई चीज पावैं खाय लेवैं, जैसे कीड़ा वा साँप छिपा रहता है अपना मौका पायके काट लेता है इसी तरह सन्निपातज्वर शरीरमें छिपा रहता है। कारण पायके कुपथ्यसे कोप करके तैयार होता है फिर रोगीको जान ले लेता है इसीवास्ते रोगीको रोगीके घरवाले अच्छी तरहसे पथ्य करावैं दुश्मनके समान रखैं जो कुछ मांगै तो और सेवा सहाय पूरी तौरसे करैं पर जो कुछ अपथ्य मांगै तो न देवैं, रोगीके कहे प्रमाणे जो देवै तो मानो रोगीको जहर देचुका।

अथ सर्वज्वरपर रस ।

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, शुद्ध शिङ्गरफ ३ भाग औरजमालगोटा ४ भाग इन सबको एकत्र करके निंबूके रसमें एक दिन खरल करके एक

कालीमिरचके बराबर गोली बनायके रोगीका बल अवस्था देखके देवै, ऊपरसे शक्करका शर्बत पिलावै तो सर्व सन्निपातज्वर और नवीन ज्वरभी दूर होवै, परन्तु कुपथ्य न करै।

अथ मृत्युंजय रस।

पारा १ मासा, गन्धक २ मासे, सोहागा भुना-हुआ ४ मासे, बच्छनाग ८ मासे, धतूरेके बीज १६ मासे, सोंठ ११ मासे, मिर्च ११ मासे, पीपल ११ मासे इनको कूटि कपड़छान करके धतूरेकी जड़के रसमें एक दिन खरल करके उर्दके बराबर गोली बनावै, और रोगीका बल विचारके देवै वातपित्तज्वरमें नारियलके पानीके साथ मिश्री मिलायके देवै और खाली पित्तज्वरमे सहतमें देवै, सम्पूर्ण सन्निपातज्वरमें अदरखके रसमें देवै। यह मृत्युञ्जय रस सर्वप्रकारके ज्वरोंको नाश करै है।

अथ सन्निपातज्वरकी दवा।

शिङ्गरफ, विष, सोहागा, जावित्री, जायफल, काली मिर्च, पीपल, कस्तूरी इन सब दवाओंको बरा-बर लेकर खरल करै, पानीके साथ दो रत्तीके बराबर गोली बनायके सेवन करै तो सर्व सन्निपातज्वर जावें, पराना और नवीन ज्वर दूर होवे।

अथ जीर्णज्वरपर भैरवरस ।

त्रिकुटा, त्रिफला, सोहागा, विष गन्धक, पारा, जमालगोटा इन सबको एकमें खरल करे, गूमाके रसमें एकरत्तीकी गोली बनायके पानमें रखके खावे तो नवीनज्वर, त्रिदोषज्वर, विषमज्वर, जीर्णज्वरको नाशकरे इसपर मूँगका यूष देवै, पथ्यसे रहै अदरखके रसमें सर्वज्वरोंको दूर करै है ।

अथ संजीवनी गोली ।

वायबिडंग, सोंठि, पीपल, हर्रै, चीता, बहेड़ा, बच, गिलोय, शुद्ध भिलावाँ, अतीस इन सबको बराबर लेकर कूटि कपड़छान करके गोमूत्रमें खरल करै १ रत्ती प्रमाण गोली बनायके अदरखके रसमें सन्निपातज्वरवाले रोगीको देवै यह संजीवनी गोली सर्वज्वरको नाशैहै, भूखको लगावे, मनुष्यको जिलाती है, जिसका पेशाब बन्द होय उस रोगीको दो गोली देवै और सर्पके काटनेपर चार गोली देवै, पथ्यसे खावै ।

अथ मृतसंजीवन रस ।

शुद्ध पारा शुद्ध गन्धक एकएक तोले लेकर दोनोंको खरल करके लोहभस्म १ तोले, ताम्रभस्म १ तोले, बच्छनागविष १ तोले, हरतालभस्म १ तोले, मुरदाशंख १ तोले, मैनशिल १ तोले, शिंगरफ १ तोले, चीत १

तोले, इन्द्रवारुणी १ तोले, अतीस १ तोले, सोंठ १ तोले, मिर्च १ तोले, पिपली १ तोले, सोनामाखी १ तोले, भाँग १ तोले, जायफल १ तोले, पराश १ तोले इन सबको एकत्र कर अदरखके रसमें तीनदिन खरल करै पीछे काचकी शीशीमें भरके वालुकायंत्रमें दो पहर पकावै शीतल होनेपर एकदिन अदरखके रसमें खरल करै तब यह मृतसंजीवनी रस सिद्ध होय। यह रस महादेवजीका कहा हुआ है, बल विचारके रत्तीभर वा दो रत्ती वा तीन रत्तीभर देवै तो असाध्य भी दारुण सन्निपातज्वर दूर होय इसके ऊपर पथ्य गायका दूध देवै और सब चीजका परहेज रक्खै तो रोगीके फिर ज्वर नहीं आवै; भूख लगै बहुत जल्दी रोगीके शरीरमें नया खून बढै ।

अथ सन्निपातज्वरपर लेप ।

जो सन्निपातज्वर अथवा किसी प्रकारका ज्वर होय और पेटमें ऐसा जलन होय कि, मानो अग्निसे जलता है, उसके वास्ते यह लेप पेटपर करावे । विधि गायका माठा एक पाव वा डेढ़ पाव और ९ मासे हरदीको पानीमें पीसके उसी माठामें मिलाय देवै, बरतन समेत अग्निपर रखदेवै जब खूब पक जाय तो एक कपड़ा खूब मोटा एक बीता चौड़ा और लंबा लेकर उसी

माठामें बोर देवे जब सेत गरम रहे तब वही कपड़ा नाभीपर रखदेवे, जब शीतल होजाय तो फिर माठामें भिगोय देवे फिर नाभीपर रक्खे एक घंटातक इसीप्रकार करे, परमेश्वरकी कृपासे कलेजेकी सब जलन दूर होजाय, शिरका भी दर्द दूर होय, ज्वर नाश होय।

अथ बृहत्सुदर्शन चूर्ण।

त्रिफला, तालीशपत्र, बारीक इलायची, त्रिकुटा, त्रायमाण, निसोथ, मूर्वा, पीपलामूल, हल्दी, दारुहल्दी, कचूर, चिकणामूल, कुष्ठ, कटैली दोनों, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, निंब, पोहकरमूल, भारँगी, अजवायन, बाला, चव्य, चीत, सफेद कमलकन्द, तगर, काला बालछड़, बायविडंग, बच, धमासा, कुड़ाछाल, गिलोय, इन्द्रयव, देवदारु, पीतबाला, सेवाबीज, करूपरवल, कुटकी, पद्माख, तमालपत्र, अतीस, काकोली, मुलहटी, केसर, बंशलोचन, लौंग, पिठवन, दगड़फूल, सालवण, आमकी गुठली यह सब औषधियाँ पांच पांच मासे लेवै और चिरायता तेरह तोले लेवे, सब दवा नवीन नवीन लेवै कूटि कपडछान करके रख देवै। रोगीका बल विचार ज्वरको पहचान करके रोगीका लक्षण निदान करके यह बृहत्सुदर्शन चूर्ण देवे, यह सुदर्शन चूर्ण द्वंद्वज्वर, त्रिदोषज्वर, विषमज्वर,

वातज्वर, पित्तज्वर,कफज्वर, धातुज्वर, अभिघातज्वर, श्रमज्वर, मानसज्वर,दाहज्वर,शीतज्वर, तृतीयकज्वर, चातुर्थिकज्वर,विपर्य्ययज्वर, ऐकाहिकज्वर, द्व्याहिकज्वर, तेरहों सन्निपातज्वर, पक्षज्वर, मासज्वर, तृषाज्वर, मोहज्वर, दैनिकज्वर, तंद्राज्वर, श्वास, कास, अरुचि, पाण्डु, हलीमक, कामला, पशुलीशूल, शरीरभरका शूल, स्त्रीका रजोदोष, वात, पित्त और कफके विकार,शिरोग्रह,नानाप्रकारके देशके जलजदोष,त्रिशूल सम्पूर्ण वातविकार और विषविकार इन सर्वरोगोंको यह बृहत्सुदर्शनचूर्ण नाशै । गरम जलके साथ खावै जैसे भगवान् सुदर्शनचक्रसे दैत्योंको नाशैहै तैसे यह सुदर्शनचूर्ण सर्व रोगोंको नाशै है ।

अथ दूसरा सुदर्शन चूर्ण ।

त्रिफला, हलदी, दारुहलदी, दोनों कटैली, कचूर, सोंठ, मिर्च, पिपलामूल, मूर्वा, धमासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, मेंहदीके बीज, सुगंधबाला, निम्ब, पोहकरमूल, मुलहटी, कुड़ा, अजवायन, इन्द्रयव, भारंगी, सेवाबीज, त्रुटि, बच, दालचीनी, पद्माख, काला बाला, चन्दन, अतीस, चिकणा,शालिपर्णी, पृथक्पर्णी, बायबिडंग, तगर, चीत, देवदारु, चव्य, कटु परवल, पान, जीवक, ऋषभव (दोनोंके

अभावमें भूमिआँवला) लौंग, बंशलोचन, सफेद कमलकन्द, काकोली, तमालपत्र, जावित्री, तालीशपत्र, यह सब दवा बराबर लेवे, सब दवाका आधा चिरायता लेकर कूटि कपड़छान करके रोगीका बल अवस्था और रोग आदिको विचारके रोगीको देवै तो वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर, द्वन्द्वजज्वर, त्रिदोषज्वर, विषमज्वर, आगन्तुकज्वर, धातुज्वर सन्निपातज्वर, पीनसज्वर, ऐकाहिकज्वर, मोह, भ्रम, षा, श्वास, कास, पाण्डु, शीतज्वर, कामलाज्वर, त्रिकशूल, कटिशूल, जानुशूल, पशुलीशूल, इन रोगोंको यह सुदर्शनचूर्ण शीतल जलके संग नाशै है।

अथ लघुसुदर्शन चूर्ण।

पिपली, पिपलामूल, कुटकी, हर्रै, सोंठि, लौंग, निम्ब, दालचीनी, चन्दन, सबसे आधा चिरायता, लेकर सबको कूटि कपड़छान करके यह सुदर्शनचूर्ण सर्वज्वर तथा सर्व रोगोंको भी नाशै है। यह सुदर्शनचूर्ण वैद्यको धन और यश देनेवाला है। जैसा रोग देखै तैसे अनुपान कल्पना करके रोगीको यह चूर्ण देवै।

अथ वैद्यके लिये शिक्षा।

यदि वैद्यकके मतके अनुसार सातोंधातु सातों उपधातुओंको मारै शुद्ध करै, तो चूर्ण, गोली और रस

इत्यादिककी कुछ जरूरत नहीं है। इन्हींको अनुपानोंकी कल्पनासे देवे तो सर्व रोगोंको दूर करे हैं। जो वैद्य भस्मक्रिया नहीं जानतेहैं वे रोगको दूर नहीं कर सकते हैं। जो नवों विष, नवों उपविषोंका शोधन मारण नहीं जानते हैं तो वे रोगको दूर नहीं करसकतेहैं। रोगी और अनजान मनुष्यको धोखा नहीं देना चाहिये, सम्पूर्ण वैद्यकको पढ़ना और जानना चाहिये तब वैद्यकके मतके अनुसार दवा करना चाहिये।

अथ महाज्वरांकुश रस।

शुद्ध पारा, गन्धक, बच्छनाग विष इन तीनोंके बराबर धतूरके बीज लेवे इन चारोंसे दुगुना सोंठ, मिर्च, पीपलका चूर्ण करके अदरख और निम्बूके रसमें खरल करे ऐसे महाज्वरांकुश रस तैयार होता है। इसकी २ रत्तीकी मात्रासे देवे तो पांच प्रकारका विषमज्वर दूर होता है। यह रस त्रिदोषकोभी नाश करता है और अनुपानसे तेरहों सन्निपात ज्वरको नाश करता है पथ्य सब वस्तुका करे।

अथ लोकसुदर्शनरस सर्वरोगोंपर।

पारा, विष, वंग, हरताल, त्रिकुटा, त्रिफला, सोहागा, गन्धक, हर्र सबको सम भाग लेकर कूट कपडछान करके अदरखके रसमें एकदिन खरल करे फिर

निम्बूके रसमें एक दिन खरल करके चनाके बराबर गोली बाँधै एक गोली नित्य खाय तो रक्तवात और तेरहों सन्निपातज्वरोंको दूर करै, मूर्च्छा, वातज्वर और पित्तज्वर, कफज्वर दूर करै।

अथ तेरहों सन्निपातज्वरोंपर दवा।

शुद्ध पारा, गन्धक, विष, चाँदीभस्म, वंगभस्म, लोहभस्म, हरतालभस्म, धतूरा इन सबको एक एक तोला लेकर एक दिन अदरखके रसमें, एक दिन निम्बूके रसमें, एकदिन मेंहदीके रसमें, एक दिन भंगराके रसमें, एकदिन कुमारीके रसमें, एकदिन बबूरकी छालके रसमें, एक दिन गदहपुरनाके रसमें, एक दिन धतूरके रसमें, एक दिन हल्दीके रसमें खरल करै तो रस सिद्ध होय। यह अमृतके समान है इस रसको रोगीका बल रोग विचारके देवै तो तेरहोंप्रकारके सन्निपातज्वर, वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर आदि आठों ज्वरोंको नाशै है। सर्व वातरोगोंको नाशै है, क्षुधाको लगावे है।

अथ दूसरी दवा।

सोंठि,पीपरि,मिर्च,त्रिफला,त्रिकुटा सब दवा एक एक तोले लेवै और कूटि कपड़छान करके चिरायताके रसमें एकदिन खरल करै, गुर्चके रसमें एक दिन खरल

करे, भटकटैयाके रसमें एकदिन खरल करे, धतूरेके रसमें एकदिन खरल करे, अदरखके रसमें एकदिन खरल करे, पश्चात् मटरके बराबर गोली बनायके रोगीको अनुपानके साथ जैसा ज्वर होय वैसा देवै तो तेरहों सन्निपातज्वरको नाशै है, भूख लगावे है। यह गोली सब ज्वरपर देवै बालक, जवान और वृद्धको देवै कुपथ्य न करै।

अथ जीर्णज्वरांकुश रस।

पाराभस्म, अभ्रकभस्म, शीशभस्म, तांबाभस्म, लोहारस, वैक्रान्तभस्म, शिङ्गरफ, सोहागा, गन्धक, बच्छनाग विष, कूट इन सबको बराबर लेकर सोंठ, मिर्च, पीपली इन्होंके रसकी खरलमें भावना देकर दो दिन खरल करै, त्रिफलाके रसमें एक दिन खरल करै, नागरमोथाके रसमें एकदिन खरल करै, भृंगराजके रसमें एकदिन खरल करै, निर्गुण्डीके रसमें एक दिन खरल करै तब उर्द बराबर गोली बनायके रोगीका रोग और बल विचारके देवै तो जीर्णज्वर, क्षयी, कास, मन्दाग्नि, पांडु, हलीमक, गुल्म, उदररोग, अर्धाङ्ग-वायु, संग्रहणी, शूल सब प्रकारके अरोचक इन सब रोगोंको नाशै और यही कान्ति, तेज, बल, पुष्टि, वीर्य इन्होंको बढावैहै, असाध्य रोगको भी हरैहै।

अथ धातुज्वरांकुश रस ।

लोहा, अभ्रक, तांबा, पारा, गन्धक, बच्छनागविष, सोंठ, मिर्च, पिप्पली, त्रिफला, कुष्ठ इन सबको बराबर लेकर कूटि कपड़छानकरके भांगके रसमें, अदरखके रसमें, निर्गुण्डीके रसमें इन्होंको तीन दिन खरल करे और उर्दके बराबर गोली बनायके यह गोली अनुपानसे सर्वरोगको नाशैहै सब प्रकारके ज्वरपर देवै ।

अथ लाक्षादि तैल ।

सोरठा—आठ कर्ष लै लाख, चार आढ़ जलमें मिलै ॥
चौथाईको राख, षोडश पलभरि तेल लै ॥
दीजै संग मिलाय, आढ़क भरि गोदूध लै ॥
चन्दन कूट बताय, जाठौ कुटकी मुरहटी ॥

दोहा—हरदी असगन्ध रेनुका, बैसुरही देवदार ।
सौंफ रु मोथा चूर्ण करि, कर्ष कर्ष प्रति हार ॥
मंद आंचसों सिद्धकर, तबै लगावै तेल ।
कासश्वास प्रतिशा अरुचि, वायुरोग दे ढेल ॥
खाज शूल दुर्गंधता, विषमज्वर उन्माद ।
शारीरक पीड़ा मिटै, गर्भपुष्टको आद ॥

अथ नारायण तैल ।

दोहा—असगँध पाढ़ा गरेरुवा, नीम गोखरू लेब ।
श्याम सहरनी पथरसँग, सोनातरका देब ॥

और प्रसारनी लीजिये, दोय कटाई बेल ।
दशदश पल ए डारिये, चारि द्रोण जल मेल ॥
रस शतावरि आढ़भर, आढ़कभर लै तेल ।
और तेलसे चौगुनो, गऊमूत्रको मेल ॥
कूट सोंठ असगँधसरस,तगर सेंधोपरनीचार ।
शिलाजीत बच लायची, विष सुरहीको डार ॥
जटामांसी चन्दन बसा, और इन्द्रयव देव ।
दोदो पलभर लै सबै, कूट कल्क करि लेव ॥
मंद आँचसों दीजिये, ऋतुवसंतको पाय ।
तेल लगावत बातही, पक्षाघात मिटाय ॥
डाढ़ी जावै थंभ मिटि, इन्द्रीथंभ मिटाय ।
हाली सूजो गृध्रसी, शूल पसुरिया जाय ॥
सूखो गात रु बुध क्षयो, रोग कुरंग नशाय ।
अपस्मार झोला मिटै,गुल्म तुरत मिटिजाय ॥
जैसे सब दुष्टन हनत, नारायणकर खेल ।
तैसे सब वात रोगको, यह नारायण तेल ॥

अथ वासादि तैल ।

दोहा–जड़ गरेरुवाकी सरस, लीजे पहिले मँगाय ।
क्वाथ करै दशमूलको, दीजे फेर मिलाय ॥
कुलथी जल अरु बेल कहि,इनको क्वाथविचार ।
वसु वसु भाग सोरो कहे, तेल भाग एक डार ॥

सैंधो असगँध लीजिये, अरु मंजीठ विचार ।
पत्रज सोंठि इंद्रारुनी, शिलाजीतको डार ॥
कुटकी नागकेसर तगर, अगर सतावर लेय ।
दोय गुलीशर पथरसंग, जटामासी विष देय ॥
कल्क तेलमें डारिये, करे गर्म संयोग ।
छीन परिश्रम ते भयो, हरे प्रसूतिका रोग ॥
कीर्जी छीनको नाशही, राजनको अतियोग ।
खाय लगावै तेल यह, मिटै सवंरे रोग ॥

अथ शतावर्यादि तैल ।

दोहा–लेब शतावर गोखरू, क्वाथ कुरंटक बेल ।
दोपरनी अरु अंडजड़, अरु असगंधहि मेल ॥
दोय गरेरुवा सहित सब, सवा टंक भरि वेश ।
मिले चौगुने नीरमें, काढो करै सुदेश ॥
सोरह पलभर दूध लै, सोरह पलभर तेल ।
स्वर्स शतावर सहित लै, सोरह पलभरि मेल ॥
चन्दन सोंफ गरेरुवा, जीवर्षभ लाची द ख ।
नई नई सब लीजिये, सची दवा में भाख ॥
शिलाजीत मैदा तगर, कूट शतावर पांच ।
जटामासी कंकोलिरिध, और कमल पदमांच॥
देवदारु सब कर्ष प्रति, अरने कंडन आंच ।
सबको एक मिलान करि, पकै ईश्वरी बाँच॥

बीज बढावै तेल यह, पुत्रदानि यह तेल ।
जोनिमूल शिरशूल हर, अंगशूल यह टेल ॥
आंद्रित अफरा गृध्रसी, दाह सहित प्रमेह ।
प्रतीवात कांवर प्रदर, वात रक्त मिटि देह ॥
पांडु रु प्लीहा की हरै, रक्त पित्त करे दूर ।
राजयक्षमा मेटिकै, करै देह सुखपूर ॥

अथ मुखरोगपर तैल ।

दोहा–सौपल खेजा अँतरछाल, द्रोण भरो जलडारि ।
चतुर्थांशको राखिके, तेल आढभरि डारि ॥
खेजाकी लै अँतरछाल, लौंगै गेहू दाख ।
जाठौ छोटि इलायची, फूल रु धौके भाख ॥
कमलगटा तज कायफल, मोथा लोध पतंग ॥
खैर अगर कंकोल वर, करौ जायफल संग ॥
केसरनाग कपूर लै, और मँजीठ मिलाय ॥
कर्ष कर्ष प्रति कल्क करि, इनको तेल बनाय॥
सर्व रोग मुखके मिटैं, सो बल होय जो माश ॥
दांतनकी दुर्गन्धता, तुरत करै सो नाश ॥
शीश दर्द दशनन हिलन, विघ्र मसूढे फूल ॥
तरुवा जीभ रु ओष्ठके, कीरनको निर्मूल ॥

अथ बिल्वादितैल बधिरतापर ।

दोहा–लीजै बेल गरेरुवा, गऊ मूत्रमें पीश ।

चुरवै गायके मूत्रमें, भाषी समुझि मुनीश ॥
दूध छेरिको नीर अरु, द्रोन तेल मिलवाय ।
जो यह डारै कानमें, तुरत बधिरता जाय ॥

अथ हिंग्वादि कर्णरोगपर ।

दोहा-हिंगु सोंठि तुम्बुर मिलै, सरसों तेल पकाय ।
डारै तेलको कर्णमें, कर्णशूल मिटि जाय ॥

अथ पाठादितैल पीनसरोगपर ।

दोहा-पाठा हरदी दारुको, काना मुलहठी बास ।
पात चमेली तेलसों, मिटै पीनश लै नास ॥

अथ दशमूलादियोग ।

चौपाई ।

दो परनी लै बेल कुम्हेर । अरनी सोला पांडर हेर ॥
गोखरु दोइकटाई तूल । पांच पांच पल औ दशमूल॥
चित्रक पुष्करमूल बखान । इन्हैं पचास टंकभर आन॥
लोध गुर्च पल लै चालीश।धात्रीफल सोरह पल बीश॥
बारह पल सो कटाई लेय। खैर हरै सोरह पल देय ॥
कूट मँजीठ निशोत कचूर। देवदारु भारंगी पूर ॥
जाठौ जीरा स्याहबिडंग । कैथ रेनुका चव्यप्रियंगु ॥
जटामासी हरदी पदमाख। सौंफइन्द्रजव मोथामाष ॥

ककड़ासिंगी केसरनाग। वैसुर्हीं पीपर बड़भाग ॥
जीवक ऋषभ गुलीशर लेब । मैदा और सोपारी देब॥
ककरी अरु काकोलीक्षीर।ऋद्धिवृद्धि जानौ मतिधीर॥
और महामेदाको आन । दोदो पल सब लेब सुजान॥
चुरै अठगुणे जलमें लेब । मृत्तिकाभाजनमें धरि देब ॥
साठि टंकभर दाख बिचार । चुरवै डार चौगुनो बार ॥
एक तिहाई राख उतार ।शीरौ करि वहि जलमें डार ॥
चषवारौ अरु केसरनाग । दोदो पल लीजौबड़भाग ॥
सनभारिअरुकेसरको लेय।धारिभाजनमें डार सो देय ॥
एकमासमें उखार सो धरै । डारि निर्मली निर्मल करै॥
ग्रहणी अर्श भगन्दर शूल । वातरोग कांवर निर्मूल ॥
उबकाई मंदाग्नि रु काश । श्वास अर्ध परमेह विनाश॥
पांडु शर्करा उदरके रोग । पथरी मूत्रकृच्छ्रपर योग॥
क्षीणधातु क्षइ मेटै कुष्ट । गर्म तेजबल करै सो पुष्ट ॥

अथ कानरोगपर दवा।

दोहा–मनशिल गेरू द्वै हरद, यहै कानमें डारि।
कै दियलाके तेलसे, कानखजूरो मारि ॥

दूसरी दवा।

दोहा–विष गन्धक हरतार लै, समुद्रफेन पिसवाय।
पुरुषमूत्रसंग कानमें, डारि कीट मरिजाय ॥

अथ नामर्दीपर तैल।

दोहा–बीरबहूटी केचुवा, कनक बीज मँगवाय।
पीपल औरहु जायफल, ले समभाग मँगाय ॥
दवाके दूना तेल लै, तिल्ली तेल प्रमान।
सबको एक मिलानकर, मन्दी आँच पकान ॥
मालिश इन्द्रीपर करै, बांधि लसोडा पात।
बीस सात दिन नित करै, नामरदीमिटिजात॥
यह औषधि सच्ची कहों, मिलै भेड़का दूध।
टूटी हड्डी जोडही, खून करै सब शूध ॥

अथ लाक्षादि तैल।

कुलिंजन, लाल चन्दन, कमल, अतीस, पुष्कर-मूल, कमोदिनी, बाला, मंजिष्ठ, अगस्त्य, गेहू, कायफल, दोनों सारिवा, लोध, नागरमोथा, क्षीर-काकोली, खजूर, भद्रमोथा, आँवला, शतावरि इन सबको दो दो तोले लेकर चार सेर पानीमें काढा बनावै जब एक सेर पानी रहै तब आधा सेर लाखको दो सेर पानीमें औटालेवे जब आधा सेर रहै तब दो सेर गायका दूध, एकसेर दही और डेढ़सेर काली तिल्लीके तेलमें सब मिलायके पकावै जब सब दवा लाल होजायँ मानो जलसी जायँ तब इस तेलको कपड़ासे छानके रखदेवै और प्रतिदिन थोडा थोडा शरीरपर

मालिश करनेसे विषमज्वर और दाहको नाश करै है शरीरके पीलेपनको दूर करै। हड्डीके ज्वरको दूर करै है।

अथ दूसरा लाक्षादि तैल।

पीपलकी लाखका काढा २५६ तोले, तिलोंका तेल ६४ तोले, गायकी दही २५६ तोले इनको एकत्र कर फिर सौंफ, हल्दी, मूर्वा, कुलिंजन, पित्तपापडा, कुटकी, सँभालू, रास्ना, असगन्ध, देवदारु, नागर-मोथा, चन्दन इन सबको एकएक तोले लेकर कूटि कपड़छान करके सब एकत्र कर कडाहीमें डालकर धीमी २ आँचसे पकावै, जब औषधोंका रस जलजाय तेल शेष रहै तब छानके रख देवै और प्रति दिन थोडा २ शरीरपर मालिश करै तो वातरोग, विषम-ज्वर, काश, श्वास, पीनस, खाज, शरीरकी दुर्गंध, शूल, दाह और ग्रहदोषको हरैहै।

अथ सर्ववातरोगोंपर तैल।

मालकाँगनी ७तोले, सरसों ७तोले, तिल्ली ७तोले, रेंडी ७ तोले, सिंगिया ५ तोले, संखिया ५ तोले, धतू-रेके बीज ५ तोले, तम्बाकू ५ तोले, कुचिला ५ तोले, करियारी ५ तोले, आककी जड़ ५ तोले, सोंठ ५ तोले, मिरच ५ तोले, पीपरि ५ तोले, लहशुन ५ तोले, केसर ५ तोले, बबूरके बीज ५ तोले, इमलीके बीज ५

तोले, जायफल ५ तोले, कमलबीज ५ तोले सब कूटि कपड़छान करके गायके दूधमें ५ दफे भावना देवै, बकरीके दूधमें ५ भावना देवै, भेड़ीके दूधमें पांच भावना देवै, भैंसके दूधमें पांच भावना देवै, फिर एक सेर तिलोंके तेलमें खरल करै, सरसोंके एकसेर तेलमें खरल करै, गायके एकसेर घीमें खरल करै, पश्चात मिट्टीके बरतनमें भरि सात कपडमिट्टी करके पाताली यन्त्रसे तेल काढ़ै इस तेलको थोडा थोडा बकरीके दूधमें मिलाय मालिश करै तो टूटी हड्डीको जोड़ै, दर्दको शीघ्र नाशै, वातव्याधिको नाशै, शरीरभरमें जहांपर दर्द होय तहांपर मालिश करै, तो शीघ्रही नाशै, पंगुलपना दूर होय यह तेल सर्व तैलोंसे गुणकारी है ।

अथ पित्तकी जलनपर तैल ।

निम्बूका रस १० तोले, अनारका रस १० तोले, भंगराका रस १० तोले, इलायचीदाना १० तोले, खैर ३ तोले, शीतलचीनी २ तोले, लौंग १ तोले इन सबको कूटिके गायका दूध १ सेर, तिल्लीका तेल सवा सेरमें चुरावै, जब सब दवा जलजाय तो तेलको उतार लेवै, इसकी मालिश करनेसे सब वेदना दूर होयँ । फोडाफुन्सी सब नाश होयँ । घावको नींबकी पत्तीसे धोयल तब यह तेल कपड़ापर लगायके घावपर चिपकाय देवै

तो बहुत जल्द घाव भर जावै, यह तेल पित्तके घावको बहुत गुणकारी है, मालिश करनेसे पुरानेज्वरको नाशै है.

अथ पुराने घावपर तैल ।

डिठोहरीके पत्तोंका रस ८ तोले और बीज बराबर मेवड़ीके पत्तोंका रस ८ तोले, सत्यानाशीका रस ८ तोले, नींबके पत्तोंका रस और बीज ८ तोले, मेंहनीके पत्तोंका रस ८ तोले, खैर ४ तोले, चूना १ तोले, तिल्लीका तेल डेड़ सेर, गायकी दही १ सेर सबको एकमें मिलायके मधुर अग्निसे चुरावै, जब दवा सब जलजाय तो तेलको सिद्ध जानो पश्चात् घावपर लगावै तो घाव बहुत जल्द भरि आवै और शरीरपर मलै तो विषमज्वर दूर होय, पुराने घावको अच्छा करै ॥

अथ दांतपीड़ापर तैल ।

चमेलीके पत्ते ७ तोले हिठोहरीके पत्तोंका रस ५ तोले, अनारके पत्तोंका रस ५ तोले, जामुनकी छाल और पत्ताका रस ५ तोले, फिटकरी १ तोले, खैर १ तोले, बबूरकी छालका रस ५ तोले, हरड़ और बहेड़ाका रस ५ तोले, सैंधानोन १ तोले, मिर्च ५ तोले, हिंगु १ तोले, करू तेल तीन पाव, तिलका तेल तीन पाव लेकर सबको एकत्र कर कराहीमें छोंड़के मन्द मन्द अग्निसे चुरावै जब सब दवा जलजाय तेल शेष रहजाय

तो उतार लेवै जिसके दांत दर्द करैं वह इस तेलको मालिश करै वा मंजन करै तो दांतकी पीड़ा शूल नाश होय, कीडे मरजायँ,गायके घीमें मिलायके नास लेवै तो शिरकी पीडा दूर होय सब प्रकारका कानका दर्द भी अच्छा होय यह तेल घाव फोड़ा फुन्सीको दूर करै है।

अथ कानके दर्दपर तैल।

मनारके पत्तोंका रस ४ तोले, सहिंजनेकी छालका रस ४ तोले, करियारीका रस ४ तोले, ब्रह्मदंडीका रस ४ तोले, मिर्च ३ तोले यह दवा तीन पाव करुए तेल और तिल्लीके तेलमें मिलाय मधुर आंचसे चुरावै जब सब दवा जलजाय तेल शेष रहै तो उतार लेवै यही तेल कानमें छोड़ै तो कानका दर्द, कानका शूल, कानका पतंग कृमि सब नाश होयँ, जो कानमें घाव, फोड़ा, फुन्सी हों तो नाश होयँ।

अथ सेहुँवाँपर तैल।

कलीका चूर्न २ तोले, चौकिया सोहागा २ तोले, मुरदाशंख २ तोले, आँवलासार, गन्धक २ तोले, चन्दन २ तोले, करुवा तेल तीन पाव,गायका दूध १ सेर लेकर सबको एकमें मिलायके मन्द मन्द अग्निसे चुरावै जब दवा जलजाय तो तेलको रख देवै बोतलमें,

जहांपर दीनाय सेहुँवाँ दाद होय तहांपर लगावै तो दूर होय, घावपर भी गुण देवै, खून विकार हरै।

अथ लकवा झोलापर तैल।

पलाशकी छाल, सेमरकी छाल, भांग, सुरती, मेवड़ी, बकाइनकी पाती, अरुसकी पाती, बबूरकी छाल, नींबकी छाल, अकोल, सेहुँडका पत्ता, धतूरका पत्ता, मनारका पत्ता, कनैरकी पाती इन सबको पांच पांच छटांक लेवै और पांचसेर पानीमें चुरावै, जब डेढ़सेर रहै तब छानके सोंठि १ तोले, पीपरि १ तोले, मिर्च १ तोले, मेथी १ तोले, लहशुन १ तोले, धतूरके बीज १ तोले, अजवायन १ तोले, कुचिला १ तोले, सुरती १ तोले, सिंगिया १ तोले, संखिया १ तोले, भेलावाँ छ मासे, कडवा तेल, तिलोंका तेल सवासेरमें चुरावै जब सब दवा जलजायँ तो यह तेल सिद्ध जानो। इस तेलको थोडा थोडा मालिस करै सबेरे और दुपहरको, मिर्चको चूर्ण कर छेरीके दूधमें मिलायके मालिश करै सामको, उत्तम दारू जिसको बारंडी कहते हैं सो मलै तो ईश्वरकी कृपासे पंगुल भी अच्छा होय, लकवा झोला, वातव्याधि सबको नाशै और पुराने घावपर लगावै तो घाव अच्छा होय, खून जो बिगडा होय तो इस तेलमें छेरीका दूध और खैर मिलायके मालिस करै तो खूनविकार सब दूर होय।

अथ विषमज्वर-तपेदिकका वर्णन ।

विषमज्वर-जीर्णज्वर-तपेदिकज्वर यह हड्डी तथा नशमें समान रहताहै, कलेजेपर हरदम उसकी गरमी बनी रहतीहै, हड्डी जलतीहै, शरीरमें दाह सदा रहताहै, भूख बन्द होजातीहै, अग्नि मन्द होजातीहै, नाना-प्रकारके क्लेश शरीरपर होतेहैं, शरीरका खून पीला होजाताहै, बलनाश होजाताहै, यह ज्वर सन्निपातसे होताहै।

अथ तरबूजका शर्बत ।

बड़ेबड़े तर्बूजका जल चार सेर, निम्बूका रस एक छटांक, तीन पाव मिश्रीके शर्बतको मिलाकर चासनी बना लेवै, खुराक एक तोलेसे दो तोले तक देवै तो पुराना ज्वर, विषमज्वर, पित्तज्वर नाश होय, भूख लागै । पहिले रोगीको मुनजिश पिलाय दस्त करायके तब खवावे ।

अथ नीलोफलका शर्बत ।

नीलोफल ५ तोले, बनफसा ५ तोले, काहू ५तोले, कासनी ५ तोले, कुलफा ५ तोले, ककरीके बीज, तर-बूजके बीज १० तोले इन सबको थोडा देर करके तीन सेर पानीमें एक प्रहर भिगोय देवै फिर अग्निपर रखके चुरावे जब एकसेर बाकी रहे तब एकसेर मिश्री मिलाय

शर्बतकी चासनी करके रखदेवै और रोगीका बल रोग देखिके देवै तो पित्तज्वर, विषमज्वर, जीर्णज्वरका नाश होय, रोगी चंगा होय, भूख लागै शरीरकी गरमी दूर होय ।

अथ मीठे कद्दूका शर्बत ।

मीठे कद्दूका पानी एक सेर तरबूजका पानी एक सेर, धनियाँ १ पावको दो सेर पानीमें काढ़ा करै आधा सेर रहिजाय तो छानके नीलोफरको ४ तोले लेकर तीन पाव मिश्रीकी चासनी करके खावै तो पित्तज्वर, विषमज्वर, पुराना ज्वर, अस्थिगत ज्वर नाश होय । कलेजेकी गरमी, और शरीरका दाह नाश होय, भूख लागै, रोगी चंगा होय ।

अथ क्षुधासागर गोली ।

सोंठि १ तोले, मिर्च १ तोले, पिपली १ तोले, त्रिफला १ तोले, पांचों नोन १ तोले, सज्जीखार १ तोले, चौकिया सोहागा १ तोले, जवाखार १ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले, पारा शुद्ध १ तोले, शुद्ध बच्छनाग २ तोले सबको कूटि कपड़छान करै पश्चात् एक दिन अदरखके रसमें खरल करके मिर्चके बराबर गोली बनावै, एक गोली आठ फूल लौंगके साथ

खावै तो गई अग्नि प्रवेश करै, जीर्णज्वरको नाशै, क्षुधाकी वृद्धि करै, सब प्रकारके बवासीरको नाशै ।

अथ अजीर्णहरमहोदधि गोली ।

शुद्ध जमालगोटा, चीत, सोंठ, लौंग, गन्धक, पारा, सुहागा, मिर्च, बच्छनाग विष सबको सम भाग लेकर खरल करै, जमालगोटाकी जड़के रसमें १ दिन खरल करै, चीतके रसकी १५ पुट देवै निंबूके रसकी तीन पुट देवै, अदरखके रसकी सात पुट देवै, पश्चात् छोटी मटरके बराबर गोली बनाकर नित्य खावै तो शूलकी बीमारी, अजीर्णकी बीमारी, जीर्णज्वर, कास, अरुचि, पांडु, उदररोग, आमवात, बस्तिका आटोप, पेटका गुड़गुड़ाहट, हलीमक, मन्दाग्नि इन सब रोगोंका नाश करैहै ।

अथ क्षुधासागर दूसरा ।

बच्छनाग विष शुद्ध २ तोले, सोंठ १ तोले, मिर्च १ तोले, पीपली १ तोले, त्रिफला १ तोले, पारा शुद्ध १ तोले, आंवलासार गन्धक १ तोले, पांचों खार १ तोले, पांचों नोन १ तोले, नौसादर १ तोले, कलमी सोरा १ तोले इन सबको खरल करै पश्चात् कैथाके फलके रसमें, भँगराके रसमें, निंबूके रसमें, सहदेवीके रसमें और अदरखके रसमें प्रत्येकको सात

सात बार भिगोयके खरल करै तब यह क्षुधासागर तैयार होय तो सर्व प्रकारका अजीर्ण, आठ प्रकारके उदररोग नाश होयँ। पांडुरोग, शूलरोग, मन्दाग्निको नाशै, रुचिको करै, क्षुधाको लगावै, बवाशीरको नाशै।

अथ लौकीका शर्बत।

कड़ुई लौकीका रस १ सेर, गायका दूध १ सेर, लौंग १९ तोलेका रस, नौसादर ९ तोले, सैंधानोन २ तोले, फिटकरी १ तोले, सबको एक रस करै पीछे १ सेर कच्ची चीनी डालकर पकावै जब चासनी सिद्ध होय तो उतार लेवै, यह शर्बत श्वासरोग दमारोगको जड़से निर्मूल करै, खांसी गरमीको जिससे खाँसते समयमें गरम होजाय, गलेमें शहराने लगै तो शर्बतको बल देखकर सेवन करै तो वह दूर होय।

अथ शर्बत जीर्णज्वरपर।

पीपली १० तोले, सफेद चन्दन २ तोले, नौसादर १ तोले, ककरीके बीज २ तोले,. सबको कूटिके दो सेर पानीमें सामको भिगोय देवै, सबेरे चुरावै जब एक सेर बाकी रहै तब छाँनके एक सेर मिश्री छोड़के अग्निपर रखके चुरावै जब शर्बतकी चासनी होजावे तब उतार लेवै यह शर्बत रोगीको बल देखकर देवे, ऊपरसे जिस

गायके बछडा हो उसका दूध पीवे तो विषमज्वर जो हमेशह कलेजा पर जरता है सो दूर होगा, जीर्णज्वर और मन्दाग्निको नाशै, रुचिको बढ़ावै, भूखको लगावै शरीरकी निर्बलताका नाश करै।

अथ विषमज्वरपर शर्बत।

धनियाँ १५ तोले, पीपारि ५ तोले, चिरायता ५ तोले, सौंफ ५ तोले, सफेद चन्दन २ तोले, सबको ४ सेर पानीमें सामको भिगोय देवै सबेरे अग्निपर पकावै जब डेढ़ सेर बाकी रहै तब १ सेर चीनी मिलाकर पकावै जब शर्बतकी चासनी होजाय तब उतार ले यह शर्बत आठों ज्वर, विषमज्वर, ऐकाहिकज्वर, दूसरा ज्वर, चौथा ज्वरको नाशै, शर्बत चाँटके ऊपरसे गायका पक्का दूध पीतै, शरीरकी जलन और मन्दाग्निको नाश करै, रुचिको बढ़ावै, क्षुधाको लगावै।

अथ कनकसुन्दर रस।

सोनाभस्म ८ मासे, पाराभस्म १२ मासे, गन्धक शुद्ध १२ मासे, ताँमाभस्म २ मासे, अभ्रकभस्म ४ मासे, स्वर्णमाखी २ मासे, बङ्ग २ मासे, शुद्ध सुरमा ३ मासे, लोहाभस्म ८ मासे, शुद्ध बच्छनाग ३ मासे, ग्रंथिपर्णी ४ तोले, इन सबको एकमें खरल करै, पश्चात् एक दिन निम्बूके रसमें खरल करै, फिर

मन्द मन्द अग्निसे पकावे तब निकालके खल्वमें खरल करै तौ कनकसुन्दर रस तैयार होय उसको रोगीका बल और अवस्था देखकर अदरखके रसमें वा लहशुनके रसमें देवै तो परमेश्वरकी कृपासे सर्व सन्निपातज्वर नाश होय। किलास कुष्ठ, सर्व कुष्ठ, विसर्परोग, भगन्दर और सर्वप्रकारके ज्वरको नाशै, अजीर्ण तथा शूलको नाश करै, शरीरको पुष्ट करै, धातुको बढ़ावे, नवीन रक्त उत्पन्न करै और क्षुधाको बढ़ावे।

अथ सर्वज्वरपर गोली।

पीपरि ९ तोले, मिर्च ३ तोले, मूँगा रस १॥ तोले इनको सहदेयीके रसमें, मकोयके रसमें, अदरखके रसमें, एक दिन खरल करै तब रोगीका बल देख अदरखके रसमें देवै।

अथ सर्वज्वरपर शर्बत।

सहदेयी ९ तोले, नीमकी पत्ती ९ तोले, नागरपान ९ तोले, हरसिंघारीकी पत्ती ९ तोले, कुकुरौना ९ तोले, नौसादर ९ तोले, इन सबको कूटकर पांच सेर पानीमें काढ़ा करै जब डेढसेर रहै तब सवासेर मिश्री मिलाकर शर्बतकी चासनी करै, यह शर्बत सन्निपात ज्वरको छोडके सर्वप्रकारके ज्वरोंपर देवै तो उन सर्व ज्वरोंको नाश करै।

अथ शर्बत वायुशूलपर ।

अजवायन १० तोले, अजमोदा ५ तोले, अदरखका रस १५ तोले, मिर्च ५ तोले, तुलसीपत्र २० तोले, घी १० तोले इन सबको चार सेर पानीमें काढा बनावे जब डेढसेर रहजाय तब डेढ सेर मिश्रीकी चासनी करै और घृत छोंडकर जब डेढ सेर रहजाय तब उतार लेवे और रोगीकी अवस्था तथा बल देखकर मात्रासे देवे, सर्व शूल तथा जीर्णज्वरका नाश करै।

अथ शर्बत तापतिल्लीपर ।

सफेद फूलकी गदहपुरनाकी जड ५० तोले, सफेद फूलकी भटकटैयाकी जड ५ तोले, सफेद मिर्च १५ तोले, सफेदफूलके हुरहुरका रस १५ तोले इन सबको थोडा कुचलकर ५ सेर पानीमें काढ़ा करै जब दो सेर शेष रहै तब डेढ सेर सफेदकन्द मिलाकर शर्बतकी चासनी करके कांचकी शीशीमें रक्खे, यह औषध तापतिल्ली, यकृत्, बर्वट, वायुगोला, सफोदर, कठोदर इत्यादि उदररोगोंको नाश करै, प्रमेह, श्वास, दमा, जीर्णज्वरको हरण करै, भूखको लगावे, शरीरको नरम करै, दूध और रोटी इसमें पथ्य है ।

अथ शर्बत सव प्रमेहपर ।

भटकटयाकी जड २० तोले, गोरखमुंडी २०

तोले, गोखरू २० तोले, बबूरकी छाल १० तोले, बांसकी पत्ती १० तोले, गुर्च १० तोले, मिरच ५ तोले सबको थोडा कूटकर ५ सेर पानीमें काढा करै जब २ सेर रहै तब सवा सेर मिश्री छोडके शर्बतकी विधिसे तैयार करै तब उस शर्बतका सेवन करै तो सब प्रमेह रोगको नाशै, शरीरकी निर्बलताको हरै, भूखको लगावै, उल्टीसे मन बिगड़ेको अच्छा करै, भूख लगावै।

अथ शर्बत उदररोगपर।

कैथाके फलका रस १० तोले, निम्बूका रस १० तोले, ऊखका रस पुराना १० तोले, पांचो खार ५ तोले, पांचो नमक ५ तोले, मूलीका रस १० तोले, जामुनका शिरका १० तोले, काबुली हडका काढा १० तोले इन सबको एकत्र करके सवासेर कन्द मिला कर शर्बतकी विधिसे बनाय लेवै यह शर्बत सम्पूर्ण उदररोगोंको हरै है। जीर्णज्वरको नाश करै, रुचिको बढावै, मनको प्रसन्न करै और गुल्मरोगका नाश करै।

अथ शर्बत पुष्टिकरण।

मुलहटी १२ तोले, सोंठ १० तोले, जावित्री १० तोले, जायफल १० तोले, बादाम ९ तोले, चिरौंजी

८ तोले, पिस्ता ७ तोले, विदारीकन्द ६ तोले, गोखुरू ५ तोले, बिहीदाना ४ तोले, रूमीमस्तगीर ३ तोल, बबूरका गोंद २ तोले, केसर १ तोले इन सबको कूट कपडछान करके ६ सेर पानीमें दो पहर भिगोय देवै पीछे काढा करै जब अढ़ाई सेर रहै तब डेढसेर कन्द छोडके शर्बत बनावे यह शर्बत साम सबेरे खावे तो शरीरको पुष्ट करै, धातुको बढावे, बीस प्रकारके प्रमेह तथा स्त्रीरोगको नाशै, शरीर लाल होय, यह एक रत्न है।

अथ स्त्रीरोगका वर्णन।

कितनेही वैद्य प्रसूतिज्वरके विषयमें कुछ भी नहीं जानते कि, किसप्रकारका है, किस कारणसे होताहै, इसका पूर्ण वृत्तान्त यह है कि, जिसदिन बालक होनेको हो उसी दिन स्त्रीको ज्वर होय और बालक पैदा होय वही ज्वर स्त्रीके अंगमें लगा रहै, स्त्रीको और घरवालोंको मालूम न होय, आहार विहारके बिगाड़से कुपथ्य करनेसे स्त्रीके शरीरके ऊपर ज्वर प्रकट होय। खांसी, अतीसार, शरीरमें गरमी और सोथ, क्षुधाकी हानि, सब शरीरमें पीड़ा, तृषा, शरीर भारी, पेटमें शूल, अजीर्णके ज्वर जब ये लक्षण हों तब उसे प्रसूतिज्वर जानो। जब स्त्री रजोधर्मयुक्त हो तब प्रसूतिज्वरकी

जड़ नष्ट होजातीहै यदि सामान्य ज्वर हो भी तो औषधि करनेसे निवृत्त होजाता है। कोई स्त्री बालक-जन्मके दिनसे छः महीनापर रजोधर्म होती है कोई बारह महीनापर, कोई डेढ़ वर्षपर, कोई स्त्री दो वर्ष-पर, कोई अढ़ाई वर्षपर, कोई तीन वर्षपर रजस्वला होतीहै और कोई स्त्री एक ही बार रजस्वला होतीहै। एक पुत्र वा कन्या हुई फिर रजोधर्म बन्द होजाता है। फिर मरणपर्यन्त रजोधर्म नहीं होता सो यह सब विष-मता अपने २ कर्मोंके फलसे है जैसा करै वैसा पावै।

अथ प्रसूतिरोगपर दवा।

पहिले प्रसूतज्वरवाली स्त्रीको स्नेहपान कराकर रोगदोषको प्रगट करै तब अंडीका तेल पिलावै, फिर वमन करावै जो जुलाब देनेके योग्य न होय तो साधा-रण मुञ्जिश पिलावै जिससे शरीर शुद्ध होजावै।

अथ प्रसूतज्वरपर पुनः औषधि।

देवदारु, बच, कूट, पीपली, शुंठी, कायफल, नाग-रमोथा, चिरायता, कुटकी, धनियाँ, हरड़ै, गजपी-पली, कटैली, गोखरू, धमासा, बड़ी कटैली, अतीस, गिलोय, बेलफल, कालाजीरा इन सबको समभाग लेवो और क ढ़ामें सेंधानोन, हिंगु मिलाकर पीनेसे शूल, खांसी, ज्वर, श्वास, मूर्च्छा, कंप, मस्तकपीड़ा,

प्रलाप, तृषा, दाह, तन्द्रा, अतीसार, छर्दि इन सब उपद्रवोंके सहित सन्निपातज्वर और सूतिका रोगको नाशैहै, शौथको नाशैहै, भूखको लगावे है।

अथ प्रसूतिज्वरपर शर्बत।

बेलफल ५ तोले, भांग २ तोले, सोंठ १ तोले, मिर्च १ तोले, पीपरि १ तोले, सेन्धानोन १ तोले, गुलाबफूल ३ तोले इन सबको तीन सेर पानीमें जोस-देवै जब सवा सेर शेष रहै तब तीन पाव कन्द मिलाके शर्बतकी विधिसे तैयार करै इस शर्बतको एक तोले नित्य खावै तो प्रसूतिज्वर नाश होय, सब शरीरको पुष्ट करै।

अथ दूसरा शर्बत।

गुलाबफूल, वनफसा, भांग, सौंफ, इलायची इनको दोदो तोले लेकर कूट डेढ सेर पानीमें काढ़ा करै जब तीन पाव रहै तब उतारके छान लेवै डेढ़ पाव कन्द मिलाकर शर्बत तैयार करै। यह शर्बत साम सबेरे एक एक तोले खावै तो जीर्णज्वर, प्रसूतिज्वरको जड़से नाशै, मलको साफ करदेवे, भूख लगै, रोग जाय।

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास विरचित वैद्यक रसराजमहोदधिभाषाके पांचवें भागका द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

अथ तृतीय खण्ड ।

अथ नामर्दोंके दवा सेवन करनेकी विधि ।

नामर्द पहिले तीन दिन रेंडीका तेल पीवे फिर मुञ्जिस अर्कको चार दिन पीवे तब इच्छाभेदी जुलाब लेवे और चार दिनतक घी सहित खिचडीका पथ्य करै, खटाई तेलका परहेज रक्खे तब दवा करे ।

अथ मुंजिश ।

उन्नाब ६ मासे, मुनक्का ६ मासे, हर्र ६ मासे, गुलाबके फूल ६ मासे, मिश्री २ तोले, सौंफ ६ तोले, सनायकी पत्ती २ तोले इनको थोडा दरकर एक सेर पानीमें सामको भिगोय देवे, सबेरे चूल्हेपर रखकर अग्नि जलावे जब एक पाव जल रहिजाय तब छानकर पीवे इसी विधिसे तीन या चार दिन पीवे रोगदोष विचारकर, सब रोगोंपर मुञ्जिश पीवे तब पीछे दवा खावै ।

अथ जुलाब यूनानी ।

सनायपत्ती २ तोले, सौंफ २ तोले, हर्र पीली २ तोले, निसोत २ तोले, इन दवाओंको थोडा दरकर एक सेर गायके दधमें सामको भिगोय देवे तब सबेरे चूल्हे-

पर चढ़ायकर अग्नि मन्द मन्द जलावे जब एक पाव बाकी रहै तब छानकर रख देवे और सामको एक पाव पानीमें अमिलतासका गूदा २ तोले भिगोय देवे, सबेरे मलकर छान लेवे यहभी दूधमें मिलायके देवे और पश्चात् गुलकन्द २ तोले मिलाय कर खावे। यह जुलाब मुलायम और तर है, मलको पकाकर दस्त कराता है, पेटकी जलन और कृमि आदि दूर होते हैं। शरीरमें बल बना रहता है परन्तु तीन चार दिन इसी विधिसे दवा पीवे और सब चीजका परहेज रखै।

अथ इच्छाभेदी जुलाब।

छिल्के दूर कियाहुआ जमालगोटा २ तोले लेकर भैंसाके गोबरमें एक पहर पकावै तत्पश्चात् साफ करके गायके दूधमें पकाकर उसके अन्दरकी जीभी निकालके इमलीके पनामें खरल करके निम्बूके रसमें खरल करै और आंवरासार गन्धक १ तोले, पारा शुद्ध, चौकिया सोहागा, मिर्च इनको एक एक तोले लेकर कूटि कपड़छान कर एकमें मिलाय अदरखके रसमें खरल कर मटरके बराबर गोली बनायके मिश्रीके साथ खाय तो बहुत अच्छा जुलाब होय और रोग दूर होय।

अथ नामर्दीपर तेल।

शंखिया २ तोले, शुद्ध जमालगोटा २ तोले,

आँवरासार गन्धक शुद्ध २ तोले, मुरईके बीज ४ तोले, पीपरि २ तोले, शुद्ध पारा २ तोले, धतूरके बीज २ तोले, लौंग २ तोले इनको भेड़ीके १८ तोले घीमें खरल करके पातालयन्त्रसे तेल निकाल लेवे इस तेलको अग्निमें कुछ गरम करके नित्य मालिश करै यदि अधिक गरम जानपड़े तो भेंड़ीका मक्खन मिलाकर मालिश करै इस मालिशसे जिस रोगीकी इन्द्रियकी नश मरीगई हो अथवा उसमें नामर्दपना आगया हो तो सब दूर होवै ।

अथ लेप नामर्दीपर ।

असगन्ध, बच, पिपरामूल, कूट, धतूरके बीज इनको बराबर लेकर कूटि कपड़छान करके १ मासा यह दवा १ तोले घीमें मिलाकर इन्द्रियके अग्रभागको छोंड़कर शेष भागमें मालिश करै तो नामर्दी दूर होवे और मरीहुई नश भी ठीक हो ।

अथ दूसरी मालिश ।

अच्छे सुवरका तेल, ब्राण्डी और सहत एकमें मिलायकर रोज साम सबेरे मालिश करै, ऊपरसे बालूकी पोटरीसे सेंकै और शीतल वस्तुसे दूर रहै, पथ्यसे रहै, पुष्टिकारक दवा खावै ।

अथ बृहत्पाक अनेक रोगोंपर ।

असगन्ध, बिलारीकन्द नाम आरु, सफेद मुसरी, श्याह मुमरी, गोखरू, ईसबगोल, बीजबन्द, कमलगट्टा, इमलीके बीज, सोंठ, मिर्च, भांग, लौंग, नागकेसर, सफेद चन्दन, जायफल, जावित्री, मुनक्का, केसर, छोहारा, बादाम, चिरौंजी, अँवरा इन सबको चार चार तोले ले कूटि कपड़छान करके एक सेर घीमें भुनै और आधा सेर खोवाको घीमें भुनै जब लाल होजाय तब उतारै और डेढ़ सेर मिश्रीकी चासनी करै जब पागकी चासनी तैयार हो तब अभ्रकभस्म, चांदीभस्म, लोहाभस्म, वंगभस्म, रससिन्दूर यह रस दो दो तोले लेकर सब पागकी चासनीमें मिलाकर मात्राका अनुमान करके गोली बनावे, नामर्द रोगीकी बलावस्था देखकर खानेको देवे, चार महीनातक खावे ऊपरसे दूध घीका सेवन करै, पथ्यसे रहै, जबतक दवा खावे तबतक स्त्रीको त्याग करै तो शरीर पुष्ट हो, धातु बढ़ै, बल बढै, दशों इन्द्रियोंमें ताकत आवै, स्त्रीके प्रसंगमें थकावट न आवै, बल बना रहै, वीर्य बँधिजाय, पुत्र होय, बांझपना नाशै, नामर्दी जाय, यह पाक सब पाकोंमें उत्तम है इसके विधिपूर्वक सेवन

करनेसे शीघ्रही उक्त रोगोंका नाश होवै है। इस अनेकवारके अनुभूत पाककी जहांतक प्रशंसा की जावे वह सब इसके अमृतसमान गुणोंकी दृष्टिमें न्यून ही है। नामर्दीपनके दूर करनेमें तो यह रामबाणही है।

अथ प्रमेहनाशक दवा।

मोगली बेदाना ४ मासे, धनियां ४ मासे, सौंफ ४ मासे, गोखरू ४ मासे, ईसबगोल ४ मासे, बूटीफरीद ४ मासे लेकर सामको आधा सेर पानीमें भिगोय देवे सबेरे मलकर छान लेवै और २ तोले मिश्री छोड़के एक महीनातक पीवै तो सब प्रकारके प्रमेहरोग नाश होवें, संग्रहणी रोग, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, ये सब दूर होवें कलेजेकी गरमी और तृषा दूर होय।

अथ उदररोगपर दवा।

साँठीकी जड़, भटकटैयाकी जड़, मेवड़ीकी जड़ और मिर्च इनको चार चार मासे लेकर १ मासे गौके दूधके साथ पीसकर प्रातःकाल पीवै तो सब प्रकारके उदररोग, संग्रहणी, पाण्डुरोग, ज्वर, वातरोग और देहपीडाको नाशै, आंखोंमें रोग होय तो सांठी, भटकटैया मेंबडकी जड़का पानी और घी मिलाकर आंखोंमें डाले तो सब रोग दूर होवें।

अथ कामदेवमोदक रसायन।

अभ्रक भस्म ४ तोले, वंग भस्म २ तोले, पारा भस्म १ तोले, भांग ७ तोले, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर, जायफल, मिर्च, पीपरि, सोंठ, लौंग, जावित्री यह सब दवा दो दो तोले, कूटि कपडछान करके ३६ तोले मिश्रीकी चासनी कर ऊपरकी दवाको घीमें भूंजकर सब एकमें मिलाय मोदक बनाय उतारै पर १६ तोले सहत मिलाय बल अवस्था देखकर खाय तो सर्व व्याधियोंको नाशै, शरीरको पुष्ट करै, धातु, बल और वीर्यको बढावे, कामशक्ति और शरीरमें उत्तम कांतिको पैदा करै, स्त्रियोंके कामदवके अभिमानको नाश करै।

अथ कामदेव मोदकरसायन।

कौंचके बीज २० तोले गायके ८० तोले दूधमें पकावै, जब दूध गाढा हो जाय तब उतारकर बीजका छिल्टा दूर करके सिलपर पीस धूपमें सुखाय पिसानके समान पीसकर छान लेवै और भांग दश तोले, बिलारीकन्द दश तोले, इन दोनोंका चूर्ण, अभ्रक, बंग, शीशा, चाँदी, लोहा इनकी भस्म दो दो तोले लेकर सोंठि, मिर्च, लौंग, पिपली, इलायची यह दवा भी दो दो तोले लेकर कूटि कपडछान करके

सबको एक सेर घीमें भूँजे और पीछे पचास तोले मिश्री, तीस तोले सहत छोंड चासनी बनावे तदनन्तर सब दवा एकमें मिलाय छः छः मासेके मोदक, बनाकर शारीरिक दशा देख नित्य सेवन करै तो सब प्रकारके नपुंसकत्व दूर होकर पुरुषत्व तथा शरीरमें सुन्दर कान्ति प्राप्त हो और अनेक स्त्रियोंके साथ रमण करनेपर भी तृप्त न हो।

अथ कामसंदीपन मोदक।

असगन्ध, बिलारीकन्द, श्याममुसरी, मुरली, सोंठ, बडी इलायची, इनको चार चार तोले अमिलीके चिआ, बबूरके बीज, कौंचके बीज, इन तीनोंको चार चार तोले लेकर पहिले ४० तोले गायका दूध और २० तोले पानी छोंडके पकावे जब गाढा होजाय तब बीजोंका छिल्टा दूर करके धूपमें सुखाकर चूर्ण करलेवै तत्पश्चात् बीजबन्द, तालमखाना, ईसबगोल, इनके तीन तीन तोले लेकर सबको कूटि कपडछान कर शुद्ध भाँगका चूर्ण ११ तोले, और मिश्री ६० तोले मिलायके सहतमें वा गायके दूधमें सामको दो तोले खाय तो वृद्ध मनुष्य तरुण होताहै, बीस प्रकारके प्रमेह, सोमरोग और प्रदरको नाशै, शरीरको पुष्ट करै, बल वीर्यको बढावै, भूखको

जगावै, अरुचिको मिटावे, रुचिको करै, मन्द अग्निको नशावै, कामको जगावै, स्त्रियोंको सन्तुष्ट करै। कासश्वासको नशावै, गर्भको स्थितकरै, बिगड़े खूनको नशावै. नयेखूनको उत्पन्न करै, परन्तु कुपथ्य न करै।

अथ चूर्ण कामदेव पंचरत्न।

कमलबीज, कौंचबीज, गोरखमुण्डी, असगन्ध, बिलारीकन्द, इनकी छेल्टा दूर करके सात सात तोले लेकर चूर्ण बनावै तत्पश्चात् तीन बार बिलारीकन्दके रसकी तीनबार भाँगके रसकी, तीन बार केसरके रसकी, तीन बार जायफलके रसकी और तीन बार मुलहटीके रसकी भावना देकर पैंतीस तोले मिश्री मिलावे तब यह कामदेव पंचरत्न चूर्ण तैयार होय, इसको एक तोले सहतमें मिलाकर सबेरे खावे और शामको औटाये हुए दूधके साथ खावे, यह चूर्ण सब चूर्णोंमें अति गुणकारी और शीघ्रही लाभ पहुँचानेवाला है। यदि एकवर्ष तक विधिपूर्वक नित्य इसका सेवन करै तो पराक्रममें भीमके समान प्रतिष्ठित हो।

अथ प्रथम पुष्टिकर चूर्ण।

सोंठि, ऊसबा, असगन्ध, सफेद चन्दन, जेष्ठी मधु इनको चार चार तोले लेवे और शुद्ध भांग सात तोले लेकर सबको कूटि कपड़छान करके सत्ताइस

तोले मिश्री मिलायके एकतोले सामको और एक तोले सबेरको औटाये दूधके साथ रोज खावे तो शरीर पुष्ट होकर बल और वीर्यकी वृद्धि हो, प्रमेहरोगका नाश हो, क्षुधाकी वृद्धि हो ।

अथ द्वितीय पुष्टिकर चूर्ण ।

केवाचके बीज, शतावरी, गुरसकरी, तालमखाना, गोखरू, असगन्ध, बिलारीकन्द यह समभाग लेवे और इन सबके बराबर मिश्री मिलाय कूटि कपड़छान करके १ तोले खाय और ऊपरसे आधा सेर औटा दूध पीवे तो धातुक्षीणता दूर होय,प्रमेहरोगको नाशै, वीर्यको पुष्ट करै और कामशक्तिको उत्पन्न करै ।

अथ तृतीय पुष्टिकर चूर्ण ।

केवाचके बीज, शतावरी, गोखरू, तालमखाना, असगन्ध, मुसरी सपेद, जेठीमधु, बीजबन्द, गुरसकरीकी जड़, विलारीकन्द, श्याम मुसरी, मुरली,सोंठ, सांठी इन सबको बराबर लेवै और सबके बराबर मिश्री मिलाय कूटि कपड़छान करके डेढ़ तोले खावै और ऊपरसे दूध पीवे तो शरीरको पुष्ट करै नपुंसकपना दूर होकर कामशक्तिकी उत्पत्ति हो, सहस्रों कामातुर स्त्रियोंके साथभी रमण करनेसे बलकी क्षीणता न हो,

बीस प्रकारके प्रमेहरोग नष्ट होवें, बिगड़ा हुआ रुधिर शुद्ध होवे ।

अथ चतुर्थ पुष्टिकर चूर्ण ।

गोखरू, बिलारीकन्द, छोटी इलायची, मुलहठी, वग सब पांच पांच तोले लेकर कूटि कपड़छान करके दवाके बराबर मिश्री मिलायके १ तोले सहतमें खावे ऊपरसे दूध पीवे तो शरीरको पुष्ट करे, दश स्त्रियोंसे भोग करै बल न घटै, नपुंसकपना दूर करे, धातुकी बीमारीको नाशै ।

अथ पञ्चम पुष्टिकर चूर्ण ।

असगन्ध, मुलहठी, लोहारस, वंगरस, बराबर लेवे और सबके बराबर मिश्री उसमें मिलाकर बल अवस्था देखके खावे ऊपरसे दूध पीवे तो सब प्रकारके प्रमेह दूर होयँ, धातु पुष्ट हो, वृद्धपनाको नाशै, शरीर पत्थरके समान दृढ होय, क्षुधाकी वृद्धि हो ।

अथ धातुबलवर्द्धक योगराज ।

अभ्रक, वंग, चांदी, शीशा, सोना, लोहा, तामा, असगन्ध, बिदारीकन्द, गोखुरू, इलायची, जेठी मधु, पीपली, सोंठ सबको एक एक तोले लेकर कूटि कपडछान करके धतूरेके रस, बिलारीकन्दके रस, मेंहदीके रस, कुमारीके रस, भांगके रस, केसरके

रस और अदरखके रसमें सबकी एक एक भावना देवे, पश्चात् बराबर मिश्री मिलायके रोगीका बल, अवस्था, रोग देखकर खाय तो भीमके समान बलवान् होय, सब रोग दूर होवें, अनेक स्त्रियोंका भोग करै, बल न घटै, प्रमेह नाश होय, श्वास खाँसी और पाण्डुरोग दूर होयँ, शरीर रोगोंसे रहित पत्थरके समान दृढ हो, पथ्यसे खावै ।

अथ कामदेवगुटिका ।

छन्द—सोना तबक तांबा सोवंग, मोती अभ्रक लेइये ॥
रस सिंदूर जावित्री लौंग रु, जायफर लै देइये ॥
लै अगर इंगुर शुध कशेरू, बंशलोचन जानिये ॥
दो मुसरी तज इलायची, पत्रज बहेरौ आनिये ॥
जाठौ गरेरू कायफर, कुचिला सिंघारे ल्यायकै ॥
बीजा करेछ अतीस पुनि, पीपली मिर्च मँगायकै ॥
जीरा सफेद अफीम शृंगी, लै खिरहरी बीजको ॥
खारकमोचरसचीतासोंठिजु, शिलाजीततमीजको ॥
खैर गजपीपर बिलाई-कंद रु बीज धतूरके ॥
असगँध उटँगनबीज केसर, गरी गोंद बबूरके ॥
बादाम माजूफल आंवरे, हरैं काबुली मेलिकै ॥
लौंग गोंद किरवारो लै पुनि, भरँगी गूदो बेलकै ॥
अरु चिरौंजी कमलफलशुभ, अकड़कड़ाबखानिये ॥

जड़ जु लेवै कंकहीकी, दो दो कर्ष प्रमानिये ॥
कपूर कस्तूरी सरस, प्रेमा शिवा बसु ल्यावऊ ॥
पुनिभाँगघृतकोषोडशटँकभर, अरु तामें भुँनवावऊ।
फिरआनिमिश्रीपांचसेरहि, पाकसरिस बनाइये ॥
पसा प्रमाने गोली एकहि, नित्य उठिकै खाइये ॥
बलवीर्य थंभन पुष्टकर, बहुभांति वीर्य बढ़ाइये ॥
परमेह बीसप्रकारके सब, शुक्रदोष मिटाइये ॥
अरु होय मंदाग्नी तो पुनि, अति अग्नि देयबढ़ायसो॥
बहुभाँति इस्त्रीभोग वै पुनि, अन्धके सुखदायसो ॥
विधि प्रमान बनायके जो, नित्य उठि २खायसो ॥
नाशंत रोग शरीरके यह, भांति देत बताय सो ॥
घृत रु दूध सेवै सही, अरु महीना छः पथ्यसो ॥
रोग भागै भूख जागै, खून देह बढाय सो ॥
रोग भगन्दर बवासीरको, तुरत देय नशाय सो ॥
आमवात रु शोथ तनुके, कभी नियरे न आय सो ॥
नामर्दि नाशै पुरुषकी, अरु त्रिया बांझ नशाय सो ॥
काम बाढै तनुमें तबही, स्त्री चलीहै पराय सो ॥

अथ पीपरिपाक।

दोहा–आधसेर लै पीपली, ताको कहों सुमार ॥
सब पीपलिको चूर्ण करि, खांड़ पाकमें डार ॥

सेर एक खोवा कहत, घीसे भूँजो डार ।
जो औषध सब डारिये, तो सब कहत सुवार ॥

कवित्त ।

तज अजवायन सिंघारे मोथा सोंठि धना, आंवरे धतूरे बीज चन्दन बखानिये ॥ पत्रज विडंग खिरैटी जावित्री कमलगट्टा, जायफल मोचरस खोपरा लै आनिये ॥ लौंग नागकेसर छोहारे दाख मूसरी लै, शतावरी मिरच इलायची हू जानिये ॥सोनामाखी केसर आवरे बहेरे बंसलोचन, असगंध चीरौंजी कस्तूरी खैर मानिये ।

चौपाई ।

शीशाभस्म शेमर छाल लीजे । मात्रा टँक २ ढाई दीजे ॥
औषधकूटि इकट्ठाकरी। एक सेर मिश्रीकी पाक करी ॥
एक तोलेकी गोली प्रमान। बाढै कांति रोगकी हान ॥
दोहा–नाशै रोग शरीरके, बीसप्रमेह मिटाय ।
ऊपर पीवे दूधको, वीर्य पुष्ट होजाय ॥
आधी गोली सामको, आधी सबेरे खाय ॥
पीडा मिटी शरीरकी, वायू जाय नशाय ॥

अथ सुपारीपाक ।

छन्द ।

एक सेर भरि लेय सुपारी बीनिकै । छः सेर

गायके पयमें चुरावै पीसिकै ॥ तामें औषध परै जितनी सो जानि लै। धनियां सोंठि सिंघारे बहेरे आनिलै ॥ चन्दन मोथा लौंग पीपरी जानिये। केसर रु जीरा हरैं गोखरू मानिये ॥ तज पत्रज रु कंकोल नागकेशर सही।पुनि नई अजवायन खुरासानी कही ॥ श्याममुसरी दाख सुंदर पुनि चिरौंजी मानिलै। सब औषधैं अच्छी २ पुनि आनिलै ॥ कमलगट्टा जो अफीम असगन्ध कहौ। शेमर छाल मँगाय गरेरुवकौ लहौ ॥ अरूसौ लैलेब बिलारीकन्द हौ ॥ पुनरनवा जो हरत दुःख द्वंद हौ ॥ बंशलोचन लव जटामासी सुनो हौ। ले करैछके बीज शतावरीको कहौ ॥ गजपीपरी मँगाय सही सो मानि लौ। सबही मात्र ढाई ढाई टँक जानि लौ ॥ मिश्री सेर ढाईमें चासनी पाकिलौ। घृतकेसे सब औषधी भुँजवायलौ॥ एकमें सब औषधी डारे रु फेर मिलाय लौ। आठ २ मासे प्रमाने गोली सर्व बनायलौ ॥ सब प्रमेह नशायँ पीनस दूर हो। वायु पित्त कफजा नशाय सरभंग है ॥ पाण्डुरोग हरतो रु धातु बल आतहै। सब रोग तनकी जात जो यह खात है ॥ गुप्त करन यह पाक सेवे चित्त गहै। पथ्यसे जो रहै नर सो सुख लहै ॥

अथ चोपचीनी पाक।

पद्धरि।

पल आठ चोपचीनी जु लाय। पय सेर अढ़ाईमे चुराय॥ घृत आठ टंकभर ले सुबेस। वामें खोवा भुँजवा सुदेश॥ पल एक सौ मिसरी मँग य। फिर देव औषधी चूर्ण नाय॥ तज सोंठि मिर्च पीपर प्रियंग। पत्रज इलायची धना संग॥ असगन्ध निसोथ जाठौ बखान्। तालीश जटामासी सो आन॥ लै अकरकडा शृङ्गी सुभीत। कम्लगटा गोखुरू शिलाजीत॥ आँवरे बंशलोचन सुदेइ। अच्छी दवा सब चुनिकै लेइ॥ चन्दन बहेरो मुसरीहु दोय। मस्तंगी अरु सत गिलोय॥ मुलहठी नेत्रवाला बखान। मोथा जवासा हरैं आन॥ पुनि अच्छा जीरा केसर नाग। एक एक टँकभर विभाग॥ जायत्री जायफल लौंग बङ्ग। अभ्रक सु ताम्रकेसर अमंग॥ प्रति सों ए भाग पैसा प्रमान। गोली जु टंकभरकी सो जान॥ बहु अग्नि दिढ़ बलको बढ़ाय। नित नित जु याहि पथ्यसे खाय॥ परमेह बीस पित्त कास श्वाश। उपदेश वात सब गुल्म नाश॥ सुरभेद कान शिर नेत्र रोग। नाशै जो भगन्दर और सोग॥ दश आठ कोढ मिट चीनताइ। या पाग खाय सब रुज नशाइ॥ इस्त्री रु पुरुष खाय तो सबहुँ। बाढै बलवीर्य

घटै ना कबहुँ ॥ नवा खून पैदा करिदेय । दूध हमेशां पथ्यसे लेय ॥ जीर्णज्वर मन्दाग्नि नशाय । वैद्य लोग यह करौ उपाय ॥ नाशै रोग हरै तन पीरा । पाक बनाय खाव मनधीरा ॥ भगवानदास कहै विचारी । खावै पाक तो रहै निपारी ॥

अथ अदरखपाक ।

दोहा-डेढ़ सेर अदरख कहौं, गायदूध चरि सेर ।
तामें यह चुरवायके, करो फरहरो फेर ॥
पुनि गैयाके दूधमें, चुरय लीजिये बेश ।
तब औषधि सब डारिये, यों कीन्हों उपदेश ॥
कमलगटा मोथा मिरच, चव चित्तावर लेय ।
जीरा तज पत्रज कही, पीपरि प्रियँगु जु देय ॥
लेव चितावर चीन्हके, रोगको देय भगाय ।
भाग बरोबर सब दवा, लेवै वैद्य मँगाय ॥
कूटि बूँकि चूरण करै, गोघृतमें भुँजवाय ।
मिश्री सेर सो दोयकी, चासनि लेय बनाय ॥
सब एकत्र मिलायके, तोले डेढ़ प्रमान ।
एक साम एक भोरही, सेवै मित्र सुजान ॥
पाण्डुरोग सब देहके, मिटैं शीत अरु पित्त ।
भूख लगै सब दुख हरै, आर्द्रकपाक सो मित्त ॥
नीरोगी सब रोगते, भगतहि दिया बताय ।
खट्टा मीठा छोड़के, करो सुपथ्य बनाय ॥

अथ आम्रपाक ।

दोहा-पके आमका सरस रस, दो सेर लेय मँगाय ।
डेढ़सेर ले खाँडको, घृत त्रय पाव मिलाय ॥
तामें भूँजि सब औषधी, मधुरी आँच लगाय ।
दो छटांक भरि सोंठिको, कूटि रु कपड़छनाय ॥
आगे सब औषध कहे, सुनहुँ वैद्य धरिध्यान ।
पीपरि तज पत्रज धना, मिरच लौंग पुनिजान ॥
जावित्री अरु जायफल, नागकेसरहि मानि ।
अच्छी अच्छी औषधी, नई लेब सब जानि ॥
जीरा और इलायची, पञ्च पञ्च टँक जान ।
ताकी गोली बाँधिये, पांच टंक परमान ॥
खाय तो पीनश जातहै, रोचक पाचक होय ।
श्वास कास हिचकी मिटै, पाग पुष्ट है सोय ॥
खानेमें आवत बहुत, अति उत्तम यह पाग ।
जो सुपथ्य सेवन करै, दशहू इन्द्रिय जाग ॥

अथ दाडिमपाक ।

पके दाडिमनके सरस, रस इक सेर मँगाय ॥
आध सेर मधुमें मिलै, मृतिकापात्रमें नाय ॥
आध सेर लै खांडको, आधसेर घृत डारि ॥
यह औषधि सब जानिये, धना मिर्च निरधारि ॥

पीपल हर्रे आँवले, मोथा पत्रज आन ॥
लौंग बहेड़ इलायची, कमलगटा तज जान ॥
लेब सिंघारे चिरौंजिहू, औरहु केसर नाग ॥
पांचपांच टंके कही, लेब सबनको भाग ॥
मात्रा तोला एक है, पथ्य रु करै बनाय ॥
सर्वरोग पर देवही, रोगन गिन्ती नाय ॥
पुष्ट करै बल वीर्यको, धातुको देत बढाय ॥
नवाखून नित्यहि बढै, क्लीबपना नशि जाय ॥
बलवर्द्धक अरु सुखकरन, है यह पाक महान ॥
सबहि हेतु भगतै कहत, खावो मित्र सुजान ॥

अथ हरिद्रापाक।

दोहा–आधसेर हरदी कही, गायदूध सेर चारि ।
आधसेर घृत छोड़िकै, तब औषधि दो डारि ॥
सोंठि मिर्च पीपर बिडंग, हर्र बहेड़ा जान ।
इलची पत्रज आँवले, केसर नाग बखान ॥
तज निसोत पान डारिये, आधसेर मधु डारि ।
तीन पाव मिश्री कही, पाक विधीसो कारि ॥
दो दो तोले औषधी, कूटि रु कपड़ छनाय ।
निजबलको तब देखिकै, साम सबेरे खाय ॥
खात दाद गजचर्मता, सेहुवाँ होवै दूर ।
सोनेके सम देह हो, जानि पाक गुणमूर ॥

रक्तविकार नाशत सही, बढत रक्त बलधात ॥
गुणतो सब यह जानहू,पथ्यसे नितप्रति खात ॥
टूटी हड्डी जोडही, श्वास काश हो नाश ॥
बालक वृद्ध जवानको, कहत भगवान्दास ॥

अथ नारियलपाक ।

चौपाई ।

आठ टंकभारि गरीको लावे । चारसेर गोदूध मिलावे ॥
पकवावे तब गरी बनाय । ता पीछे घृतमें भुँजवाय ॥
डेढसेर फिर खाँड़ मिलावै । ताको लैकर पाकबनावे ॥
तब यह औषधि दीजे डारि । सोंठि मिर्चपीपारिनिरधारि
बंशलोचनहु जीरा लेव । खुरासान अजवायन देव ॥
अकडकडा मूराके बीज । भांग बेल अजमोद तमीज॥
मोथा लाची केसर नाग । तज पत्रज धनियाँका साग॥
पांच पांच टँकदिया बताई । डेढ तोलेकी गोलीखाई॥
प्रातकाल पुनि खावे संझा । मिटै क्लीबता जावै बंझा ॥
काम शरीरबहुतअधिकाय।सकलगुणनकीपाकबताय ॥
बलअरु बीज अधिकतबहोई। पथ्यसेपाक सेवैनरजोई
धातु बढै बलकी अधिकाई ।तब रोगी कर रोग पराई ॥

अथ कुचिलापाक ।

छन्द ।

कुचिला दोय टंक परमान, हर्र बहेरा औरो जान ॥

सोंठि मिर्च पीपर तज लेव, पत्रज चव्य चितावरदेव॥
अकडकडा मूराके बीज, भांग बेल अजमोद तमीज॥
मुशरी पुष्करमूल पवार, चन्दनलाल जवारो डार॥
गुडमें गाजरबीज बखान, भिलवांजड़ कनेरकी आन॥
कन्दबिलाई बीज धतूर, मोथा त्रयमानौ कर्पूर॥
रास्ना अरु जावित्री लेव, अरु निशोत दातोन सो देव॥
कंटकारि जायफल जान, और जवासो कहौं बखान॥
लौंग इलायची केसरनाग, पांचटंक मात्रा समभाग॥
सार वंग अभ्रकको आन, टंक अढाई प्रति सो जान॥
इन सबको जलमें पकवावे. फिर सब दूधमाहिं औटावे।
गोली मधुको डारि बनाय, टक अढाई प्रातहि खाय॥
सर्व कुष्ठ सुनबहरी जाय, आमवातको देय मिटाय॥
नाशै सभै उदरके वात, मिटै देहसुन सब दुख जात॥
बायुविकार सबहि नशिजाय।रहैनिशंक पथ्यसेखाय॥

अथ भिलावाँपाक।

छन्द।

भिलवाँ तीनसेर मँगवाय, सोरहसेर जलमें औटाय॥
सेर अढ़ाई जल रहै बाकी, गुड दो सेर बनावै पाकी॥
तिह्मिां देव औषधीडारि,दातोनचावचितावरबिचारि॥
निसोत पीपरी हरदी धतूर,अजमोदा पाठ पिपरामूर॥
सोचर सज्जी रसोत बिडंग, जड़ अँडपेडलैसोंठिहुसंग॥

मुलहठिलालचंदनतमीज, पदमाषमिरचसनकसोबीज
मेहँदी अरुअजवायन लेव,त्यागि पुराना नवासब देव
जीरा सेंधा और सोहाग,साम्हरि हरदीदारु सो भाग ॥
औषधि कर्षकर्ष भरि लीन, पाकविधीसेकारिधरिदीन॥
देखि काल बलरोगीखाय, ग्रहणीअरु अतिसारनशाय
सर्वकुष्ठ सुनबहारि पराय,गज चर्म रु दादहु नशिजाय
मिटैं आमवातादिक रोग, पाकसकल गुण करनेयोग ॥
वात व्याधि नाशै हो चंगा, जैसे पाप छुटै जलगंगा॥
मंदागिनि नशि अग्निप्रवेश, खाव पथ्यसे सुखीहमेश॥
यहिते अरुचि तोजायपराय,रुचिको देवे सदाबढाय ॥

अथ गोखुरूपाक ।

छप्पय-एकप्रस्थ गोखुरू दूध आढकमें डारै ॥
और गोखुरू चूर्ण दूध घृत करि एकसारै ॥
खैर लौंग अरु सार मिरच पीपरि जातीफल ॥
समुद्रशोष अजमोद आँवले लेइ अच्छा भल ॥
दोऊ जीरा हरदी अरु सोंठि बहेरो खस धरौ ॥
जाती कपूर केसर सुफलसम सबको चूर्ण करौ॥
चूर्ण और केसर मिलायकै यह सब तौलौ ॥
ताते आधी भाँग डारिदीजै यह जौलौ ॥
सबके बराबर खाँड औटिके पाक बनावै ॥
ता मधि यह सब डारि फिर गोली बनवावै ॥

देखि अग्निबलसमयपुनिगोली खायप्रवीननर॥
संभोग पुष्टीकर धातु प्रमेह रोग यह बीसहर॥
सोरठा-अस यह पाक बनाय, अच्छा पथ्य खावैसही॥
बल अतुल्य ह्वैजाय, भगत बिचारसों योंकही॥

अथ कुम्हडापाक।

चौपाई।

लाय एक कुम्हडा निरधार। छोटे टुकडा करे विचार॥
पांचसेर कुम्हडा जल डारि। चुरवै मंदाग्नि तर बारि॥
चुरे जानि कुम्हडाउतरावै। पीसिमिहीकर पीठकरावै॥
घीव टंक सोरह सो डारि। कुम्हडाको भूंजै निरधारि॥
पांचसेर मिश्रीको पाग। ऐसो करि जहि छूटै ताग॥
त्रिफला त्रिकुटा धना विचार। तजपत्रजलाची लघुडार॥
लीजै जीरा केसर नाग। और शतावरको बडभाग॥
नागबला स्यामसंसहदेव। अरु वालीशनिशौतसो देव॥
गजपीपर मोथा दातौन। तालमखानो तिलसमहौन
दाख गोखुरू मोथा लेव। चव्य कूट असगंधको देव॥
अरु करेछके बीज अचार। जाठौ अरु कचूरनिरधार॥
बंशलोचन पीपरामूर। लौंग कमलगट्टा कैपूर॥
जातीफल जायफलकंकोल। कन्दविदारी लीजै मोल॥
सेमर छाल सों सेंधा नोन। मुसरीकन्द कहो है जौन॥
माग सिंघारे दिये बताय। सोलह सोलह मासे लाय॥

इनको चूर्ण करै सुविचार। अभ्रक पांचटंक भरडार ॥
तब सब मिलै पाकमें डार।सिद्धहोय तब लेय उतार ॥
गोली दोटँककी बनवाय । प्रात एक दीजै सोखाय ॥
होय पुष्टिबल नेत्रकीजोती।धातु बढायभ्रमहुंको खोती॥
तृषा दाह प्रमेह सब जावै।दशों इन्द्रियनमें बल आवै ॥
कुष्ठ अठारह अठ ज्वरजाई।नवा खूनको देय बढ़ाई ॥
अतीसार संग्रहणी जाई।खून विकार सब देय नशाई ॥
बरत अग्नि जलदेयबुताय।तस बुझाय यह पाककोखाय
सुठिआरोग्य नरहोवै जोई। पथ्यसे जो खावैयह सोई॥

अथ पुष्टिमधुपाक।

छन्द-ये औषधैं मिलवाय बहुरी,चूर्णकरि या पाकमुध॥
तेकर बखान मैं कहतहौं,सब औषधैं आनियशुध ॥
तजपत्रजे अरुलेय पुनि सुठि, लायचीअसगंध जर
मोथाजुपीपलसोंठअरुपुनि, तगरचन्दन चितधर॥
जायफल सो कपूर औरहु, जाठौकेसर मिलायकर॥
अभ्रक रु लोहा बंग एकै, एक पल यह सबै धर ॥
दोहा-सबै कूटि कपडछान कर, एकमें देय मिलाय ॥
अच्छा सहत मँगायके, लेवै कपड छनाय ॥
सहत औषधी मिलायके,गोली सरस बनाय ॥
समय अग्निबलदेखिके, गोलीनितउठिखाय ॥
धातु बढावे बल करै, नाशै बीस प्रमेह ॥

कुष्ठ अठारहको हरै, पथ्य करै नर जेह ॥
कुम्हडा पाक समान यह, पुष्टकरन मधुपाग ॥
कुछ दिन सेवे नियमसे, दशो इन्द्रियाँ जाग ॥

अथ महापाक ।

शतावरी, गोखरू, खरहटी, गंगेरन, कवचबीज, तालमखाना, बिलारीकन्द इनमेंसे प्रत्येकको चार चार तोला लेवै और सोंठि, मिर्च, पीपरी, हर्र, बहेडा, आंवला, जमालगोटाकी जड़, दालचीनी, इलायची, तेजपात, सेंधानोन, कचूर, धनियां, खश, कंकोल, नागरमोथा, मुनक्का, बंशलोचन, जायफल, जटामासी, नागकेशर, इन्द्रजव, पीपलामूल, साल, शिलाजीत, गूगुल, जावित्री, अजवायन, कायफल, केशर, कस्तूरी, मेथी, मुलहटी, देवदारु, सौंफ, छुहारा, शुद्धपारा, गंधक, आंवलासार शुद्ध, चन्दन, तगर, जवाखार इन सब औषधोंको एक एक तोला और भांग ११२ तोले लेकर कूटि कपड़छान करके शतावरीका रस ५६ तोले भूमिआंवलाका रस ५६ तोले लेकर दोनोंको मिलाय सब दवाओंको भिगोवै, पीछे धूपमें सुखावै २ सेर खोवाको आधसेर घीमें और दवाको १ सेर घीमें भूँने और फिर ३ सेर मिश्रीकी चासनी करके उसमें सब दवा छोड़ै, ऊपरसे अभ्रकरस, बंगरस, ताम्ररस,

लोहसार, शीशारस, मोतीरस, मूँगारस इन सबको दो दो तोले लेकर एकमें मिलाकर मोदक बनाय बल विचारके खावै तो संपूर्ण उदररोग, पांडुरोग, शून्य-बहरीरोग, कुष्ठरोग, संग्रहणी, अतिसार, अस्सीप्रकारके शूल और चौरासीप्रकारके वातव्याधिरोगको नाशै धातुको बढ़ाय शरीरको पुष्ट करके बलको सदा बढ़ावै, बीसप्रकारके प्रमेहोंको नाश करै, स्त्रीमदका नाश करै, वीर्यस्तम्भ हो, भूखको बढ़ावै, मन्दाग्निको नाश करै, कमरका दर्द, विषमज्वर, खूनके विकार, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात और पथरीको नाशै। शरीरमें सुन्दर कांति हो यह महापाक अन्य सब पाकोंमें राजाके समान है। वन्ध्या स्त्री इसका विधिपूर्वक सेवन करैं तो उनका वन्ध्यापन दूर होकर उत्तम सन्तानकी प्राप्ति हो। स्त्री पुरुषोंके सम्पूर्ण रोगोंको हरनेवाला बलप्रद और अनेक रोगोंमें अनुभव किया हुआ शीघ्र गुणकारी सिद्ध पाक है। इसमें कुपथ्य खट्टे, मीठे आदि पदार्थका सेवन कदापि न करै और यथाशक्ति धर्म्मात्मा मनुष्योंका सब प्रकारके द्रव्यादिसे सत्कारभी करै तो अवश्यमेव लाभ होगा।

अथ प्रथम पाक नामर्दीपर।

पावभर भांग एक सेर पानीमें एक प्रहर भिगोवे

पश्चात् खूब मलकर धोवे और धूपमें सुखा चूर्ण बनावे फिर तीन सेर गायके दूधमें पकावे जब खोवा होजावे तब डेढ पाव गायके घृतमें खोवाको भूनै जब वह अच्छेप्रकार भुनजावे तब गुर्च, पीपरी, इलायची, जायफल इन सबको सात सात तोला लेवै बाला, जटामासी, केसर, पिस्ता, चिरौंजी, लौंग, असगंध, बादाम, केंवाचबीज, सोंठि इन सबको एक एक तोला लेकर कूटि कपड़छान करके गायके घीमें भूँजिके डेढ़ सेर मिश्रीकी चासनी बनायके सब दवा एकमें मिलाकर ऊपरसे चांदीरस, लोहारस, बंगरस इन सबको एक एक तोला लेकर छोड़ै और बल देखके खावै, ऊपरसे दूध घी खावै खट्टा तीता न खाय तो नामर्द मर्द होय।

अथ द्वितीय पाक नामर्दीपर ।

सहत्रा, असगंध, बिदारीकन्द, श्याममूसरी, सफेद मूसरी, केवांचबीज इन सबको पांच पांच तोला लेकर कूटि कपडछान करके तीनसेर दूधमें छोडके चुरावै जब खोवा होजावे तब घी छोड़के भूँजि लेवै तत्पश्चात लौंग, इलायची, पीपरी, सोंठि, तेजपात, दालचीनी, नागकेसर, छुहारा, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, जायफल, जावित्री, मुनक्का, गरी, बबूरका गोंद, रूमीम-

स्तंगी, सेमरका मुसरा, हरदी, बंशलोचन, भांग, चाँदीरस, लोहारस, बंगरस, मोतीरस इन सबको एक एक तोला लेकर कूटि कपड़छान करके घीमें भूँजिके पौने दो सेर मिश्रीकी चासनी करके सब दवा एकमें मिलाके एक एक तोलाके मोदक बनाकर बलानुसार खावै ऊपरसे दूध घीका सेवन करै तो धातुकी वृद्धि और शरीरमें बल हो; अन्नमें रुचि हो, कामशक्तिकी उत्पत्ति हो नामर्दी और बीसप्रकारके प्रमेहरोग नाश होवें खांसी, दमा, पाण्डुरोग, संग्रहणीरोग, कमरका दर्द, शिरका दर्द, मूत्रकृच्छ्र, मूत्रपथरी रुधिर और रुधिर सदृश लाल मूत्रका उतरना आदि सब रोग दूर होवें।

अथ तृतीय पाक नामर्दीपर।

असगन्ध और बिदारीकन्दको सोलह सोलह तोले लेकर कूटि कपडछान करके तीन सेर गायके दूधमें चुरावे जब खोवा होजावे तब आध सेर गायका घी छोड़के भूजै पश्चात् ईसबगोल, इलायची, केवांचबीज, लौंग, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, रूमीमस्तंगी, बबूरका गोंद, मोचरस, राल इन सबको दो दो तोला लेकर कूटि कपड़छानकर घीमें मिलाकै तत्पश्चात् डेढ़ सेर मिश्रीकी चासनीमें सब पहलेकी दवा और दो तोले वंगरस, दो तोले चांदीरस इन सबको एकमें मिलाकर

मोदक बनालेवे और विधिपूर्वक सेवन करे तो बीस-प्रकारके प्रमेहरोग, चौदह प्रकारके प्रदररोग, सोम-रोग, इत्यादि सब रोग दूर होवें धातुको बढ़ाकर शरीरको पुष्ट करे, इन्द्रियोंकी सुस्ती मिटे, नामर्दी दूर होय, कलेजेकी गरमी दूर होवे, पेशाबकी जलन नाश हो, सर्व प्रकारके विषमज्वरको हरे, अन्नमें रुचि उत्पन्न करे।

अथ चतुर्थ पाक नामर्दीपर।

गुर्चिका सत, श्याम और सफेद मूसरीका सत इला-यचीका चूर्ण, भांगका चूर्ण, केवांचबीजका चूर्ण, पिरो-जाका सत इन सबको सात सात तोला लेकर सबको कूटि कपड़छान करके ४० तोला मिश्रीकी चासनी करके सब दवा छोड़के अभ्रकरस, बंगरस, लोहरस, शीशारस, ताम्ररस, चाँदीरस, हरतालरस इन सबको एक एक तोले मिलायके बल विचारके खावै और ऊपरसे गायका दूध पीवै खट्टे तीखे तथा मीठे पदा-र्थोंका सेवन न करे तो नामर्दीपन, प्रदररोग, प्रमेह-रोग, विषमज्वर, बवाशीर, मन्दाग्नि और निर्बलता आदि रोग दूर होकर धातुकी वृद्धि हो, शरीरमें सुन्दर कान्ति हो।

अथ आँवलापाक।

चौपाई।

अच्छासुखाआँवलालावे। सोरह टँकभरितौलमँगावे ॥
चौंसठ टंक गोदूधमें डार। फेर करै मधुमें निरधार ॥
भोर समय दूधहि ढरकावे। नवादूधमें फिर डरवावे ॥
तीनबारयहिविधिमुनिभाख।शुद्धभयेजानिहिमबसाख॥
चौथे दिना आँवले धोय। पीसे शिला लोढ़ लै सोय॥
आँवलापीसिपीठकरवाय। चौंसठटँकभरदूधहिल्याय॥
गायदूधको कपड़छनाय। तामें अँवला देयमिलाय ॥
मट्टीका शुध बरतन लावे। तामें डारिअग्निचढ़वावे ॥
मन्दआँचकरि औटै सोय। खोवा सरस बनावैलोय ॥
आधसेर गोघृतको लावै। तामें खोवाको भुँजवावे ॥
मिश्री चौंसठटंक प्रमान। घोरि बनावे पाक सुजान॥
तज पत्रज लाची लघु देव। और नागकेसर सो लेव ॥
जावित्रीजायफल सोडार। खासीधनालौंग निरधार ॥
जीरातगरचन्दनलै दोय। कमलगटाजाठीलै सोय ॥
मोथा अरुकेसरमँगवाय। और कबाबचीनीकोल्याय॥
ये सब टंकटंक भरिपीस। चूरण करै सबनको दीस ॥
गायघीमेंसबचूर्णझलकारै। तब सो चूर्णपाकमें डारै ॥
सोरह मासे अभ्रक बंग। सो मेलै खोवाके संग ॥
औषध सरसमुनिनजनकही। बनायखायगुणदेखेसही॥

एक टंक भरिके अनुमान। नित्यहि उठिकै खायसुजान ॥
याकेगुणसबकहौंप्रमान । लीजैसमुझिभलीबिधिजान॥
बलअरुबीरजबहुतबढ़ावै । पित्तरोग चालीसमिटावै ॥
इस्त्री बहुत भोग करवावै । ऐसो धात्रीके गुण गावै ॥
बीसप्रमेहको देय नशाय । करैपथ्यचालिसदिनखाय ॥
अतीसार संग्रहणी जाई । नेत्ररोशनी सदा बढ़ाई ॥
यहै पाकपाकनमें चोखा । जावै रोग होय नहिं धोखा॥
प्रदररोग अरु सोम नशावै। गरम वस्तुकोकभीनखावै ॥
हाथपांवकी जलनमिटाई । वोकउपन्थसबजायपराई ॥
गाय दूध घी सदैव खावै । नवाखूनबढविकृतिनशावै॥

अथ अण्डपाक ।

चौपाई ।

अडबीज एकसेर मँगावै । ताके छिलका दूर करावै ॥
पुनिछहसेरदूधमिलवावै । ताकोडारिके सुठिचुरवावै ॥
खोवासमानहोजबजाना । वाकोपीसिकरैपीसाना ॥
घृतसेरएकपुनिअच्छालावै। खोवामेंघृतआधमिलावै ॥
मंदअग्निसे वाकोभूंजो । रखिके अलग सुनोअब दूजो॥
सोंठमिर्चअरुलौंगपीपरी । लाचीतमालपत्रशतावरी ॥
आसगंधरास्नादालचीनी । षटगन्धापितपपड़ालीनी॥
हड़बालासांठीनागकेसर । जावित्रीजायफललैकेसर ॥
यह सब दवा तोल परमान। दोदो तोले लेव सुजान ॥

कूटि बूँकि कपड़ासे छान । घृतडारे भूँजे धारिध्यान ॥
डेढ़सेर मिश्रीका पाग । होय चासनी जब टूटै ताग ॥
अभ्रक बंग रु लोहासार । सवासवा तोला भरिडार ॥
सभैमिलाय एकरस करी । बीस मासेकी गोली धरी ॥
एक साम अरु एक सबेरे । खावै रोज पथ्य करु ढेरे ॥
असी शूल चौरासी बाई । उदररोगको देय मिटाई ॥
पित्तरोगसब जायँ पराई । अठरह कुष्ठको देय नशाई ॥
क्षयरोग रु पांडूसंग्रहनी । बीसप्रमेह श्वासकोहरनी ॥
साठिजु नाड़ीव्रणहिभगावै । दूध रु घी ऊपरसे खावै ॥
बलअरु बीर्ज सदाहिबढ़ावै । खावै पुरुषइस्त्रीसुखपावै ॥

अथ खण्डघृतपाक ।

चौपाई ।

तालमखानानगदबाबची । ईसबगोलगोंदिलेवैसची ॥
बीजबन्दरुकौंचकेबीआ । नागरमोथाअमिलीचीआ ॥
देव मस्तगीरोमी भारी । तौल बराबर लेवै सारी ॥
कूटिछानिसबएकसमाना । दवाबराबरमिश्रीमिलाना ॥
मिश्री बराबरघृतकोडागी । सबै मिलायधरैएकपारी ॥
दोतोलेयहदियाबताय । प्रातकालअरुशामकोखाय ॥
बीस प्रमेहजलनकेटारी । मनइच्छा खावै नरनारी ॥
बाढ़ै धातुबलबीरजभारी । खाय पुरुषभावैतबनारी ॥
प्रदररोगकोदेयनिकारी । सभैत्यागिपथ्यकरेभारी ॥

यहै दवाईसबसेभारी । लगै भूख बलकीअधिकारी ॥
बरत अग्निकोदेय बुझाई । भगवानदास यहदेतबताई ॥

अथ पिस्तापाक ।

चौपाई ।

पिस्ताछोहारानागकेसर । बदामजायफलसोंठिकेसर ॥
जटामासीतजपातदालचीनी।बोवाँचबीजलेवै नवीनी ॥
जावित्री असगंध नगावरी।कमलगटा औरहु शतावरी॥
चीरौंजी मिरचां बीजबन्द । दो मूसरी बिलारीकन्द ॥
चारिचारितोलेभरिलेवै । मिश्री सवादोसेर सो देवै ॥
सवासेर खोवा मँगवाई । सेर एक घीमें भुँजवाई ॥
अभ्रकमोतीबँनलोहासार । मूँगातोलातोलाभरिडार ॥
विधिप्रमानपाककरुसोई । सबैमिलायएकरस जोई ॥
बलविचार नरखावैजोई । धातुबढ़ाय महाबल होई ॥
पुष्टशरीरजावैनामरदी । बढ़ै अग्नि होवै नहिं सरदी ॥
जन्मभरि स्त्री विदासी । पुरुषकरकभीहोवैनहाँसी ॥
भागैरोगनिकटनहिंआवै । नियमपूरवक पथ्यसे खावै॥

अथ नामरदको पुष्टिकरन ।

चौपाई ।

भांगसोंठिगुरूचिमँगाय । हरदीपीपरिमिरच मिलाय ॥
बबुलगोंद इलायचीजान। स्याम मूसरीभाग प्रमान॥
दवातोलेतीनतीनमँगाई । कूटिपीसिकपडछानकराई ॥

आधसेरघीमेंभुं ,वाय । मिश्रीसवासेरकोपाकबनाय ॥
चाँदीरस औ लोहासार । मूँगा मोती बँग हरतार ॥
तोले तोले सबहि समान । लेकर सबहि पाकमें सान ॥
बल विचारिके खावे जानि । सब प्रमेहकी होवे हानि ॥
बल बीरजको देय बढ़ाय । नामरदी तब जाय पराय ॥
पुष्ट शरीर पथरसमहोई । पथ्यसे खावे जो नर सोई ॥
शीतवातनियरेनहिंआवे । मासदोयद्वयसन्ध्याखावे ॥
भूखलगायकामकोजगावे । धातुबढ़ायप्रमेहनशावे ॥
आमवाततनशोथनशावे । क्षीरुजपाण्डूखाँसीजावे ॥
खट्टातीता मीठा त्यागो । तब शरीरसे रोग जा भागो ॥
यहे दवा कीन्हे सुविचारी । जावे रोग खावे नरनारी ॥

अथ त्रिफलादियोग ।

दोहा–त्रिफला और मुलेहटी, इकइक भाग प्रमान ॥
लोहा चार जु भाग ले, पीसे एक मिलान ॥
सहत रु घिरत मिलायके, बल बिचारिके खाय ॥
शाम समै जो सुघर नर, नयन रोग सब जाय ।
पुष्ट शरीर रु महाबल, धातु पुष्टि ह्वै जाय ॥
सेवै महीना पांच जो, बल पुनि बुधि अधिकाय
वर्ष एकसौ वह जिवे, यह त्रिफलादि है योग ॥
खट्टा तीता त्याग ही, रहे न तनमें रोग ।

अथ पुष्टिकी दवा।

दोहा–भांग आसगन्धा अरु, शुद्ध धतूरा बीज।
केसर सबन बराबरहि, पीस एकट्ठा कीन॥
मिश्री दवा बराबरी, मासे सात सो खाय।
दूध रु घी सेवै सही, देह पुष्ट होजाय॥
धातू बल बाढे सही, नामरदी तन जाय।
बल बाढै सुठि भीम सम, बडे पथ्यसे खाय॥
यह समान औषध नहीं, विधि परमान बनाय।
तीता खट्टा छोड़के, तीन महीना खाय॥

अथ महापुष्टिकी दवा।

दोहा–कमलगटाके बीजको, असगन्ध नगौरी लेय।
भांग शुद्ध कर मेलही, सत गुरुचीको देय॥
कन्द बिदारीको कह्यो, भागभाग परमान।
मिश्री सबन बराबरहि, पीसि करै पीसान॥
तोला इक नित खावही, शाम सबेरे नेम।
पुष्टि शरीर महाबल, चूकै नहिं नर टेम॥
बीस प्रमेहको नाशही, धातु बुद्धि अधिकाय।
पथ्यहु करै अनेक जो, दूध रु घृतको खाय॥
धातू बल बाढै सही, खून रु भूख जगाय।
निर्बल अवर नपुंसको, भगतजु दिया बताय॥

दवा रसायन है यह, परीक्षा किया
कामीको काम देवही । बल तो होय

अथ अवलेहविधि ।

दोहा--काढो गाढो होय जब, सो अवलेह बखान ।
एक टंकभारि भक्षिये, बुधजन कहत प्रमान ॥
खाँड़ रु मिश्री चौगुनी, औषध ते यह डारि ।
दूनों घृत गुड चौगुनी, पतरी गाढ विचारि ॥
तार बँधै अवलेहमें, तब पाको वह जान ।
जबलग उठत है बुलबुला,तबलग अपकप्रमान॥
पंचमूलको क्काथ अरु, रूसौ क्काथ बखान ।
दूध जो सरसै ऊषको, ऊपरेसे अनुमान ॥

अथ कण्टकारि अवलेह ।

दोहा-कण्टकारि जड सेरभर, द्रोन एक जलडारि ।
चतुर्थांशजल जब रहै, चूर्ण करिय यह डारि ॥
गुरुचिचितावर चवसहित, मोथात्रिकुट कचूर ।
किरवारां रु जवासहूँ, भंगी केकरा पूर ॥
बायबिडंग भरंगि यह, एकएक पल लेय ।
खाँड बीसपल तेल घृत, यह सोरह भर देय ॥
अवलेहौ जब होचुकै, शीतल करे उतार ।
बंसलोचन ले चारपल, सहत आठ पल डार ॥

चिकने बासनमें धरो, फिर यह गोली खाय।
काश श्वाशको हरत है, हिचकी तुरतनशाय॥

अथ कण्टकारि अवलेह।

छन्द।

पांडर कुम्हेड़ सोवा कचूर, चन्दन सफेद पुषकरे मूर॥ गोखरू बेल पिट्यौन दाष, शालोन हरे परनि-माष॥ पीपारि कमलफल आँवले लेव, मोथा पुनर्नवा सो देव॥ कंकोल बेश गुरुची सुदेश, नासिका काक एला सुबेश॥ मैदा सो मूँगपरनी बखान, ककरासिंगी-जावक सो आन॥ रूसो बिलाईकंद डार, जीवन सहित पलपल विचार॥ सबदवा अच्छी देखिकै लेव, जल द्रोन भरि तामें सो देव॥ रहै अष्टमांश तो दे उतार, फिर पात्रमें ताको निकार॥ पल सात घृतमें ले अकोर, पुनि कल्कसहित सब लेवजोर॥ पल तीस बीस खाँडहि मिलाय, अवलेह फिर सबको बनाय॥ चूरण सो कल्कमें देय डारि, परिपक्क हो तब ले उतारि केसर सो नाग रु तजहि वेश, पत्रज इलायचि लै सुदेश॥ सब पौन पौन पैसा सो डार, शुभ बंशलो-चन पलहि चार॥ षटपल महुष पीपर सुदेश, खावै विचार बलै सो बेश॥ स्वरभङ्ग गजयक्ष्मा सो बात, सब हृदय मूत्रके रोग जात॥ मिटै वीर्यदोष अरु वात

पित्त, नारीविषयसुख लहै चित्त ॥ मेटै अजीर्ण अति-प्यास नाश, छाताकी पीर मिटै काश श्वास ॥ शुभ करै कान्ति काया प्रकाश, सब रोग हरै "भगवानदास"

अथ कुम्हडा अवलेह ।

दोहा-श्वेत कोहड़के दोइसौ, पल भर गूदा डार ।
डारि दूध पकाइये, आधो राखि उतार ॥
फिरनिचोरि सुखवायके,वसुपलघृतमेंअँकोर ।
डारै फिर वा क्वाथमें, सौ पल खाँड सँजोर ॥
ताको कीजै क्वाथ अरु, सूखे चूरणकार ।
पीपर चूर्ण रु सोंठिको, दो दो पलभर डार ॥
असगँधमिरचइलायची, इकइस पलभरडार ।
चार टंकभर मधु मिलै, रक्तपित्त ज्वर टार ॥
क्षयी सुजाक भ्रांतिसर, काश श्वास मिटाय ।
उबकाई अरु प्यासहर, पांडु दूर होजाय ॥
पुष्टि करै अरु बलकरै, रहै गर्भ संभोग ।
बाल वृद्धको दीजिये, कहत सयाने लोग ॥

अथ दशमूलादि अवलेह ।

दोहा-लीजै दशमुल आठपल, पलअजमा निरधार ।
पीपरामूल चितावरी, अधझारो लै डार ॥
भारंगी शंखाहुली, बीजकरेछ कचूर ।
गजपीपर पुषकर मुसलि, दोदोपल सब पूर ॥

इनको क्वाथ बनायके, डार कराहि मँझार ।
सौ हरैं डारे बड़ी, रूसो ले पल चार ॥
दो दो हरैं खाय नित, अर्श श्वास अरु काश ।
क्षयपीनसंग्रहनी अरुचि,हुचकीरोगविनाश ॥

अथ अष्टोत्तरीकुरैयादि अवलेह ।

दोहा–छाल कुरैया एक सौ, पल द्रोनों जल लेय ।
चतुर्थांश जल राखिके, तब कराहमें देय ॥
फिर डारै गुड़ तीस पल, चुरवे तबै सुजान ।
तब ये औषधि डारिये, तब यह कहत बखान ॥
त्रिफलात्रिकुटारसोतहू,बचभिलावपाढासतीस ।
बेल इन्द्रयव मोचरस, चषबारो सम पीस ॥
लजवंती चीतावरी, बायविडंग बखान ।
ये सब पल पल डारिये, शीतल करै सुजान ॥
सरसमहिष सो घृत तबै, चार चार पल मेल ।
सर्व अंश खातहि मिटै,पांच अरुचिको ठेल ॥
काबर शोथ प्रवाहक, ग्रहणी अरु अतिसार ।
घटै पित्त अरु रक्तपित, दुर्बलताको मार ॥
अनुपान याको कहतहूँ, समुझहुबुद्धिसुभाव ।
यहै गायघृत दूध अरु, मट्ठा दहीको खाव ॥

अथ घृतकल्याण ।

चौपाई ।

जितनीऔषधिकहीहैंजोय । तातेघृतचौगुनलै सोय ॥

चौगुनजलऔषधिसोंलेय । तामेंरातिभिजायसोदेय ॥
प्रात चुराय चौथाईराख । औषधिफिर वाहीमेंनाख ॥
जब जलछानिकैलेयउतार । तहांदूधकोकहौविचार ॥
दूधचौगुणो लीजैसोय । मठा और रसको जहँ होय ॥
इनमेंरातिभिजायसोदेय । प्रात कलकसोघृतमेंदेय ॥
औरचौगुणो डारैबारि । चुरवैफेर घिरत निरधारि ॥
चब औषध जाने निर्जीव । तब उतारि लीजै वह घीव ॥
जब फूलनकोघीवबनावै । तबैघीव अठगुणोमिलावै ॥
चारगुणो जल तामें डार । जलै छानके लेय उतार ॥
बातीबँधैकल्ककीसोय । धरत अग्निपर सबभलहोय ॥
ताकीसिद्धिलीजैयौंताक । तीनप्रकारघीवकोपाक ॥
कोमलमध्यमकठिनसुजान।तिनकेगुनकोकरतबखान ॥
कल्क मांझ थोरा रस आन । सो कोमल जानै परमान॥
कोमल कल्क बनो कछु होय।पै वह नीरस जानैसोय॥
मध्यम घीव ताहि अवरेख । कच्चो रहो जानगुणरेख ॥
कोमल पाकको नाश सो देय ।मध्यममध्य कर्ममेंदेय ॥
कठिन लगैबेको यह साज। आंबै दाह करैबे काज ॥
जादिनघीवबनायसो लेय। वाहीदिनरोगीको देय ॥

अथ तेलकी विधि ।

सोरठा–पीपरि पिपरामूर, चव्य चितावर सोंठिकहि ॥
सेंधौ पलपल पूर, दूध चौगुनेमें मिलै ॥

षोड़श पल घृत आन, पीयत प्लीहा नाशही ।
विषमज्वरको हान, मन्दाग्नी मिटि रुचि करै ॥

अथ क्षीरषट्पलघृत ।

चौपाई ।

पीपरिपिपरामूरबखानौ । गजपिपरीअजवायनजानौ ॥
सोंठचितावरगुड़अरुबेल । धनापाढ़एकएकपलमेल ॥
चौंसठपलघृतकोमँगवाय । चागरीशचौगुनोमिलाय ॥
घृततेचौगुनदहीबताय । मन्दआँचकरि लेयपकाय ॥
दोहा–बात अरुचि ग्रहनी अरश, गुदा भगन्दर मूर ॥
मूत्रकृच्छ्र आनाह सो, करै प्रवाहक दूर ॥

अथ चाँगोरीघृत ।

दोहा–सौ पल लेवे मूसरी, द्रौन भरो जल डार ।
चतुर्थांश जल जब रहै, लीजे तबै उतार ॥
षोडश पल घृत तेलते, बेलगुदो पुनि डार ।
अतीसार ग्रहणी मिटै, अरू प्रबाहक मार ॥

अथ कामदेव घृत ।

चौपाई ।

चोखौ असगँध सौ पल लय । ताते अर्ध गोखरूदेय ॥
सोंठिबिलारीकन्दबताय । पथरसँखाअरुगुड़मँगवाय ॥
पालक हीर कही सालौन । एकएक पल लीजै तौन ॥
कमलगटाअरुउर्दबखान । दशदशपलभरइनकोआन ॥

चारद्रोनभरजलसोविचार । चौथेअंशजलराखउतार ॥
लीजै कमलगटा पदमाख । चन्दनलाल पीपरी दाख ॥
दोगरेरुवापत्रजआन । चित्रकजीवनिगडको जान ॥
बीजकरैंछगुलीसरसोय । कर्षकर्षभर जान सो लोय ॥
बीडा और उषऊ सो देय । षोडश षोडश पलभर लेय ॥
शुद्धशर्करादोपलडारि।आठ कर्षभर घृत निरधारि ॥
मन्दआँचसों लेय पकाय । रक्तपित्त अरु वात मिटाय ॥
छातीजलनहलीमकजाय । यहवैद्यकसोंदियेबताय ॥
मूत्रकृच्छ्रअरुबीरजमूल । मिटैपँशुरियनकोसबशूल ॥
इस्त्री विषे गर्भको आनै । संजमसे घृत खाय प्रमानै ॥

अथ नीरकल्पनाघृत ।

दोहा–त्रिफला हर्दी एलची, कूट मजीठ विडंग ।
जावित्री दाड़िमत्वचा, दोय गुलीशर संग ॥
कल्यानी अरु रेनुका, कमलगटा पदमाख ।
देवदारु पीथौन कहि, शित चन्दनको भाष ॥
केसर नाग ये दोनों ले, तालीश रु दातौन ।
कंटकारि कपुरी सरस, अरु प्रियंगु शालौन ॥
कर्षकर्षभर डारिके, इनको क्वाथ बनाय ।
षोडश पलभर घृत चुरै, अपस्मार ज्वर जाय ॥
वातरक्त उन्माद क्षयि, मंदाग्नी कटि शूल ।
प्रतिशा पाण्डु विसूचिका, चातुर्थिकनिरमूल ॥

गर्भ रहै इस्त्रीनको, ताहि करै गुण एह ।
काश तिजारी मूत्रकृच्छ्र, विषमज्वरु परमेह ॥

अथ महीत्रकृत प्रातघृत।

दोहा–गुरुचीको काढ़ा करै, कल्क दूध अरु घीव ।
खातहि कोढ़ मिटावही, वातरक्त निर्जीव ॥
कक्ष सतौना मुरहटी, किर्वारी पदमाख ।
ताहि मान पितपापड़ो, कुटकी त्रिफला भाक ॥
जाठौ कूट रु इन्द्रयव, परवर पाढ़ कचूर ।
हरदी दोय शतावरी, दोय गुलीशर पूर ॥
नीम जवासौ पीपरै, मोथा गुडमें पीस ।
चन्दन और चिरायतो, लेव मजीठ अतीश ॥
सर्व अतीस गरेरुवा, कर्ष कर्ष भरि डारि ।
इनते चौगुन घी कह्यो, घृतते चौगुन वारि ॥
अवर जु रस घीसे दुगुन, सबको संग पकाय ।
वातरक्त अरु रक्त स्रव, रक्तपित्त मिटिजाय ॥
कोढ रु पाण्डु विसर्पिका, प्रदर उदरके रोग ।
छुद्ररोग कँठमाल मिटै, गुल्म सुबेशी योग ॥

अथ कौशीशघृत ।

लै कौशीश जाठौ सिरस, बायबिडँग पदमाख।
लेब बकायन नीम बच, पत्रज मोथा भाष ॥
गन्धक हरदी मैनशिल, गूगुल सिन्दुर बेल ।

सर्सों श्वेत चंदन सुरख, कूट कबीला मेल ॥
जटामांसी कंजा मिरच, लोध गुलीशरडार ।
मंजिष्ठा हरतार कहि, लीजै बीज पँवार ॥
हरियाथोथौ लीजिये, अवर रसौत सुहाग ।
इनको चूरण कीजिये, कर्ष कर्ष भर भाग ॥
तीस टंक घृत मेलिये, ताम्रपत्रमें राख ।
सात दिवस धारि धूपमें, तबै खाइये भाष ॥
शोथ भगन्दर को हरै, अरु तालूके नाम ।
शोधन रोपन कर्करी, यह घृत सुखको धाम ॥

अथ जातीत्रिफलादिघृत ।

चौपाई ।

लेय जायफल हरदीदोय ।जाठो परवर कुटकी सोय ॥
कांजा हरियामोथा लेय। नीम मजीठ गुलीशर देय॥
सरसबशीरसोहागबताय। इनको घृतमें लेप पकाय ॥
जो नरको लेपै भरपूर। मर्म खता नारीव्रन दूर ॥

अथ बन्दघृत।

दोहा-लेय चितावर शतावरी, हरैं पिपरामूर ।
देवदारु दातौन कहि, संखाहूली पूर ॥
गिरिकन्यकासोआनकर, कुटकीनीलबिडंग ।
दोधारे चमबार लै, अमिलतामको संग ॥
लेय कबीला तोरई, अरु निसोथको डार ।

कर्ष कर्ष सब लीजिये, खाँड लो पल घृतसार॥
बूँद एकभर खाइये, गुल्म कुसुमको मार।
रोगिहेतु वैद्यन कही, मारन रोग विचार॥
अफरा शूल उदावरत, सोथ हृदयके रोग।
अवर भगन्दर नाशही, आगे कहत सुयोग॥
कुर्थी क्काथकी तप्तजल, उँटनी गोपय सोय॥
इनमें पियत जो हृढ़तन, नाम धरतही होय॥

अथ त्रिफलाघृत।

दोहा–त्रिफला सेंधो कमलफल, दोनों हरदी दाख।
पीपरि मिरच रु शर्करा, क्षीर ककोली भाख॥
चन्दन सोंठ गरेरुवा, काकोली पुंडरीक।
जाठौ मैदा पथरसंग, कर्ष कर्ष प्रति लीक॥
षोड़श पल घृतमें पकै, नकुलांध्यहिके दूर।
पांडुरोग कंडू मिटै, नेत्रन बहिबौ मूर॥
अर्जक चषके रोग सब, अरु रतौंधि मिटिजाय।
रोगी सुखको पावही, जो यह घृतको खाय॥

अथमौरादघृत।

दोहा–दोऊ हरदी मुरहटी, मधुपरनी पदमाष।
जाठौ केसर कमलफल, त्रिफला चूरण भाष॥
दोऊ चन्दन अस्थर, चात गुलीशर जान।
पांचों क्षार उशीर कहि, कर्ष कर्ष भर आन॥

सोरह पल घृतमें चुरै, हरै सर्व विष जान।
विस्फोटक रु विसूचिका, मकरीविषकी हान ॥

अथ मधुरादघृत।

दोहा—जाठौ त्रिफला मूलदश, वायबिडंगको लेय।
कहौ सो और गरेरुवा, दो दो पलभर देय ॥
द्रोन प्रमित जलमें चुरै, छांड़ पांव मुखमोर।
करै जु गुण सब अंगकों, काढै समै पँजोर ॥
कर्ष कर्ष भर सब मिलै, गुड़को दीजै डार।
कान नाक दृग रोगको, अरु पीराको मार ॥
जीभ पीठ पुनि जांघकी, अरु शिरपीड़ाजाय।
काननमें डारै यहै, और लगावै वाय ॥

अथ त्रिफलादिघृत।

दोहा—त्रिफला चन्दन कायफल, कुटिकी कूट बिडंग।
जाठौ मोथा पीपरी, सोंठि गुलीशर संग ॥
हींगु प्रियंगु गरेरुवा, बँशलोचन सो जान।
अरु जावित्री दोउ हरद, दोउ ककोली आन ॥
दो मैदा अरु दो बचै, खाँड़ कमलफल जौन।
बायसुरही चन्दन सुरख, अजमोदा दातौन ॥
कर्षकर्ष भर औषधी, सोरह पल घृत सोय।
एक रंगकी गायको, जियत बछेरा होय ॥
ता घृतत चौगुन पय, आले कंडहि आँच।

पुष्य नक्षत्र अरुसरसतिथि, खाय घीवतबसांच।
माटी ताँबापत्रमें, धरै ताहि सो बेश॥
नर नारिनको पियतही, पुत्र जो होय विशेश।
जाको पुत्र जियै नहीं, सो या घृतको खाय॥
पुत्र जियै सौ वर्ष लौं, भारद्वाज बताय।

अथ पंचतक्रघृत।

चौपाई।

रूसौ गुड़में परवर लेय। नीम कटाई घृतमें देय॥
अर्शरुकोढविषमज्वरजाय। मिटैविसर्पि उदरकृमिबाय॥

अथ त्रिफलादि घृत।

दोहा—देइ कूट अरु सेरुवा, त्रिफला गुड़में देय।
मैदा लकड़ी कमलकट, पथरसँग हरदी लेय॥
रूसौ और शतावरी, वाय सुरहि घृतजान।
हरै योनिके दोष सब, रहै गर्भ सुखदान॥

अथ गर्भ करणयोग।

चौपाई।

यहै दवा योगनसे भारी। होय पुत्र खावै नर नारी॥
पुष्य नक्षत्र जाहिदिनपावै। तिथि अष्टमी बार रवि आवै
कंटकारिजड़ लेय मँगाई। गदहपुरेना जडहि मिलाई॥,
गुँजामूल सफेद सो जानो। धूप दीप दैके तब आनो॥
बछवाब्यानि गाय जो होयाताको दूधमें पीवै साय॥

स्नानदिवस सो पीवै नारी । हरै रोग सब गर्भको धारी
होवै पुत्र महाअलबेला । भाषै भगत सन्तकर चेला ॥

अथ अमृतयोग प्रदरादिरोगोंपर ।

गंधापीरोजाका सत ९ तोले, राल ५ तोले, मस्तंगी ४ तोले, बबूरका गोंद ३ तोले, ईसबगोल २ तोले, बडी इलायची १० तोले, मिश्री २४ तोले सबको कूटि कपडछान करके रोगीका बल तथा रोग विचारकर खानेको देवे तो सुजाक मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, मूत्रपथरी, मूत्रेन्द्रियसे खून तिरना, चिलक होना, अतितृषा, पित्त-ज्वर, वमन और हैजाकी बीमारी नाश होवे। इस दवाको खाकर ऊपरसे गायका दूध पीवे तो चौदह प्रकारका प्रदर और अठारह प्रकारका सोमरोग नाश होय, शरीरकी कांति बढे, भूख लगे, वीर्यके दोषोंको नाश करै.

अथ धान्यादिविजययोग ।

धनियाँ, ईशबगोल, बड़ी इलायची, मुलहटी ये सब सात सात तोला और मिश्री २० तोला लेकर कूटि कपडछान करके गायके मक्खनमें मिलाकर खाय तो प्यासका लगना, छाँटका होना, कलेजाकी गरमी, पित्तज्वर और पेशाबकी जलन आदि रोग सब दूर होवें। शरीर बलिष्ठ और कान्तियुक्त हो । स्त्रीके गर्भकी रक्षा हो, इसे यदि सहतमें खाय तो बहुतही गुणकारी है

अथ खर्जूरामृतकल्प।

दो सेर अच्छे छुहारोंको तीन सेर गौके दूधमें पकावे जब पकजावे तब धूपमें सुखा लेवै इसीप्रकार तीनबार और भी तीन तीन सेर गोदुग्धमें पकावे परन्तु प्रत्येकवार पकजानेके अन्तमें धूपमें सुखा लिया करै तत्पश्चात् एक सेर घीमें उन छुहारोंको भूँज लेवै और छोटी इलायची, लौंग, पीपरी, सोंठि, जटामासी, कमलगट्टा, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी, जावित्री, जायफल, केशर, हल्दी, भाँग इन सबको दो दो तोले लेकर कूटि कपडछान करके आधा सेर घीमें मन्द आँचसे थोड़ा २ भूँजै और दो सेर मिश्रीकी चासनीमें औषध और छुहारोंको छोड़कर मोदक बना लेवै। बलविचार कर इसे प्रतिदिन खावै तो धातुका पतलापन, नामर्दी, बीस प्रकारका प्रमेहरोग दूर होवे। कामको जगावै, स्त्री अपने पुरुषको जन्मभर दासी बनी रहै और जो ऊपरसे बंगरस, लोहारस, अभ्रकरस छोड़के खाय तो दशों इन्द्रियोंमें बल बना रहै, बाँझ स्त्रीके भी पुत्र उत्पन्न होय, मन्दाग्निको नाशै, खूनको बढावै।

अथ विजयादिमोदक।

भाँग, केवाचबीज, अमिलीके बीज, छुहारा, सोंठि

इनको कूट कपड़छान करके इलायची, लौंग, पीपरी, जायफल, केशर ये सब दवा दो दो तोले लेकर कूट कपडछान करके चार सेर गायके दूधमें औटै, जब एक सेर बाकी रहजाय तब उसमें सब दवाओंको सायंकाल भिगोय देवै और प्रातःकाल अच्छेप्रकार मसलकर उसमें चाँदीरस, लोहारस, वंगरस, मोतीरस और मूगारस एक एक तोला मिलाकर आधासेर घी कराहीमें छोड़के तलै जब दूधका पानी जल जाय, सुगन्ध आने लगै तब उतारकर डेढ़ २ तोलाके मोदक बनावै यदि सूख जानेके कारण मोदक न बन सकें तो घी डाल नरम करके मोदक बनावै तदनन्तर कराहीमें घी डारिके मोदकोंको तलै जब लाल होजायँ तो एक सेर मिश्री एक सेर सहत दोनोंको मिलाय शर्बतकी चासनी करके मोदक बनालेवे यह मोदक नामर्दको मर्द बनावै, बाँझको पुत्र देवै, शरीरको पत्थरके समान दृढ करै महाबल होय, अनेकन स्त्रीको भोग करै, आंख कानका दर्द, शरीरकी पीड़ा और कमरका दर्द दूर होवे, इसकी खुराक छः मासासे एक तोलातक है ।

अथ हरिद्रादिमोदक ।

आधा सेर हल्दी लेकर दो सेर गायके दूधमें डारिके चुरावै जब दूध सूखि जाय तब धूपमें सुखाय कूटि कप

ड़छान करे पश्चात् तीन सेर गायके दूधमें चुरावे और जब वह दूध आधा जल जाय तो इसीमें हल्दीका चूर्ण छोड़के चुरावे, जब खोवा होजाय तब आध सेर घृत छोड़के खोवाको भूँजे तदनन्तर दो सेर मिश्रीकी चासनी करके खोवा, सोंठि, पीपरी, मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, असगन्ध, भांग, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, जावित्री, जायफल, केशर, बंगरस, सीसारस, लोहारस, मोतीरस ये सब दो दो तोले लेकर कूटि कपड़छान करके घीमें भूँजके चासनीमें मिलायके छोटे २ लड्डू बनायके बल अवस्था विचारके खावे तो टूटीहुई हड्डीको जोड़े, वातको नाशै, भूखको लगावे, धातुको बढावे, शरीरको पुष्ट करै, आमवात, शीतवात, शोथ, पांडु, संग्रहणी, अतिसार, उदररोग और प्रमेहरोग इन सबोंको दूर करै।

अथ गुडूच्याद्यमृतयोग।

गुर्चसत, इसबाका सत, भांगका चूर्ण, बड़ी इलायची सोंफ और सनायपत्ती ये सब सात सात तोला, मिश्री १४ तोला, सफेदचन्दन, सोंठि दो दो तोला लेकर कपड़छान करके सबको एक सेर सहतमें मिलाकर खाय तो मलके विकार, पेटकी पीड़ा, कलेजेकी गरमी, सर्वज्वर, पेशाबकी जलन, उदरके रोग, आम-

बात, शोथ, रक्तविकार ये समस्त रोग जडसे दूर होवें, क्षुधाकी वृद्धि हो, शरीर उत्तम कांतिसे युक्त और बलवान् हो ।

अथ सर्वरसादियोग ।

राल और इलायची दोनों दश दश तोला, सफेद चन्दन, पोदीना, शुद्ध कर्पूर ये सब एक एक तोला और सबके बराबर मिश्री मिलाकर ६ मासा प्रतिदिन खाय ऊपरसे पानी पीवे तो छांट, दस्तोंका आना, कलेजेकी गरमी, तृषा, सुजाक, प्रमेह, इन्द्रियकी जलन, जीका मचलाना और प्रदर इन सब रोगोंका नाश हो ।

धातुओंके फूँकनेसे वंशक्षय होने न होनेका विचार ।

आजकल संसारमें आबालवृद्धपर्यन्त यह किंवदन्ती है कि, जो मनुष्य पारदादि धातुओंको फूँकतेहैं उनके सन्तान नहीं होती और यदि किसी प्रकार दैववशात् हो भी जावे तो शीघ्रही उसे कराल कालके मुखमें जाना पडता है इत्यादि, इस महान् भयके कारण कतिपय चतुर रसक्रियाके ज्ञाता वैद्य प्रायः आत्मिक और सांसारिक रोगनिवृत्तिरूप विशाल उपकारसे सर्वदा वञ्चितही बने रहतेहैं। यह उनकी भूल है क्योंकि ये सब धातु और उपधातु पृथिवीसे उत्पन्न हैं, जीव-

हिंसा आदिसे नहीं तो फिर अन्य औषधोंकी भाँति इनमें भी पापरूप दोष होनेका कोई हेतु दृष्टिगोचर नहीं होता और विना पाप, वंशक्षय (जो कि पापका फल है) होनाभी असम्भव है । इसके अतिरिक्त सुश्रुत चरकादि ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंमें कहीं इसका उल्लेख भी नहीं मिलता । अतएव युक्ति और शास्त्रविरुद्ध होनेसे यह कल्पना केवल अन्धपरम्परामात्र प्रतीत होतीहै । अस्तु, मेरे गुरु जिनका नाम श्रीमुन्शी भगवानदासजी है उन्हींकी महती कृपासे मुझको भी वैद्यकशास्त्रका बोध हुआ है, जिससे मैंने भी अनेक प्रकारके भस्म स्वयं बनाये तथा अन्योंमें भी यथावकाश प्रचार किया परन्तु अद्यावधि भगवानकी दयादृष्टिसे किसी प्रकारकी हानि नहीं हुई रहा सन्तानके विषयमें सो तीन कन्या और दो पुत्र विद्यमान हैं ।

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास विरचित वैद्यक रसराजमहोदधिभाषाके पांचवें भागका तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थ खण्ड ।

दोहा–पिपरी बायबिडंग अरु, घी गुड धना कहिदेय ।
इन्हें पुरानी लीजिये, और नई सब लेय ॥

चौपाई ।

गुरमें कुरौ कुम्हैडो जान । हूसौ सोंठ सतावर आन॥
असगँधचारसोकहतसुजान। अरुप्रसारनीकहत बखान॥
इनको गीले लेव हमेश । दूनी करौ सो नहीं विशेश॥
और औषधी सूखी लेव । नई जान रोगीको देव ॥
दोहा-औषध खावै वा समय, जहाँ कोई नहिं होय ।
तहां प्रातही दीजिये, यह जानब सब कोय ॥
जहां वृक्षके अंगको, नाम कहीं नहिं होय ।
तहांसे जड़को लीजिये, कहत सयानो लोय ॥
छप्पैय-जहँ औषधि द्वै बार कही, तहँ दूनी लीजै ॥
बरसबीत गुणहीन सकल, काष्ठादिक कीजै ॥
महानिवार सो घीव और,तैलहि पुनि जानो ॥
चूरण गुटिका भाव दोय, इनको फिर मानो ॥
अवलेही एक वर्षलों,घरत स्वरस मदिरा कहो॥
बुधजन विचारसों कहतहैं, इन्हैं पुराने शुभलहो
दोहा-औषधिलिखीजोरोगपर, प्रकृतिसमयके देय ।
लिखीहोय नहिं रोगपर, लायक समय सोलेय॥

अथ नाडीपरीक्षा ।

दोहा-करके अँगुठा निकटको, नाडी त्रिककी दान ।
तासों दुख सुख देहको, जानत परमसुजान ॥
कोप होय जब वायुको, तब नाड़ी यहिरीत ।

जोंकसाँपकीगतिचलत, बुधजनकरोप्रतीत ॥
पित्त जोर नाड़ी बहत, तब कुलंग गति होय ।
काक मंदरे सम चले, यह जानत सब कोय ॥

चौपाई ।

कफकोकोपहोयतबजान । पारावतकीगतिपहिचान ॥
सन्निपातउपजै तब पेख । लवा तीतरा गति अवलेख॥
जब दो दोष होयँ तेहि काल।तीक्षण मंदसोनाडीचाल॥
रहि रहि चलै प्राण वह लेय।शीतल छीन मारि सो देय॥
ज्वरते जल्दी गरम बखान।काम क्रोधते जल्दीजान ॥

दोहा—क्षीण धातु मदाग्नि पुनि, मंदहि नाडी जोय ।
रुधिरकोप उपजै जबै, नाडी गर्म सो होय ॥
आमाशय जाको लखै, नाडी गरुई मान ।
वर्ध उष्णते नाडिका, जल्दी हल्की जान ॥

सोरठा—सुखी होय नर जोय, थिरबलसहितसोनाडिका
भूखे चंचल होय, अपरै थिर नाड़ी रहै ॥

अथ शरीरकथन ।

दोहा—सात कला हैं देहमें, आशय सात बखान ।
सातै धात सो धातके, सातो मलकी जान ॥

सोरठा—उपधातें कहि सात, सात त्वचा जानो सबै ॥
तीनदोषकहिजात, अरुनौसौअस्नायु शुभ ॥

दोहा—दो सौ दश सन्धी कही, हाड तीन सौ जान ।
सात एक सौ मरम हैं, यह सब कहत प्रमान ॥

जानि सात सौ नाडिका, रस बहती चौबीस ।
पेशी बोटी पुरुषकी, कहत पांच सौ ईश ॥
बोटी अस्सी देहमें, बीस और बढ़पेष ।
सोरा कहि प्रतिकंदरा, द्वारा दस औ रेष ॥
कहत सो इस्त्रीदेहमें, द्वारा बड है तीन ।
यह संक्षेप बखानके, अब विस्तारप्रवीन ॥
सोरठा--कहत कला विस्तार । माँसलोहुमेदासुनहु ॥
इक इक सुनहु विचार । यकृतऔरप्लीहापुनहु ॥
छप्पय--एकआंतको लखौ, अग्निको एक बखानौ ॥
एक वीयकी कही, कलाय सात बखानौ ॥
पुनिहृदय शुभद्वारहै, कफआशयजानौसही ॥
तिहतरे आमाशय बन्यो, यहविचारमैंनेकही ॥
दोहा--दुरी तरफ सो नाभते, ता ऊपर यह जान ।
आशय अग्नि कहौं तहां,ता ऊपर दिल जान ॥
ता नीचे आशय पवन, ता नीचे मल मूत ।
आशय रक्त रु वीर्यको, छाती माझे कूत ॥
आशय तीन जो पुरुषते, नारीमें अधिकाय ।
एक गर्भ आशय कहत, ताको घरनके नाय ॥
द्वै आशय हैं दूधके, अस्तन नाम सुजान ।
सात धातु कहिये प्रथम,इनको करत बखान ॥
सोरठा--पित्त तेजको पाय, ताते रस अधिकात है ॥
रसते लोहू पाय, लोहूते कहि मांस अब ॥

दोहा–मेदा होत जो मांसते, मेदाते कहि हाड ।
हाड़नते मज्जा कहत, रंजक पित्त सो माड़ ॥

इति सप्तधातु ।

सोरठा-कान रु रसना जान, दांतसो कांखे लिंगकहि ॥
नख अरु नेत्र बखान, मुखचिकनोअहमहरिया ॥

दोहा–इनमें मलसों धातुको, क्रमते लीजे जान ।
रसते दूध सु होतहै, लोहूते रस मान ॥
वासौं स्वेद रु दाँत हैं, एते तेज यह पेख
इन धातनकी उपज हैं, धातनते क्रम लेख ॥

अथ सप्त त्वचा ।

दोहा–सात त्वचा अब कहतहैं, आमासनी प्रधान
याते उपजत सेहुआँ, दूजी लोहित जान ॥
ताते तिल लासन कहत, तीजीसे तो पेख
गजचरमता तेहि कहत, चोखी तामें लेख ॥
जाते होत किलास अरु, श्वेत कोढ़ अधिकाय ।
पाँचे जानो वेदनी, सब कोढ़न सुख दाय ॥
छठवें राहिन कहत हैं, ताते गाढ़े जान ।
अंग कंठमाला उपज, फुरिया देह बखान ॥
बद उपजावे देहमें, साते थलसों जान ।
मोटी धातुसों दाखसम, सात त्वचा ये जान ॥

अथ पांच भेद ।

दोहा-इक इक पांच प्रकारको, तीन दोषते भाख ।
इनमें प्रबल सु पवन है, जुदे २ सब राख ॥
पवन रजोगुणमें कहत, सूक्षम बहुत बखान ।
शीतल अरु रूखो समुझि, फल कौयाको जान ॥
मलआशय मय पवन जो, ताहि अपान बखान ।
होत भूख आशय पवन, ताको नाँव सुजान ॥
प्राणपवन यह हृदयमें, कण्ठ उदान बखान ।
देह सबै व्यापक जिन्हें, ताकहँ व्यान सुजान ॥
पित्त गर्म पतरोम हो, पिपरी नीली पेख ।
और सतोगुणमें कहत, करू चिहूलौ लेख ॥

छप्पय-अरोसोखाटौ होत, अग्नि आशय में पेखौ ॥
अग्निरूप सम पित्त, और तिलसम औरेखौ ॥
देहरूपको करहि लेप, टप्पा जोपिषावै ॥
जगतीमें जो पिता, सहज लालीको लावै ॥
नैननमें जो पित्त है, रूप दिखावत सब कहौ ॥
अहहृदयपितही भातको, बुद्धि बढ़ावनशुभलहौ

सोरठा-पाचकभाजन जान, रंजक औ लोचकसमुझ ॥
सामक कहत बखान, इतने नाम सुपित्त के ॥

दोहा-चिकनो भारो स्वेत कफ, परो दही सो मान।
शीतल स्वादक कहत हैं, जरो सो खारो जान॥
कहत तमोगुणमय सबै, आमाशय कफ जौन।
नाम किलेदन तासुको, शिर अस्नेह सु जौन॥
कँठवत रसना कफ जो है, हिय अवलम्बन जान।
संधिनमें असलेष कफ, यह मैं कहौं बखान॥
करत देह अस्थान रज, कफ रु सोठारत ठाव।
माँस रु मेदा हाड़को, बाँधत हैं सो आव॥
अंग अंग को मिलवती, कफ युत संधै सोय।
देह स्तार आधार सब, हाड़ कहत सब कोय॥
रस बहती जो नाड़िका, पवन धौंकतो सोइ।
बोटी अस्थिरमें करत, जो बल अतिही सोइ॥
जो कुकुरावै देहको, और पसारे जान।
ताहि कन्दरा कहतहैं, अब दसद्वार बखान॥
नाक कान अरु नेत्र कहि, दो दो इनको जान।
लिंग गुदा अरु मुख कहत, इक२ इनको मान॥
दसौ द्वार मस्तक विषे, त्रियके तीन सिवाय।
दो अस्तनको कहतहैं, गर्भद्रु एक कहाय॥
डेरी तरफ सो नाभिसो, फूंफस प्लीहा जान।
यकृत दाहिनी तरफ है, यह सब कहत बखान॥
आशय बाद उदानको, फूफस जानो सोय।
रक्त बहत सो नाड़िका, मूलपिलीहा होय॥

सोरठा-रेचक पित्तस्थान, यकृत जानिये ताहिको ।
जलपृह नाड़ी मान, तासु मूलसों तिलकहत ॥
दोहा-दूर करत वह प्यासको, हृदय जु मेदा जान ।
तासों पुष्ट जो करतहै, बुकता ताहि बखान ॥
वीरज कहत जो नाडिका, तिनके जो आधार ।
तासों प्रष्ठ जु कहत है, पुरषारथको सार ॥
गरभ कहै इस्त्रिन विषे, विरज मूत्र अस्थान ।
तासों लिंग जो कहतहैं, यह जानो बुधिमान ॥
तेज और चैतन्यको, हृदय प्रान अस्थान ।
नाडी व्यापक देह सब, नाममूल पाखान ॥
पवनहिंके संयोगते, धातें करिके जान ।
नाडी करती देहको, पुष्ट लहै सब जान ॥
पवन नाभिमें वसत है, कमल हृदयको टेक ।
कंठमाहि तिहि जानिये, जात माथका नेक ॥
वहां विष्णुको वास है, अमृतहु जो सुरपान ।
प्राण देह संयोगते, वाको सबही जान ॥
जीव अमर नहिं भूमिमें, मौत उपाय न होय ।
रोग निवारण होतहै, यह जाने सब कोय ॥
रोग असाध्यसुसाध्य सब, जपते साधुसुजान ।
विनुजपसाधन शलनहिं,मुनियहकहपरिमान ॥
रोग न घटता देहको, जीवके विना उपाय ।
देवी रक्षा कीरिये,अस कहि सब मुनिराय ॥

करमविपाकहि देखिके, रोगी दान कराय ।
पीछे औषधि कीजिये, ग्रंथन यही बताय ॥
चार पदारथ देनकी, है शरीर निरधार ।
रोगनाश ताको करत, बेग करत उपचार ॥
धातु दोष मल सम रहत, तबै पुष्ट सुख लेह ।
असम होत जबहीं सबै, रोग करत वह देह ॥

अथ भोजनपरिणाम ।

दोहा--भोजन कितको जातहैं, तिन्हैं मनुष्य जो खात ।
प्रात जोरके वायुके, आमाशयको जात ॥
षटरस पहिले उदरमें, मीठो होत सुजान ।
फेर फसूकर होतहै, यह सब कहत प्रमान ॥
पाचनपित्तहि सो जरत, तब खाटो सरसात ।
जोरसमानसो वातको, तासो ग्रहणी जात ॥
ग्रहणीकी वह अग्निसो, पचै सो करुवो जान ।
जब परिपूरण पकत है,तब रस होत निदान ॥
अरु जब कच्चो रहतहै, ताको आँव सुजान ।
अग्नितेज सो रस पचै, मीठो चिकनो मान ॥
पुष्ट करत धातै सबै, पको अमृतसम लेच ।
मन्द अग्निसों सो पकै, खाटौ करुवी पेच ॥

चौपाई ।

सारहीनजबहोतसुजानो । तातेपतरोमलअधिकानो ॥
ल्यावै नाडी ताहि जरेठ । ताते मूत्र होत है यठ ॥

ताके रसको कीट सो होय।पक्काशयमलरहतजोसोय ॥
परै वात आपानसोकौन । काटैगुदअवली वहजौन ॥
दोहा–गुद अवलीते नामपैं, एक अवाहिनि जान ।
दूजी कहत जो सरजनी, त्रेती माहका मान ॥
प्रेरत वात समान तब, हृदयमाहिं रसजात ।
सो पाकत जब पित्तसों,तब लोहू अधिकात ॥
अस्थिर रहत शरीरमें, देह जीव आधार ।
चिकनो स्वाद लगंतहै, कह्यो प्रमान विचार ॥
जब डकार द्वै होतहैं, तब कहि पित्त समान ।
पकतीं धातैं पित्तते, ताको करत बखान ॥
क्रमते महिना एकमें, हो तो वीर्य समान ।
अरु इस्त्रिनको होत रज, यह जानो गुणधाम ॥
इस्त्री पुरुष जो कायते, करत सुरत संभोग ।
दोष रहित जो वीर्य रज, होत गर्भ संयोग ॥
जो रज वीरजते अधिक, ताते कन्या होय ।
वीरजअधिकतोपुत्रकहि, यह जाने सबकोय ॥

चौपाई ।

जब वीरजरजहोयँ समाना।तबै नपुंसक कहौंबखाना ॥
ऐसो कहत दासभगवाना । जो चाहै सो करै निदाना ॥
दोहा--कलकमहीना एकको, औषधि यहिविधिदेय ।
राई सम वे औषधी, अवलही कर लेय ॥

कै मधु मिश्री दूधको, इनमें एक सो लेय।
इक इक बाढ़ै वरषको, फेर मासभरि देय॥
एक माससो वरषपर, सोरहलों बढि सोय।
षोड़शते षाडशभरि, जब सत्रहको होय॥
चूरणकीअरुकलककी, यहिविधिमात्राखाय।
रज अरु बीरजदोष सब, भली भांति मिटजाय॥
यह मात्राते चौगुनी, काढ़ो देय विशेष।
हर हमेश इतनी भली, तिनकी गिनती लेष॥
अंजनलेप जो सब करै, अरु अपटनौ बखान।
वमन विरेचन कहतहै, ये नित आछे जान॥
पांच वरष उपरांतते, औषधिको रखवाय।
सोरहको जब होचुके, तब जुलाब करवाय॥
वीस वरष बीते जबै, मैथुन करै सुजान।
दसलौं बालक वीसलौं, बढते देह प्रमान॥
दण्ड कालही होत है, एक बिलंबका जान।
बवासीर अब कहतहौं, छःप्रकारको मान॥
तीन दोषते तीन विधि, अरु लोहूते लेख।
सन्निपात संसर्गते, और सहजते पेख॥
कुलपरंपरा होत है, स्पर्शहुँते यह जान।
दोय भेद तिनके कहत, सूखी तीती मान॥
तीन दोषते तीनविधि, कहियत चरम विशेख।

बाइस विधिके तुरतही, कीरनको अवलेख ॥
ते कीरा दो भांतके, बाहर भीतर मान ।
बाहर चीलर जूक हैं, औरसोलिखियेजान ॥
पित्त रु कफके योगते, हिरदैमें अधिकाव ।
आँतनमें जो होत हैं, उदावर्त सो नाव ॥
उपजत तौन सुगन्धते, अभ्रक सम ते जान ।
जाती राहुब रक्तते, नाम समारत जान ॥

अथ बारतोरकीरनके नाम ।

१ पुषसम, २ हाकुर, ३ रसौर, ४ सरोम, ५ विध्वंस, ६ सोमदीप, ७ उदम्बर, ८ केशादी, ९ वीरजते, १० मकेरुक, ११ एकलसाहि, १२ सलुन, १३ सौसुराद्, १४ ककेरुक, १५ कफपित्तते होतेहैं, १६ करस्नादिक घावके करायेते होतहैं ।

अथ पाण्डुरोगके पांच भेद ।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ मृद्भक्षणज ।

अथ कामलारोगके भेद ।

कामला पांडुरोगका भेद है । यह दो प्रकारका होताहै । पहला कोष्ठाश्रय जिसका दूसरा नाम कुम्भकमला भी है और दूसरा शाखाश्रय है ।

हलीमक ।

यह भी पाण्डुरोगका भेद है ।

अथ रक्तपित्तके चार भेद ।

१ कफज, २ वातज, ३ पित्तज, ४ सन्निपातज ।

अथ कासरोगके पांच भेद ।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ प्रहारज, ५ क्षयज ।

अथ शोषरोगके छः भेद ।

यह क्षयरोगका एक भेद है, छः प्रकारसे उत्पन्न होता है । १ अधिक स्त्रीप्रसङ्ग, २ अधिक शोक, ३ वृद्धावस्था, ४ बहुत मार्ग चलना, ५ व्यायामादि अतिश्रम और ६ हृदयमें चोट लगनेसे यह शोष रोग उत्पन्न होता है ।

अथ श्वासके पांच भेद ।

१ महाश्वास, २ ऊर्द्ध्वश्वास, ३ उच्छिन्नश्वास, ४ तमकश्वास, ५ क्षुद्रश्वास ।

अथ हिक्काके पाँच भेद ।

१ अन्नजा, २ यमला, ३ क्षुद्रा, ४ गभीरा, ५ महती ।

अथ अरोचकके पांच भेद ।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ आगन्तुज ।

अथ छर्दि (वमन) के पांच भेद ।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ त्रिदोषज, ५ आगन्तुज ।

अथ स्वरभंगके छः भेद ।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ त्रिदोषज, ५ क्षयज, ६ मेदज ।

अथ मूर्च्छाके छः भेद ।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ रक्तज, ५ मद्यके पीनेसे, ६ विषके भक्षणसे ।

मदात्ययके चार भेद।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज । परमद, पानाजीर्ण, पानविभ्रम ये इस मदात्ययके विकार हैं ।

दाहरोगके सात भेद।

१ पित्तज, २ रुधिरवृद्धिज, ३ रक्तपूर्णकोष्ठज, ४ मद्यपानज, ५ तृषावरोधज, ६ धातुक्षयज, ७ मर्माभिघातज ।

उन्मादरोगके छः भेद ।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ मनोदुःखज, ६ विषज ।

उन्मादके पन्द्रह भेद ।

१ देवोन्माद, २ दैत्योन्माद, ३ गन्धर्वोन्माद, ४ यक्षोन्माद, ५ पितृजोन्माद, ६ नागोन्माद, ७ राक्षसोन्माद, ८ ब्रह्मराक्षसोन्माद, ९ पिशाचोन्माद, १० सतीदोषोन्माद, ११ क्षेत्रपालदोषोन्माद, १२ देव्युन्माद, १३ कामोन्माद, १४ शंखिनीडङ्किनीदोषोन्माद, १५ प्रेतोन्माद ।

दोहा--शोभा बाढत तीसलौं, बुद्धि बीस द्वै बीस ।
तुचा जो भली पचासलौं, फिर ततरानी लेस ॥
दृष्टि रहतहै साठलौं, सत्तरलौं रहे मैंन ।
असी वरस पौरुष रहै, धर्म बोल लघु प्रेम ॥
सौ लग मरम इन्द्री भली, दस आगे लौंआग ।
इति अहार अब होचुके, आगे पुनि पुरनाम ॥
छोट केश जो दूबरो, रूठो होय विशेष ।
बातें बहुत बखानहीं, चंचल मति औरेष ॥
रूक्ष कसेला तीत अरु, लघु पदार्थते मान ।
स्वप्न विषै आकाशमें, वात प्रकृत सोइ जान ॥

अथ पित्तप्रकृति ।

दोहा--असमय केश सफेदहैं, अस जानौ बुधवान ।
बहुत पसीना आवही, और क्रोधयुत जान ॥
स्वप्नविषे तारे लखै, पित्त प्रकृत सो जान ।

अथ कफप्रकृति ।

दोहा--बडी बुद्धि स्थूलजो, चिकनो सब बलवान ।
स्वप्ने जल आशय लखे, कफ प्रकृत सो मान ॥

अथ तीनों दोषप्रकृति ।

दोहा-मिलै दोष जैसे लखै, वैसे लक्षण सोय ।
तमोगुण अरु कफ जुगम,इनते हिय अधिकाय ॥
तेजहीन लखि देहमें, ताते होत गलान ।
दुख अरु समते जो कहत, होत अजीरन जान॥
सामरथ्य है देहमें, अन्न उत्साह जो होय ।
तासों आलस कहत है, यह जानो सबकोय ॥
चेतनताकी शिथिलता, एक स्वास पीजाय ।
दूजौ बाढ़ै वाय सुख, कहत समूही ताहि ॥
प्रानौ दानहिं वातको, ऊपर जैबो नीक ।
ताको कफ सरोत सुनै, शब्द छीन नहिं नीक॥
एक अहार थिर होतहै, और उदान प्रचार ।
ऊपर आवत कौन युत, तासो कहत डकार ॥

अथ रोगोत्पत्तिवर्णन ।

दोहा-रोगनकी गनती बहुत, भाषी समुझि मुनीश ।
तिनको अब मैं कहतहौं, ज्वर जानहु पच्चीस ॥
तिनके भेदनको कहत, तीन दोषते तीन ।
तीन जो द्वन्दज ते कही, सन्निपात सक कीन॥

सन्निपात है पांचविधि, संतत सन्तु बखान ।
और एकतर तापतें, और चौथिया जान ॥
एक विषम ज्वर है सही, अरु आगंतुक लेष ।
सो तेरह विधि कहत हौं, एक अभिचार विशेष॥
भूतादिकते श्रापते, श्रमते दुखते सोइ ।
अति आनन्दते दाहते, चोट लगेसे होइ ॥
काम क्रोधते शोकते, और जो विषसे जान ।
भयते औषधि गंधते, जे द्वै अभिग जुरान ॥

अथ अतीसारके छः भेद

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ शोकज, ६ आमज ।

अथ संग्रहणीके चार भेद

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, और सन्निपातज संग्रहणीका एक भेद आमवातसंग्रहणी भी है ।

प्रवाहिका (मुर्रा) के चार भेद

अतिसारकाही एक भेद प्रवाहिका भी है। यह चार प्रकारकी है। १ वातज, २ पित्तज, ३कफज, ४रक्तज ।

अजीर्णके छः भेद

१ आमाजीर्ण, २ विदग्धाजीर्ण, ३ विष्टब्धाजीर्ण, ४ रसशेषाजीर्ण,५ दिनपाकी अजीर्ण,६ प्रवृत्त्याजीर्ण।

सोरठा—आलस तीन कहाँय, तीन दोषते होत हैं ।
तीन विसूची जाय, तीनहुँते वे हैं कही ॥

अथ अपस्मार (मृगी) के चार भेद

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज ।

अथ आमवातके चार भेद

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज ।

अथ उदावर्त १३ प्रकार

१ अधोवायु, २ विष्ठा, ३ मूत्र, ४ जम्भाई, ५ आँसू, ६ छींक, ७ डकार, ८ वमन, ९ वीर्य, १० भूँख, ११ प्यास, १२ श्वास, १३ नींद, इनके वेगोंको रोकनेसे उदावर्त (जिस रोगमें वायुका चक्कर ऊपरको जाता है) उत्पन्न होता है ।

हृदयरोग ८ प्रकार

वात, पित्त, और कफसे ३, द्वन्द्वजसे ३, सन्निपातसे १, बहुत जल पीनेसे १.

मूत्राघात १३ प्रकार

१ वातकुंडलिका, २ अष्ठीला, ३ वातबस्ति, ४ मूत्रातीत, ५ मूत्रजठर, ६ मूत्रक्षय, ७ मूत्रोत्संग, ८ मूत्रग्रन्थि, ९ मूत्रशुक्र, १० मूत्रसाद, ११ विडिघात, १२ उष्णवात, १३ वस्तिकुण्डल ।

मूत्रकृच्छ्र ८ प्रकार

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ शल्यसे, ६ विष्ठासे, ७ वीर्यसे, ८ पथरीसे ।

प्रमेह २० प्रकार

१ इक्षुप्रमेह, २ सुराप्रमेह, ३ विष्ठाप्रमेह, ४ सांद्रकप्रमेह, ५ शुक्रप्रमेह, ६ उदकप्रमेह, ७ लालाप्रमेह, ८ शीतप्रमेह, ९ पित्तप्रमेह, १० शनैःप्रमेह, ११ मांजिष्ठप्रमेह, १२ हारिद्रप्रमेह, १३ नीलप्रमेह, १४ रक्तप्रमेह, १५ सिकताप्रमेह, १६ क्षारप्रमेह, १७ हस्तिप्रमेह, १८ वसाप्रमेह, १९ मज्जाप्रमेह, २० मधुप्रमेह ।

प्रमेहसे उत्पन्न १० प्रकारकी फुन्सी

१ शराविका, २ कच्छपिका, ३ जालिनी, ४ विनता, ५ अलजी, ६ मसूरिका, ७ सर्वपिका, ८ पुत्रिणी, ९ विदारिका, १० विद्रधि ।

हाली धात ८ प्रकार

१ अवलम्ब, २ विलुवा, ३ शिर्नाभन, ४ प्रंचतिन, ५ भ्रस्टारिध, ६ निपात, ७ कोठाघाव, ८ देह प्रकरताछीनता ।

अंड भग ८ प्रकार

१ मानुप्रसृ, २ विदारति, ३ विवर्नित, ४ विस्तीन, ५ तिरजकलिस, ६ अधोगत, ७ उर्द्धगत, ८ संघत्रान

अथ अग्निदग्धके चार भेद ।

१ प्लुष्ट, २ दुर्दग्ध, ३ सम्यग्दग्ध, ४ अतिदग्ध ॥

अथ भगन्दरके पाँच भेद ।

१ वातजशतपोनक, २ पित्तजउष्ट्रग्रीव, ३ कफजपरिस्रावी, ४ सन्निपातजशम्बुकावर्त, ५ क्षतजउन्मार्गी।

अथ शूकरोगके १८ भेद ।

१ सर्षपिका, २ अष्ठीलिका, ३ ग्रंथित, ४ कुम्भिका, ५ अलजी, ६ मृदित, ७ सम्मूढपिडिका, ८ अवमन्थ, ९ पुष्करिका, १० स्पर्शहानि, ११ उत्तमा, १२ शतपोनक, १३ त्वक्पाक, १४ शोणितार्बुद, १५ मांसार्बुद, १६ मांसपाक, १७ विद्रधि, १८ तिलकालक ।

कुष्ठरोगके अष्टादश भेद ।

१ कापालक, २ औदुम्बर, ३ मण्डल, ४ ऋक्षजिह्व, ५ पुण्डरीक, ६ सिध्म, ७ काकण, ८ एककुष्ठ, ९ गजचर्म, १० चर्मदल, ११ किटिभ, १२ वैपादिक, १३ अलस, १४ दद्रु, १५ पामा, १६ विस्फोटक, १७ सतारु, १८ विचर्चिका । इनमेंसे पहलेके ७ महाकुष्ठ और पिछले ११ साधारण कुष्ठ हैं ।

वातरक्तके पांच भेद ।

१ वाताधिकवातरक्त, २ पित्ताधिकवा० ३ कफाधिकवा० ४ रक्ताधिकवा० ५ सन्निपातवात० ।

वातरोगके चौरासी भेद।

१ शिरोग्रह, २ केशरोग, ३ जृम्भादिक, ४ हनुग्रह, ५ जिह्वास्तम्भ, ६ गद्गद, ७ अल्पभाषण, ८ मूक, ९ प्रलाप, १० वाचाल, ११ नीरस, १२ बधिर, १३ कर्णनाद, १४ त्वक्शून्य, १५ आदित, १६ मन्यास्तम्भ, १७ बाहुशोष, १८ अपबाहुक, १९ चर्चित, २० विश्वाची, २१ ऊर्ध्ववात, २२ आध्मान, २३ प्रत्याध्मान, २४ वाताष्ठीला, २५ प्रत्यष्ठीला, २६ तूनी, २७ प्रतितूनी, २८ विषमाग्नि, २९ आटोप, ३० पार्श्वशूल, ३१ पृष्ठशूल, ३२ बहुमूत्र, ३३ बस्तिवात, ३४ मलदृढता, ३५ मलावरोध, ३६ गृध्रसी, ३७ कलायखंज, ३८ रोगखञ्ज, ३९ पङ्गुरोग, ४० कोष्टुकशीर्षक, ४१ खल्लीरोग, ४२ वातकण्ठ, ४३ पादहर्ष, ४४ पाददाह, ४५ आक्षेप, ४६ दण्डक, ४७ वाताक्षेप, ४८ पित्ताक्षेप, ४९ दण्डापतानक, ५० अभिघाताक्षेपक, ५१ अन्तरायाम, ५२ बाह्यायाम, ५३ धनुर्वात, ५४ कुब्जक, ५५ अपतन्त्र, ५६ अपतानक, ५७ पक्षाघात, ५८ अभिलषिक, ५९ कम्परोग, ६० स्तम्भरोग, ६१ व्यथारोग, ६२ तोदरोग, ६३ मेदरोग, ६४ स्फुरणरोग, ६५ रूक्षतारोग, ६६ श्यामतारोग, ६७ क्षीणतारोग, ६८ शीतलतारोग, ६९ रोमाञ्चरोग,

७० अङ्गमर्दरोग, ७१ अङ्गविभ्रम, ७२ स्नायुरोग, ७३ अङ्गशोष, ७४ भयरोग, ७५ उन्मादरोग, ७६ मोहरोग, ७७ निद्रानाश, ७८ स्वेदमान, ७९ बलक्षीणरोग, ८० वीर्यनाशरोग, ८१ रजोधर्मरोग, ८२ गर्भनाशरोग, ८३ अभ्रमश्रम, ८४ श्रमनाशरोग ।

अथ रक्तके १० रोग ।

१ गुरुशर्शर, २ रक्तमण्डल, ३ लाल नेत्र, ४लाल मूत्र, ५ लाल थूक, ६ लाल पिडिका, ७ताती शरीर, ८ लटी गन्ध, ९ पीडा होय, १०शरीर पके ।

मुखरोगके ६७ भेद ।

ओष्ठ, मसूढे, दाँत, जिह्वा, तालु, कण्ठ, और कण्ठस्थानसे लेके सम्पूर्ण मुख ये सब मुखके अङ्ग हैं। इनमेंसे ८ ओष्ठरोग, १६ मसूढोंके, ८ दन्तोंके, ५ जिह्वाके, ९ तालुके, १८ कण्ठके, ३ सर्वमुखके, इसप्रकार सब मिलाकर६७ रोग होते हैं ।

अथ ओष्ठरोग ८ ।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ रक्तज, ६ मांसज, ७ मेदोज, ८ क्षतज ।

दन्तमूलरोग १६ ।

१ शीतोद, २ दन्तपुप्पुट, ३ दन्तवेष्ट, ४ सौषिर, ५ महासौषिर, ६ परिदर, ७ उपकुश, ८ वैदर्भ, ९

खलिवर्द्धन, १० अधिमांस, ११ वातनाडीराह, १२ पित्तनाडीराह, १३ कफनाडीराह, १४ सन्निपातनाडीराह, १५ क्षतजनाडीराह, १६ दन्तविद्रधि ।

दन्तरोग ८ ।

१ दालना, २ कृमिदन्त, ३ भञ्जन, ४ दन्तहर्ष, ५ दन्तशर्करा, ६ कपाली, ७ श्यावदन्ती ८ कराल ।

जिह्वारोग ५ ।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ अलास, ५ उपजिह्वा ।

तालुरोग ९

१ गलसुण्डी, २ तुंडकेशरी, ३ ध्रुव, ४ कच्छप, ५ ताल्वर्बुद, ६ मांससंघात, ७ तानपुप्पुट, ८ तालुशाष, ९ तालुपाक ।

कण्ठरोग १८ ।

१ वातजारोहिणी, २ पित्तजारोहिणी, ३ कफजारोहिणी, ४ सन्निपातजारोहिणी, ५ रक्तजारोहिणी, ६ कण्ठशालूक, ७ अतिजिह्व, ८ वलय, ९ वलास, १० एकबन्द, ११ वृन्द, १२ शतघ्नी, १३ गिलायु, १४ गलविद्रधि, १५ गलौघ, १६ स्वरघ्न, १७ मांसतान, १८ विदारी ।

सर्वमुखरोग ३ ।

१ वातजसर्वसर, २ पित्तजसर्वसर, ३ कफजसर्वसर ये तीनों रोग सर्वमुखके भीतर उत्पन्न होतेहैं।

अथ शिरोरोगके ११ भेद ।

१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ रक्तज, ६ क्षयज, ७ कृमिज, ८ सूर्यावर्त, ९ अनन्तवात, १० शंखक, ११ अर्द्धावभेद ।

अथ नेत्ररोगके ७८ भेद ।

दृष्टिमें १४, नेत्रके कृष्णभागमें ४, श्वेतभागमें ११, नेत्रवर्त्ममें २१, नेत्रपक्ष्मोंमें २, नेत्रसन्धिमें ९, सब नेत्रमात्रमें १७, रोग होतेहैं। ये सब मिलकर ७८ हैं।

दृष्टिरोग १४ ।

१ वातजलिङ्गनाश, २ पित्तजलिङ्गनाश, ३ कफजलिङ्गनाश, ४ सन्निपातजलि०, ५ रक्तजलि०, ६ परिम्लायिलि० ७ पित्तविदग्धदृष्टि, ८ कफविदग्धदृष्टि, ९ धूमदर्शी, १० ह्रस्वजात्य, ११ नकुलान्ध्य, १२ गम्भीरदृष्टि, १३ निमित्तलिङ्गनाश, १४ अनिमित्तजलिङ्गनाश ।

कृष्णभागरोग ४ ।

१ सव्रणशुक्र, २ अव्रणशुक्र, ३ अक्षिपाकात्यय, ४ अजकाजात ।

श्वेतभागरोग।

१ प्रस्नार्यर्म, २ शुक्लार्म, ३ रक्तार्म, ४ अधिमांसार्म, ५ स्नाय्वर्म, ६ शुक्तिका, ७ अर्जुन, ८ पित्तक, ९ शिराजाल, १० शिरापिडिका, ११ बलासग्रथित।

नेत्रवर्त्मरोग।

१ उत्संगिनीपिडिका, २ कुंभिका, ३ पोथकी, ४ वर्त्मशर्करा, ५ अर्शोवर्त्म, ६ शुष्कार्श, ७ अंजना, ८ बहुलवर्त्म, ९ वर्त्मबंधक, १० क्लिष्टवर्त्म, ११ वर्त्मकर्दम, १२ श्यामवर्त्म १३ प्रक्लिन्नवर्त्म, १४ अक्लिन्नवर्त्म, १५ वातहतवर्त्म, १६ वर्त्मार्बुद, १७ निमेष, १८ शोणितार्श, १९ लगण, २० बिसवर्त्म, २१ कुचन।

नेत्रपक्ष्मरोग २।

पहला पक्ष्मकोप, दूसरा पक्ष्मशात।

नेत्रसन्धिरोग ९।

१ पूयालसक, २ उपनाह, ३ पैत्तिकस्राव, ४ कफस्राव, ५ सन्निपातस्राव, ६ रक्तस्राव, ७ पर्वणी, ८ अलजी, ९ जन्तुग्रन्थी।

समस्तनेत्ररोग १७।

१ वाताभिष्यन्द, २ पित्ताभिष्यन्द, ३ कफाभिष्यन्द, ४ रक्ताभिष्यन्द ५ वाताधिमन्थ, ६ पित्ता-

धिमन्थ, ७ कफाधिमन्थ, ८ रक्ताधिमन्थ, ९ सशोथपाक, १० अशोथपाक, ११ हताधिमन्थ, १२ वातपर्य्याय, १३ शुष्काक्षिपाक, १४ अन्यतोवात, १५ अम्लांबुषित, १६ शिरोत्पात, १७ शिरोहर्ष ।

अथ औषधिप्रकरण प्रारंभ ।

दोहा–स्वरसकलकअरुकाथकहि, हिम अरुफाँटबखान।
ए कषाय पांचो कहत, डर उतरद लघुजान॥१॥
तिनमेंस्वरसजोकल्कना, कहिय ग्रन्थनिरधार।
सुन्दर औषधि ल्यायके, कूटै ताहि सुधार ॥२॥
वसन मांझ ताको धरै, रसको लेय निचोय ।
ताको स्वर्स जो कहतहैं, तेहि जाने सबकोय ॥३॥
चार पल सब चूर्णको, दूने जलमें मोइ ।
रातदिवस भीजत रहै, सुरस निचोरै सोइ ॥
तीती औषधि ना मिली, तौ सूखी लैलेव ।
नीर अठगुनो ताससों, तामें भीजे देव ॥
इक हिस्सा जल जब रहै, तब काढै वह सोय ।
बाँटि निचोवै वसनमें, यह जानो सब कोय ॥
वह गरुओ रस होतहै, पैसाभर नित खाय ।
अग्नि उधे रस होय जो, ताहि टंकभरि प्याय॥
मधु मिश्री जीग सुगन, जवाखार घी तेल ।
चूरण आदि जो और है, यक छदाम भरिमेल ॥

गुडमेंजीको सुरस करि, मधुके संग जो खाय ॥
सर्व प्रमेहनको हरै, अथवा हरद मिलाय ॥
अरिल-धात्रीफल को स्वरस, मूषा मिलाय के ॥
हरै सर्व प्रमेह, प्रात उठि खाय जो ॥
रूसेको कर स्वरस, महूषहि मिलायके ॥
रक्तपित्त ज्वर काश, छर्द्दि दै ठेल ॥
दोहा-कावर कफ अरु पित्तका, यही स्वरस सुखमूर ।
त्रिफला स्वरस महूषसँग, खातहि कावर दूर ॥
दारूहरदीको स्वरस, मधुके सँग पीजाय ।
नीमसुरसमधुसाथकहि, पियतहि कावर जाय ॥
गुरमें सुरस महूष सँग, खाते कावर दूर ।
तुलसीदलको सुरस ले, मिरचै मिलवै पूर ॥
आम जामुने आंवरे, इनके पात मँगाय ।
तिनको सुरस बनायके, क्रमते इन्हैं मिलाय ॥
कै मधु मिश्री दूध घृत, इनके संगे डार ।
महारक्त अतिसारको, क्रमते देवै टार ॥
सोनातर अथवा कुशै, बकला कौर सुकाढ़ ।
मधुयुत चाटै सुरस यह, अतीसारको दाढ़ ॥
आदो सुरस महूषसँग, वृषण वात कर दूर ।
श्वास कास प्रतिसा अरुचि, इन रोगनको मूर ॥
करै बिजौरेकी सुरस, सेंधा नमक मिलाय ।

जवाखार सँग डारिके, इतने रोग नशाय ॥
हृदय तरेट रु पासरी, इन शूलन करि दूर ।
अरु कोठाकी वायुको यही सजीवनमूर ॥
स्वरस सतावरको करे, तामें मधुको डारि ।
पियतहि गुण यह करतहै, पित्त शूलको मारि ॥
सुरस गुवारके पाठको, मधुके संगे खाय ।
रोग पिलीहाको हरै, अरु फोरान ढहाय ॥
गोरखमुंडीको स्वरस, मिरच संग जो खाय ।
आधाशीशी सूर्य व्रत, यासों तुरत नशाय ॥
ब्राह्मी वच शंखाहुली, और कुम्हेडो मान ।
इनको सुरस बनायके, जुदा जुदा करि जान ॥
तिनमें मधु अरु कूटको, दीजे तुरत मिलाय ।
हरै सर्व उन्मादको, यहै सुरस सुखदाय ॥
जहगगेडवा ल्यायके, ताको सुरस निकार ।
पीर निवारन डारही, हाली घाव मँझार ॥

अथ पुटपाक ।

छन्द ।

जिनवस्तुनकोपुटकपाककहैतिहिऔषधिकूटिसुधार यहै
बटजामुनपातकुम्हेरमँगाइहै धरैतिनमें फिर सूतकेतागहै
सोरठा–तापै कनक लगााय, दो अंगुर माटी लगै ॥
अरनै कंडा ल्याय, अग्नि लगा तामें धरै ॥

दोहा–माटी अँगारसम धहक्के, तब पुटपाक निकार ।
टंकभरो रस काढिके, एक करष मधु डार ॥
कलक घीव चूर्णादिको, और सुरस सम डार ।
करौ अतरछत ल्यायके, बाँटे तंदुल वार ॥
चारि टंकभरि डारिकै, जामुनपात मँझार ।
माटी कनक लपेटकर, अग्नि मध्य दे डार ॥
सिद्ध होय पुटपाक जब, सारिस मधुजुत खाय ।
उपजे सरबश दोषतैं, अतीसार मिटजाय ॥
तन्दुल बाँटे टंकभरि, नीर अठगुनो लेय ।
भेय बनावे सुरसको, सरब करममें देय ॥
सोनातरुकी छालको, कर पुटपाक बनाय ।
मेलि महूषसो मोचरस, आतीसारमें खाय ॥

अथ क्काथविधि ।

दोहा–औषधि एके टंकभरि, षोडश भर सो नीर ।
माटी भाजनमें धरो, आँच दीजिये धीर ॥
अठवां भाग रहे जबै, तब उतार वहि देय ।
तनक कुनकुना रह जबै, आठ करषभरि देय ॥
अन्त कषाई क्काथके, अरु निर्जूह सो नाम ।
होय अन्नपरिपाक जब, तब रोगीके काम ॥
दूध घीव अरु तेल कहि, चूरण कल्क विचार ।
पतरी गौके मूत्रमें, एक करष भरि डार ॥

गुड़में धनामें नीम कहि, अरु पदमाख बताय ।
चन्दन लाल मिलायके, इनकर क्क थ बनाय ॥
सर्व ज्वरनहर दीपनै, अरु पाचन सो बताय ।
कह्यो वैद्यमणियन यहै, रोगिनहेतु बुझाय ॥
सोरठा–गुड़में पीपरमूर, सोंठि मिलै काढ़ौ करै ।
वातज्वरहि कर दूर, पाचन सातैं दिवसपर ॥

अथ छर्दिदवा ।

दोहा–लै सालौन करेरुवा, गुरच गुलीशर मेल ।
इनको काढ़ो कीजिये, वात ज्वरहि दे ठेल ॥
लै कुम्हेर अरु दाखको, और गुलीशर डार ।
ब्राहिमान जुत क्काथ कहि, गुड ऊपरते डार ॥
तौ वातज्वर नाशही, और कास मिटिजाय ।
तृष्णादाह मिटावही, यह गुण दियो बताय ॥
वटका कायफर इन्द्रजव, नीममूल कुटकीर ।
मोथा ज्वरकर क्काथ करि, पित्तज्वर हर धीर ॥
दाख हर्र मोथा मिले, अमलतासको लेय ।
पित्तपापड़ा लीजिये, कुटकी और कहेय ॥
पित्तज्वर और प्यासको, और मूरछा दाह ।
पित्त और लोहू मिटै, कहौ दस्तकर ताह ॥

अथ बिजौरादि ।

दोहा–जड़ बिजौरकी लीजिये, हर्रे सोंठको लेय ।
डारि पीपरामूलको, काढ़ौ करिके देय ॥

जवाखारजुत दीजिये, कफज्वर नाशै सोय।
यह पाचन दीजै तबै जब सातों दिन होय॥

अथ भूनिंबादि।

दोहा—लै चिरायतो नीम अरु, पीपरि और कचूर।
गुड़में और सतावरी, बड़ी कटाई पूर॥
यासों कफ नाशै तुरत, अरु ज्वर नहीं रहाय।
कास श्वास नाशै तुरत, यह गुण दियो बताय॥

अथ पटोलादि क्काथ।

दोहा—परवर त्रिफला लीजिये, कुटकी और कचूर।
इसो गुड़में क्वाथ करि, मुधुजुत कफ करिदूर॥

अथ पञ्चभद्र।

सोरठा—पित्तपापरो लेय, मोथा गुड़में सोंठ कहि।
अरु चिरायतो देय, पञ्चभद्र काढ़ो कहत॥
यासों वातपित्तज्वरै, नाशै कहत सुजान।
देहपीर तिरषा हरै, दाह मिटावै मान॥

अथ लघुद्राक्ष।

दोहा—दाख सोंठ गुरमें करा, पुहकरमूल प्रकाश।
इनको काढ़ौ कीजिये, वातकफज्वर नाश॥
अरु त्रिदोष यासों मिटै, यही कहत मतिधीर।
कास श्वास बढता मिटै, आर पँसुरियापीर॥

अमलतास मोथा मिले, कुटकी पीपरमूर ॥
हरैं सहित काढ़ौ करै, वातकफज्वर दूर ॥

अथ अमलवस्या ।

दोहा-गुड़में कुटकी नीम कहि, मोथा परवर सोंठ ।
दोनों चन्दन इन्द्रजव, इनके काढो ओंठ ॥
पीपरिचूरन डारिके, पित्त कफज्वर दूर ।
यह अमृताष्टक क्वाथको, नाम कहत सुखमूर ॥
सोरठा-दोय कटाई लेय, सोंठ धना देवदारु कहि ।
इनको काढो देय, सर्वज्वरन पाचन करत ॥

अथ दशमूलादि ।

दोहा-लै सालौन थिथौन अरु, दोय कटाई लेय ।
ईलीबेलसों गुरखरू, और चमेली देय ॥
सोना सहित कुम्हैरको, कीजे क्वाथ सम्हार ।
नाम कहत दशमूल सब, पीपरचूरण डार ॥
वात कफज्वरको हरे, सन्निपात करे दूर ॥
श्रम प्रसूतके दोषको, हरि सुखको सुखमूर ॥

छंद-पाधडी ।

हरैं रु सोंठ पदमाखल्याय, गुड़में वशीर कुटकी मिलाय
मोथा सोइन्द्रजवअमिलतास, रूसौसालौनचन्दन काश
दोहा-पाढ सहित काढ़ौ करो, पीपरचूरण डार ॥
सन्निपात ज्वर दाहको, कास श्वास को टार ॥

आलस उबकाई अरुचि, शोक प्रलाप विनाश ।
दीपन पाचन कहत हैं, यह निरजूह प्रकाश ॥
विष्ठा मूत जो रुक रहै, रुकी जो वायु अपान ।
ताको काढै तुरतही, मुनिजन कही बखान ॥

अथ दशमूलादि हृदयरोग पर ।

दोहा–कहि चिरायतो इन्द्रजव, अरु कुटकी मोथार ।
धना सोंठ गजपीपरी, अरु दशमूल विचार ॥
काढ़ो इनको कीजिये, हरै पँसुरिया पीर ।
सन्निपात ज्वर नाशही, कास श्वास हर धीर ॥
हिचकी तन्द्रा नहिं रहै, करै छर्दिकहँ दूर ।
हिरदै रोग यासों मिटै, कहौ सजीवनमूर ॥
सोरठा–बाँट कायफर लेय, मेथा भारंगी धना ॥
पित्तपापरो देय, रोहिस बच देवदारु कहि ॥
दोहा–हरैं सोंठ अरु कंकरा, अंगीसरस सु आन ।
इनको काढो कीजिये, कास श्वास कर हान ॥
श्वास मिटै बहु कफ कटै, कंठरोग मिटिजाय ।
इतने रोगनको हरै, वैद्यक यही बताय ॥

अथ कंठफलादि ।

दोहा–गुडमें को काढो करै, पीपरि चूरन डार ।
जीरनज्वर नाशै तुरत, यह मुनि कही विचार ॥
पित्तपापरो ल्यायके, काढौ करै बनाय ।

पीपरचूर्ण डारिके, पित्तज्वर न रहाय
अलप कटाई आनिकै, गुड़में सोंठ मिलाय ॥
पीपर पिपरामूलके, इनको चूरण खाय ॥
श्वास कास पीनस अरुचि, कंठरोग अरु शूल ।
करहि अजीरनज्वरहिको, यह काढौ निरमूल ।

नगोपाहि जीर्णज्वर

छन्द–पाधडी

बडी कटाई सोंठ लाल चन्दन कहौ॥
गुड़में धना सो नीम और परवर लहौ ॥
रूसौ पुहुकरमूल इन्द्रजव दीजिये ॥
भारंगी पदमाख सो मोथा दीजिये ॥
दोहा–कुटकी और चिरायतो, पित्तपापरो लेय ।
शीतज्वर सब जानिकै इनको काढौ देय ॥

अथ मुस्तादि

सोरठा–मोथा गुड़में जान सोंठ कटाई आंवरे ॥
पीपर मधुमें सान, काढो विषमज्वर हरे ॥

अथ कुष्टादि विषमज्वर पर

सोरठा–गुड़में मोथा लेय, चन्दन धना वशीर कहि ॥
सोंठ कटाई देय, अमरो जुत काढौ करौ॥
पीपर मधुको सान, काढौ सरस पिवाइये ॥
करे विषमज्वर हान, मुस्तादिक जानौ सरस ॥

अथ गुडूच्यादि तृतीयज्वरपर ।

सोरठा–गुड़में मोथा लेय, चन्दन धना उशीर कहि ॥
सोंठ डार कहि देय, काढो इनको कीजिये ॥
दोहा–मधु मिश्री जुत पीजिये, करै तिजारी दूर ।
तृष्णा दाह मिटावही, यहै क्काथ सुखमूर ॥

अथ देवदारु चातुर्थिकज्वरपर ।

दोहा–देवदारु हरैं कहा, अरु सालौन मिलाय ।
सोंठ अडूसो आंवरे, इनके क्काथ बनाय ॥
मधु मिश्रीजुत पीजिये, चातुर्थिक ज्वर दूर ।
श्वास कास मंदाग्निजुत, यह जानौ सुखमूर ॥

अथ भूनिंबादि रक्तपित्तज्वरपर ।

दोहा–लै चिरायतो इन्द्रजव, मोथा और मिलाय ।
शीतल काढो होय जब, मधुजुत देय पियाय ॥
रक्तपित्तको ज्वर हरै, अतीसार दै टार ।
मुनिग्रन्थन अवरेखकै, यह काढो निरधार ॥

अथ धान्यादि आमवातपर ।

दोहा–धना सोंठको क्काथ कारि, दीपन पाचन जान ।
अंड ज्वरहिके क्काथ सँग, आमवातकी हान ॥

अथ कुटजादि अतीसारपर ।

दोहा–कुरौ नेत्रवारो कहौ, मोथा बेल अतीश ।
इनको काढ़ो कीजिये, रोगनको तज ईश ॥

आम सहित अतिसार को,करै तुरत निरमूल ।
या तुम निश्चय जानिये, खोजि मिटावै शूल ॥

अथ कुटजाष्टक अतीसार पर ।

अरिल्ल-कुरौ धाइके फूल पुनि लोधहु कह्यौ ॥
माजूफल रु अतीस पाढ़ दारौ कह्यौ ॥
इनको क्वाथ महूष मोचरसजुत पियो ॥
रक्तशूल अतिसार दाह दूरो कियो ॥
माजूफर जुलजोर पाठ गुरमैं कही ॥
कुरौ धाइकै फूल लोध मोथा सही ॥
सोंठ बेल अरु धना अतीस मँगायकै ॥
अतीसार मिटजाय क्वाथ यह पायकै ॥

अथ लोहूहरादि ।

दोहा-अरुचि श्वास अरु शूलको, अरु लोहूको मान ।
ज्वर पाचन अरु क्वाथको,जानों परमसुजान ॥

गज पीपलादि ।

दोहा-फूल धाइके फूल अरु, चखवारो अरु लोध ।
गजपीपरिको ल्यायकै, काढ़ो कर यह शोध ॥
शीतल करि मधु डारिके, बालकको यह जोग ।
अथवा अवलेह्यी करै, शिरके मेटत रोग ॥

लवन्यादि ।

दोहा-शुभ सालौन गरेरुवा, बेल धान अरु सोंठ ।
शूल वातजुत क्वाथ करि, अरधमानको खोढ़ ॥

चातुर्जातभद्रक ।

आरिल्ल-गुड़में सोंठ अतीस सो मोथा लीजिये ॥
ग्रहनी आमपै मेलि शूलपै दीजिये ॥
ग्रहनीको यह क्वाथ देइहै मारिकै ॥
दीपन पाचन करै कही निरधारिकै ॥

धनापञ्चक ।

चौपाई ।

धना सोंठ आँवरे अरु बेल । मोथा वच चारों लै मेल॥
आँवशूलको काढ़ौ जान।ग्रहनी पाचन दीपन मान ॥
दोहा-परवर जैंती जौधना, इनको क्वाथ बनाय ।
मधु मिश्री जुत पीजिये, इतने रोग नशाय ॥
रक्तपित्त क्षय कास अरु, श्वासको करिहै दूर ।
उपजो ज्वर कफपित्तते, ताहि मिटावै सूर ॥
आरिल्ल-केवल ह्रूसौ क्वाथ करै अरु गुर सूही ॥
ह्रूसौ और कटाई फेर गुड़में कही ॥
मधुसँग पीजे तुरत हरै ज्वर काशको ॥
पीपर चूरण मिलै हरै पुनि श्वासको ॥

दोहा–कुरथी सोंठ कटाइको, कीजै क्वाथ बनाय ।
मधु सोंचर चूरण मिलै, श्वास कास मिटि जाय ॥
काढ़ौ पीपर रेनुका, ऊपर हींग मिलाय ।
उपजी जौन त्रिदोषते, सो उबकाई जाय ॥
पित्तपापरा क्वाथ सों, मिटै पित्त उबकाय ।
क्वाथ करै दशमूलको, ऊपर इन्हैं मिलाय ॥
पुसकरमूल कचूर अरु, डारे हींग मिलाय ।
हरै गृध्रसी रोगको, दीन्हों ग्रन्थ बताय ॥
क्वाथ जो शालूपातको, करै ग्रन्थ निरधार ।
बाई सुरही देवदारु गुड़में सोंठ सोडार ॥
और अंडकी जड़ मिलै, करै क्वाथ निरधार ।
सात धातमें वात जो, ताको देव निकार ॥

रास्नादिपंचक ।

दोहा–बाई सुरहि रु अंड जड़, पथरसगा देवदार ।
गुडमें किरवारो मिलै, और गोखरू डार ॥
सोरठा–और सतावर डार, लावै और गरेरुवा ॥
इनको क्वाथ सुधार, इतनी चीजन सों पियै ॥
दोहा–पीपर चूरणसों पियै, अथवा सोंठि मिलाय ।
जोगराजगूगुर कि पुनि, अभयादि गूगुरपाय ॥
अथवा अज गूगुर मिलै, कै अजमोद मिलाय ।
कै अंडीके तेलसों, इतने रोग नशाय ।

छप्पय-अंगकंप सब मिटै, कूबरो मिटै सो वासो ॥
पक्षाघात सो मिटै, और बाहुकको नासो ॥
अश्लीपद मिटिजाय, और अपतानक जीको ॥
और गृध्रसी रोग, आमवातहिको नीको ॥
अंत्रवृद्धि यासों मिटै, अरु अफरा नाशै सही ॥
प्रबल जंघपीरा मिटै, यह विचार ब्रह्मा कही ॥
दोहा-हरै वीर्जके दोष सब, लिंगरोग सब दूर ।
उपजे वंध्याजोनिमें, तिन रोगनको दूर ।
ब्रह्माने या क्वाथको, कह्यो गर्भके जोग ॥
याके पीवत नरनके, नाशैं इतने रोग ।

अथ एरंडसप्तक ।

दोहा-अंड बिजौरा गोखुरू, दोय कटाई आन ।
इनकी जड़ सो लीजिये, ए दो बेल बखान ॥
अंडतेल अरु हींगको, जवाखारको डार ।
लिंगगन्ध अस्थानको, हरै पीरको टार ॥
दोहा-सोंठ अंडजड़ क्वाथकरि, पिवै इन्द्रजव नाय ।
सोंचर हींग मिलायके, वायुशूल मिटि जाय ॥
सोरठा-दशमूलीमँगवाय, इनको क्वाथजोकीजिये ॥
जवाखारजुत खाय, सेन्धानमक मिलायके ॥

अथ हरीतक्यादिक्काथ ।

दोहा-हृदयरोग अरु गुल्मको, शूलकास अरु श्वास ।
यहि काढ़ेके पियतही, इतने रोगन नास ॥

हर्र कटाई गोखुरू, अरु किरवारो आन ॥
इनको काढ़ो कीजिये, मिले भेद पाषान ॥
मधुजुत पीजै सात दिन, करै कबुजको दूर ॥
मूत्रकृच्छ्र अरु दाहको, यही सजीवनमूर ॥

अथ वीरतर्वादिकाथ ।

दोहा–बेलपिया बासा तृतिय, दोई कुशकी आन ।
आझाझरौ अरु गोखुरू, लवगुलाबकी जान ॥
कमलगटा अरु गोदरा, कास उर्सीर बखान ।
गुड़में इरनी रहुरी, सोनातरु पुन जान ॥
ब्रह्मीजुत ये लीजिये, सबको क्वाथ बनाय ।
डारि शर्करा पीजिये, इतने रोग नशाय ॥
मूत्रघात अरु अश्मरी, सबै वायुके रोग ।
इनके पियत नसावहीं, कहैं सयाने लोग ॥

अथ एलादि काथ ।

दोहा–लीजे छोटी लायची, जाठोरूसे पान ।
पीपर अण्ड सो रेनुका, कहो भेद पाषान ॥
शिलाजीत अरु शरफरा, क्वाथ पिये इनसंग ।
मूत्रकृच्छ्र नाशै तुरत, पथरीको कर भंग ॥

अथ गोक्षुरआदि काथ ।

दोहा–पांच अंग लै गोखुरू, मधु अरु सिता मिलाय ।
मूत्रकृच्छ्र अरु लपटको, हरै क्वाथ सुखदाय ॥

त्रिफला दारूहरद ले, मोथो सरस मिलाय ।
मधु सँग पीजे क्काथ यह, सर्व प्रमेह नशाय ॥

अथ दार्वादि क्काथ ।

सोरठा-दारूहरद मिलाय, मोथा भेला बेल कहि ॥
और रसोत मिलाय, रसवत डारि चिरायतौ ॥
इनको क्काथ बनाय, मधुसँग पीवे चतुर नर ॥
शूल प्रदर घटिजाय, कहौ क्काथ निरधारके ॥

अथ न्यग्रोधादि क्काथ ।

चौपाई ।

वट पाकरकी बोटी लीजै। अमलनेत पीपर तनु लीजै॥
तामें जाठौ लोध मवाल । ऊपर पारस पीपर डाल ॥
तेंदू आम जामुनै दोई । महुआ काहो भेला सोई ॥
कैथ आँवरे बेल मँगाय।सर्व एकत्र कारि क्काथ बनाय ॥
दोहा-जानि दोष अरु घावपै, मेदा दाह प्रमेह ।
ग्राही जानो क्काथकारि, विष, खायेके देह ॥
सोरठा-बेल कुम्हेर मँगाय, इरनी सोना पाठ कहि ॥
मधु युत क्काथ पियाय, मेदा दोषनको हरै ॥

अथ बेस्पादपंचन ।

दोहा-त्रिफला क्काथ महूष सँग, मेदा दोष नशाय ।
चाव चितावर सोंठिले, देवदारके ल्याय ॥
कै निसोत कै मूत्र गो, इन सँग काढ़ौ पीय ।

उदररोग नाशै तुरत, अरु सुख पावै जीय ॥
पथरसगा गूँदमें कही, दारुहरद लै सोंठ ।
अरु हर्रैको डारिकै, करिये काढो ओट ॥
कै गूगुर गोमूत्रको, इनकै सँग जो खाय ।
सोथ उदरके रोग सब, तिनको देय नशाय ॥
हरवा रस दहोलन मिलै, कीजै क्वाथ सुजान ।
जवाखार पीपर सहित, पीजै क्वाथ प्रमान ॥
यकृत रु पिलिहाको हरै, करै गुलमको दूर ।
हाथ पाँव अरु उदरकै, शोथ नशै सुखमूर ॥
त्रिफलाको काढो करै, गऊ मूत्रजुत खाय ।
वात पित्त हित वृषनमें, सो सब शोथ नशाय ॥
वाई सुरही अरु गोखुरू, गुडमें जाठौ मेलि ।
डारै और गरेरुवा, क्वाथ करै इमि खेलि ॥
अंडतेल सँग पीजिये, अंत्र वृद्धि कर दूर ।
यह मुनि कही विचार करि, यह काढौ सबमूर ॥
छाल लेय कचनारकी, ताको क्वाथ बनाय ।
बनकै मधुसँग पीजिये, गण्डमाल मिटिजाय ॥
साखोटककी छालको, गऊ मूत्रमें खाय ।
मेदा दोषनको हरै, श्लीपदहू मिटि जाय ॥
पथरसगाको लीजिये, अरू वनौकी छाल ।
पीवत काढौके मिटै, पेट खना ततकाल ॥

पिवै क्काथ कारि सहिजनौं, सेंधो हींग मिलाय।
अपकखता जे पेटमें, ते जासों बहि जाय ॥

अथ वरुणादिकाथ।

छन्द।

बनौं छाल मँगाय, मूल गुलाबसों लीजे ॥
अझाझारो बेल, करकराशृंगी दीजे ॥
दोई इरनी आनि, दुई सहँजने मँगावे ॥
मोथा और वशीर, बालछड़ इमली ल्यावे ॥
मुलहटीचितावरआनिकै,लहिचिरायतोइमकही॥
करै क्काथ सु त प्रसंगसब, इतैरोग नाशै सही ॥
दोहा-कफमेदा अरु गुल्मको, अरु शिरशूल पिलास।
पेटखता पियतहि मिटै, कह्यो क्काथ परकाश॥
खैरसार त्रिफला सहित,कीजै क्काथ बनाय।
वायविडँग घृत भैंसको, पियत भगंदर जाय ॥
सोरठा-परवर त्रिफला नीब, खैर बिजौर चिरायतो ॥
गूगरजुत यह पीव, तुरतहि हरै किरंग सब ॥
दोहा-गुडमें हूसौ अंड जड, इनको क्काथ बनाय।
अंडीतेल मिलायके, वातरक्त मिटजाय ॥
सोरठा-त्रिफला कुटकी आन, गुडमें और सतावरी ॥
इनको क्काथ सुजान, वातरक्त नाशै तुरत ॥
दोहा-धायफूल बकुची कही, खैर वशीर बखान।
क्काथ पिये संयम करे, चित्रकोढ़की हान ॥

लै मँजीठ दारूहरद, गुड़में नीम मँगाय ॥
त्रिफला कुटकी वच सहित, इनको क्वाथ बनाय॥
सोरठा–वात रक्त अरु खाज, अरु कपालके कोढको ॥
और जो कोढसमाज, माँडल रक्त नाशै तुरत॥

अथ लघुमंजिष्ठादिक्वाथ ।

छप्पय–कहिं मजीठ अरु कूठ, सोंठि भारंगी लीजै ॥
परवर त्रिफला पाठ, त्रायमानहिको दीजै ॥
मोथा कंजा कुरो नीब, हरदी विधि आनौ ॥
बीजौ वायविडङ्ग, इन्द्रजव रूसो सानौ ॥
पीपर कुटकी मुरहठी, देवदारु बनौं कहौ ॥
चन्दनचिरायतो गूगुरा, अमलतासवकुचीलहौ॥
दोहा--साखोटक वा सूरजड़, लै अँकोल त्वचदेव।
पिपरा बाला गुर्च आतीस, और इदोरन लेव ॥
सोरठा–सुरस सतावर लेय, हरन सोत अरु चितावरी ।
और बकाइन देय, मिलै जवासो क्वाथ करि ॥
पीपर गूगर डार, हरै अठारह कोढ़को ॥
वातरक्त दे टार, अर्दित रोग फिरंग सब ॥
दोहा--अश्लीपदको नाशही, निसन्देह यह जान ।
और सुन्नबहरी मिटै, यह मुनि कहिय बखान ॥
पक्षाघातहिको हरै, मेदा दोष सो दूर ।
नेत्ररोग सब नाशही, कह्यो क्वाथ यह मूर ॥

अथ पथ्यादिकाथ।

दोहा–हर्र बहेरा नीम कहि, और धायके फूल।
गुड़में हरदी डारिये, लै चिरायतो मूल॥
गुडसँग पीवै क्वाथको, करै रोग नर दूर।
मोथा घोंघा शंख विय, डार कानमें चूर॥
सोरठा–कानरोग सब टार, आधाशीशी सूर्य्य व्रत॥
दन्त रोग दे मार, हरै मोतियाबिन्दको॥
और रतौंधी जाय, पीर बीजं अरु नेत्रकी॥
हरै क्वाथ सुखदाय, संयम करि जो पीयही॥

अथ वासादिक्वाथ।

छन्द-पाधडी।

गुड़सेर चितौमोथामँगाय। रूसौजोसोंठिपरवरबताय॥
पुनिदारुहरदलीजैसुदेश। चन्दनजोरक्तआनहुसुवेश॥
इंद्रजवहिसरसलीजे मँगाय। बालासोनेत्रतामेंबताय॥
भूनिंबं निंब गूगुर समेत। लै कुड़ाछाल डारै सुशेत॥
दोहा–त्रिफला कुटकी लीजिये, अरु चिरायतो लाय।
मिलै चितावर क्वाथ करि, इनते रोग नशाय॥
खखिरैबो जो कंठको, पनिश चक्खके रोग।
अरु छाती भीतर फटी, और श्वासपर योग॥
गुड़मे त्रिफला क्वाथ करि, महिपुर पीपर लाय।
भये नेत्रके रोग सब, पियतहि देय नशाय॥

अथ पटोलादि क्काथ ।

दोहा—पीपर उरमत वैत बट, क्काथ जो पाकर अंग ।
घावशोथ धोवत मिटै, नाशहिं सबहिं फिरंग ॥
परवर चौराई लालजड़, इनको क्काथ बनाय ।
ऊपर हरदी आँवरे, डार पिये सुखदाय ॥

छन्द ।

शुभऔषधिकूटटकाभरलेय, टकावसुनीरमझारसोदेय ।
रहेतबहोयटकाभर नीर, पियै लव शीतलहोयसोनीर ॥
दोहा—लीजे मोथा इन्द्रजव, इनकी प्रथ्या कीन ।
शीतल मधु सँग पीजिये, रक्तपित्त करे छीन ॥

अथ यवागूविधि ।

दोहा--औषधि चार टकाभर, चौंसठ भरि सो नीर ।
अर्ध रात्रिके भातसँग, खाय यवागू धीर ॥
आम जामुनी सहित जो, करे यवागू सोय ।
पीवत गुरु नीको हरे, कही ग्रन्थ मत जोय ॥

अथ यूषविधि ।

औषधि एक टकाभरे, चौंसठ भर सो नीर ।
पीजै आधो रात्रिको, भोजन करे सो धीर ॥

अथ सुजथा ।

दोहा-कहि वशीर पितपापरा, मोथा सोंठ उशीर ।
अरु चन्दनको डारिकै, हरै तृषा गम्भीर ॥

अथ उष्णोदक।

छन्द–पल भर औषधि लेय, और षोड़श भर पानी॥
के चौथा के अर्ध, रहै काढेसम जानी॥
ऐसो कर जो पियै, रोग इतनेको नाशै॥
कफ मेदा अरु मांस, बस्ति शोधनहिं प्रकाशै॥
पाचन दीपनजानिकै, कास श्वास ज्वरपै लह्यो॥
पियै रात नित नेमयुत, यह विचार पंडित कह्यो॥
दोहा–बहुत पियै जो नर कहूं, अन्न पचत नहिं भार।
अग्नि बढ़ावन पीजिये, थोड़ो बारंबार॥

अथ यवागू–खिचडी।

लै चावल अरु मूंगको, सित असेत शुभ भाष।
करौ अठगुने नीरमें, ताहि यवागू भाष॥
याहीसों खिचड़ी कहत, ग्राही बल की दैन।
तृप्त करै वातहि हरै, यह संक्षेप सुखैन॥

अथ क्षीरपाकविधि।

दूध अठगुनो द्रव्यते, लेय चौगुनो नीर।
जलसों छानकै पीजियै, आमशूल पै क्षीर॥

अथ विलेपीविधि।

सोरठा–लेय चौगुनो नीर, तामे याहि पकायकै॥
गाढि करे मातधीर, कहत विलपी ताहिको॥

दोहा-तृप्त करै सुठि हृदयके, रोग मिटै हर पीर ।
अति स्वादिल जासों कहत, करे पित्तको दूर ॥

अथ पेया (वर्क) विधि ।

दोहा-मांड़ बहुत तंदुलनको, चौदह गुन लै वारि ।
तामें यहै पचाइये, सो पीवे निरधारि ॥
गाढ़ी होवै जूषसे, हलकी बहुत बखान ।
धातुपुष्टि अति करतहै, अरु ग्राही यह जान॥

अथ भातकी विधि ।

दोहा-तंदुल टंकसो चारभर, सोरह भर सो वारि ।
तामें याहि पकायकै, माँड दीजिये डारि ॥
चौदह गुनी सो नीर लै, तंदुल माँहि पकाय ।
माँड छानिकै पीजिये, सैंधौ सोंठि मिलाय ॥

अथ शोधन दीपन पाचन ।

दोहा-डारै याही मांड़में, इतनी औषधि आन ।
धना त्रिकुटा सैंधा सहित, और यूषको जान ॥
फेर हींग अरु तेलसों, याको लेय बघार ।
करै अठगुनो या सही, कही मुनिन निरधार ॥
दीपन शोधन वशनको, रुधिर बढावै अंग ।
ज्वर नाशै ततकालही, करै दोष सब भंग ॥

अथ मण्डविधि ।

दोहा–चावल कूटै भूँजकै, काढे माँड़ सुजान ।
रक्तपित्त कफपित्त हर, ओछा कंठ बखान ॥
चावल घीसे भूँजिके, चुरै करै जो माँड़ ।
सैंधो सोंठि मिलायिके, इतने रोगन भाँड़ ॥
नाशे कफ अरु पित्तको, तृषा और ज्वर दूर ।
याके इतने गुन कहे, अरु ग्राही सुख सूर ॥

अथ फांटविधि ।

दोहा–ओषधि एक टकाभर, आठ टका भर नीर ।
माटीके भाजन विषे, डारि कुडव भर नीर ॥
चारि टका भर जब रहे, लीजे तबै उतार ।
पीजे दोयसो टंक भर, ताहि फांट निरधार ॥
बुधमिश्री गुड़ डारिकै, पीजै और विचार ।
विधिसों कीजै जतन सब, याहि विलेपीसार ॥

अथ मधुपुष्पादिफाण्टविधि ।

सोरठा–महुओंके लै फूल, जाठौ चन्दन लोधकहि ॥
पंकजको फल फूल, रूसौ त्रिफला दाखकहि ॥
दोहा–खीलै केसर नाग लै, और कुम्हेर विचार ।
तातो पानी होय जब, शहद गुलीशर डार ॥
इनको फांट बनायकै, मधु मिश्री युत खाय ।
वात पित्त ज्वर मूरछा, दाह प्यास मिटिजाय ॥

रक्तपित्त भ्रम अरुचिको, अरु उन्मादहि जान ।
इनको पियत नशावहीं, यह मुनि कही बखान ॥
दोहा-पात जामनै आमके, वरके पाते ल्याय ।
डारै और उशीरको, मधुयुत फांट पियाय ॥
प्यास छर्दि ज्वरको हरै, अतीसार कर दूर ।
मिटै मूरछा अति बढ़ी, यह जानौ सुख मूर ॥

मन्थविधि ।

दोहा-मंथ फांटके भेदको, ताते करत बखान ।
चार टकाभर नीर लै, औषधि टंक प्रमान ॥
बाँटि छानि कर लीजिये, माटी भाजन आन ।
तामें मथिये मंथ सो, दोइ टकाभर खान ॥

अथ खर्जूरादि मन्थ ।

दोहा-औषध सबही हेतुके, यहै समुझिके भाख ।
कह्यौ छुहारौ फालसो, तिंतरीक अरु दाख ॥
इनको मंथ बनायकै, पीजै प्रात सुजान ।
हरै सरब उनमादको, ग्रन्थन कहो प्रमान ॥

अथ मसूरादि मन्थ ।

दोहा-मोथा सतुवा मँथ मसुर, कोरस अनारको दान ।
उबकाई जु त्रिदोषकी, ताको पीवत हान ॥
सतुवा जौको लीजिये, यह विधि पीजे मूर ।

अथ हिमविधि ।

दोहा–औषधि एकै टंक भर, नीर षटगुनो लेय ।
कूट भलीविधि औषधैं भिजो रातिको देय ॥
फांट प्रमानै प्रातही, छाजे परम सुजान ।
तासों हिम सब कहतहैं, यह जानो परिमान ॥

अथ तालीसादि चूर्ण ।

सोरठा--पत्रतालीसकोआन, सोंठिमिरचपीपरिसहित ॥
बँशलोचनको जान, क्रमते एक एक भाग कहि ॥
दोहा -इलायचि तज लै कर्षभर, औरहु खाँड़ बनीश ।
दीपन पाचन चूर्ण यह, कास श्वास नहिं दीश ॥
अतीसार ज्वर बिंदकहि, ग्रहणी पांडु नशाय ।
अरधमान नाशै तुरत, अरु पीजिये सो जाय ॥

अथ सितोपलादि ।

चौपाई ।

सोलहभागमिश्रीकोआन । बंशलोचनआधोसोजान ॥
पीपरि एक टकाभरि देय । पैसा भरि इलाचिहु लेय ॥
एक कर्ष तजहूको लाय । सब एकत्र करि चूर्ण बनाय ॥
साम सबेरे नियमसे खाय । श्वास छई अरु पित्त नशाय ॥
दोहा--हाथ पांवको दाह अरु, मन्दाग्निहु मिटिजाय ।
शोषरोगको नाश हो, अरु ज्वर नहीं रहाय ॥

ऊपर रक्त चूबौ मिटै, अरू पशुरिया शूल ।
इस चूरणके खातही, रोग होय निरमूल ॥

अथ पंचनिम्बचूर्ण ।

दोहा--पांच अंग लै नीमके, पन्द्रह पलभरि डार ।
लोहासार भिलाव मिरच, बकुची हर्र विचार ॥
पुनि मिश्री अरु गोखरू, अरु पँवार सोआन ।
बायबिडँग चित्रक हरै, औषधि नइ सब जान॥
दो दो पल सब बाँटिके, चूर्ण करै सो देश ।
घमिराको रस काढ़िके, देय भावना बेश ॥
खैर धुर्वके क्वाथकी, भावना दे सो बेश ।
के ऊपरते क्वाथ यह, पीजै सरस सुदेश ॥
और दूध या घीवमें, पीजै मास प्रमान ।
हरै अठारह कोढको, अरु सब रोगन हान ॥

अथ पुष्करमूल चूर्ण हृदयरोगपर ।

दोहा--चूरण पुष्कर मूलको, सहत संग खा प्रात ।
श्वास कास दारुण महा, हृदय रोग कहिजात॥

अथ यवक्षारादिचूर्ण उदररोगपर ।

दोहा--जवाखार अरु कूट बच, चित्रक जीरे लेउ
अजमोदा दात्यूनि लै, हींग चास पुनि देउ ॥
तीन नोन सज्जी बहुरि, पाढ सोंठि पिसवाय ।
ताते जल सँग खाइये, उदर रोग सब जाय ॥

अथ गोक्षुरादिक्काथ मूत्रकृच्छ्रपर ।

दोहा–क्काथ जु गोखरु बीजको, जवाखार युत लेय ।
मूत्रकृच्छ्र अति जोर है, ताहि दूर कारि देय ॥

अथ दूसरी दवा ।

दोहा–शिलाजीत पीपरि बहुरि, और भेद पाखान ।
लेय लायची सब समहि, चूरण कीजे छान ॥
चूरण चावल नीरसों, ताको देय पिवाय ।
मूत्रकृच्छ्रकी पीर सब, या औषधते जाय ॥

अथ तीसरी दवा ।

बासा अरु एरण्ड लै, अरु इलायची आनि ॥
प्रात पिये दधिसंग तौ, मूत्र कृच्छ्रकी हानि ॥

अथ इन्द्रियविरेचन ।

कवित्त ।

दालचीनी लायची कवाबचीनी मासे छह, सोरा और जीरे दश मासे केसर लीजिये । रैबचिनी चोखी सोह मासे पुनि आठ धुनी, सबको मँगाय सीता चूरण शुभ कीजिये ॥ करिके दो भाग गायदूध पाव सेर संग, दोदिन प्रभात बड़े नेम कारि पीजिये । प्यास लगे दूधमें मिलाय नीर तिगुणो सो पीजिये, याहि विधि इन्द्रिय जुलाब कारि दीजिये ॥

अथ रक्तपित्तहरयोग ।

दोहा—आम रु जामुन लीजिये, कौहा छाल मिलाय ।
मधुयुत इनको पीजिये, रक्तपित्त मिटिजाय ॥

अथ मरिचादियोग छर्दिरोगपर ।

दोहा—मिरच रु नील कमल फल, कठऊमरके पान ।
जाठौसहितसोहिमकरै, प्यास छर्दिकी हान ॥

अथ नीलोत्पलादिहिम ।

दोहा—नील कमल फल लीजिय, अरु गरेरुवा दाख ।
महुवाफूल उसीर कहि, जाठौ अरु पदमाख ॥
ले कुंभेर अरु फालसो, इनको हिम सो पिवाय ।
वातपित्त भ्रम छर्दियुत, प्यास रु दाह नशाय ॥

अथ गुडहिम—वासाहिम ।

दोहा—गुड़मेको हिम पीजियै, जीर्णज्वर न रहाय ।
रूसेकी हिम कासपै, रक्तपित्तज्वर जाय ॥

अथ १ धान्यहिम ।

दोहा—करै धनाहिम सरिस यह, मिश्रीयुत जो खाय ।
अन्तर दाह रु प्यास हर, मुखहु शुद्ध ह्वैजाय ॥

अथ २ धान्यहिम ।

छन्द—धना आंवरे दाख अरूसो लीजिये ॥
पित्तपापरे सहित सो हिम कर पीजिये ॥
रक्तपित्त अरु दाहको, प्यास सहित कर दूर ॥

रक्तपित्त ज्वर दाह प्यास सब नाशही ॥
सवा रहै न भ्रम देह सुखसे भाषही ॥

अथ पिप्पलीकल्क।

दोहा–तीनिहु औषध बांटिकै, रसको लेय निचोर।
बाँटि नीरमें लीजियै, जो कहुँ सुखी निखोर॥
एक कर्षभरि पीजिये, कहो कल्क परमान।
घी रु तेल मधु यहु कहौ, दूनो गरी सुजान॥
मिश्री गुड़ सब डारिये, पतरी और अनेक।
तिन्हैं चौगुनी डारिये, यह सब कहत विवेक॥
तीन पीपरै पांचकी, सात पीपरै लेय।
क्रमते वासर वीस लौं, बांटि घोटि कर देय॥
अरिल्ल–पांडु रोग अरु वातरक्त, मिटे कास ही॥
श्वास अरु ज्वर उदर, अर्श छह नाशही॥
कफ अरु वात न रहै, उर ग्राही टरै॥
कहो पीपरो कल्क, रोग इतनो हरै॥

अथ निम्बकल्क।

दोहा--नीमपातके कल्कको, करै घावपर लेप।
शोधै भरै तुरंतहा, यह गुण कारि संक्षेप॥
अरु पीजै जो कल्क यह, छर्दि कोढ़ अरु पित्त।
कफ पीड़ा पीवत मिटै, अरु सुख पावे चित्त॥

अथ महानिम्बकल्क ।

दोहा-कलक बकायनको पिवै, नसै गृध्रसी रोग ।
भृगरू तिलके कल्कको, करै तेल जुत भोग ॥
बड़े वातके रोगको, विषमज्वरहु को जान ।
इतको तुरत नशावही, यह जानो परमान ॥

अथ लशुंनकल्क ।

दोहा-लहशुन पोटी चीरकै, अंकुर लीजे छीन ।
गन्ध नशावन तक्रमें, साधै वासर तीन ॥
करै कल्क फिर बांटिकै, चूरण यहि विधि लाय।
सेंधौ जीरो लीजिये, सब सम कारि डरवाय ॥
एक कर्षभर कल्कको, पीजे सरस विचार ।
रोग विनाशक याहिको, औषध समुझि विचार ॥
दोष अग्निबल प्रकृतिको, मन समुझे पुनि देय ।
क्काथ अंडकी जड़हिको, पीओ उमरते लेय ॥
सबै अंगके वात अरु, एक अंगके वात
अर्दितअपतन्त्रकव्यथा, अपस्मार मिटिजात ॥
हरै सर्व उन्मादको, मूत्रकृच्छ्र मिटि जाय ।
और गृध्रसी रोगपै, याही कल्क बताय ॥
छाती पशुली पीरको, कोख देहभर पीर ।
कीरा उपजैं पेटमें, मिटैं सबै मति धीर ॥

जो यह कल्कहिको पियै, और बहुत नहिंखाय।
अरु बैठे नहिं घाममें, क्रोधहिको नहिं लाय ॥
पानी बहुत न पीजिये, नहीं दूध गुड खाय।
मदिरा मांस खटाइ पुनि, इनको नित डठिखाय॥

शूलनाशक योग।

दोहा--पीपारि भेला लीजिये, और पीपरामूर।
मधुयुत पीजै कल्क यह, छाती पीरा दूर ॥
विष्णुक्रान्ता कल्क कारि, मधु मिश्री युतखाय।
होय शूल परमान सब, आमवात मिटि जाय ॥

अथ रक्तार्श(खूनीबवाशीर)की दवा।

दोहा--बीज अधझरा लेइके, तन्दुल जलमें खाय।
निश्चै यह तुम जानलो, रक्तअर्श मिटिजाय ॥

अथ दूसरी दवा।

सोरठा--बेरी जडको ल्याय, ताको कल्क बनाइजे ॥
तिनको कल्क बनाय, दुइइकठौरहु कीजिये ॥
दोहा--दूध भैंससो मिलायकै, पीजै परम सुजान।
रक्तबवेशी नाशही, अतीसारको हान ॥

अथ अतिसारकी दवा।

दोहा--चावल धोवन लीजिये, जड बिजौरकी शान।
मधु रसौत युत पीजिये, अतीसार मिटि जान ॥

लै जड बाँझ ककोंटकी, पाठ बेलकी कोय ।
घिरत सहित पीवहि सही, विष थिर नाशै सोय ॥

अथ त्रिदोषहरकल्क ।

दोहा--हरैं पीपरि सोंठि कहि, औरहु सेंधा नोन ।
इनको कलक त्रिदोषको, पीवत घटवे जौन ॥

अथ दीपन पाचन कल्क ।

दोहा--लीजे हरैं सोंठिको, सैंधा नोन मिलाय ।
कहत सबै या कल्कको, दीपन पाचन आय ॥

अथ कृमिरोगकी दवा ।

दोहा--बीज लेव पालाशको, अरु निशोतको आन ।
खुरासान अजवायनै, और कबीला जान ॥
वायविडँग गुड सहितसो, कल्क मठामें सान ।
पीवत कीरा सब नशैं, यह जानो बुधिमान ॥

अथ रक्तार्शहरकल्क ।

चौपाई ।

लीजै तिह्लको कल्क बनाय। रक्तअरशपीवतमिटिजाय
नैनू मिश्री केशर नाग । इनको एक एक बड़भाग ॥

अथ संग्रहणीहर योग।

दोहा-लीजै नीर मसूरको, सोंठि बेलको सान ।
सग्रहणी यह कल्कसों, पीवत मिटै सुजान ॥

सरस मठाको लीजिये, और कटाई डार ॥
पियत कल्क याको मिटै, संग्रहणी निरधार ॥

अथ चूर्ण बनानेकी विधि।

दोहा--अति सूखी लै औषधी, बाँटि करै बारीक।
छानि बसनमें लीजिये, सो चूरण कहि नीक ॥
चूरणमें गुड सम कह्यो, कै पुनि मिश्री डार।
हींग भूँज घी आदि दै, पतरी दुगुण विचार ॥
पीवै कै संयोगको, जेहि विधि कह्यो जो होय।
ताहि चौगुनो लीजिये, कहत सयाने लोय ॥
चूरण गुटिका कल्कको, अर्क अवलेहहि जान।
खाय पित्तके कोपमें, मात्रा दुगुन प्रमान ॥
वातकोप उपजै जबै, तिगुनी मात्रा खाय।
कोप होय कफको तबै, मात्रा कही बनाय ॥
जैसे बन्दा बेलको, कै लता जलको मान।
अनोपानके योगते, ऐसो औषध जान ॥

अथ भावनाका अर्थ।

दोहा--भीजै जितने नीरमें, चूरण परम सुजान।
ताहि कहत सब भावना, यह जानो परमान ॥

अथ त्रिफलादिचूर्ण।

सोरठा--एक हरैको आन, दोय बहेरे लीजिये ॥
तीन आँवरे जान, इनको त्रिफला नाम है ॥

दोहा--ये चूरणको खाय जो, हरै देह सब रोग।
शोथ विषमज्वर नाशही, दीपन पाचन योग ॥
पित्तकोप कफकोप हरै, और दशा इन जान।
घीव सहित सो पीजिये, नेत्र रोगको हान ॥

अथ परूषकादि चूर्ण।

दोहा--लेय फालसो हींग पुनि, सेंधो हीरकशीस।
शिलाजीत गूगुरु सहित, हरिया थोथा पीस ॥
ये चूरणको खाय तौ, कफ पथरी अरु शूल।
मूत्रकृच्छ्र अरु शरकरा, करै तुरत निरमूल ॥
कफको गुल्म मिटै सबै, यह जानो सबकोय।
या चूरणको गुण कह्यो, मेदा शुद्ध सो होय ॥

अथ त्र्यूषणादि।

दोहा-सोंठि मिरच पीपरि मिलै, ताहि त्रिऊषण नाव।
या चूरणके गुण कहो, आगे, पुनि परभाव ॥
यह चूरण दीपन करत, मेदाकोढ़ जितेक।
कफ पीनसको हरत है, जानौं सहित विवेक ॥
होत आँव पुनि अरुचि जो, और सर्व परमेह।
गुल्म उदरके रोग सब, छोडैं निस्संदेह ॥

अथ पञ्चकोलचूर्ण।

दोहा-पीपरि चबहु चितावरी, सोंठि पीपरामूर।
यह चूरण गुण करतहै, दीपन पाचन पूर ॥

उदररोग आनाह ज्वर, गुल्म रु प्लीहा शूल।
बहुत दिननकी होय जो, करे ताहि निरमूल॥

अथ जीर्णज्वरहरचूर्ण।

दोहा-तज पत्रज रु इलायची, इन्हैं कहत त्रिसुगन्ध।
चतुर जात पुनि कहत तब, जब केसर संबन्ध॥
हल्के हैं अरु गरम हैं, पित्त करत भरपूर।
दीप्ति बढ़ावत देहमें, विष कफ को करैं दूर॥

अथ अष्टवर्गचूर्ण।

दोहा-दोऊ मेदा लीजिये, दो काकोली आन।
जीवक ऋषभक लीजिये, ऋद्धि वृद्धिको जान॥
इनको चूरण कीजिये, अष्टवर्ग है नाव।
जीवन गनके सम कहो, याको सर्व प्रभाव॥

पञ्चलवणचूर्ण।

दोहा-सेंधौ सोंचर बिडनोन, साम्हर समुद्र सो फेन।
ऐसे ए सब नमक जो, डारि समुझिके एन॥
मधुर पांच ए नोन जे, मूत्रहि मलहि निकार।
रूषा चिकना जानिये, बलको कहो विचार॥
तीक्षण गर्म सो कहत सब, जानो परमसुजान।
कफ अरु पित्त बढ़ावही, यह गुण कहों बखान॥

अथ क्षारचूर्ण ।

सोरठा-जवाखारको मान, सज्जी दोनों क्षार ये ।
आगमसे जो जान, और क्षारके गुण कहत ॥
दोहा--ग्रहणी अर्श नशावही, करै गुल्मको दूर ।
परस्वरथ अरु शर्करा, पथरी नाशै मूर ॥
पीडा नाशै पेटकी, अरु पाचन ये चार ।
और दस्तको करत हैं, यह जानो निरधार ॥

अथ त्रिफलादिचूर्ण ।

दोहा--मधुयुत चूरण खाय जो, त्रिफला पीपरि आन ।
कास श्वासहूको हरै,और छर्दि मिटि जान ॥
ज्वर अरु शूल मिटावही, करे वात निरमूल ।
कण्ठ रोगको अति भलो, हरै देहको शूल ॥

अथ कट्फलादिचूर्ण ।

दोहा--बाँटि कायफर लीजिये, मोथा पुष्करमूर ।
कुटकी शृंगी कर्करा, लीजे और कचूर ॥
कै अद्रखके रस सहित, या मधुजुत जो खाय ।
कास श्वासको सुठि हरै, उबकाई मिटिजाय ॥
कफ अरु शूलहिको हरै, वात अरुचि करे दूर ।
यह चूरण नर खाय जो, सुख पावै भरपूर ॥

अथ शृंग्यादिचूर्ण ।

दोहा-लीजे शृङ्गी करकरा, पीपरि और अतीस ।
मधु सँग बालक छर्दिहर, कासश्वास पर दीस ॥
चूरण खाय अतीसको, मधु सँग यह गुण जान ।
इरनी सेंधो पीपरी, अरुसौ सो कहि आन ॥
कर्ष भरी मोताद है, फिर चूरण करि खाय ।
विषमज्वर अरु पित्तज्वर, पचवे कास मिटाय ॥

अथ आँवअतिसारपर चूर्ण ।

चौपाई ।

सोंठि अतीस हिंगुको जान । मोथा कुरौ चितावरआन ॥
तात जलसों चूरण खाय । इतने रोगन हरै बनाय ॥
दोहा-आंव सहित अतिसारको, यह चूरण करे दूर ॥
अरु ग्राहीभी कहत हैं, अग्नि बढ़ै भरपूर ॥

अथ गंगाधरचूर्ण ।

सोरठा--मोथा बेल सोतूल, लोध इन्द्रयव मोचरस ॥
और धायके फूल, मट्ठा सँग जो पीवही ॥
दोहा-अतीसारको यह हरै, करे प्रवाहक दूर ।
गंगाधर या चूर्णको, नाम कहत सुखपूर ॥

अथ शुण्ठ्यादिगुटिकाबादी बवाशीरपर ।

दोहा-सोंठि निबोली लहशुनहु, गूगुल हिंगु समान ।
कूटि छानिके खरल कर, गोली मटर प्रमान ॥

एक शाम एक भोरही, जल सँग गोली खाय।
अस्सी शूल रु अरशको, तुरतहि देय मिटाय॥

अथ अतीसारहरगुटिका ।

दोहा–मोथा पीपारि मोचरस, लोध धायके फूल ।
बेलहुके गूदा सहित, अरु अफीम कर तूल ॥
दवा बराबर लीजिये, तोला तोला जान ।
आधा तोला अफीम कहँ, खरलै एक मिलान ॥
गुड़सँग गोली खावही, अतिसार ग्रहणीजाय ।
अरुचि नाशिहै तुरतही, भगत दियो सो बताय॥
बेलपत्र सेंधा जीरा, और खटाई आम ।
जलसँग पीसि जो पीवही, अतीसार आराम ॥

अथ दूसरा योग ।

दोहा–मोथा सोमा मोचरस, सोंठि लोधको आन ।
फूल धावके इन्द्रयव, जब ह्सौ पाठ बखान ॥
बेलसो गुठुली आमकी, चषवारो सो अतीस ।
लजवन्तीहु मिलायके, सब चूरणको पीस ॥
महुयाँ तन्दुल लोधमें, येहु तन्दुलको खाय ।
अतीसार ग्रहणी मिटे, अरु प्रवाहिका जाय ॥

अथ मरिचादिचूर्णउदरव्याधिपर ।

दोहा–चूरण मिरचनको करे, मठा संग जो खाय ।
अथवा डारि चिरायतौ, सोंचर और मिलाय ॥

ग्रहणी मन्दाग्नी मिटे, औरहु प्लीहा जाय।
उदररोग अरशहि अरू, खातहि देय मिटाय ॥

अथ कपित्थाष्टकचूर्ण।

चौपाई।

आठभागकैथाकोआनौ। मिश्रीके छह भाग बखानौ ॥
तंतडीकअजमोदबखानौ। बेल रु धवकेफूल सो जानौ॥
लेय पीपरी और अनार। तीन तीन ये भाग विचार ॥
दोहा-मिरचै अजवायन धना, जीरा पिपरामूर ॥
चातुरजात चितावरौ, सोंचर लोनहु पूर ॥
इनको इक इक भागले, चूरण करे बनाय।
कंठरोग अतिसार क्षै, ग्रहणी गुल्म नशाय ॥

अथ दाडिमादिचूर्ण कासश्वासपर।

सोरठा-दोय टकाभर आन,बकला सरस अनारको ॥
षोढ़ टकादश जान, पलभर जान त्रिभंगको ॥
त्रिकुटा तीनप्रमान,चूर्ण ग्रहणी अरुचिको ॥
कास श्वास ज्वर हान,दीपन कंठहिको भलो ॥

अथ लवंगादिचूर्ण।

छन्द।

लौंग सो भीमसेन कपूर,एला वशीर तज सोंठिपूर ॥
चन्दनसोजायफलतगरआन,कंकोलीस्याहजीराबखान

दोहा--कारो गूगुल पीपरी, बंशलोचनहिं डार ।
जटामास अरु कमलफूल,केसर नाग विचार ॥
चखवारो सो लीजिये, चूरण करै बनाय ॥
राजयक्ष्मा पीनसहु, ग्रहणी गुल्म नशाय ॥
कंठ हृदयके रोग सब, हिचकी कास मिटाय ।
क्षुद्रतमक अरु धीहँ अरु, श्वास प्रमेह नशाय॥
हरै तीनहूँ दोषको, अतीसार करै दूर ।
धातु पुष्टिक रति बल करे, अग्नि बढ़े भरपूर ॥

अथ जातीफलादिचूर्ण कासश्वास पर ।

दोहा--लेय जायफल आँवले, मिरचै वायविडंग ।
सोंठि चीता शृङ्गीकरकरा, वंश लोचनहुँ संग ॥
लौंग हर्र जीरो बहुरि, चातुर शात कपूर ।
बेल तगर चन्दन सहित,सब सम सम सुखपूर॥
सबको चूरण कीजिये, खांड समान मिलाय ।
एक कर्ष भरि सामको, एक सबेरे खाय ॥
कासश्वास कफ वातक्षय,ग्रहणी अरुचि नशाय ।
सरदीको जल्दी हरै, यह गुण दियो बताय ॥

अथ महावडवानलचूर्ण ।

दोहा--मिरच रु केशर नाग कहि, पांचों नोन बखान ।
अरु तालीस समेत सब, इक इक भाग सुजान॥
पिपरामूर चितावरी, तज अरु जीरो डार ।

तिंतिडीक पीपर कना, दूनो भाग विचार ॥
अमलवेत लाची बड़ी, मोथा धना मिलाय ।
बेरमिगी अजमोद कही, तिगुनो भाग बताय ॥
चौथा भाग अनारके, बकला डारै वेश ।
सबते आधी मिश्रीले, चूरण करे सुदेश ॥
हृदय कंठ मुख पेटको, रोग हरै निरमूल ।
कास श्वास अफरा मिटै, अर्श गुल्म अरु शूल ॥
पीडा उबकाई मिटै, अतीसार सब जाय ।
अग्नि बढै रुचिको करै, जो यह चूरण खाय ॥

अथ महाचित्रकादिचूर्ण अनेकरोगोंपर ।

दोहा–सरस चितावर लीजिये, त्रिफला चव्य बखान ।
हपुषा वच अजवायनहु, पुष्करमूल सुजान ॥
लोन पाँच अरु क्षार छह, धना पीपरामूर ।
सौंफ व्योष असगन्ध कहि, वायविडंग कचूर ॥
सोरठा–जीरा कूट बखान, अजमोदा जीरा बड़ा ॥
इन सबको समजान, लेप इँदोरन भाग दो ॥
दोहा–ताते तिगुन निसोत कहि, तीन भाग दातौन ।
जाको कोठा चीकनो, ता कहँ पाचन जौन ॥
चातुर्थ अर्कको लीजिये, कारि चूरण सुप्रमान ।
पांडुरोग हियरोग सब, कास श्वासको हान ॥

चौपाई ।

इस्त करे ज्वर कोढ मिटाई।संग्रहणी रु भगन्दर जाई ॥
और करे गलगण्ड सो दूर । अनोपान सो दीजे मूर ॥

अनुपानवर्णन ।

दोहा–अफरा उपजै पेटमें, मदिरा सँग सो खाय ।
देय बेरके क्काथ सों, तासों गुल्म नशाय ॥
पवनरोग मल मूत्रमें, वाय पछारे संग ।
तप्त नीरसों पीजिये, करै अजीरण भंग ॥
वायुरोग परिपक्व तब, धात्रीफलसों खाय ।
उदररोगि गोमूत्रमें, उँटनी क्षीर मिलाय ॥
वायुरोगमें खाय नर, सुरभी पयके संग ।
दाडिमरस वच जोगसों, करै अरशको भंग ॥
शिरपीडापर घिरत युत, ये हैं चूर्णके योग ।
दुष्टरोग सब इमि नशैं, भानुतिमिर जिमियोग ॥

अथ हपुषादि चूर्ण ।

दोहा--हपुषा त्रिफला नीलवच, पीर पेटकी आन ।
त्रायमान थोहर कही, चोषनिसोत बखान ॥
लौन पांचोंसो डारिये, चूर्ण करै जो बनाय ।
उष्ण नीर सेवै सही, गोमूत्रहिसों खाय ॥
कै त्रिफलाके क्काथमें, कै अनार रस संग ।
केशर लीजै मुशकको, करै रोग सब भंग ॥

सोरठा–गुल्म पिलीहा जाय, मन्दाग्नी सूजन मिटै ॥
अरश सँग्रहणी नशाय, पांडुरोग कांवरसहित ॥
दोहा–उदररोग अफरा मिटै, कोढ़ हलीमक जाय ।
या चूरणके खातही, सुख भारी सो पाय ॥

अथ उदररोगहरचूर्ण ।

दोहा--सोंचर सोंठि निसोत कहि, हरैं पीपर ल्याय ।
इनको चूरण कीजिये, इतने रोग नशाय ॥
अफरा सूजन अर्श कहि, उदररोग मिटिजाय ।
आमवातको हरत है, यह चूरण सुखदाय ॥

अथ पञ्चसम चूर्ण ।

सोरठा--पीपर करष प्रमान, लेय निसोत टकाभरी ॥
खांड टकाभरि जान, मधुसँग चूरण खाइये ॥
दोहा–बंधकोष्ठ अफरा मिटै, उदररोग अरु शूल ।
यह चूरण कफपित्तको, करै तुरत निरमूल ॥

अथ नाराचचूर्ण ।

दोहा–तीन लोन दो क्षारको, दो सौंफै ले आन ।
असगँध अजमोदा कही, हपुषा हिंगु बरवान ॥
दो जीरा गजपीपरिहु, और पीपरामूर ।
सोंठि हींगुपत्री अरु, बवची और कचूर ॥
भारंगी अजवायन, मिरचै वायविडंग ।
कुशतुरुम्बु अरु लायची, अमलतासके संग ॥

देवदारु दातौन कहि, पुषकरमूल अनार ।
पाठ इँदोरन हर्र कहि, तिंतिडीक ले डार ॥
बेर निसोत चितावरी, और सतावर लेय ।
चूरण करिके भावना, अद्रख रसकी देय ॥
सोरठा--रस बिजौरको ल्याय, ताकी दीजे भावना ॥
फिर घी संयुत खाय, कै मदिरा बहुदिननके ॥
कै तातो करि नीर, बेरक्काथके तक्रको ॥
तातो करिले छीर, कै दधि पानीसँग पिये ॥
दोहा-यकृतपिलीहाशूल करि, अफरागुल्म नशाय ।
गुदाकर्ष अरुची अरु, हृदयरोग सब जाय ॥

अथ चित्रकादिचूर्ण ।

सोरठा--सरसचितावर जौन, त्रिफलापुष्करमूलकहि ॥
अरु निसोत दातौन, सबके सम सेंधो लही ॥
दोहा-थूहरदूधमें भावना, दे पुटि पाक बनाय ।
यकृत पिलीहागुल्म पुनि, पांडुरोग मिटिजाय ॥
उदररोग आनाह मिटि, हर हमेश जो खाय ।
सर्व बवेशीको हरे, उदर अग्नि बढिजाय ॥

अथ क्षुधावर्द्धकगुटिका ।

दोहा-त्रिफला कालानोन अरु, पत्ती लेव सनाय ।
सबहि बराबर कूटिके, नींबूरस मिलवाय ॥

डारि खर्लमें खर्ल करि, गोलि सुपारि समान ।
शामको गोली खाय जो, लागै भूख बिहान ॥

अथ अग्निसन्दीपनचूर्ण ।

दोहा–सेंधो सोंचर चितावर, पीपरि पिपरामूर ।
सोंठि हर्र सबते अधिक, अग्नि बढै भरपूर ॥

अथ अजमोदादिचूर्ण ।

सोरठा–अजवायन रु अनार, खटेबेर पुनि सोंठिकहि ।
तिंतिडीक लै डार चार चार शाणन भरि ॥

दोहा–मिरचैं शाण अढाइ भरि, पीपर दशभरि लेय ।
सोंचर जीरो अरु धना, शाण दशक भरि देय ॥
सोंठि शाणजो खांड कहि, चूरण करो बनाय ।
राजयक्ष्माग्रहणी अरुचि, हृदयरोगमिटि जाय ॥
मन्दाग्नि अरु अर्श मिटि, जीभ गरके रोग ।
उबकाई आनाह ज्वर, अतिसारहु पै योग ॥

इति श्रीमुन्शी भगवानप्रसादके शिष्य भगत भगवानदास
विरचित वैद्यक रसराजमहोदधिभाषाके पांचवें
भागका चौथा खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥

हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान :

खेमराज श्रीकृष्णदास
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,
७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर,
मुंबई - ४०० ००४.
दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६.

खेमराज श्रीकृष्णदास
६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट,
पुणे - ४११ ०१३.
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५,

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,
लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग,
जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक,
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१.
दूरभाष · ०२५१-२२०९०६१.

खेमराज श्रीकृष्णदास
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१.
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८.

खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई